

(तवद्य) युक्तायुक्तविधारचन्तुरयश्चोदीकताग्रान्तरे मच्चापरपरायकेषुविविजितलोघेषुचरन्तान्तिपु ।
 फार्यणमविचार्यपथ्यनचनन्नाजनुणामोषिषु तद्वज्रोमृतषण्डसूरियुमहदप्राप्तेपुराजहस्वयम् ॥ ३ ॥
 आशीद्राजपुराधिपमञ्चतिन्नसूषे सुसन्मानितो, त्रिभु श्रीनगराजतद्यत्तयज्ञाविद्यावतामग्रुषो ।
 तच्छिष्योरपुनायउत्कटमति सत्यप्रतिष्ठ कावि स्तच्छिष्योरामपन्द्रःप्रथमननुच सटकीतिविद्यावर ॥ ४ ॥
 तच्छिष्येणहिनानक-धन्नेणामरगिरारुक्तोनुवादोयम् । अगमद्वययष्टादुर पनपतिखहायशास्पृत्तिम् ॥ ५ ॥
 इतिश्रीमदुपाध्यायपरात्मचन्द्रगणि गिय नानकचन्द्रविरचिते मद्यापना षतुर्थोपाङ्गानुवादे षट् त्रिंशत्तम पद समाप्तम् ॥

३६

मुद्रासहस्रकिरणै र्ग्रन्थानुपलब्धितिमिरसहारी ।
 पुस्तककमलविकासी द्युनिशजैनप्रभाकरोजयतु ॥



परममङ्गलप्रदं शास्त्रस्य शिष्यप्रशिक्ष्यादिवशागतत्वेना व्यथिच्छित्तं त्रैया दित्यन्तमङ्गलत्वेनोपसहारथ्याजत आह-निच्छिन्नेत्यादि ॥ निस्तीर्णं सर्वदु-
 खं ये स्ते तथा सकलसासारिकदुःखपारगता इत्यर्थं कुत इत्याह जातिजराभरणवधनविमुक्ता जातिदुःखजराच मरणञ्च वयनानिच ज्ञानावरणी-
 यादीनि कर्माणि तै र्धर्ममुक्ता अत्रहेतौ प्रथमा यतो जातिजराभरणवधनविमुक्ता स्वतो निस्तीर्णसर्वदुःखा स्ते इत्यङ्गता परमस्वार्थ्यारूपं श्रायत-
 श्रद्धावि अथावाच व्याबाधारहित रागादयोर्द्विनतद्वापितु स्मर्भावप्रधो नच तेषा सन्तीत्यनन्तरमेव जावित सुखं प्राप्ता अतएव सुखिनं सन्त-
 स्त्रिष्टन्ति । नमतनयमङ्गलकलित प्रमाणवहुलविशुद्धसद्बोध । जिनवचनमन्वसीर्यैक कुमतेनिरासैकदुलैलित ॥ जयतिहरिजद्रसूरि ष्टीकाहद्विवृतविपम-
 ज्ञावार्थं । यद्वधनवशादहमपि जातोलेखेनविचूर्तकर ॥ कृत्वाप्रज्ञापनाटीजा पुण्ययदवापमलगिरिरनच । तेनसमस्तोपिजनो लज्जताञ्जिनवच-
 नसद्बोध ॥ १ ॥ इतिश्री मलयगिरिविरचितया प्रज्ञापनाटीकाया पट्टात्रयतम पद समर्पितम् ॥ समर्पितवा प्रज्ञापनाटीका ॥ ग्रथाग्र १६०० ॥

पखवणाए जगवईए समुघायपदं बहीसत्तिम समत्त ॥ समत्ता पखवणा जगवई सुतं चउत्यमुवंगं ॥

श्रीवर्द्धमाननाथस्य गौतमप्रथमोजनि । गणचदृशचाचर्मा योवामूर्त्तव्यवस्थितः ॥ १ ॥
 ततश्चवहवोजाता आनूपूर्थासहपंय । क्षप्तिदृक्चरणा साक्षा क्रौञ्चैकहितकारिण ॥ २ ॥

मरवावाह चिद्वृत्ति सुज्ञो सहस्रमता । ते सिक्क वरकट्ट सख्यभूत्त शासता वधधा रक्षित पीडा ते रागद्वेष परान्भवनधो सखीखे सिप चत्तत सुखप्रति पा-
 स्या ह्ये । पखवणाए भगवद्वए समक्कयनाम पया सत्तत ॥ देहं ॥ इतिश्रीप्रज्ञापना चतय्यिष्टिद्विवाधो सम्पूर्णं ॥ ४ ॥
 श्रीपूज्याचार्यं भट्टारक लक्ष्मीचन्द्रसूरि । वल्लवराज्ये सवत् १८७६ वर्षे मिमो भाद्रपदशुक्ल वादय्या बुधे श्रीपूज्याचार्यं कन्यापसूरि तच्छिष्य महर्षिरायसं-
 हजी तं पूज्यमं खेतसीको तं मं देवीचन्द्रजो तं मं तेजसीजो तं मं मुकुटचन्द्रजो तं मं आनन्दचन्द्रजो । गिय पूज्यमहर्षिपं परमानन्दजी कृतं
 लिखितश्च इति ॥ ॥ ॥ ॥

रचामर्ष्यती वदनीदरादिविवराणामापूर्तित्वात्, दर्शनज्ञानोपयुक्ता जीवस्वामाध्यात् निष्ठितार्थो निरलसो बध्यमानकर्मोभावात्, निरेजना पङ्कजियानिमित्तविरहात् वितिमिरा कर्मतिमिरवाचनापगमात्, विशुद्धा खिविधत्वम्यदर्शनादिभागप्रतिपत्त्या श्रत्यन्तशुद्धीजुतत्वात् चेत्य श्रुता सन्नयथा स्तिष्ठन्ति ज्ञाद्यत यथाश्रवणैव सनागता प्राविनी श्रुता समयो यत्र सो नागताद् स काल यावत् श्रवैव मन्दमतिवियोगाया द्वेषपरिहारावाह-सेकेशेण जते इत्यादि ॥ सुगम नवर ॥ कर्मरूपानि वीजानि जन्मान कारणानि कर्मवीजानि तेषु दग्धेषु निर्मूलकापङ्कपितेषु पुनरपि जूयो जन्मान उत्पत्ति नंजवति कार्यासम्भवा दृश्य तान्येऽ कर्मोणि जूय कस्मा वा जवन्ति उच्यते-रागादीनाननाथात्, रागादीद्युष्यायु मन्वतीना कर्मणा कारण नषतेतेषा सन्ति प्रागेवुर्जीवमोहावस्थाया क्षीयत्यात् नच तेषि वीजा अपि जूय प्रादु

जहा नामए वीयाणं अग्निदहणं पुनरपि अक्षुरुष्यती न जवड एवामेव सिद्धाणवि कम्मवीएसु दहेसु पु
 णरवि जम्मुष्यती न जवड से तेणठेणं गोयमा ! एवं बुद्ध-तेणं तस्यं सिद्धा जवति अ्सरीरा जीवघणा
 दसणणाणोवउत्ता णिठियठा णीरया निरेयणा विसुद्धा सासयमणागयद्धं कालं चिठति ।

पुनरपि अक्षुरोत्पत्तिर्न भवति स्वमेव सिद्धानामपि कर्मवीजेषु दग्धेषु पुनरपि जन्मोत्पत्तिर्न भवति तत्तेनार्थेन गीतम् । एयमुच्यते-ते तत्र सिद्धा जवन्ति प्रक्षरीरा जीवपना दर्शनज्ञानोपयुक्ता निष्ठितार्थो निरलसो निरेजना वितिमिरा विशुद्धा शास्वतमनागताद्वा कालं तिष्ठन्ति यथा दसणणाणोवउत्ता । औदारिकादि रचित्वुर्जीव सर्वं प्रदेशे करो केवध दर्शन केवधज्ञान सञ्चित के स्वभावे । निष्ठितशु नीरया निरेया वितिमिरा निठाय के ससारकार्यं अर्थं नीरल नीरलनी पाध क्रिया निमित्तै ररहित करो । विषया सासयमणागयय काम चिठति । निर्मल के शास्वता के घन गतकाल वत्तमानकाल रहे के द्विवडा । गोयमा सेजहा षानए बोयाण अग्निदहणं पुनरपि । भीतम ते किम नामदटाते वीज अग्निक्षरी बल्या ववी पिण । प्रकुरप्यतीपभवति एवामेवसिद्धाण कम्मवीएसुदहेसु पुनरपि । अक्षुरा जपले नशी दरशीव धिषने कर्मरूप वीजने दव्यमएयां यका षेर

ज्ञात इत्युक्त्यान् तथा न त्यजति किन्तु सर्वं प्रकारैः परित्यजतीति उक्तञ्च-उरालिपाईयाई सखाई विष्णुजहन्नाईइ जं ज्ञापियं निस्सेष तद्वा
 न ज्ञा देवघ्राण सोपुष्टं ॥ परित्यज्य च तस्मिन्नेव समये कोऽवस्थाविमोक्षलक्षणसकारिसमुत्पन्नजावाविशेषा दरगुफनमिन्व जगधानपि कर्मसम्ब
 न्धविमोक्षलक्षणसकारिसमुत्पन्नजावाविशेषा दुष्टं लोकान्ते गच्छति सम्यस्य उक्तञ्च-एरडाइफलजह पयच्छेदेरियदुष्टजाति ॥ तदुक्तमयधणच्छे
 द्दण्डेरितोऽजातिसद्वेषि ॥ कथं गच्छत्यत आह- अविग्रहेण विग्रहस्या जावो विग्रह स्तेन सजेत समयेत स्पृशन् समयात्तरप्रदेशान्तरास्पृशनेनेत्य
 थं , ऋजुश्रेणि च्च प्रतिपत्त एतदुक्त म्भवति यावद्याकाशप्रदेशो विरगवाह स्तावन्तपत्र प्रदेशा नूदं नूदंश्रेण्या वगारमानो विवर्दिनाश्च समयादस्य
 त् समयात्तर सरस्पृशन् गत्वा तथाचोक्तमावश्यकचूर्णो-जति ए जीवो वगाढो तावदध्याए उगाध्याए उज्जग गच्छइ नव किचिदस्य च समय न पु

खेजाहि गुणसेढीहि श्युसखेजे कम्मखधे खत्रयति २ त्वा वेदी गजाउयनामगोए इच्छेते चत्तारि कम्मसे
 जुगव खत्रेड २ त्वा उरालियतेयाकम्माड सखाहि विष्णुजहन्नाहि विष्णुजहयड २ त्वा उज्जुसेढीपछिन्नन्ते
 शुफुसमाणगती एगसमएणं श्युविगहेणं उहु गत्वा सागारीवउत्ते सिज्जइ तेण तस्य सिद्धा भवति

ति ज्ञापयित्वादीकारिकतेन कामणानि सर्वे विप्रशने विप्रजहति विप्रजहस्य ऋजुश्रेणिप्रतिपत्तोऽस्पृशद्रव्या सकसमयेताविरहे गोद्वै गत्वा चा
 कारोपयोग्युक्त सिञ्चति युञ्चते, ते तत्र सिद्धा भवन्ति अगरीरा जीवचना दर्शनदानोपयुक्ता निदितायां नीरगसो निरेजना वितिमिरा
 ने, त यथा अनन्याती गुणश्रेणीकरी प्रसख्याताकर्म खद वत्तंते खपावतां यथा । वेदण्णिजाउयणामगोए इच्छेते चत्तारि कम्मस जगवयुवति २ ता
 वेदनी १ त्रायः २ नाम ३ गोव ४ ए आदि ५ कर्म ते युगपत् समञ्जाल खपावे खपावतेन । धरात्रियतेयकम्मगार सखाइ विष्णुजहन्नाइ । तित्वा
 रपच्छे भोऽ रिक्त तेचम कामीण एत्तथा सर्वता पूर्वता मेत्या प्रदेशेण छाडो । विष्णुजहन्ना च्चत्तुमेटोए प डउत्तणा । तिन सवले मनारे छाडोने किम जाय
 ते कहहै ऋजुश्रेणि पछियजे एरड फसपत् । अमुप्रनाणमतीए एगसमएणं चविमोक्षेण इच्छु गत्वा । अमुप्रमाणगति १ समय करी विग्रहगति रहित

ध्या-प्रमथास्थितौ श्लोका प्रदेशा द्वितीयस्या स्थितौ ततो ऽसस्येयगुणा स्तृतीयस्या ततो प्यसरयेगुणा एव तावदाव्य याव चरना स्थिति
 यता प्रथमसमयगृहीतदलिकनिर्वृतिता गुणश्रेण्य एव प्रतिवसमयगृहीतदातिर्कानन्दतिता कसत्रयस्य प्रत्येकस्परयेया दृष्ट्या , अन्तर्मुहत्तच
 मयाना मसप्यातत्वात् । आयुष स्थिति यथावद्देशावतिष्ठते साच गुणश्रेणिकक्रमदालकरचना स्थापनायय * अथव्य सर्वापि मनोयोगादिनिरोधो
 मन्दमत्तिसुखावयोधार्थं साधार्येण सुरदृष्ट्या प्रतिपादितो यदि पुन नूत्तदृष्ट्या तत्स्वरूपश्रेण्यमा प्रवति तदा पञ्चसङ्ग-टीका निम्नाहनीया ता-
 स्या मतिनिपुण स्वरूपेन तस्या जिघाना दिष्ट तच्च गन्धगीरवत्रया सास्मान्नि रतिज्ञित. ॥ सन्नमित्यादि ॥ यो विकृतकेवती खमिति पूर्ववत्
 यतेनान्तरोदितेना पायप्रकारेण शेष सुगम याऽ दयोगिता ॥ प्राप्नोति आयोगिता मास्मान्निमुखो जवतीति ज्ञायायं , आयोगिता ख
 प्राप्य अयोगिनाप्राप्सन्निमुखो नूत्या ॥ हंसिति ॥ श्लोक काल शैलेशी प्रतिपद्यन् इति स्वस्य , कियता कालेन विविदिष्टा मित्यत आह-इत्यपञ्चा
 क्षरोधारणाद्वया किमुक्त अत्रति नानिद्रुत नतिविलम्बित किन्तु मध्यमेन प्रकारेण यागता काले इज्जलनमदयेव रूपपाणि पञ्चाक्षराणि लक्ष्यायंते

रौह करेइ जोगनिरोह करेता व्यजोगत पाउणइ व्यजोगत पाउणित्ता ईसि हस्सपचस्करुच्चारणद्याए

यतेनापायंन प्रथम मनोयोग निरुह्य वाययोग निरुह्य निरुह्य निरुह्य निरुह्य योर्गनिरोध करोति योगनिरोध क
 स्वाऽयोगिता प्राप्नोति अयोगिता प्राप्यपत् पञ्चइस्वाक्षरोच्चारणाद्वयायानसस्येयगुणानधिकामान्तर्मुहत्तया शैलेशी प्रतिपद्यते , पूर्ववचित्तु

क धते अमख्यात समस्त काययोग रु धते इम श्रौवा काश्रयाग रु धे । खेण एतेव शोचण्य एतम मणचोग निरुमति मणवीग निरु भित्ता । तेष
 उपयोक्त्रो परिहृतां मनयोग नि रु धे । मणवीग , निरु भित्ता वरजाग निरुभात र त्त । मनवीग रु धोने वचन योग रु धे वचन योग रु धीने । का
 ययोग निरु भति र ता जीगनिराह करोति र ता । आययोग रु धे काययोग रु धोने रु ध करे यागनी निराधकरे रु धवी करीने । अजोगत पा
 उणति र ता इ सि । त्रयानी पयो पामवान साहसोयाये चवी पीग पणामीने शोखोसां काह । इत्त पचस्करुच्चारणद्याए । इ अवर इत्त उचारण

सस्य जपन्ययोगिन सरकस्य वाग्योगस्येति गम्यते ऽथलात् वाग्योग सस्येयगुणपरिहोन समये निरुचानो ऽसस्येयै समये साकल्येने ति गम्यते द्वितीय वाग्योग निरुण्टि आरुष प्रायकार -पञ्जतमिन्नविदिय ज्ञेयज्ञानयोगपञ्जासु ॥ तदस्यगुणविहीण समय २ निरुजतो ॥ सव्व ७७भोगरोर सवाइयाइकुण्डसमर्गह ॥ ततो वाग्योगनरयणमित्यादि ॥ ततो वाग्योगाटनकर षण प्राग्भूत् सूक्ष्मस्य पनरुजीवत्या पर्याप्तकस्य प्रथमसमयोत्पन्नस्येति भावार्थे , जपन्ययोगिन सर्वाण्यवीयस्य पनरुजीवस्य य काययोग सास्याचस्तात् असस्येयगगतीन काययोग समये समय निरुपन् असस्येयै समये समस्तसर्पति गम्यते, तृतीय काययोग निरुण्टि तच्च काययोग सूक्ष्मक्रियनप्रतिपातिध्यान सचिरोहति तस्यामर्प्याच्च धदनीटरादिधियरपूरणेन सजुचितदेहत्रिभागवत्तिप्रदेशी प्रवति तथाघाए न व्यजत् ततोयधुसपरागस्य पठनसमयोवयन्नस्य ॥ ७० तिरुजन्तजानो तदस्यरुजगुणहीकनेकैके ॥ समगनिरुजमाको देहतिज्ञागवमुचतो ॥ रुतइसकायजाग सख इंगास्यउसमर्गह ॥ काययोगनिरीध कावात्तर चरने अत्तमुद्रुतंवेदनीयादित्रयस्य प्रत्येक स्थितिसर्वापवतोनया ऽयवस्यो योम्यवस्थ्यासमान क्रियत गुणश्रेणिकनविरपितप्रदेशा ह्य

सुजमपणगजीवसस अ्यपञ्जत्तगसस जहन्मजागिस्स हेठा असखेज्जगुणपरिणीण तच्च कायजाग निरुजइ संण एण उवाएण पढम मणजाग निरुजइ २ ता वडजाग निरुजइ २ ता कायजाग निरुजइ २ ता जागनि

नोऽवस्तादसस्येयगुणपरिहीनप्रथम मनोयोग निरुण्टि । ततोन्तर च द्वीन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जपन्ययागिनोऽवस्तादसङ्केपुणपरिहीन द्वि तीय वाग्योग निरुण्टि । ततोन्तर सूक्ष्मपाकबीव्यापर्याप्तकस्य जपन्ययागिनो वस्तादसङ्केपुणपरिहीन तृतीय काययोग निरुण्टि । स पारशीण टास्य य जाग निरुभात असख्यातागुणहोन समय २ रुधता असन्ध्यात रनजकरा वचन या । रुध दूजो वचन योग रुधे । ततो अणत र नण गुडनस्य पणगजीवसस (नतो हीत्र तिवार पछो काययोग रुधता ते तिस म्छापनक जोव षिपप्यत्तगसस जहन्म जीगस्य ङिडा । प्रपया या प्रथम समय जवन्च योगो सर्वास्वर्वायं जा काययोग छे तेहसको । असखिज्जगुणपरिहीण तच्च कायजाग निरुभति । असखेवयोग हीन समय

• टीका •

• ७५५ •

• ३६ •

• भाषा •

मेयं पुष्पाति तपाच तद्वतो ग्रन्थ-विणिवित्तसमुपात्तुं तिविचित्रोन्मेषोपउज्जिता ॥ सचमसचाभीस चसोमणतहावडजोग । उरालकायजोग गम
 शाडपादिहारियाग । पधुप्यणकरंज्जाजोगनिरौरतलुरुस्ते ॥ किन्तसजोगीसक्कइ सबधहेउत्तिलजजोगीय । नसमेइपरमसुकु सनिजाराकारण
 परम ॥ ३ ॥ अतएवाए-सेण जते । तहा सजोगी सिक्कइ ॥ इत्यादि सुाम . योगनिरोधस्व कुर्वन् प्रथम मनोयोग निरुणहि तच्च पर्याप्तमात्रसज्जि
 पञ्चेन्द्रियस्य प्रथमसमये यावन्ति मनोद्रव्याणि यावन्मात्रस्य तच्चापार तस्मात्सख्येयगुणहीन मनोयोग प्रतिसमय निरुधानो ऽसख्येयं समये
 साकरणेन निरुणहि ऽकस्व-पञ्जसमेतखलि स्सज्जितियाइलजोगिस्स ॥ नै-तमजोइव्वाइ तद्यापारोपज्जसत्तो ॥ तदसलुगणविहीण समए समए
 निरुज्जमाणोसो ॥ सव्वनिरौए जो-तीकरेइ सखेज्जसमएए ॥ यतदाए-सेण जते इत्यादि ॥ सो चिकित्तकेवली योगनिरोध चिकीर्षेन् पूर्वमव सज्जित
 पर्याप्तस्य जघन्ययोगिन सत्तस्य मनोयोगस्येति गम्यते ऽपस्तात् असख्ययगुणपरिहीन समये २ निरुधानो सख्येयं समये साकरणेनति गम्यते,
 प्रथम मनोयोग निरुणहि ॥ तत्तोननरचणमित्यादि ॥ तस्मान्नोयोगानरुन्था दनत्तर स्व ज्ञाएो वाक्यं यमिति वाख्यालङ्कारे, द्वीन्द्रियस्य पर्या

तहा सजोगी सिज्जइ जाव अंतं करति ? गोयमा ! नो इणठे समठे । सेणं पुब्बमेव सन्निस्स पंचिंदि
 यस्स पज्जासयस्स जहन्तजोगिरस हिठा अुसखिज्जगुणपरिहीणं पढमं मणजोग निरुत्तइ तत्तो अुणंतरं

ष मदन । स योगी विच्यति बुच्यते-यावदस्त कुर्पात् ? गीतम । नायमर्थं समर्थं । स पूर्वमेव सज्जित पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य जघन्ययोगि

यतकरेनि । मधारां तृणादि त्रिहा वी याच्योक्ते त्रिहा पाक्का भावै त भगवन् स्वामी तिम सर्वाभो सौमि जालने धतकरे । गोयमा यो तिण्ठे समठे से
 ष पुब्बमेव सावन्न पर्येदिपप्यत्तस्य । गीतम नरो ए अर्थं समर्थं ते पूर्वमेवोवा पंचिंदिट्ट पार्त्तमावने । जइज्जोगिगस्यहिडा पमखिज्जगुणपरिहीण
 पढम मणजोय निरु भति । जइज्ज योगरइ, त्को मीद्वय व्यापारयत्तो पनञ्चानगुणरुद्धान प्रथम मनयाग प्रति रुवै । ततो अपतर चणं वेइदियस्य
 पज्जसगस्य जइम जोगस्यहिडा । अंतवारे पक्खे जपन योग समता किम मेद्विय पर्याप्ताने समय-परिहे जेतथा वपन योमना व्यापारयो । असंखिज्जगुण

दीपते एतेन यदापु रेके नपन्वतीन्मूर्च्छतेषु सद्गुणान्तरमभते उदभ्यत पट्म मासेषु शोषेति तदपान्तं द्रष्टव्य पट्म मासेषु कदाचिदपान्त
 राले यर्षाकालसम्भवात् सन्निमित्तपीठफलकादीनामादानमप्युपपद्येन नच तस्मै सम्मत भिति तदपरूपण मुसुत्रु मवसेय यतस्योत्सूत्रभावयकंपि
 समुद्रपातानन्तरयध्यययानेन शैलेइयत्रिधानात् तदसुत्र-दइ न्वाकमय तरेयसाटारखावरीरत्ये ॥ ज्ञासाजोगनिरोहे शैलेषीसिञ्जणाचेत् ॥ यदि
 पुन उदकपत पयमासरूप सपान्तराल मते तत स्तदप्यन्वियत नचोक्त तस्यादेव तदयुक्तमेतदिति, तथाचाह ज्ञाप्यकार-कम्मलहुयाएसमले
 जिनमहुणासिंसेउमली ॥ अथअरुक्मेय इन्मासुकासमिच्छति ॥ ततोन्तरसलसिधयणोजषयाहहरीण ॥ पद्यप्यशमेथस्य इराइगइणपिहोज्जा
 क् केमली नूत्या नदनन्तरमत्यन्ताप्रकारेण लेइयातीत धरमनिजराकारेण ध्यान प्रतिपिदसु रवइय योगनिरोधयोपक्रमते, योसति ययोक्तारूपस्य

ध्यानस्या सम्भवा तथाहि-योगपरिणामो लेश्या सदन्ययव्यतिरेकानुविधाना ततो यावद्योग स्तावदवश्यजाविनी तश्येति लेइयातीते ध्यानसम्भ
 व, अपिच यावद्योग स्तावत्कमययोपि-जोगापयद्विपणसे दिइयणजागकसायउकुणइ ॥ इतिवचना त्केवल सकर्मयस्य केउलियो-गनिमित्तता सम
 प्रयावस्थाया तथाहि-प्रथमसमये कर्मवध्यते द्वितीयसमये वेद्यते तृतीयेन त समयत कर्मोक्तो ज्ञधति, तत्र यद्यपि समयद्वयरूपस्थितिकर्मोणि
 क्रियान पूर्वाणि, प्रलय मुपगच्छति तथापि समये समये सलत्या कर्मोदाने प्रवत्तमाने सति न मोक्ष स्या दथवा वइय मोक्षगल्लय
 तस्या इकुणत सुयोगनिरोध मिति, उक्तव-सततयोगनिरोध करोतिलेश्यानिरोधमत्रिकाकुन ॥ समयस्थितिवध्यन्ध योगनिमित्तान्तरुहत्तु ॥ १ ॥
 समये समये कर्मोदानेसतिवततेनमोक्ष स्यात् ॥ यद्यपिहिउमुच्यन्त स्थितिचायात्पूवकर्मोणि ॥ २ ॥ नाकर्मणाद्विवाये योगद्रव्येणनवतिजीवस्य ।
 तस्यावस्थाने तु सिद्ध समयस्थितिद्यस्य ॥ ३ ॥ अत्र धन्यस्य समयमात्रस्थितिकता वन्यसमयमतिरिष्य वेदिवस्था ज्ञाप्यमयेन पूर्वोक्त सकलमपि प्र

आगमनादीं धीदारिकादिकाप्रयोगं तथाहि प्रगवान् कार्थयज्ञात् कुनश्चित् स्थानात् विधिते स्थाने आगच्छेत् यदि वा क्वापि गच्छेत् अथवा ति
 श्रेत कद्रस्थानेवा तिष्ठेत् निपीदे हा तथाविधश्रमापगमनाय स्वगवर्तनं कुर्वात् अथवा विवक्षिते स्थाने तथाविधश्रमातिमद्यस्याकुना मूमिमज्जो
 क्य तत्परिहाराय जन्तुरक्षानिमित्तं नृहनुनं स्मनङ्कनं वा क्षुर्यां चत्रं सृष्ट्यात्यावयिवेषां स्नानागाथकरं पाटविशेषं उल्लङ्घनं सय्वातिविकटं प्रल
 हनुं यदिवा प्रातिहारिकं पीठफलज्जाव्यासस्तारकं स्त्रत्यप्यते यसा टानीतं तस्यं मनर्पयेत्, इत्तं सगवतायइयामेनं प्रातिहारिकपीठफलकादीनां
 प्रत्यर्पणमेवोक्तं ततोवधीपते नियमादकमुद्रुतांशोपायुक्तयथायजीकरणादिकं सारजते न प्रनूनावजापायुक्तोऽव्यथाग्रन्थस्यापि चक्षमा सद्रप्युप

असञ्चामीसवडजोगं जुजड ? गोयमा ! सञ्चवडजोगं जुजड नोसञ्चामीसवडजोगं
 जुजड अमञ्चामीसवडजोगपि जुजड । कायजोगं जुजमांणं अ्यागच्छेज्जावा गच्छेज्जावा चिठेज्जावा निसीए
 ज्जावा तुयहेज्जावा उल्लधिज्जावा पलधिज्जावा पाठिहारियपीठफलगसंज्जासयारग पञ्चप्यिणंज्जा सेण जते !

सत्यासुपावायोग असत्यासुपावायोग युनक्ति ० गौतम ! सत्यायोग नोसुपावायोग नो सत्यासुपावायोग अरत्यासुपावायोग युनक्ति
 काययाग युज्जलागल्बहा तिष्ठेहा निपीठहा त्वयर्त्तनं कुर्वात् वा उल्लङ्घयहा प्रलङ्घयहा प्रातिहारिकपीठफलशय्यासस्तारक प्रत्यर्पयेत् । अ

सञ्चामीसवजोगं असञ्चामीसवडजा ० गोयमा । के सत्यासुपा वचनयोगं प्रयुजे के असत्या असुपावचन योगं ल गौतम । नां मांमउरको ० नो सञ्चा
 नीसवडनाग सञ्चवडजोगं जुजड । नही सुपावचन योगप्रयज नही सत्यासुपा वचनयोगं पिण सत्यवचन योगप्रयुजे । असञ्चामीसवडको ० कायजोगपि
 ज जनाणे । असत्या असुपावचनयोगं पिण प्रयुजे द्विवे काययोगं पिण भगवन् प्रवृज्जावका । आगच्छेत्तमा गच्छेज्जावा चिठुज्जावा निसोणज्जावा
 तुगटज्जावा उल्लधिज्जावा । यावे कावे अथवा वेठोथाय कारणविशेषं पालकोमारोने वेसे वलोनावेपणेमेवे वनो पत्रियरमा प्रसारण । पल्लवेज्जावा पा
 ठिहारियपीठफलनसिक्का । मलवचन पसारण पाठिहार पीठयाञ्चोट पाटीयो सञ्चा । सयारगं पञ्चप्यिणञ्चा सेण भतं तथासुयोगो विज्जति जाव

परिनिवृत्तिं सर्वदुस्कार्णं श्रुत करेड ? गोयमा ! नी डणठे समठे । सेणं त्रते । तत्र परिनिवृत्तिं तत्र
 पच्छा मणजोगपि जुजड वडजोगपि कायजोगपि जुजड ? हता जाव कायजोगपि जुजड मणजोग
 जुजमाणे कि सच्चमणजोग जुजड मोसमणजोग जुजड सच्चामोसमणजोग जुजड मणजोग जुजड
 ड ? गोयमा ! सच्चमणजोग जुजड नीमोसमणजोग जुजड नोसच्चामोसमणजोग जुजड सच्चामोसमण
 जोगपि जुजड । वडजोग जुजमाणे कि सच्चवडजोग जुजड मोसवडजोग जुजड सच्चामोसवडजोग जुजड

खानामन्तं कुप्यात् ? गौतम ! नापमर्थोऽसर्थं । च भदत् । तत प्रतिनिवर्तते , तत पद्यात्मनोयोगसपि वाप्योगसपि काययोगसपि युन
 क्ति ? भदत्त यावत्काययोग युनक्ति । मनोयोग युज्जन् कि सत्यमनोयोग सृपामनोयोग सत्यासृपामनोयोग असत्यासृपामनोयोग युनक्ति ?
 गौतम ! सत्यमनोयोग नो सृपामनोयोग नो सत्यासृपामनोयोगसत्यासृपामनोयोग युनक्ति । वाप्योग युज्जन्कि सत्यवाप्योग सृपामनोयोग

परिनिवृत्तयति । तिम समुद्वेवातयको तिष बेलाहोज सोमै ब्रह्मे मू काये धर्माथो श्रोतलोभूत धाय । सखदुस्कार्णं त करेति । सर्वदु खनी भतप्रति करे ।
 गोयमा यो तिण्डेवमड सेण ततोपडिनियत्तात् २ भा । हे गो० नद्वो ए यथं समय त तिहा यको पाछा कसरो जसरोने । ततोपच्छामण्योगपि जुज
 ड कायजोगपि जजड । तिवारपक्के मनोयोग पिण यु ले भततरविमानायो बलो काययोग पिण प्रयु ले । मणजोग जुजमाणे कि सच्चमणजोग जुजड
 मोसमणजोगजुजड । द्विवे भग० मनोयोग प्रयुले धाकता सु सत्यमनोयोग प्रव जे के नियामनयोगु ले । सच्चामोसमणजोगजुजड असच्चामोसमणजो
 ग जजड । के सत्यासृपा योगय ले के असत्या असृपामनो योगयु ले । गोयमा सच्चमणजोगजुजड यो मोसमणजोगजुजड प्रयु ले । सत्यमनोयोग प्रयु ले
 पिण सृपामनोयोग नप्रयु ले । नो सच्चामोसमणजोगजुजड असच्चामोसमणजोगजुजड । बलो सत्यासृपा मनोयोग पिण न प्रयु ले असत्यासृपा मनोयोग
 प्रयु ले । वडजोगजुजमाणे कि सच्चवडजो० मोसवडजो० । द्विवे वचनयोगप्रयु जता यथा भगवन् सु सत्यवचनयोग प्रयु ले के सृपामनोयोग प्रयु ले ।

ना पृष्ठे स नृपटो वा कायैवशतो वा पुद्गलान् शहीत्या वाग्योग सन्धि सत्वमसत्य सृषा या न शेषान् वाङ्मनसोयोगान् क्षीणरागादित्वात्

पि जुजुड नो वेडद्वियसरीरकाय िग जुजुड नो वेडद्विमीनामरीरकायजोग जुजुड नो व्याहारगसरीर
कायजोग जुजुड नो व्याहारगमीसासरीरकायजोग जुजुड कम्मगसरीरकायजोगपि जुजुड पढमठमेसु सम
एसु उरालियसरीरकायजोग जुजुड चितीयठसत्तमेसु समएसु उरालियमीससरीरकायजोग जुजुड ततिय
चउत्त्यपचमेसु समएसु कम्मगसरीरकायजोग जुजुड । संग नते ! तथा समुष्वायगए सिज्जड बुज्जड मुच्चइ

सापि नो वैक्रियशरीरकाययोग नो वैक्रियमियशरीरकाययोग नो आहारकशरीरकाययोग नो आहारकमिश्रशरीरकाययागं युनक्ति क्कामंश
शरीरकाययाग युनक्ति मयमाएनेसमये श्रीदारिकशरीरकाययोग युनक्ति इदानीपपष्ठसममेसु समयेसु श्रीदारिकमिश्रशरीरकाययोग युनक्ति
वतीपथतुयंपव्वमेसु समयेसु कामंशशरीरकाययोग युनक्ति । अथ भदत्त । तथासमुद्घातगत सिञ्चाति युच्यते मुच्यते परिनिर्वाति सर्वदुः

१।० आहारग० आहारगमीसासरीरका० कम्मगसरीरका० । कै वैक्रियमिय शरीरकाययोगजुजे के आहारकशरीरकाय योगजुजे कै आहारकमि
ययएर काययोग जुजे कै कामंशशरीरकाय योग जुजे । गोयमा उरालियसरीरका० उरालियमीसासरीरका० । गी० श्रीदारिकशरीर काययोग जुजे
शदारिकमियशरीर काययोग जुजे । नो वेडद्वियसरीरका० नो वेडद्विमीनामसरीरका० । पिय वैक्रियशरीर काययोगजुजे पिय वैक्रियमियशरीर
पथ नही । नो आहारगसरीरका० नो आहारगमीसासरीरका० । पिय आहारकशरीर काययोग जुजे नही आहारकमिय पिय जुजे । कयासरी
रका० पढमठमसममगस उरालियशरीरकायजोग जुजे । कामंशशरीरकाय योग । पयोणीइवे पहिले समय च पाठमेसमय श्रीदारिकशरीरकाय योग न
जुजु । चिंतियच्छसतननु मम म्मु उरालियमीसासरीरकायजोग जुजु । ० समय श्रीदारिकमियशरीरकाययाग जुजे । ततियचउत्त्य पचमेसु सम
एसु कम्मगसरीरकायजोग जुजुड सेण भते । तितथरे पछे ३ । ४ । ५ । समय कामंशशरीरकाय योग जुजे त भगवन् । तथासमगयायगते सिञ्जाति मच्चति

माययुत्पत्त्या विश्वभावा दिति प्राव । किं कुरीतीत्यत आह-हेणमित्यादि ॥ सौचिकतससुद्घातगतो शमिति वाक्यालङ्कारे तत स्मसुद्घातात् प्रतिनिवृत्तते इति निवृत्त्यथ तत प्रतिनिवृत्तनात् पश्चादनन्तर मनोयोगमपि वागयोगमपि युक्ति व्यापारयति यत जगजान् त्रय धारणीयकर्मसु नामगोश्वेदनीय घषिगत्यनाहारस्यसुद्घातवशात् प्रजुतमायुषा सह समीकृते घष्यन्तमुद्भूतजाविपरमपद स्वास्नन् काले य द्यनु तरोपपातिकादिना दवन मनसा पूर्यते तर्हि व्याकरणाय मनपुद्गलान् गृहीत्वा मनोयोग युनक्ति तमपि सत्यमसत्याद्युपरूप वा मनुष्यादि

नो मणजोग जुजइ नो वडजोग जुजइ ? गोयमा । कायजोग जुजइ । कायजोगेण जते । जुजमाणे कि उरालियसरीरकायजाग जुजति उरालियमीससरीरकायजोग जुजइ कि वेउडिउरालियसरीरकायजोग जुजइ वेउ डियमीनसरीरकायजोग जुजइ कि आहारगनीससरीरकायजोग जुजइ आहारगनीससरीरकायजोग जुजइ कि कम्मगसरीरकायजोग जुजइ ? गोयमा । उरालियसरीरकायजागपि जुजइ उरालियमीसासरीरकायजोग

ति ? गोतम । नो मनोयोग युनक्ति नो वापयोग युनक्ति काययोग युज्जत्तिकमीठारिकशरीरकाययोग युनक्ति श्रीदारि कानिशशरीरकाययोग युनक्ति कि वेकियशरीरकाययोग युनक्ति वेकियमिश्रशरीरकाययोग यनक्ति किमाहारकशरीरकाययोग युनक्ति आ हारकानिशशरीरकाययोग युनक्ति कि कानिशशरीरकाययोग युनक्ति ? गोतम । श्रीदारिकशरीरकाययोगमपि श्रीदारिकमिश्रशरीरकाययोग मते तथा समघायगते कि । तिवारपक्खा शरीरसइवेते भगवन् निम निभू ममुष्ठातपइचे सु । मथयाग जुजइ वडजोगवजइ कायजाग जुजइ । मनयाग जुजे नो वचन योग जुजे काययोग जुजे । गावमा षो मथयागजु पइ थ वडजागजु ज क वल गज जइ । गोतम नही मनोयाग जुजे नही वचनयोग पिण सुजे काययोग जुजे । कायनयोग भत जुजमाणे कि उरालियनरीर का यजोग जुजइ । कावगोगकरी भगवन् जुजतो यको सु श्रीदारिकशरीर का ययोग जुजे । उरालियमीसासरीरका० वेचस्वियसरोरका० । श्रीदारिकमिश्रशरीरकाय योगजुजे के वेकियशरीरकाय योगजुजे । वेचस्वियमीसासरीर

पुनः तस्या फरण सायोजिकाकरण, अन्ते ॥ आठसिंसाकरणमिति ॥ द्रुवते तथाप्य मन्वर्थो आवश्यकेन अवश्यजावेन करण नावश्यकरण
तयाहि-समुद्रयात केचिं तुर्वन्ति केचिं न कुर्वन्ति इदं च्चन्द्रयकरण सर्वेपि केवलिन कुर्वन्तीति, सप्रत्यस्यैवा वजीकरणस्य कालप्रमाणानि
रूपणार्थं प्रश्ननिर्वाचनसूत्रे आह-कश्चिद्व्ययमित्यादि ॥ सुगमः, आवर्जीकरणानन्तर चाव्यवधानेन केवलिसमुद्रयात सारप्रते सच कतिसामायिक
इत्याशङ्कया तत्समयनिरूपणार्थमाह-कश्चिद्व्ययमित्यादि ॥ सुगमः, तत्र यस्मिन् समये यत्करोति तद्दर्शयति-तज्जहा-पठमसमय इत्यादि ॥
इदमपि सुगम प्रागव व्याख्यातत्वात् नवरमेव सावार्थो यथा ह्ये घृतंजं समये कर्मणात्मप्रदेशाना विस्तरणे तथैव प्रतिलोम क्रमेण सहरणानि
ति, वक्तव्यत्रापि-उक्तहोयलोग तर्गासन सोसदेर्वाक्वत्न ॥ पठमसमयान्मिदं करेड विद्वयमित्येकवाह ॥ तद्वयसमयान्मिमय चउत्यएलोगपूर
णकुण्ड ॥ पहिलोमसाहरण काठतोडोइदइत्यो ॥ २ ॥ अस्मिन् समुद्रयाते क्रियमाणे सति यो योगो व्याप्रियते तमन्निश्चितसुरिदमाह-सेण प्रते ।
इत्यादि ॥ तत्र मनोयाग यागयोग वा न व्यापारयति प्रयोजनात्वात् आद्ये प्रमंसारमूलटिकाया हरिजद्रसुरि-संनोवचसी तदा न व्यापारयति
प्रयोजनात्वात् काययोगे पुन युंल्यत औदारिककाययोगसौदारिकामश्रकाययोग वा युनक्ति न श्रेय लघ्युपजीवनात्वात् न श्रेयस्य काययोगस्या

कैवलिसमुद्रयाए पन्तते ? गोयमा । अष्टसमइए पणते, तजहा-पठमे समए दठ करेइ वीएकवाठ करेड
ततिए समए मय करेड चउत्ये समए लीग पूरेइ पचमे समए लीय पठिसाहरइ लठे समए मय पठिसा-

कतिसामयिक भदस । अगलिसमुद्रयात मज्जम् ? गीतम । अष्टसामयिक मज्जत तद्यथा-प्रथमे समये दवइ करोति द्वितीये कपाट तृतीये
गीयमाहर्गो करे सुभसन विगय ते यावर्जन प्रय । गोयमा यमविज्जननए जतोमुद्रयात चाउलोकरण प० । हे गीतम यमव्यातायमयनो १ अत
मंडर्गं यदमनो वाकागाना व्यापारविशेष करणी कक्षा । कतिसमएण भत कविसमुद्रयात प० । द्विजे केतले समयनो भगवन् केवलिसमुद्रयात कक्षा ।
गीयमा मज्जमएणत पठमेसमएइउअरेति वीरकिवाणअरेति तद्वयसमएणसकरेति । हे गी० ट काठ समयनो कक्षा ते सहे पहिले समये दडरूप करे

रिशानमनस्यचासम्भवात् पुन कथं नूना इत्याह-जरामरणविप्रमुक्ता जराच मरणं च जरामुक्ता जरामरणग्रहणमुपलक्षणं तेन
 समस्यारोगोकादिसाधारिककेशविप्रमुक्ता इति द्रष्टव्यं यतन एकान्ततो मोक्षस्योपादेयता साहाय्यस्य वस्वरूपस्य स्थानस्यासम्भवात् । नहि ससा
 रे प्रकंपंतुल्यमाप्तमपि स्थानमेवावयमस्ति सद्यस्यापि मरणपर्यवसानत्वात्, सेधन सिद्धि रशेषकर्माज्ञापयमे नात्मन स्वरूपे अवस्थानता वरा
 सर्वगतीना मुत्तना गम्यते इति गति वरगति स्ता वरगतिरूपा मित्यर्थं । नता प्राप्ता इह सर्वोपि केवली केवलिसमुद्घात गच्छन् प्रथमत आवा
 जीकरणं मुपगच्छति, तथा च केवलिसमस्तानप्रक्रिया विधांशुषु समुद्घातशब्दव्यास्थानपुरस्वरमाह प्रार्थकार-तत्याठया ससाहिया कल्लसमुघा
 यण समुघाते । त गतमणा पुत्र आउज्जोकरणं मुधेइ । अथावलीकरणं मिति कः शब्दायं उच्यते-आवर्जनगायजं आत्मानं प्रति मोक्षस्यांजिसुखी
 करणे नात्मनो मोक्षं प्रत्युपयोजनमिति तात्पर्यार्थं, अथवा आवर्ज्यते अजिसुर्योक्रियते मोक्षो ऽनेनेति आवर्जं शुजननोवाक्कायव्यापारविशेष
 उक्तं-आवर्ज्यणमुवर्तुंगी वावारीवा इति, तत उभयत्रापि अतस्य तस्य करणं मिति विवक्षाया चिप्रत्ययः । आवर्जीकरणं अपरे आवर्जितं क
 रणं मित्याहु स्तत्राय शब्दार्थं-आवर्जितो नामाजिसुखीकृत स्तथाच लोके यत्तार आवर्जितोय मया समुखीकृत इत्यर्थं, तत य तथानव्यत्वेना
 वर्जितस्य मोक्षगमनं प्रत्युजिसुखीकृतस्य करणं क्रिया शुभयोगव्यापारणं आवर्जितकरणम्, अपरे ॥ आउज्जयाकरणमिति ॥ पठन्ति ' तच्चैत्र श
 प्सरकार माचक्षते आयोजिकाकरणमिति अयम्वात्रान्वयार्थः-आइ मर्यादया केवलिदृष्टयो योजनं शुजाना योगाना व्यापारणं मायोजिका, जाव

भते ! आउजीकरणे प० ? गो० ! अस्खिज्जसमडए अतोमुज्जतिए आउजीकरणे पसुत्ते । कइसमडएणं भते !

गतिगता ॥ २ ॥ कातिसामयिकं प्रदत्तं । आयोजिकाकरणं प्रदत्तं ? गीतम । असेस्येयसामयिकमात्तमोद्धृत्तिकं मायोजिकाकरणं प्रदत्तम् ।

ममदात ते पामे समुदातं नदित केवली मोक्षगया चास्ते धनता केवली पिण जिन तीर्थंकर । लक्ष्मामरणत्रिण्यज्जहा सिद्धिवरगतिगता कातिसमतिपण
 भते आउजीकरणे प० । तत्र मरणपर्यवसानी मुक्ताया मुक्तिप्रति प्रधान गति मति पान्या केतले समयं भगवन् आवर्जं क्ली करणे आत्माने प्रावर्जी

सर्वेपि केवलिन समुद्र-प्राताय प्रयतन्ते नार्पि समुद्र-प्रात गच्छन्ति कितु येपामायुष सापिक्कं वेदनीयादिक यत् पुन स्वजायत यमायुषा सह
 सनस्थितिकानि वेदनीयादीनि कर्मोचि सोऽहहयसमुद्र-प्रातमत्र तानि स्वर्पायत्वा चिच्यति यथावाप-अरुपेत्यादि ॥ यस्य केवलिन नायुषा सह
 प्रवो गनुष्यन्त उपसमीपित कृद्यते अत्रप्रवृत्ते नै जानि यत्रापप्रवृत्तर्माचि कानि च तानि कर्मोचि य इवापयुक्तस्यि वेदनीयनामगोत्राणि
 यथने प्रदेही स्थितिनिद्य तुल्यानि सुमानि प्रवलि समुद्र-प्रात न गच्छन्ति , अकमसमुद्र-प्रातयत्र तानि कृपायित्वा च किट्टिणीव यथ्यास्ते इति
 प्राय , वल्लन्-नरसुवतुज्ञानवदय काण्यवकुसभावतो जान । भीशकयसमुवाडै निज्जरदुग्गवएवेकण ॥ १ ॥ यथाय कादाचित्को प्राय उत प्राहुल्य
 प्रावो यत साह-अगणसमुद्र-प्रापयित्वादि ॥ अगत्या समुद्र-प्रात केवलिसमुद्र-प्रात चिडि परमगति गता इति सूचय । कियरसस्याका इत्या
 ह-अयना अतन्तसस्याका केवलिन केवलयागदजानोपेता एतन ये यथाना नाल्लुथाना जत्यतौळोदी योउ इति प्रतिपत्ता सो यासा द्रष्टव्या
 ज्ञानस्य निरुपचरितात्मस्वभावत्वा यस्य च विगाज्ञायोग्या इत्यथात्मन सुवाजावापसे नैवात्मनो निरन्वयो विनाज्ञा यत उर्थथा विनाज्ञायोगा
 त , नायतोविद्यतेजायो नाजायोविद्यतेस्त इतिन्याया , तथा जिना जितरागादिशब्द एतन कोशालकमतापाकरणमाह-तेडि मुक्तिपदमच्छा
 सीतमपि तत्वतो बीतरागमपि मन्यते अथासुच्छिद्यदा अपि तीथजिवाएदनाथनिश्च भच्छन्तीति गयगाए , तच्छतो बीतरागस्य च पराभववृद्धे

च्छेड । अर्गताणसमुग्घाय अर्णताकेवलीजिणा जरामणविष्यमुक्ता सिद्धिवरगतिगया ॥ २ ॥ कइसमइएण

स्विन्धि । प्रवोपत्राएरुमोचि समुहात न गच्छति ॥ १ ॥ अगत्वा तु समुहात एतस्या केवलिनोजिना । जरामणविप्रमुक्ता सिद्धि वर

समगात समोहणे इम निचय समहात पति पामे । सखेविष भते केवलीसमुग्घाय गच्छति । वली सर्वं भगवन् केवलीस
 मगात प्रति पामे निचय नई भगवन् केवली समुहात प्राप्त हवे । गायमा योतिषेसुसमडे जय्थे वाक्यतत्ताद वधणेहिठितोदिव भवोवगएहकत्ताद ।
 इदने आयुषो सरीखी नधरेकरो । स्थति भवोवयह चर्न । समुग्घापसेणु गच्छति अगतूण समुघात अथता केवलो जिना ।

ततः कथं न कृतनाशदोषोपपत्तिस्तदप्यसम्यक् न्यक्तकाले तथाविधाध्यवसायवशादाटा-वृत्तमयोग्यस्यैव तेन व्रथात्, अपिच जिनवचनप्रामाण्यादपि वेदनीयादिक्रमंशा मुपक्रमो मन्तव्य इत्यादिभाष्यरुत्-उदयकरयकखले-चभो वसमाजककमणोमणिया दद्यादपवमपदजु तमवक्रमेयानतोवि ॥ नचैवमोडोपक्रम इतु कश्चिदस्ति तथाविधोतिमन्त्रे भावयिष्यते, ततो यतुक्तुवेदनीयादिवश्च कृतस्यापि कर्मद्वय इत्यादि न तरसम्यगुपपन्नमिति स्थितं अपर आह-ननु यदा वेदनीयादिक मतिप्रज्ञात् सर्वस्तोक धार्युस्तदा समाधिकवेदनीयादे सोपक्रमत्वात्, यदा स्वमपि न मायु स वस्तोक तदा का वात्तां नखलंभायुप समाधिकस्य ममुद्घाताय समुद्घात कल्पते परमशरीरिणा मायुपो निरुपक्रमत्वात्, परमशरीराय निरुपक्रमान्तिवचनत् । तदयुक्तमेवविधनायस्य कदाप्यभावात् तथाहि सर्वदेव वदनीयाद्योवायुप समाशा दधिकस्थितिक जवति ननु कदाचिदपि वेदनीयादंरायु, अर्थविविधो नियम जुतो लभ्यते उच्यते-परिसामस्वाम्नाख्या तथाहि-इदथज्ञान यवात्मन परिणामा येनास्यायु वैदनीयादे सम जवति न्यूनं वा ननु कदाचनाव्याधिक यथैतस्यैवायुप सलु प्रुववर्षात् तथाहि-ज्ञानावर्णीयादीनि कर्माणि आयुर्वर्षानि समापि सदैव व्यथते, आयुस्तु प्रतिनियत एव काले स्वजयत्रिजागादिशेषरूपे तत्रैव विधाविचित्रनियमनं स्वभावा दृते पर कश्चिदस्ति हेतुरे-मिद्वपि स्वभावविज्ञोप एव नियमको द्रष्टव्या आह-च मायकृत् यममठिंशु नियमो कीयोधआरयसेवन्ति परिणाममहाठाले अपृववर्षावितरसेव " अथ विज्ञोपपरिज्ञानाय गीतमो जगवत पृच्छन्ति-सवृत्रिकमित्यादि ॥ जनिन्ति नियये सर्वेपि सलु कंवलिन समठप्रन्ति समठघाताय प्रयतते प्रयदानकर च सर्वेपि सलु कंवलिन समुद्घत्त गच्छन्ति गीतसेनप्रश्ने कृते भगवा त्रिवंशमहाह-गोयमेत्यादि ॥ गीतम नायमथ समर्थ उपपन्न किमुक्त जवति

गायमा ! नो इणठे, समठे । जस्साउपुणतुसाइ बंधणेहियिठिंइहिय । जसोवगगहकस्साडं समुघातसेनग

गच्छति । सर्वेपि कंवलिन समवप्रन्ति, सर्वेपि कंवलिन समुद्घातं गच्छन्ति । गीतम । नायमर्थं समर्थं । यस्यायुपापुनस्तुत्यानिवन्धने.

यमकरी, च, सुरीया करे बधनेकरी स्थितिकरी विषम, समकरे, बधनेकरी । एव सलु केवलोसमीहर्षति एव सलु समुवाय गच्छति । इम निये केवलो

इंद्रिय कर्मद्वारा यथोचिते जागो ग्रहेतेषु ॥ ततश्च ते ब्रह्मै स्थितिनिश्चय नियम सद्देहीयादिसु सुदुर्लभाविना सममायुषा सह करोति स
 मय सन्तु जेउरी बन्धने स्थितिनिश्चय विषयस्य सती वेदनीयादित्य जर्ण ॥ सगीहरणयावति ॥ अत्र तामन्यय स्वाधिक्य ॥ ततोपमयं-सम
 करणाय ॥ समोच्यते इति ॥ समग्रहन्ति समुद्र्यासाय प्रयतन्त मय सन्तु समुद्र्यात् उक्तञ्च-आयुषिसमाप्यमाण शोषणारुमणा यदिसमा
 सिन्स्यात् ॥ स्थितिविषयान्नाच्छति, स तत समुद्र्यात् स्थित्याप यन्धनेन च समीक्रियार्थं चि क्रमणा तेषा मन्तुमुद्रुत्तंजेपे तदायु समुज्जया
 सति च नन मन्तुसकालोपगोन्य वेदनीयादे रायुषा सह समोकरणार्थं समुद्र्यात् सारजने इति यदुक्त-ननोपपन्न कृतनाशाद्दटापममङ्गात्, त
 थाहि-मन्तुसकालोपगोन्य वेदनीयादित्यश्च कृतनाशा कर्मकृत्य पूग नांशजन्मः लोकेव्यनास्या
 मसन्तु तद्वचकत् कृतनाशादिदोषप्रसङ्गात् तथाहि-इह यथाप्रतिदेवस चतिकापरिजोगेन वयेशतोपनोग्यस्य कल्पितस्याहारकस्य तस्यकथ्याधिना

तदसामर्थ्या रस्तीकदिवसै निं शोपत परिजोगा न कृतनाशोपम, तथा कर्मणोपि वेदनीयादे तथाविधशुजाध्यःसायानुन्यादुपक्रमेण सात्त्व
 तो जोगा न कृतनाशरूपदोषप्रसङ्ग द्विविधो हि कर्मणोऽनुभव प्रदेहतो विपाकतश्च तत्र प्रदेहन सकलमपि कर्मानुजयते १ तदस्ति क्रि
 रक्रमय प्रदेशेनो व्यानृत सन् क्षयमुपपाति, तत कय कृतनाशदोषापति विपाकनत्तु किञ्चि नान्यथा मोउनाशवत्सङ्गः तथाहि-यदि विप
 कानुगतित एत सर्वं कर्मणशोय मिति नियम सप्तस्यस्यातेषु प्रवेपु तथाविधविधिशुजाध्यसथयविक्रपै यंकरजगत्यादिक कर्मोपात्तिनम् तस्मान्नि
 कस्मिन् मनुयादाद्यं प्रय ऽनुनय स्व २ निवन्धनत्वा तद्विपाकानुभवस्य क्रमण च स्वतजानुगमनेन वेदने तारणादिनेषु चारिनाशये १ मन्तु
 तरकर्मसकालोपचया तस्यापि स्वजवानुगमने तानुनवोपगमात् कुतो मोउ सस्य तस्यं कर्म विपाकतो जाय पदशतो ऽग्रयत्तनु १ ननीयंते
 प्रतिपत्तयमेवञ्च न कश्चिदोप, नन्वयमपि दीर्घकालनोग्यतया तद्देहीयादिक कर्मोपचित अथच परिणामविक्रयो दुपक्रमेणारादय तदनुभवति

प्रथमा ततोयमये -यतो वेदिता ततो ऽवीथकर्मणा हि तयो नियमत प्रदेशतो विपाकलो वा वेदना झवति " सव प पयसतया जुज्ज कस्य मणुजावृत्तो जशयवित्यादि वचनान्तु से चत्वारोपि कर्मांशा श्रवेदिता यतो ऽकीणा स्वदेव पर्यायेण व्याचष्टे अनिर्जीर्णा सामस्येनालप्रदेशोभ्यो परिशादिता प्रशक्त तिष्ठन्ति तानेन नामग्राह अनिचितनुराह-वज्रहेत्यादि ॥ सुगम . तत्र यदा ॥ से ॥ तस्य क्षेत्रलिन सर्वबहुप्रदेश वेदनीय सुपलञ्चमेत् नामागेने प तथा सर्वस्तोक प्रदेशमायु कर्न तदा ॥ सवयणेद्विद्विद्विद्यति ॥ यथ्यते प्रवचारकात् विनिगच्छन् प्रतिव्यतं ये स्ते वयना करणधारे इति कर्णे यन्द् प्रन्यय , प्रगा वयते आत्मजज्ञे सन्न लोलीनाद्येन सन्निष्टः। क्रियन्ते योदवशात् ये ते वयना. ऊद्गुरु लमिति वषनात् कमणि अनिद् वजयतापि कमपरमाणुो याथा , स्थितयो वेदनाकाला. तथ्योक्त त्राय्यकृता-विषमकरेऽस्य वयणोहि ऽठ

त०-वेदणिज्जे आउए नामे गोत्ते सव्ववजाए से वेदणिज्जे कम्मो हवड सव्वस्योत्रे से आउए कम्मो हवड विषमं सम करेड वधणेहि ठिडंहि एव खलु केवली समोहनड एव खलु समुघाय गच्छइ सव्वेविण जते ! केवली समुघायं गच्छति ?

नयत्वार कर्मांशा श्रवेदिता अनिर्जीर्णा प्रवन्ति तद्यथा-वदनीपमायुर्नोमोत्रं , सर्वगुरुक वेदनीय कर्ने जवति सर्वस्तोक आयु कर्नं प्रवति विषमं सम करोति यथने स्थितिजिद्य विषमं समोकरणाय यथने स्थितिजिद्येव खलु केवली समवहस्यते , एव खलु समुद्गात

द्विजे केवलीनो पधिकार करेछे किवारि भगवन्त् केवली समुद्गात विपे जाये। गोयमा केवलिसा चत्तारिकयथा शक्योपा शयेऽया । गोतम केऽपीना एव नही गया शवेदीनां ४ कर्म। यणित्त्विसाधुंभवति त वेयणिल्ले आउए भासंगोए । य० क० समयांशेकरे अपरिशाटन दहता पुना न कोवा छे ते करेछे वेदनी १ धावु २ नाम ३ गोत्र ४ । सव्वबहुणसे वेयणिल्ले कयणंभवति सव्वयोवे से याउएकणेदवति । सर्वं कर्मना प्रदेशतो वेदनीकर्माना यणा प्रदेश दुवे सर्वं योडा कर्म पायु कर्मना प्रदेश दुवे। विषम एवेति वधणेद्विती श्रियाविसम समीकरणयाए वधणे द्विद्वितीय । विषमज्जेते एके

नी गन्धपुद्गला सूक्ष्मत्वात् न च्छब्दस्थाना चतुराहीन्द्रियगम्या स्वया सकललोकव्यापिनो निर्जरापुद्गता यथोति ॥ उपसङ्गारमाह-उत्सुमाद्य ते ॥
 यथावत्सूक्ष्मा , अथ यन्निमित्त केवली समुद्रात् मारुतत तत्प्रच्छिद्युरिद मश्रुतमाह-कम्हाणमित्यादि ॥ कस्मा रकारणात् यामिति वाक्यालङ्कारे
 नदन्त केवली केतानानोपेत समुद्रात् गच्छन्त्यारुते अतरुन्त्यत्वा रिकल तरयेति प्राव , भगवताह-गोपमेत्यादि ॥ गीतम केवलिन इत्यार
 कर्मज्ञा कर्मज्ञेता अतीना समयनपगता कुतारत्याह-अवेदिता अत्र निमित्तकारणहेतुपु सर्वासा विव्रज्जीना प्रायो दर्शनमिति व्यायात् ऐली

बुद्धि-उदमत्येण मणुस्से तेसि निजरापोगलाण नो किचि वन्नेण २ गधेण २ रयेण २ फासेण २ जाणइ
 पासड । एसुज्जमाण ते पोगला पन्नत्ता समणाउसो ! सत्त्वोगपियण फुसित्ताण चिठ्ठति । कम्हाण जते !
 केवली समुग्घायं गच्छड ? गो० ! केवलिसस चत्तारि कम्मस्स छुना च्छुरकी गा च्छुवेदिता च्छणिज्जिन्ता नवति

गीतम । यधमुच्यते-छब्दस्थोमनुयुक्तेषा निजरापुद्गताना नो किञ्चिद्दर्शनं यथं गन्धेन गन्ध रयेनरस स्पर्शेन स्पर्शं जानाति पश्यति यता
 दृक् सूक्ष्मास्ते पुद्गला मज्जसा अमण । आयुसन् । सर्वलोकमपि स्पृशु । तिष्ठन्ति । यस्माद्गदन्त । केवली समुद्रात् गच्छति ? गीतम । केवली

जव्गीवे २ तदि वाणपुगलेहि फडे इता फुडे छत्रमयेण । गीतम ते कालकन्धे जव्हीपे ते सम्य पृथुन प्ररथीने तत्त्वान चावे डा खानो ते फरथी चा
 वे िवे छद्दथ । गीयमा मणसे तेसिवाणपुगलाण किचिखेण यण गधेण गध रयेण रस फासेव फास चापति पायति । गीतम मनुय तेहना पुत्र
 सत्तै स्यु वणै गधै रने स्ये स्यंप्रति जाणे देखे । गावसा नातिण्डेसमह सखण्डेण भते ए० छत्रमयेण मसुरसेति । गीतम भवी ए अयं समयं ते किम
 स्वामी रम नाइ छद्दस्य मनुय तेहने । निजरापगला नो किचिक्खे० गधे रस फासं चापति पायति एए मणुमेण । निर्जरा पुद्गलने नही कोरं वये ग
 धे रसे स्ये जाणे देखे ० म्छपुद्गल । ते परगला प० ममणात्तो मत्त्वोयोगियण फुमित्तार्थ चिद्धति । ते यधनी प्रदेय जिम छद्दस्यो दृष्टिनावे तिन
 ते निर्जराणा सूक्ष्मपुद्गल सर्वलोकने प्ररथीने रक्षाहे छद्दस्यनो दृष्टि नावे एतावता केतया खवली देखे । कच्छाच भते केवलीपमुग्घाय गच्छति ।

ज्ञान तरकल्प परिपूर्णतया तरसदृशं परिपूर्णमित्यर्थं , जम्बूद्वीप त्रिभिर्ऋषीरनिपातोनाम षष्पुटिका तत त्रिखनि षष्पुटिकात्रि रिति दृष्टव्यं
 षष्पुटिकाश्च फालोपलक्षण ततोयमर्थं-यात्ररकालेन तिल षष्पुटिका-पूर्यन्ते ताऽऽत्कानामध्ये इति त्रि सप्तकत्व एकविवस्त्रतिवारान् अनिपारजल्प
 सामस्येन परिचरन्त्य ॥ हृद्य ॥ शोऽद्रगागच्छेत् ॥ सेनूणमित्यादि ॥ ३ ॥ सेनादी मगधदेशप्रसिद्धाऽश्रय शब्दाय , अथशब्दस्य चार्थो वाक्यापन्यासाद
 य उक्तञ्च अथ प्रक्रियाप्रश्नात्प्रत्ययसङ्गलाधिकारवाक्योपग्यायेषु तत्रायवाक्योपन्यासे तद्भावनायेव-उक्त साधत् विवक्षितार्थोपनिर्वाहता दृष्टा
 तस्य पीठिकावत्य सम्प्रति विवक्षितार्थप्रतिपत्तिहेतुदृष्टान्तवाक्यमुपन्यस्यते नून निश्चित गीतम स केवलकल्पो जम्बूद्वीप स्ते गन्धसमुद्रका द्विनि
 गते प्राणपुद्गले स्पष्टो व्याप्त साक्षाद्वेद सूत्रमन्त्रिधीयते-तत. प्रयोगस्यते अथवा पन्थाय सत्रादद ज्ञातो ज्ञसे प्रश्रयतांति गीतम आह इत स्पृ
 ष्टो गन्धपुद्गलाना सर्वतोत्रिपणञ्जालत्वा स्पुनरपि जगवानाह-ब्रह्मस्येयमित्यादि ॥ सुगम , स्पृषात्र ज्ञावाचय , यथा ते राजलजम्बूद्वीपव्यापि

वातांहि सत्सखतो अणुपरियद्विज्ञाण हृद्यमागच्छेज्जा सेनूण गीयमा । रो केवलकल्पे जम्बूद्वीपे २ तं हि धा
 णपुग्गलेहि फुले ? हना फुले , तउमत्येण गीयमा ! मणूसे तसि धागपांगलाणं किञ्चि वन्नेणं वस्य मं
 धेण गध रसेण रस फासेणं फास जाणइ पासड ? जगव ! णाडणठे समठे सेतेणठेणं गीयमा ! एवं

कत्वाशीप्रमागच्छत् अयन्नूत गीतम : स केवलकल्पोजम्बूद्वीपो द्वीप क्षेत्राण्युद्गले स्पष्ट ? इत्त गीतम , स्पष्ट । ब्रह्मस्यो गीतम । मनुष्य
 क्षोपा प्राणपुद्गलाना किञ्चिद्वर्णन वणं गन्धेन गन्धं रसेन रस स्पष्टेन स्पष्टो ज्ञानाति पश्यति ? जगवन् । नायमर्थं समर्थं । तत्तेनार्थन ?

पृथ्वी १ मोटीं रूपवतं विलेपन मगधपूर्णं सुगधद्रव्ये परिपूर्णं । अथदालितत महं णग सविशेषण गधकमुगय अत्रहीनइत्ता द्रव्यामेव । वली च
 पाडे उपादाने । ऋदुकेऽपकण जम्बूद्वीपे तं हि अस्त्रराण्यवातोऽपि तिसत्सुतो । के. क. सपूर्णं जम्बूद्वीपने ३ वासोये अथवा तीरन्याग्गमे-री ३ तो
 न सत्ता २ १ वार पीतानी । अणुपरियद्विज्ञाण हृद्यमागच्छेज्जासेनूण । समर्थये करोने गीत भावे ए दृष्टाते करो इत निचे । गीयमा चेकवलकल्प

द्वारे ॥ महत्तिष्ठ इति ॥ महती अट्टि विमानपरिवारादिको यस्यासी महद्विक ॥ जात्र महतीकले इति ॥ यावत् शप्सरणात् महज्जुङ्ग इति महावले महाजवे इति द्रष्टव्य, तत्र महती द्युति शरीरारणवियया यस्य स महाद्युति महद्वल् शरीरमाको यस्य स महायल मरुत् यत्र ख्यातयेस्य स महायज्ञ तथा मरुत् प्रजुत सीख्युयस्य प्रजुतसद्वेद्युक्तमर्दयजाघादिति महासीर्य, क्वचित् ॥ महेशस्त्रे ॥ इति पाठस्तत्र महान् ईश ईश्वर इत्यास्या अर्धप्रथा यस्य लोके स महेशाख्य अथवा ईशानमीशो प्रावेचज प्रत्यय ऐयंयामत्वर्थ, ईश ऐयंयं इति वचनात् तत इशानो ययेमात्मन- स्याति अन्तर्ज्ञतस्य यतया स्यापयति प्रकाशयति तथा पारश्वारादिसोत्वा वसंते इति ईशाख्य' मराधासा बीशाखयथ महेशाख्य अन्यत्र महासखलति पाठ स्तत्रैव दृढ्यासग-आशुगमना दद्यमन अक्षानि इन्द्रियाण स्व २ विषयव्यापकत्वात् अक्षशब्दोक्ति प्रायेणा सूक्ष्म्यासा वित्यस्यथाता निष्पाद्यते अद्याक्षाणि अद्याक्षाणि यस्यासी महाद्याच रकोतिमता स्फूर्तिम सञ्चरदीन्द्रियथे त्यर्थ, एक महान्त मतिष गुरुक मन्यथा स्तोत्रक नया लङ्गने सकलव्य नन्युद्गीपस्या व्याप्तमशक्यत्वात् ॥ सविलेखमिति ॥ सः वि शिष्टमनिभूस्तरप्राणानपि स्वगनात् लेपन लेपोनत्वादिक्त १०५.नोपार तंते यत्र स तथा त विशिष्टलेपप्रदानाज्ञावेदि यद्वा सूस्तरग्ने णैयपुद्गला निर्गच्छन्ति, तत्र उद्गाटनवेलाया तथा स्ताकीजावन सकलजस्युद्गीपाप्राण नीपपद्यने ॥ यद्यसमुत्पद्यति ॥ गन्धद्रव्ये रतिविशिष्टे प रिपूर्णयुत समुद्रको गन्धसमुद्रकस्य ॥ अथदाले इति ॥ अथदलवति अरपाटयतीत्यर्थ ॥ इषामवेति ॥ स्वमेवेत्यर्थ ॥ केवलकप्यति ॥ केवल केवल

स्केवेण पखुत्ते, देव्रेण महद्दिणु जात्र महासोस्के एग मह नत्रिलेखणं गधनसुगयं गहाय त अत्रदालेइ त मह एग सविलेखण गधसमुगय अत्रदालडता इणामेवणतिकहु केवल कप्य अनुदीत्र २ तिहि अत्रराणि

वदलपति तमेकमहत्सविलपत्नं गन्धसमुद्रकमदलयित्वा यत्रमेवेति कत्वा, केवलकल्पज्जुङ्गोप द्वीप त्रिचिरचरनिपति स्त्रि सप्तहज्जोनुपयंतन

काश्च विशेष पतली परिधि कही तिहा देव्या मय १०५ । जात्र महोस, स्त्रे एग महसविलवण गधसमुगय सविलेषच । जालगे वर्ष करता महानुषो

पक्रमे ॥ एवं मणुषीवि इत्युक्तं ॥ अस्यायमर्थः न्यवे सामान्यतो जीवपदं इव मनुष्येपि मनुष्यचिन्तार्यामपि सुन वक्तव्य जीवपदे मनुष्य ने अधिकृत्य मनुष्यस्य प्रयत्नत्वा दस्येया मारुकरकसमुद्घातासम्भवात् . तदेव पणामपि काट्यारिकाणा समुद्घाताना मारुभोजयन्त्यत उरुकर्यतो वा यावत् प्रमाण क्षेत्रमात्मविशिष्टैः पुद्गलै र्येययोग सौदारिकादिशरीराद्यत्मगत रापरितं प्रवति तावत्प्रमाणमावेदित , सम्प्रति केवलिस्समुद्घातविधी ययास्वरूपे यावत्प्रमाणस्य क्षेत्रस्यापूर्ण सुवजायते तथास्वरूपेः पुद्गले स्तावत्प्रमाणस्य क्षेत्रस्या पूर्णमजिधिरसुराह-अणगाररक्षणं जते । इ

समडएण वा विगहेण एवइकालस्स फुहे । तेणं जते । पोगला केवइकालस्स निच्छुजइ ? गोयमा !
जहन्नेणवि उक्कीनेणवि अत्तोमुज्जत्तस्स । तेण जते ! निच्छुहा समाणा जाइं तस्य पाणाइ न्नुयाइ जीवाइ
सत्ताइ अजिहणंति जाव उदुवति तनुण जते ! जीवे कइकिरिए ? गोयमा ! सिंय तिकिरिए सिंय चउ
किरिए सिंय पचकिरिए । तेण जते । जीवा ताउ जीवाउ कइकिरिए ? गोयमा ! एवचेव । सेणं जते !

तमुद्भूतं । ते प्रदत्त विविधा सतो यानि सत्र प्राणानि जूयानि जीवानि सुखानि अजिग्रन्ति यावत्पद्मावयन्ति तस्यो जीय . कतिजिय ?
गीतम । स्यात्तजिय स्यात्तुक्किय . स्यात्तुक्किय । ते नदत्त । जीवास्तेस्यो जीवेस्य कतिकिया . ? एवं चैव । स नदत्त । जीवस्तेच जी

१ समय वेसमय त्रणसमय विग्रहगति एतलोकाल त्रणफले । एवतिकालरम फडतेणं भते परगल केवतिकालरम निच्छुभति । एतलोकात्तफरुभते
मगवन् पुद्गल केतनोकात्त पटय फलम नहो । गीतमा अहन् गति उजीमगति अतीमहुत्तरस . गीतम अद्यत्तपिण उरुकरपिण अंतमेहत्तं कालहुवे । तेण
भते परगला निष्कूटासमाणा कति तस्य पाणाः भाइ लीयाः गुन इ । तेमगवन् . पुद्गलनोक्तनैयके च तिसा प्राण भूत जीव मल्लेने । अमिच्छपति
जाय उद्वेति ततेण भते जीवे कति किरिया । उद्वेसोत्तमा अयादा जानगे उद्वेते जीवो भगवन् केतनी तिया । गोयमा सियतिफिंसियचंसिय
प० तेण भते जीवानो कतिकिरिया । गीतम किवारे निजिग विवारे उ किवारे भते भगवन् जीवने केतलो तियाइवे । गोयमा एव चैव सेण भते

देशपूर्वोणा तत्रापि केषांचिद्विवाहारेकलब्धिर्मता न औपाकां त्रिवाहारेकसमुद्धानामारप्रसांशा अर्पयत चरुर्षती वा यथोक्तप्रमाणमायासत-
 सेत्रमात्मपदेशविशिष्टं पुद्गले राष्ट्रयत्वेकस्या दिशि ननु विदिशि प्रयवान्तरविशेषा दात्मपदेशादयत्वेप पुद्गले राष्ट्रयत्वे न च ते प्रयवान्तर
 मारजन्ते प्रयोजनाभावात्, गम्भीरत्व चेति, आहाररक्तसमुद्घातगतोपि च कोपि काल करोति विग्रहेणषाव्यद्यते विग्रहयोक्तव्यत त्रिसामयि
 क इति ॥ एगदिसि स्वशप खेत्ते अफुत्ते तथा एगसमय्य या इत्युक्तं तथा मनुष्याणामेवायमाहाररक्तसमुद्घात इति षतुयंयतिदरुक्तचिन्तो

एव जाव वेसाणियस्स नत्ररं पचिटियतिरिक्कजोणिस्स एगदिसि एवतिए खेत्ते अफुत्ते । जीविण जत्ते ।
 आहारगसमुग्घाएण समाहए समोहणित्ता जं पुगले निच्छुन्नड तंहीण जत्ते । पांगलेहि केन्नडए खेत्ते
 अफुत्ते केन्नडए खेत्ते फुत्ते १ गायमा । सरोरप्यमाणमित्ते त्रिक्कजयाहल्लेण आयामेण जहन्तेण अगुलस्स
 अस्सेज्जडभाग उक्को० खंज्जाइ जोयगाइ एगदिसि एवतिए खेत्ते एगसमडएण वा दुसमडएण वा ति

रीरंपमाणमात्र विक्कमवाहल्लत्ते आयामेन अपव्याताहुनस्सावशयेयं प्रागमरुक्पत्तं सस्येयानि योजतान्तेकदिशि इयस्सेय एकसमयेन या हि
 समयेन वा त्रिसमयेन वा विग्रहणयत्ता कायन स्पृष्ट । तान् नदत्तं पुद्गलान् किमता फालन विचिपति १ गौतम । अपव्यताप्युरकपंतोप्य
 कोपियस्य एगदिसि एवत्यखल्ल अफुत्त २ । एवमप पचेद्व्य तिच्छयागिया ० कदिशि एतलोसय अफुत्तसे रडे २ । लोचय भते पाहारगसमवाएय
 समोहण समोहणित्ता । जीवन वेमगन्नु पाहाररक्तमहत समोहणान । जे पुग्गले निक्कभट्ट । जे पुग्गले बाहिर काटे । तदिष भत परान्तिदि के
 वदएखेत्ते अफुत्ते केन्नडएखेत्ते फुत्ते, तज्जन वेमगवन् पुग्गल वं लाचय अणफुत्तमे कागलो फुत्तम । गीयमा सरोरप्यमाणमत्त त्रिक्कमवाहल्लेण आयामेण ।
 जे गौतम सरोरपमाण मावाये कांम पचे १ वरुनपचे । जेन्नय अगन्नरम अम० वकासण । जवय अगुलना अरंख्यातमोभाग चरुत्त । सखिज्जार
 लोचयार एगदिसि एवतिएखेत्ते । सख्याता लोजनप्रमाण १ दिग एतलोचयेन इवे । एगसमएणवदु स० तिसं विगगहण एवतिक्कात्तरस्स अफुत्ते

अवस्त इति तेषा तैजसमुद्घातमारुमाणां जघन्यतोपि हेतुमायामतीहुलासंख्येयज्ञागप्रमाणं प्रवर्तते नतु सङ्ख्येयज्ञागमाने उक्तपर्यंतं सङ्ख्येय
योजनप्रमाणं तच्च जघन्यत उक्तपर्यंतोवा यथोक्तप्रमाणं क्षेत्र तियगुणेष्वेन्द्रियवज्जात्रा मे नस्थां तदिति वादादौ वा द्रष्टव्यं , तियगुणेष्वेन्द्रियाणां तु
दिद्वेषेथात्र युक्तिं प्राणुक्तैवानुसर्तव्या तथावाङ्-एव जहा वेडं द्वियसमुच्चाय इत्यादि ॥ तदेतं मुक्तं स्तैजससमुद्घातं सांप्रतमाहारकसमुद्घातं
प्रतिपिपादयिपुराह-अविणं जते इत्यादि ॥ एतच्च सूत्रं तैजससमुद्घातवद्वाचनोप नवर मयमाहारकसमुद्घातो मनुष्याणां , तत्राप्यधीतवतु

जहा नैरइयस्स । मणुस्सवाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स निरवसंस जहा झुसुरकुमारस्स । जीवेणं जते !
तैयगंसमुग्घाएणं समीहेए समीहेणित्ता जे पीगगले निच्छुज्जडं तंहेण जतं ! पीगगलंहे केवइयस्सेत्ते झ्यापुन्ने
एव जहेव वेडं द्वियसमुग्घाए तहेव नवर झ्यायामेण जहन्नेण झ्यगुलस्स झ्यसंखेज्जाइजागं सेसं तंचेव ।

जदत्त । तैजससमुद्घातेन समवहृत समवहृत्यान्तुलान्विच्छिपति तैजदत्तं पुद्गलं कियत्तत्रमापूणं , एव यथैव कियसमुद्घातं स्त
एव नवरमायामेन जघन्यतोहुलस्यास्येय जागं शेषं तच्चैव । एव यथैव नवरं पञ्चान्दियतियगोतिकस्यैकदिशि इयत्तत्रमापूणं ।
जीवो जदत्त । आहारकसमुद्घातसमवहृत समवहृत्य यान्तुलान्विच्छिपति तैजदत्तं । पुद्गलं कियत्तत्रमापूणं कियत्तत्रमापूणं ? गीतम । ज

वेमाणियां शिवसेसं जहा अमुरकुमारस्य । पचेन्दीतिर्यथोन्निकने निर्वशीपपणे, जिम नारकीनोपरे जाणिवो मनुष्यं वानञ्जत्तरं ज्योतिपो वेमा
निकं निर्वियेय जिम अमुरकुमारदुत्तिम जाणिवो । जीवेण भते तेयगसमग्घाणं समीहणं समीहणं जे पणखे निच्छुमइ । जीवने हेमगवन् तैज
ससमुद्घाते समीह्या समीहीने जे पुद्गलं वाहरं काटे । तादृशं भते पुद्गलं कियत्तत्रमापूणं पणखे एव जहेव ज्जेटाब्बयसमुग्घाणं तहेव एव अयामण
जइणं श्रेणुत्तं समं सेसं तंचेव ताव वेमाणियस्य । तेषं हेमगवन् पुद्गलं कियत्तत्रमापूणं स्वर्गं पणफरस्सो रइ इमं जिमहीज वेकियसमुद्घातं कइ
तिमशीलं जाणिवो एवियेयं वाहरपणे जघन्यं अजुनी पणखेतामोभागं शिवयाकतो तिमशीलं पाइलोपरे वेमाणिकसंके । एव यथैव कियदियतिरिस्स

शि नैरयिका इि परवशा अल्पद्वयश्च त्रियंगुष्वेन्द्रियाद्याल्पद्वय एव वायुकायिकां विविष्टचेतनाविकला स्तत स्तेषा वैक्रियसमुद्भूतमारणानां
 यदि पर तथा स्वनायादेवात्मप्रदशदगृहविनिगत स्तस्य द्यात्मप्रदशोभ्यो विस्त्रियपुद्गलाना च स्वभावतो नृश्रेणियमन नतु विश्रेणित ततो दि
 द्येव नैरयिकतर्यंगुषुचेद्रियवायुकायिकानामायामत क्षेत्र दृष्टव्य नतु विदिश, येतु जवनपतिथ्यस्तरव्योतिक्रमनिका मनुष्या य त्ते स्वेच्छाचा
 रिणो विशिष्टलिधिसम्पन्नाश्च त्रयान्ति तत स्ते कदाचि दप्रत्यक्षविशेषतो विदिश्यव्यात्मप्रदशाना दक्षं विक्रियत स्तत्र तेष्य आत्मप्रदेशेभ्य पुद्गला
 न् विक्रियतीति तयामेकस्या दिशि विदिश्य वा प्रत्येतथ, वैक्रियसमुद्घातगनय कोपि कालमपि करोति विश्रेण चोत्पत्तिदशमज्ञसम्पत्ति
 ततो विग्रहगतिसधिकृत्य कालानिरूपणार्थमाह-सेण जते । इत्यादि ॥ नदत्तं ह्यत्र विग्रहगतिसधिकृत्योत्पत्तिदश यावत् ॥ केवइकालस्त्विति ॥ तु
 तीयार्थे यतो कियता कालेनापूर्णं कियता कालेनादृष्ट जगदानाह-गोतम एकसामायिकेन वा त्रिसामायिकेन वा विग्रहेणापूर्णे स्पष्टमिति गम्य
 ते, किमुक्तं नवतीति विग्रहगतिसधिकृत्य मरणदेशादारण्योत्पत्तिदश यावत् ह्यत्रस्यापूरुण मुरुकपंत स्थिति समये स्वाप्यत तेन चतुर्थेनापि स

ण नते ! खेत्ते केवइकालस्स अफुं केवइकालस्स फुं ? गोयमा ! एगसमएण वा दुसमएण वा तिसम
 एण वा विग्गहेण एवतिकालस्स फुं नंस तचेव जात्र पचक्रिरियात्रि । एवं नेरइएणवि नवरं ज्ञायामि
 णं जहन्तेण अणुलस्स संखेज्जइजाग उक्कीतेण संखेज्जाइ जोयगाइ एगटिसि एवतिएु खित्ते केवइकालस्स

तेना पूर्णे कियता कालेन स्पष्टम् १ गोतम । एकसमयेन वा द्विसमयेन वा त्रिसमयेन वा विग्रहेण वा विग्रहेण यता कालेन स्पष्टम् । शेषलक्ष्णे वावस्य
 स्वक्रिया अपि । एव नैरयिकेनापि नवर सामयमेन जयत्यनोतुलम्य सङ्ख्ये जग मुरुकपंत सहयोगानि योजनानि एकदिशीयत् खेत्तं कियता

यथा मरोरण्यमाणमतं विच्छिन्नावापस्य पात्रात्तत्र चरुसाय प्रगल्भस्य यमः । इतीतम यरोरप्रमाणं साबाये विच्छिन्नावाहके आयाजपणे जघन्य य
 गृहनी भसंख्यातलोभाग । उदीषेणं सखिच्छाद कायणाइ एवएए खेत्ते भकइ एवाय खेत्ते केवइकालस्स एवएए खेत्ते

शीघ्रं सञ्चयेति । तदेव मुक्तौ मारुतान्तिकसमुत्थान साम्प्रत वैक्रियसमुत्थानतमन्त्रिधिसुराह-जीविण वैश्विष्ये इत्यादि ॥ प्राग्गतु नवरमायामत
 उरकपत सरयेयानि योजनानि यतश्च वायुकायिकवर्त्रं रयिकाशुपेक्षया द्रष्टव्यं, तांश्च वैक्रियसमुत्थानतमन्त्रिधिसुराह-जीविण वैश्विष्ये इत्यादि ॥ प्राग्गतु नवरमायामत
 त सशयेयान्येव योजनान्युत्कपतो प्यात्मप्रदशाना दशमभारचयन्ति नासरयेयानि योजनानि, वायुकायिका स्तु जपन्त्यत उरकपतो वा अद्भुला
 सशयेयानां तावत्प्रमाणां शोक्तपतो दशमभारचयन्त स्तावत्प्रदेशे तेजसादिदारीरपुद्गलान् कालप्रदशान्यो विद्विषन्ति तत स्तै पुद्गले ज्ञतं चैत्र
 मायामत उरकपतोपि सशयेया-येव योजनान्यशायन्ते, यतश्चैत्र तत्रप्रमाणकेवलं वैक्रियसमुत्थानतमन्त्रिधिसुराह-जीविण वैश्विष्ये इत्यादि ॥ प्राग्गतु नवरमायामत
 यसमुत्थानतमन्त्रिधिसुराह-जीविण वैश्विष्ये इत्यादि ॥ प्राग्गतु नवरमायामत
 याव दायामलेश्वरसवैय तावत्प्रमाणं कृत्रापूर्णं मरणमुपस्थिते कथमप्युत्कृष्टं प्रदशानं त्रिषासायिकन विग्रहेकोरपात्तदश सनिगच्छति तदा सत्यासीतान्यपि योजनानि
 उरकपतो वा यथोक्तप्रमाणासायामलेश्वरसवैय विना विद्विष्ये वा द्रष्टव्यं, तत्र तैरैरयिकाणा पचेद्विरयतिरथा वायुकायिकानां च नियमादिकदि

उच्चियसमुत्थाएण समोहए समाहणिता जे पोगल निच्छुत्तइ तहिण पोगलेहि केवडए खेत्ते व्यापुन्ते
 केवडए खेत्ते फुत्ते १ गोयमा । सरिरप्यमाणमेत्ते विखनवाहत्तेण व्यायामेण जहखुणं अगुलस्स सखेज्जाइ
 ज्ञाग उक्कोसेण सखेज्जाइ ज्ञोयणाइ एगदिसि विदिसि वा एवडए खेत्ते व्यापुन्ते एवतिए खेत्ते फुत्ते । से

समवदस्य यान्मुद्गलां विद्विषयति ते पुद्गले क्रियत् शेषमापूर्णं क्रियत्स्वपष्टम् ? गीतम् । शरीरप्रमाणमात्रम् विक्रमती वाह्यत्वस्था यामेन ज
 घन्तेनाहुलसङ्घेयनाग मुरकर्वत सङ्घेयानि योजनानि एकादिशि विदिसि वा अथदक्षेत्रमापूर्णं नियतक्षेत्रं स्पष्टम् तद्गन्तम् । क्षेत्रं क्रियता का
 पपणे कश्चिन् । जात्रेण भते वैश्विष्यसमुत्थाएण समोहए समोहविषयाः । जीवने हेमगवत् वैक्रियसमुत्थातने समोहे समोहोने । जेपुगले निष्कुमद
 तेषिण भते पुगलेहि केवडए खेत्ते फुत्ते । जेपुह्व वादिर खाटे तेदने हेमगवत् पुद्गलक्षेप पणफरसो रवे खेतलो जेव फरसे । गी

शि नैरयिका हि परवशा अल्पद्वयश्च तियंग्पञ्चेन्द्रियाद्याल्पद्वयं एव वायुकायिको विज्ञाप्येचेतनाविकला सत स्तेषां वैक्रियसमुद्घातमारणानां
 यदि पर तथा स्वभावादेवात्मप्रदेशदण्डविनिगत सस्य आत्मप्रदेशोऽस्यो विशिष्यपुद्गलाना च स्वभावतो नृश्रेणिगमन नतु विशिष्यित ततो दि
 श्येव नैरयिकतियंग्पञ्चेन्द्रियवायुकायिकानामायामत क्षेत्र द्रष्टव्य नतु विदिशः, येतु प्रवनपतित्यन्तरत्योतिकषमानिका मनुष्या च ते स्वेच्छाघा
 रिणो विशिष्टलिखिसम्पन्नाश्च भवन्ति तत स्ते कटाचि तप्रयत्नविज्ञोपतो विदिश्यप्यात्मप्रदशाना दक्र विविपित स्तत्र तेस्य आत्मप्रदेशोऽस्य. पुद्गला
 न् विशिष्यतीति तयामेकस्या दिशि विदिशि वा प्रत्येतथ, वैक्रियसमुद्घातगतश्च कोऽप कालमपि करोति विग्रहेण चांत्पत्तिदेशमज्ञिसर्प्यति
 ततो विग्रहगतिसधिकृत्य कालान्तरणार्थमाह-सेण जते । इत्यादि ॥ जदत्त क्षेत्र विग्रहगतिसधिकृत्योत्पत्तिदेश यावत् ॥ केवडकालस्वसि ॥ व
 तीयार्थे पठो कियता कालेनापूणे कियता कालेनापूणे जगवानाह-गीतम एकसामाधिकेन वा त्रिसामाधिकेन वा विग्रहेणापूणे स्पष्टमिति गम्य
 ते, किमुक्त भवति विग्रहगतिसधिकृत्य मरणदेशादारज्योत्पत्तिदेश यावत् कृत्यापूरण मुरकपंत खिति समये स्वाप्यत तेन घटुर्थेनापि स

ण जते ! खेत्ते केवडकालस्स अफुंते केवडकालस्स फुंते ? गोयमा । एगसमएण वा दुसमएण वा तिसम
 एण वा चिगहेणं एयतिकालस्स फुंते नंस तचेव जात्र पचकिरियाचि । एवं नेरडएणवि नवरं अयायमि
 णं जहन्तेण अणुलस्स सखेज्जाइजाग उक्खीतेण सखेज्जाइ एगदिसि एवतिए खित्ते केवडकालस्स

तेषां पूणे कियता कालेन स्पष्टम् ० गौतम । एतसमयेन वा द्विसमयेन वा तिसमयेन वा विग्रहेणे यता कालेन स्पष्टम् । शेषत्तच्चैव यावत्प
 च्चक्रिया अपि । एव नैरयिकेनापि नवर मायासेन लघयतोऽनुचस्य सङ्केप जाग मुरकपंत सहयेयानि योजनानि एकदिशीयत् क्षेत्र कियता

यमा मरीरपमाणसंत्तं किल्ल वापुसंत्तं पाग, म्मेण जहन्तेण अणुलस्स पसं । इतीतम यारारप्रमाण. जात्रये विक्खवावुत्थे आयासपणे लघत्थ अ
 युक्खो न संख्यातनीभाग. उक्खीतेणं च विक्खाइ कायफाड एगदिसि एवए खित्ते अफुंते एवए खित्ते केवडकालस्स अणुंते केवडकालस्स फुंते । एतज्ज

शेषं सथेवेति । तदेव मुक्तौ मारणात्किञ्चमुत्पातः साध्यत वैक्रियसमुत्पातमारभ्यराह-जीविण वेवद्विये इत्यादि ॥ प्राग्बत् नवरमायामत उरकपत सख्येयानि योजनानि यतश्च वायुकायिकवर्जं रिक्याद्यपेक्षया द्रष्टव्यं, तेषु वैक्रियसमुत्पातमारभ्यमाणा स्तथाविधप्रयत्नविशेषोपात्राव त सख्येयान्येव योजनान्युत्कथनो प्यात्मप्रदेशानां दशप्रकारयानि नासख्येयानि याजनानि, वायुकायिका स्तु ज्ञापय्यत उरकपतो वा अद्भुला सख्येयज्ञान तावत्प्रमाणां चोरकपतो दशप्रकारयानि स्तावत्प्रदेशे तेजसादिद्वारोपरद्रव्यान् आत्मप्रदेशान्यो विक्षिपन्ति तत स्तु पुद्गले ज्ञत ज्ञेय यसमत्पातमधिकृतो मरणमुपस्थिते कथमप्युत्कृष्टे प्रदक्षानं विषासायिकन विश्वेकोर्यपितदश सज्जगच्छति तदा सत्यातीतान्यपि योजनानि याव दायामल्लेखमवसेय तावत्प्रमाणां कृत्वापूरण मरणमुत्कृष्टप्रयत्नसमूहव मिति सदापि न विवक्षित ॥ यकटिस विदिस वा इति ॥ तज्ज्ञापय्यत उरकपतो वा यथोक्तप्रमाणसायाससज्जगत्कस्या विदित्वा विदित्वा वा द्रष्टव्यं, तत्र नैरपिकाया पचेद्वियतिरथा वायुकायिकानां च नियमादिकदि

उद्विद्यसमुत्पादण समोहण समाहगिज्ञा जे पोगल निच्छुनड तहिण पोगलेहि केवडए खेत्ते आपुन्ने केवडए खेत्ते फुन्ने १ गीयमा । सरिरप्यमाणमेत्ते विरकनवाहत्तेणं आयामेण जहसुण अगुलस्स सखेज्जाड ज्ञाण उक्कीसेण सखेज्जाइ जोग्याड एगदिसि विदिसि वा एवडए खेत्ते आपुक्के एवतिए खेत्ते फुन्ने । से

समवहत्य यान्युद्गलां त्विजिपति ते पुद्गलेः कियत् संव्रमाणं कियत्सपुम् १ गीतम् । शरीरप्रमाणमात्रम् विप्रकृतो बाह्यत्वतया यामेन ज घनोनाहुलसङ्घेयज्ञाग मुदकपतः सङ्घेयानि योजनानि एकादिज्ञि विदित्वा वा इत्यक्षेत्रमाणुषे नियतत्रेण स्पृष्टम् तद्गदरत् । क्षेत्र कियता का पपणे कश्चिद्वी । जावेण भते वेद्वियसमुत्पादण समोहण समोहणसा । जीवने जेमगदन् वेकियसमुत्पातने समोहे समोहोने । जेपुगले निच्छुमद

तेदिएण भते पुगवेदिं वाइए खिस सफुंटे वाइए खेत्ते फुंटे । जे पुद्गल वादिर काटे तेदने जेमगदन् पुद्गलसंघ यथफरसो रथे केतवो घेन फरसे । गो

सामायिकेनेति न प्रणते नैरयिकाणा मूकयंतोपि विश्वस्य त्रिसामायिकत्वात्, ते च त्रयः समया एव प्रवृत्ति । इह कश्चिन्नैरयिको वायव्यां
 दिशि वतंसो प्ररतक्षेत्रे पूर्वस्या दिशि त्रियंग्पञ्चेन्द्रियतया धीतिपरसु, प्रथमतसमय ऊर्ध्वभागच्छानि द्वितीयसमये वायव्या दिशि पश्चिमदिशा
 तृतीये तत्र पूर्वदिशामिति, एवमसुरकुमारो दिशेषु त्रिसमयत्रयहंभावात् कार्या ॥ सप्त संवत्त्र जाव पर्वकारियाव इति ॥ शेष सूत्र
 तदेव वेदनासमुद्रपातगतम्-तेश्च ज्ञते योगला केवइकालेश्च निच्छुन्नति गायमा जहन्नेति अतोमुहुत्तस्स उक्तोसगवि अतोमुहुत्तस्स रथादि ॥
 तावद्वक्तव्य यावदस्तिम पद पञ्चकारियाव इति, असुरकुमारविषये अतिदेशमाह-असुरकुमारस्स जज्ञा जीवपदे इति ॥ यथा सामान्यतो जीव
 पदे प्रैदित तथा, असुरकुमारस्याप्यभिधातव्य सतावता किमुक्त भवति यथा जीवपदे आयागत छेत्र जघन्यतोदुनाऽसख्ययज्ञागमात्र उदकपंतो
 ऽस्रथेयानि योजनानि तथात्रापि वक्तव्य कथ जघन्यतोदुलासथेयज्ञागमात्राभिर्तथे दुच्यत-इहासुर, य इज्ञानदेवपयंला पृथिव्यद्युवनस्पतिषु
 पुरपद्यन्ते ततो यदा कोप्यसुरकुमार सक्तिष्टाध्यवसायी तत्कुण्डलाद्यैकदेशे पृथिवीकायकत्वेनातिपरसु संरणसमुद्रपात मादधाति तदा जघन्य
 नायागतः क्षेत्र महुलासथेयज्ञागप्रमाण मवाप्यत इति, यथा जीवपदे इत्युक्त ततात्रापि विग्रहगति यतु सामायिक प्राप्नोति तत आह-
 तवर विग्रहस्त्रिसामायिको यथा नैरयिकस्य शेषसूत्र तदेव य त्सामान्यतो जीवपदे नागकुमारो दिशोतदेश माह-जज्ञा असुरकुमार, इत्यादि ॥
 यथा असुरकुमारो ज्ञितमेव नागकुमारोऽप्यु ताव द्दक्तव्य याव ह्यमानिकवियय मूत्र, नवर मेकेन्द्रिये पृथिव्यादिरूपे यथा जीवे सामान्यतो जी
 वपदे तथा निरवशेष वक्तव्य किमुक्त भवति-यथा जीवपदे चतु सामायिकोपि विग्रह उक्त, तथा पृथिव्यादिषुपि पञ्चसु, स्थानेषु वक्तव्य,

तत्रैव जहा असुरकुमारे । एवं जाव वेमाणि ए नवरं एगिदि ए जहा जीवे निरवसंसं । जीविणं ज्ञते ! वे

नैरयिकस्य शेष तत्रैव यथासुरकुमारस्यैव यावद्वैमानिको नवरमेकेन्द्रिय यथा जीवो निरवशेषम् । जीवो जदन्त । वैक्रियसमुद्र पातसंभवत्

३ समयतो त्रिम नारकोने वाकतो पाहकोपरं जालने असुरकुमारसो इम जाहग वेमानिकपदक, कश्चिवा शोधय एकान्द्रिय जोवपदोपर निर्विय

सम फुडे इति ॥ एतावता कालेनापूर्णेमेतावता कालेन स्पष्टमिति ॥ सेष तत्रैव जाव पञ्चकिरिए इति ॥ अत ऊर्ध्वे शेष तदेव पूर्णे ॥ तेषु अत्रे पुशला विच्छुद्धा समाया जाई तस्य पाखाइ इत्यादि ॥ यावत् पचकिरियावि इति पदं, तदेव सामान्यतो जीवपदे मारणात्किं कसमुद्यता चिन्तित सम्प्रत्यनमव घतुर्विज्ञातिदहककमेव चिन्तयन् प्रथमतो नैरयिकातिदेशमाह-एवमित्यादि ॥ एव सामान्यजीवपदइव नैरयिकपि च क्तस्य नवरमय विज्ञाप सामान्यतो जीवपदे क्षेत्रमायामतो जघन्येनाकुलासखेयज्ञागमान मुक्त इहतु जघन्यत सर्वातिरेक योजनसहस्र किमिति कारणमिति च दुष्यते-इह नैरयिका नरकादुहृता स्वत्रावत एव पञ्चेन्द्रियतंत्र्येषु मध्ये उपपद्यन्ते मनुष्येषु वा तेनात्र सर्वजघन्यचित्तावा इति किं यते, ततो यदा पातालकलयसमीपवर्त्तो नैरयिक पातालकलयमध्ये द्वितीये त्रितीये वा विज्ञाने मरस्यतोत्पद्यते तदा पातालकलयशक्तिरिजा या योजनसहस्रमानत्वात् यथोक्तजघन्यमान नातोपि न्यूनतर कथञ्चनेति उच्यते यानि योजनानि धानि सप्तमपृथिव्यांगतनारकादि चया ज्ञावनीयानि कश्चिदोपसहारमाह-एगदिसि शयइय इत्यादि ॥ एकस्या दिशि जघन्यत उत्कर्षतश्च यथावदनलरोक्तप्रमाण क्षेत्रे मापूणेमेता वत् क्षेत्रे स्पृष्ट विद्युद्गतिमपिकृत्य विशेषमाह-विगण्डेणत्यादि ॥ विगण्डेण पूर्वस्पृष्ट वा वक्तव्य मेकसामायिकेन द्विसामायिकेन त्रिसामायिकेन वा तच्चैत रसामान्यतो जीवपदेप्युक्त लरकोत्र विद्येय सतत्रमाह-नवर चरसामान्यजीवपद इव चतु

चेत्र जाव पचकिरियावि । असुरकुमारस्स जहा जीवपदे नवर विगण्डो तिसमइत्त जहां नैरइयस्स सेसं

नवा नवर चतु सामयिकेनवेति न त्रयते ज्ञाप तच्चैव यावत्पञ्चकिया अपि । असुरकुमारस्य यथा जीवपदे नवर विगण्डेण त्रिसामयिको यथा एतलोचैव मारखे चरकटी चसख्यातायोजन प्रमाण एकटिमि एतनाच्चत्र त्रयस्त्रयै एतलोचैव एतलो विगण्डे एकसमये टांसमये तीनसमय एविशेष ४ समय न कश्चो शेषयावतो पाखलोपरं जानगे ५ क्रिया । असुरकुमारस्य जहा जीवपदे नवर विगण्डो तिसमइत्त जहा केरःयस्य सेस तत्रैव जाव च

असुरकुमारि एव जाव वेमापिए श्वर एगिटिए जहा जीवा तदा निरवशेष माषि० । असुरकुमार जिन जीवपदे तिम जाषिवा एविशेष विप्रहगति

। टीका ।

। मूल ।

। ५० ।

। भाषा ।

नासमुद्घातमधिकृत्य चिन्तितं स्यात् नैर्यिकीपि चिन्तयितव्यो नवर जीवाञ्जिलापस्थाने नैर्यिकीञ्जिलाप कर्तव्य, यथा शेरशृणं जते वेप
यासमुग्घाएण समाह्वयिता एव नैर्यिकीकतेन प्रकारेण शोषयपि स्थानेषु स्वस्वाञ्जिलापपूर्वं निरवशोपं ताव हक्तव्य याव द्वैमानिकी वैमानिका
लाप तदेवमुक्तो वेदनासमुद्घात, सम्प्रति कपायसमुद्घात समानवक्तव्यत्वा दांतदेशतो जिचितसुराह-एव कपायसमुग्घाते वि ज्ञाणियव्यो
इति ॥ एव वेदनासमुद्घातगतन प्रकारेण सामान्यतो जीवपदे षतुर्विंशतिदण्डकक्रमेण च कपायसमुद्घातोपि वक्तव्य सर्वैव-जीवण जते ।
कपायसमुग्घाएण संभोदयिता जेषुगले निच्छुहः ॥ यान् पुद्गलान् शरीरान्तर्गतान् कपायसमुद्घातवशासन्यप्रयत्नविशेष स्वशरीरा द्वारि
त्सप्रदेशेष्वपि विशिष्टान् करोति ॥ तद्विण जत । पुगलहि केवइय खेतं फुडे ० गोयमा । शरीरप्यमाणंते विक्लजवाइक्षण नियमा छद्विचि
एवइय खेतं अफले एवइय खेतं फुठं ॥ कपायसमुद्घातोहि प्रथम उद्भवति त्रसजोवाना तेषामंब तीव्रतराध्यवसायसम्भवा देकन्धियाणा तु पूर्व
जवानुत्पत्ति त्रसजीवा च त्रसनाइया न ततो यंहि-त्रसनाइया च व्यवास्थिन स्वशरीरप्रमाथविक्रमावाहृत्य देव मात्मविशिष्टे पुद्गले जृत पहाद
सु निष्कृतमवश्यमुपपद्यते इति नियमा छद्विसिमितपुक्त ॥ एवइयखेत अफुल एवइय खेतं इत्यादि ॥ सर्वे समान, सम्प्रति मरणसमुद्घातम
जिचितसुराह-जीवण जते मारणतियसमुग्घाएण मिन्यादि ॥ जीगो एमिति पूर्ववत् जदत्त कथि म्मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहृत्य च यान्
पुद्गलान् तेषसादिशरीरान्तगतान् ॥ निच्छुजइ इति ॥ विशिपति आत्मप्रदेशेष्वपि विविष्टान् करोति तं जदत्त पुद्गले कियत् क्षेत्र जृत जगवा

वै त स जाव वैमाणिए । एवं कपायसमुग्घाजिचि ज्ञाणियव्यो । जीवण जते ! मारणतियसमुग्घाएणं समो

घातोपि शिक्तव्य । जीवो जदत्त । मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहत समवहत्य यापुद्गलान् विशिपति तं पुद्गले कियत्क्षेत्रमापूर्णं कि
जीवेष भंते मारणतियसमुग्घाएण समोहणद ममोत्रिगना जे पुकते पिच्छुभ- । जीव हेभगवन् एजममेये मारणातिकसमवहते समोद्याने समोहे स
मोहीने ज पुद्गल विक्षेपकरे । तद्विष भते पुगलहि केवइयखेत अफुल केवइयखेतं फुठ । तेहने हेभगवन् पुद्गल केतलेखेन फरसे केतलेखने फरसा विना

हातगतपरितान् जीवान् अत्रस्थानिप कर्मचारयेइति स्थानि यमपिक्त्य पञ्चमी, यमयस्यं, क्त वेदनासमुद्घातगत जीवमपिक्त्य कति
 क्रिया प्रज्ञा, जगदानाह-गीतम । स्यान्निक्रिया यदा न कान्चि तस्यावाधा मृत्पादयितु प्रत्रविभव स्या चतु क्रिया यदा त परिताप
 यन्ति द्रव्यते गरीरेण स्पञ्जमाना परितापता वृथिकादय स्यात्पञ्चक्रियति आत्रतादयि व्यपरोपयन्ते सिद्धाय प्रत्यक्षत गरीरेण स्पञ्जयमाना
 जीविता च्छ्यावयन्त सर्पादय इति, सम्प्रति तत्र वेदनासमुद्घातगतेन जीवेन व्यापाद्यमाने त्रींशे यंस्य जीवा व्यापाद्यन्ते येषान्ते जीवि व्यापा
 द्यमाना वेदनासमुद्घातगतेन जीवेन व्यापाद्यन्ते तानपिक्त्य तस्य वेदनासमुद्घातपरिगतस्य तेषा च समुद्घातगतजीवसम्बन्धि पुद्गलस्पृष्टाना
 जीवाना क्रियानिरूपणार्थमाह-संज्ञा जते जीवे तय जीवा इत्यादि ॥ सो चिकते वेदनासमुद्घातगतो जीवा य परस्परघात क्षत परस्पर
 घातेन कतिक्रिया प्रज्ञा १ जगदानाह-गीतम । स्यान्निक्रिया इत्यादि पूर्वव ज्ञावयितव्य, समसेव वेदनासमुद्घातमुक्तेन प्रकारेण नैरपि
 कादिपु चतुर्विंशतिस्थानेषु चिन्तयन्नाह-नैरइण जते । इत्यादि ॥ सब जहेवत्यादि ॥ सब मुक्तेन प्रकारेण यथैव प्राक् सामान्यतो जीवो वेद

रिया वि । णेरइरण जते । वेदणासमुग्घाण समोहए एव जहेव जीवे नत्रर णेरइयान्जिलावो एव निर

जीवास्तो जीवात् (त वेदनासमुद्घातगत जीवमपिक्त्यर्थ,) कतिक्रिया, गीतम । स्यान्निक्रियाः स्याच्चतुक्रिया श्यात्पञ्चक्रिया
 स (अपिक्त्य) जीवस्तैव जीवा अन्येया जीवाना परस्परघातेन कतिक्रिया, गीतम । त्रिक्रिया चापि चतुक्रिया चापि पञ्चक्रिया चापि
 नैरपिको जदन्त । वेदनासमुद्घातेन समवहृत सब यथैव जीवो नत्रर नैरपिकान्जिलाप एव निरवज्ञोप यावद्वैमानिक । एव कयापसमुद्घ

तिक्रियादि वचनिक्रियावि पर्चाकरियावि । जेगीतम ३ क्रिया १यण ४ क्रिया पिण ५ क्रिया । णेरइयाण मते वेद्यथासमुग्घाण एव समोहए एव जहेव
 जीवे एवर णेरइयाभिलावो एव निरवसेस ज्ञाव वमानिण एव ज्ञानायममवाचोवि भावियव्वी । नारकीने जेमभवन् वेदनासमुद्घात समोह्यायके र
 म त्रिमहोज जीवपद तिम जापिबो एविगेष नारकीनोपरे कव्वो इस निरवज्ञोपणे जाळये वैमानिकमणे इस कयापसमुद्घातने पाळीपरे कदिवो ।

तगतो जीव कतिक्रिय प्रश्न प्रगथानाङ्गीतम सिय तिकिरिए इति ॥ स्याच्चैव कथञ्चिद्विद्वि रकदाञ्चि जीवा नधि कश्येत्थ्यै, त्रिक्रिय किमुक्त प्रवति यदा न केपाञ्चि स्वर्था परित्वापन जीवित्ता अपरोपणं वा करोति तदा स्वयथाक्रिय स्व' यदापि के पाञ्चि त्परितापमरु वा पादयति तदापि येपा नाथाथा मुत्यादयति तदपेक्षया त्रिक्रिय ॥ सिय चतिकिरिए इति ॥ केपाञ्चि त्परितापकरणे तदपेक्षया चतु क्रिय इति, केपाञ्चि दपद्रावणे तदपेक्षया त्रिक्रिय ॥ सिय चतिकिरिए इति ॥ केपाञ्चि त्परितापकरणे तदपेक्षया चतु क्रिय इति, केपाञ्चि दपद्रावणे तदपेक्षया पञ्चक्रिय इति, सम्प्रति सदेवाचकतवेदनासमुहातगत जीवमधिकृत्य तेपा वेदनासमुहातगतपुरुषपुद्ग लक्षणा जीवाना क्रिया निरूपयति-तेषु ज्ञते इत्यादि ॥ ते वेदनासमुहातगतपुद्गलजीवश्चः कथिति पूर्ववत् जदन्त जीवा स्ततो वेदनासमु

तेहितोणं जते ! से जीवे कतिकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए सिय चतिकिरिए सिय पचतिकिरिए ।
तेणं जते ! जीवा तल जीवाञ्च कतिकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया सिय चतिकिरिया सिय पचतिकिरिए ।

(पुद्गलेभ्यः) च जीव कतिक्रिय : गीतम । स्यात्तुक्रिय स्यात्तुक्रिय स्यात्तुक्रिय । ते (वेदनासमुद्पातगतपुद्गलजीवश्चः) जदन्त

मुद्गलं प्रमाणञ्च ते हेमगवन् पुद्गल विस्तार ते चयवाले त रष्टवच तिहा प्राणी वेदिय तेदिय चौरिदिय भूतवनसत्यादि जीव पचेदिय सत्त्व सर्वाणि भाटादि साहमा पावता हवे वाटे प्रदेशेषवावे चूराव विगरे कलसे साहोसाहि एकठा करे चघटायेविग्रेय 'पोडे किलामना मूछा पमाडे जीवने ज्ञा र करे तेदयको ते हेमगवन् हिवे ते जीव वेदनामय जीव ते एकवचने काळा क्रियाकरे । गोयमा सिय तिकिरिए सिय चतिकिरिए सिय पचतिकिरिए । इगीतम चिवारे तोन चिवारे गग चिवारे पाचिकियाकरे । तेण भते जीवा ताचो जीवाओ कतिकिरिया । ते हेमगवन् जीवने वदृश्वने केत नौ क्रिया काद्वे । गोयमा सिय तिकिरिए सिय चतिकिरिए । हेगीतम चिवारे तोन चिवारे पाचिकिया करे । सिकेणेषु भत जीवे तौस जीवाच पचिसि जीवाच परंपराषाएण कतिकिरिया । तेमाट हेमगवन् जीव तेकोवने जगराजीवने परंपराघातकरो केतनो क्रियाकरे । गोयमा

प्यक्तमुहूर्तस्य केवल मनान् बृहस्पतस्य सम्बन्धिनः विधिपति किमुक्त प्रवति ये पुद्गला जघन्यत उत्कर्षत शान्तमुहूर्तंयायत् वेदनाजननसमयां तान् तथा तथा वेदनात् सन् स्वज्ञारोगतान् स्वज्ञारोग स्वज्ञारोगा विशिष्टान् विशिष्टान् यथा त्यक्तटाह्वरपीडित सन् सूक्ष्मपुद्गला प्रत्यक्षविद्यु चेतोदिति ॥ तेषां प्रते इत्यादि ॥ ते शमितपूर्ववत् प्रदत्त पुद्गला गिचिष्ठा सन् शरीरयन्त्यासयन्था या ॥ चाइ तदर्थेत्यादि प्राकृतत्वात् । पुरत्वपि नपुसक्तान् यान् तत्र वेदनासमुत्पत्त्यागतपुरुषसस्पृष्टे ष्ट्रे प्राणान् द्विविधतुम्हिन्यान् अह्नोटीकामक्षिकादीन् ज्ञतान् यनस्पतीन् बीधान् पञ्चोन्म्रियान् शृङ्गोचिकास्यार्दीन् शोषपायत्रीकायिकान् अजिग्रन्ति अजिमुखमागच्छतो ज्ञानि यतंपयन्ति तान् कुर्वन्ति तत्र यन्ति मगाक् स्पशन्ति पातयन्ति परस्पर तान् सप्तमापन्नान् कुयन्ति सहृदयान् अतीतसङ्घातविशेषमापादितान् कुर्वन्ति परितापयन्ति पीडयन्ति सूक्ष्मोपन्नान् कुर्वन्ति । अपद्रोवयन्ति शीविताद्यपरोपयन्ति तस्य पुद्गलेन्य तथा प्राणादीनां विषये प्रदत्त सोचिकृतो वेदनासमुत्पत्त्या

अतीमुज्जत्तस्स उक्खोमैणधि अतीमुज्जत्तस्स । तेण ज्ञते । पोग्गला निच्छुद्धा समाणा जाड तत्य पाणाइ जूवाइ जीवाइ सत्ताइ अजिहणति वत्तति लेसति सयायति सवहति परितावति किलावति उह्ववति ।

तत्र प्राणानि ज्ञतानि शीवानि सत्यान्वजिग्रन्ति वतयन्ति लेशयन्ति सङ्घातयन्ति सहृदयानि परितापयन्ति क्षामयन्ति अपद्रोवयन्ति तस्य वेदन जघन्य यायपहस्य प्राकारो जरी ए विविधमज्जते नो जान अणफरसे द्विवे विपहगति । ४ । ५ । समय प्रमाथ इवे पिय वेदनासमुत्पत्त्या प्राये पहरतो उदोरणाने वस्स लपजे तेमाट अणफस्थानीकाल ए फस्थानाकाल एतत्कालान फरसे नही एतत्कालान फरसे । तेषभते पगल केवइकाल ए निच्छुभवइ । ते हेभगवन पदल केतलेकाल वेदनायाय्य पुद्गलवेन चैवकाल इवे । गोयना जड० अतीमुहत्तस्य उक्खोसंघ अतो० । हेगोतम जघन्य ए तमुहूर्तसमया एरकृट पिय अत्तमुहूर्तं प्रमाथ चव । तेषभते पगले निच्छुट, समाणा जाइ तत्य पाणाइवा भुगाइ सत्ताइ अभिहणति रत्त ति ससेति सवाएति सवहएति परितावेति किलावेति उह्ववेति तद्विती तथ भत से अइकिरिए । हेगोतम जघन्य अत्तमुहूर्तसमया एरकृट पिय अत्त

क्षेत्रं निरन्तरं विग्रहगती जीवस्य गतिमधिकृत्या पूर्णे स्पष्टं च लभ्यते इति जगवानाह-गीतम । एकसमयेन वा विग्रहेण किमुक्तं भवति स्पष्ट-
 मयेन वा द्विसमयेन वा विग्रहेण यावन्मात्रं क्षेत्रं व्याप्यते इयदूरं यावत् स्वशरीरप्रमाणविक्रमवाहयक्षेत्रं वेदनाजन्ययोग्ये पुद्गले राः पूर्णं ज्ञत
 जीवस्य गतिमधिकृत्य व्याप्यते तत गतद्रुतं मुक्तकर्मतं त्रिसासायकन विग्रहण यावन्मात्रं क्षेत्रं मन्त्रिव्याप्यते यथावदात्मनि विग्रहे वेदनाजननयो
 ग्ये पुद्गले राः पूर्णं लभ्यते इति इह चतुःसामयिकश्च विग्रहो यद्यपि सम्भवति तथापि वेदनासमुद्घातं प्रायः परोदीरितवे
 दनावशात् उपजायते परोदीरिताश्च वेदना शसनाद्युदा व्यास्यतस्य नयन्नि स्वसनादीव्यवस्थितस्य च विग्रह उरुत्कर्षतां पितृ त्रिसामयिक इति उरुत्क
 र्षतां पितृ त्रिसामयिकेन विग्रहेणैत्युक्तं न चतुःसामयिकेन पञ्चसामयिकेन चरति, उपसहस्रसामयिकेन एव इकालस्य फुडे ॥ एता
 यथा उरुत्कर्षतां पितृ त्रिसमयप्रमाणेनत्यर्थं, कालनापूर्णेनतावता कालेन स्पष्टं किमुक्तं भवति विग्रहगता दुरुत्कर्षतां यावत् त्रिभिर्ज्ञेन च

समये यावन्मात्रं व्याप्यते इयती सीमामन्त्रिव्याप्य स्वशरीरप्रमाणविक्रमवाहयक्षेत्रं वेदनाजननयोग्ये पुद्गले राः पूर्णं ज्ञत जीवस्य गतिमधिकृत्य
 व्याप्यते इति, अथवा ॥ केशवकालस्य सति ॥ पण्डित व्याख्येयाः तत स्वशरीरप्रमाणविक्रमवाहयक्षेत्रं वेदनाजननयोग्ये पुद्गले राः पूर्णं ज्ञत
 विग्रहगतिमधिकृत्य कल्पित कालस्य सम्बन्धि कल्पित काल यावदाप्यत इत्यर्थं, जगवानाह-एकसमयेन द्विसमयेन वा विग्रहेण
 पूर्णे स्पष्टं लभ्यते इति वाक्यज्ञेयं, तत गतावता उरुत्कर्षता त्रिसमयप्रमाणस्य कालस्य सम्बन्धि यथोक्तप्रमाणे क्षेत्रं वेदनाजननयोग्ये पुद्गले
 राः पूर्णं यथावता कालस्य सन्त्यन्ति स्पष्टं भवति, सम्प्रति यावन्त काल वेदनाजननयोग्यान् पुद्गलान् विधिपति तावत्कालप्रमाणं प्रतिपादनाय
 माह-तेषु जने इत्यादि ॥ तान् वेदनाजननयोग्यान् पुद्गलान् क्षमितिवाक्यालङ्कारे प्रदन्त । परमसुखयोगित्वात् पुद्गलान्
 कल्पित कालस्य सम्बन्धिनी विधिपति कियत्कालवेदनाजननयोग्यान् विधिपतीतिप्रावः, जगवानाह-अथन्यताप्यन्तमुद्गलेस्य सम्बन्धिन् उरुत्कर्षतां

परोदीरणसमावात तत्र च पङ्क्तिस्तथा इति नियमात् छदिसि मित्युक्त मन्थना ॥ सिय त्तिदिसि सिय चउदिसि सिय पचदिसि नित्याद्युप्युच्ये ते । यत्र स्थशरीरप्रमाणाविक्रमनाहृत्यनेव सत्रमापूर्णं स्पष्टं च विश्रङ्गती जीवस्य गतिमधिकृत्य क्रियदूर याव द्रव्यति क्रियन्त च काल मित्येति किरुपवायंमाह-सण जते । इत्यादि ॥ नपुंसकत्वे च पुंस्त्व प्राकृतत्वात् ततद्यानन्तरोक्तप्रमाणं खमितिप्राणत् प्रदत्त । सत्र इति, कालस्स इति प्राकृतत्वात् तृतीयार्थे पृष्ठी, क्विपता कालाया पूर्णं क्रियता कालेन स्पष्ट किमुक्त प्रवति क्रियत काल यावत् स्थशरीरप्रमाणविक्रमनाहृत्य

बडण फुडे ? गीयमा । शरीरप्रमाणमित्ते चिरकनवाहत्वेण नियमा लदिसि एत्रतिण खेत्ते आपुन्ने एत्रतिण खेत्ते फुडे सेण जते । खित्ते केवतिकालस्स फुडे ? गीयमा । एगसमएणवा दुसमएणवा विग्गेहेण एवडय कालस्स आपुन्ने एवडकालस्स निच्छुनड ? गीयमा ! जहन्त्वेण

स्पष्टम् ? गीयम । शरीरप्रमाणमात्रम् विक्रमतो वाहृत्यन्य नियमापकृदिति इयत् क्षेत्रमापूर्णमित्यत्र स्पष्टम् । तद्भदन्त । इत्र किं यता कालेन स्पष्टम् ? गीयम । एकसमयेन वा द्विसमयेन वा विद्यते यता कालेनापूर्णमितया कालेन स्पष्टम् । तान् प्रदत्त । पुद्गलान् क्विपत कालस्य (सयथिन) विच्छिपति ? गीयम । जययेयान्तमुद्गलस्योरुर्ज्वाव्यन्तमुद्गलस्य । ते प्रदत्त । पुद्गला विच्छिप्ता सन्तो यानि

ते हेमभवन् पुद्गल केतल चैत्रकरो च । फरस्यो रडके कतन्नेत्रे फास्योरुडै न्नी । गीयमा शरीरप्रमाणेत्ते विश्रभवास्पष्टे नियमा छदिसि उत्रडप खेत्ते फुड एवडणखेत्ते प्रफड । हेगीयतन शरीरप्रमाणना नात्रागे नात्रपणे विहन्पणे छान्ति व्यापे तथा पलीक समोप तथा खनोकनिधेय विल्लवता । ३ । ४ । ५ । डिगिय चफफत्ते डीजीदिसि फरसे इम यतल चैत्रे फरसे । ३ । ४ । ५ । डिगिय टलागे । सेण भते खेत्ते केवडकालस्य अफुडे केवडकालस्स फडे । ते हेमभवन् जालोकाल चैत्र फरसे केतलाकाल चैत्र न फरमे । गीयमा एगसमयेणवा एममएणवा तिसमएणवा विगड्ढेण प्रवडण कालस्य अफुडे एवडयवावस्स फुडे । हेगीयतम एकसमय विश्रसनय विग्रहयति ते स्सु, त्रिपसनय जतल्लेचिन् व्युपीसके तेतल्लो लानपणे विहसपणे चैत्र

छुन्नसि ॥ विधिपति आत्मविशिष्टान् करोतीत्यर्थ ॥ ते पुद्गले जियत्क्षेत्र मापूणे ध्यापूणेत्व मपान्तराले क्रियदाकाशप्रदेशासं
 स्पर्शनेपि व्यवहारत उच्यते तत आह-यत्क्षेत्र स्पष्ट प्रतिप्रदेशापुरणेन ध्याप्त एव गीतनन प्रश्न कृते सति जगदानाह-शरीरेत्यादि नियमा नि
 यमन ॥ व्यदिसति ॥ पदादिशो यथापुरा स्पञ्जनेन पट्टिक् तद्यथा प्रवति सव विक्रमतो विस्तरेण बाहुल्यत पिण्डित शरीरप्रमाण यावत्प्रमा
 ण स्वशरीरस्य विक्रमो यावत्प्रमाण च बाहुल्य यताबन्धात्रमापूणं स्पष्टवेति वाक्यशय , एतदेव निगमनद्वाराणां-एवङ्गम् यत्ते अफुले सवङ्ग
 रते फुडे इति ॥ इह वेदनातिशयात् वेदनातिशयश्च लोभनिकुटपु जीवाना न प्रवति निरुपद्रवस्थानवर्तित्वा तेषां किंतु त्रसनाडना अत एतन्न

या पन्नता , तजहा-वेदना० कनाय० मारणतिय० वेडञ्चियसमु० तेयगसमुग्घाए । मणुस्साण कड्ढ ठाड
 मलिया समुग्घाया पन्नता ? गोयमा । ठ ठाडमलिया समुग्घाया पयत्ता , तजहा-वेदनासमुग्घाए
 कसायसमु० मारणतियसमु० वेडञ्चियसमु० तेयगसमु० आहारगतसमुग्घाए । जीवेणं जत्ते ! वेदनासमु
 ग्घाएणं समोहए समोहणिता जे पोगगले निच्छुजड तेहिण जत्ते ! पोगगलेहि केवत्तिए खेत्ते च्यापुन्ने के

नाकषायमरखैक्रियतैजससमुद्घाता । मनुष्याणा कति व्यावस्थिका समुद्घाता ? गीतम । पट् तद्यथा-वेदनाकषायमरखैक्रियतैज
 साहारकसमुद्घाता । जीवो जदन्त । वेदनासमुद्घातसमवदत- समवदत्य यान्मुद्गला त्विच्छिपति तै पुद्गले-क्रियत्-चेत्रमापूणे क्रिय
 कषाय मारणतिय वेडञ्चियसमुग्घाए तयसमुग्घाए अमव्याखं यस्का वेदना कषाय मारणातिक वैक्रिय तेजस ५ इधे मनुष्यतो प्ररन । गोयना छत्र
 मलियासमुग्घाएणं प० तं० । इगीतम व्यस्यसमुद्घात कथा ते कहेके । वेयथा कषाय मारणातिक वेडञ्चिय तेय आहारगतसमुग्घाएण । वेदना क
 षाय मारणातिक वैक्रिय तेजस आहारकसमवदत इ । जीवाणभते वेयणासमुग्घाएण समोहयाण सनोहयत्ता । इधे जीवने जेभगवन् वेदनासमुद्घाते
 समोद्घा यथा समोहने । ते पुण्णं निच्छुभवत्तेण भते पुण्णवेहि केवत्तेण खेत्त अफुटकेरए खिते फुटे । पके पुडव अ समुद्घातके ते विक्रत कडिये

यो वैदिकियसमुद्घातसहिता श्रुत्यार तेषा वादपर्याप्ताना वैदिक्यलियसवतो वैदिक्यसमुद्घातस्यापि समागतं पचेन्द्रियतियं ग्यो निजाना
 नाहारकसमुद्घातवर्जो जेषा पञ्च द्याव्यास्थिका समुद्घाता यस्याहारकसमुद्घात मतेषा न समजात चतुदशपूर्वाधिमात्रावत स्तेषामा
 धारकलव्यसम्भवात्, मनुष्याणा पत्रापि मनुष्येषु सवनावसम्भवात्, तदेव यात यथा द्याव्यास्थिका समुद्घाता स्नाति तेषा निरूपिता नम्र
 ति यस्मिन् समुद्घाते वत्तमानो यावत्तनेत्र मन्त्र्यातवजन स्त्री २ पुद्गले व्याप्नोति तदेत निरूपयति ज्ञोवण प्रते । इत्यादि ॥ जीर्णो यस्मिन्
 वाक्यालङ्कारे वेदना यस्मिन् समुद्घाते वत्तमानो यस्मिन् समवृत्तो प्रवर्ति चनवद्व्यथ यान् पुद्गलान् वेदनायोप्यान् स्वतरोरालगंतान् ॥ वि

वेदहियं तेयसमुद्घाए । एणिदियत्रिगलिदियाण पुच्छा, गीयमा । तिन्नि ठाउमलिया समुद्घाया प०,
 तजहा-वेदणा० कसाय० मारणतिय० नवर त्राउकाडयाण चत्तारि समुद्घाया पणत्ता, तजहा - वेदणा०
 कसाय० मारणतियस० वेदहियसमुद्घाए । पचिदियतिरिस्कजोणियाण पुच्छा, गीयमा । पच समुद्घा

पुच्छा, गीतम । पच समुद्घाता श्वाव्यास्थिका प्रज्ञासाक्षद्या-वेदनाकपायमारणान्तिकवैदिक्यतेजसमुद्घाता । मकैन्द्रियविकलेन्द्रि
 याणा पुच्छा, गीतम । प्रयव्याव्यास्थिका समुद्घाता प्रज्ञासाक्षद्या-वेदनाकपायमारणान्तिका । नवर वायुकायिकाना पत्वार समुद्घा
 ता प्रज्ञासाक्षद्या-पदनाकपायमारणान्तिकवैदिक्या । पचेन्द्रियतियं ग्यो निकाना पुच्छा, गीतम । पच समुद्घाता प्रज्ञासाक्षद्या-वेद

कसाय मारणतिय वरविवय तेवप्रमुद्घाण एमिदिय त्रिगलिदियाण पुच्छा । वेदना कपाय मारणातिक वेदितेजसमुद्घात द्विवे एकेन्द्रिय विकले
 न्द्रियतो मरुत । गीयमा तिण्णि छाउमलिया त० । ऐगीतम ३ कस्य ते कष्टे । वयथा कसाय मारणातिक । एवर वावकादयाण चत्तारि छाउम
 लिया तजहा । पर मविशेषे वाजकायाविषे ४ समदात कशा तक्कहं । वेजणा कसाय मारणतिय वेवविचय समुद्घाण पचिदियतिरिस्कजोणियाण
 पुच्छा । वेदना कपाय मारणातिक वैदिक्य द्विवे पचेन्द्रिय तियं ग्यो निकाना प्रत । गीयमा पच छाउमलिय त० । ऐगीतम ५ कस्य ते कशा । वेयण

त्यादि ॥ नैरयिकाणा माद्या श्रुत्यारो वेदनदिसमृद्धात् । तेषां तेजोलब्ध्याद्धारकलब्ध्यात् । स्तैजससमृद्धात् । अतुर
 कुमारदीना स्वेषामपि देवाना माहारकसमुद्घातवर्जा अप्या पञ्चसमुद्घाता स्तजोताद्व्यसम्भवो तेजससमुद्घातस्यापि सम्भवात् । यस्त्वा
 दारकसमुद्घात स तथा न सम्भति षट्शूर्वाधिगमाज्ञावतो प्रथमत्याच्च तेषा माहारकलब्ध्यात्वात् वायुकायवर्णकेन्द्रियविकलेन्द्रिया
 णा माद्या यदनकायायमर्यादलक्षणा स्य समुद्घाता स्तेषा यैक्रियाद्धारकतेजोलब्ध्यात्वात् स्तसमुद्घातासम्भवात् । वायुकायिकाना पूर्वै न

समुग्धाया पयत्ता, तजहा-वेदणासमुग्धाए कसायसमुग्धाए सारणतिय० वेदद्विय० तेयग० द्युहाहारग
 समुग्धाए । णेरडयाण जते ! कड ळाउमलिया समुग्धाया पयत्ता ? गोयमा । चत्तारि ळाउमलिया
 समुग्धाया पयत्ता, तजहा-वेदणासमुग्धाए कसाय० सारणतिय० वेदद्वियसमुग्धाए । अतुरकुमारारण
 पुच्छा, गोयमा ! पच समुग्धाया ळाउमलिया पयत्ता, तजहा-वेदणासमुग्धाए कसाय० सारणतिय०

तसमग्रता अवश्येयगुण । कति जदन्त । छाद्यस्थिका समुद्घाता प्रज्ञा ? गीतम । पद् छाद्यस्थिका समुद्घाता प्रज्ञासास्तद्यथा-
 वेदनासमुद्घात कसायसमुद्घातो सारणान्तिकसमुद्घाता वैक्रियसमुद्घातस्तेजससमुद्घात आहारकसमुद्घात । नैरयिकाणा जदन्त ।
 कति छाद्यस्थिका समुद्घाता प्रज्ञा ? गीतम । चत्वारिच्छाद्यस्थिका समुद्घातास्तद्यथा-वेदनाकपायमर्याद्वैक्रिया । अतुरकुमारारणां

वे । वेदणासमुग्धाया कसाय० सारणतिय० वेदद्विय० तेय० आहारग० । वेदनासमुद्घात कपायसमुद्घात सारणान्तिकसमुद्घात वैक्रिय
 समुद्घात तेजससमुद्घात आहारकसमुद्घात । चैरद्याण अते कड छत्रमलिया समुग्धाया प० । दिवे नारकोने हेमगवन् कोतला छत्रम्यममहात क
 या । गोयमा चत्तारि छाउमलिया त० । हेगौतम ४ छत्रस्य कडके । वेदणां कसाय सारणतिय वेदद्वियस० अतुरकुमारारण पुच्छा । वेदनासमहात क
 यसमुद्घात सारणान्तिकसमुद्घात वेदयसमुद्घात असुडकुम, र्णा पयत्ता । गोयमा पच छाउमलिया प० त० । हेगौतम ५ छत्रस्य जज्ञा तेद्वेये । वेदणा

या जीवा नवरं सकृत्पुनरुद्भवात्पेक्षया समवहता मानसमुद्भवात्तेन समवहता असत्येयगुणा यकथा , सम्प्रति कतिञ्चात्स्यिका समुद्भवा इति निरूपणार्थमाह-कश्च नते इत्यादि ॥ सुगत त्रय कति केया द्यात्स्यिका समुद्भवा इति चतुर्विंशतिदशककर्मण निरूपयति नैरुपपत्ति

पुढविकाडयाण पुच्छा, गोयमा । सद्द्वयोत्रा पुढविकाडया माणसमुग्धाएण समोहया, कोहसमुग्धाएण समाहया विसे०, मायासमुग्धाएण समोहया विसेसाहिया, लोन्नसमुग्धाएण समोहया विसेसा०, छस मोहया सखेज्जगुणा । एव जाव पचिदियतिरिक्कांणिया, मणुस्सा जहा जीवा नत्र माणसमुग्धाएण समोहया छसखेज्जगुणा । कतिण नते । ताडमलिया समुग्धाया पणत्ता ? गोयमा । त ताडमलिया

वंत्तोका पयिबीकायिका मानसमुद्घातसमवहता कोचसमुद्घातसमवहता विज्ञोपाधिना मायासमुद्घातसमवहता लोन्नस मुद्घातसमवहता विज्ञोपाधिका असमवहता सहयेयगुणा । एय यावत्पचन्निपतियंयोगिका, मनुया यथा जोवा नवर मानसमुद्घा

सर्वथोयीडा अमुरकुमार कोचसमुद्घात समाह्वा जाण्वा तेहथो मानकपाय सद्याता तेहथो जोभकपाय सद्यात गुण तेहथो असमोह्या असख्जा इन सर्व देवताना वेमानिकलगे द्विबे प्रथिवीकारगानी प्रयत्त । गोयमा सख्याया पुढगोडाया माणकपायस मुग्धाया समोहया कोहसमुग्धाया समोहया विसेसाहिया । हेभौतम सर्वथोयीडा पयिबीकाय मानसमुद्घात समोह्या जाण्वा तेहथो कीधसमट् घात पियेपविक्क । मायासमुग्धाय समोहया कोहसमुग्धाव समोहया विससाहिया असमोहया असख्जा । तेहथो मायासमुद्घात लोभसमु द्घात विज्ञोपाधिका तेहथो असमोह्या असख्यातगुणा एव जाव पचिदियतिरिक्कांणिया सख्खा खडा जोवा खवर माणसमुग्धाएण समोहया य सखिज्जा । इन यावत् पचिद्विवे तियस्योनिकलगे मनुयने निन जोवपटे क्खा तिम पर पवित्रेण मानसमुद्घाते समोह्या असख्यातगुणा कदिवा । कदप मते क्कवमलियसमुग्धाया प० । द्विबे केगला हेभगवन् क्कसससमुद्घात क्खा । गोयमा क्क क्कमल्य त० । हेगौतम ६ क्कसससमुद्घात ते क्क

टीका

मन्

१०० ।

मन्वा ।

ति, नैरयिकाका निष्टदृष्टसयोगाक्राणत प्रायो लोहसुसुद्धात स्ताव लोपपद्यते येषामपि वा केषां चिद्भ्रूति ते कतिपया इति शेषसुसुद्धा
तसमवृत्तापद्यया सर्वस्वोका असुरकुमारिण्यपाल्यवदुत्वाचिताया सर्वस्वोका कौचसमुद्धातसमुद्धात इति देवादि स्वप्नावतो लोचनदुला स्त
तो त्वेतरामानादिमत स्ततोपि कदाचिदकृतिपये कौचवत इति शेषसुद्धातसमवृत्तापद्यया सर्वस्वोका गव ॥ सद्देवा जाव वेमाण्येया इ
ति ॥ एव असुरकुमारगतेनाप्यदुत्त्वप्रकारेण सर्वदेवा नागकुमारादय स्ताव दृक्तव्या याव दृमानिका, पृथिवीकायिकचिन्ताया सामान्यजीवप
दे इव जावना जावनीया समानत्वात् ॥ एव पृथिवीकायिकोक्तम् प्रकारेण ताव दृक्तव्या याव त्रियंनप्ल्वेन्द्रिया मनुष्या य

जगुणा, कीहसमुग्घाएणं समोहया सखिजगुणा । असुरकुमाराण पुच्छा, गीयमा !
सखित्यो वा असुरकुमारा कीहसमुग्घाएण समोहया, माणसमुग्घाएण समोहया सखिजगुणा, मायासमु
ग्घाएण समोहया सखिजगुणा, लोचसमुग्घाएण समोहया सखिजगुणा । एव सद्देवा जाव वेमाणिया ।

गुणा मानसमुद्धातसमवृत्ता. सर्वयगुणाः कौचसमुद्धातसमवृत्ता सर्वयगुणा असमवृत्ता । असुरकुमाराणा पुच्छा,
गीतम । सर्वस्वोका असुरकुमारा कौचसमुद्धातसमवृत्ता मानसमुद्धातसमवृत्ता मायासमुद्धातसमवृत्ता सखियगुणा सर्वयगुणा
लोचसमुद्धातसमवृत्ता सर्वयगुणा असमवृत्ता । एव सर्वदेवा यादृमानिका । पृथिवीकायिकाना पुच्छा, गीतम । स-

एण समोहया सखिजगुणा असुरकुमाराण सखिजगुणा असुरकुमाराण सखिजगुणा । एतन् सर्वयगुणाः नारकी लोचकपाजनमुद्धात यमोद्याजगुणािवातेह्यो
मायाकपाज सख्यात तेह्यो नानप्ययमः यस्यात तेह्यो कौचसमवृत्ता सख्यात तेह्यो असमोहया सख्याता इति असुरकुमारानो प्र
इत । गीयमा गल्लोवा असुरकुमारा कौचसमवृत्ताएण सनाइग माणकमायसमुग्घाएण समोहया सखिजगुणा मायाकसायसमुग्घाएण समो
हया सखिजगुणा लोचकसायसमुग्घाएण समोहया सखिजगुणा असमोहया सखिजगुणा एव सर्वदेवा जाव वेमाणिया पुठ्ठीकारयाण पुच्छा । हेगीतम

निपता लभ्यते तेषोरकपपदं वि कषायसमुद्घातसमवृत्तापेक्षया ऽनन्तजागं वर्तन्ते तत स्त्रीका क्रोभ्यो मानसमुद्घातसमवृत्ता अनन्तगुणा अ न्ताना वनस्पतित्रीवाना पूर्वप्रयस्कारानुवृत्तितो मानसमुद्घाते वर्तमानाना प्राप्यमाणत्वात्, तेन्य क्रोपसमुद्घातेन समवृत्ता विशेषाधि का यानापेक्षया क्रोपिनो प्रचुरत्यात्, तेभ्यो मायासमुद्घातेन समवृत्ता विशेषाधिका क्रोप्यपेक्षया मायाविना प्रचुरत्वात्, तेभ्योपि लो ज समुद्घातेन समवृत्ता विशेषाधिका मायाविन्यापि लाजवता मतिप्रज्ञतत्वात्, तेभ्योपि कनाप्यसमवृत्ता सख्येयगुणा घतदृष्टिपि गतिपु म त्येक समवृत्तस्यो ऽसमवृत्ताना सदा सान्येयतया षडप्रप्राप्यमाणत्वात्, सिद्धास्त्वेकेन्द्रियापत्तया नलजागवर्त्तित इति त सतीपि न द्विविधि ता एतद्व्याख्ययदुत्व यतु विंशतिदशककमथ पित्तयत्राह-गणसिण्णमित्यादि ॥ सुगम नवर सर्वस्त्रीका नैरयिका लो जसमुद्घातेन, समवृत्ता इ

असमोहया सखेजगुणा । एणत्ति जने । णेरइयाण कीरसमुग्घाएण माणत्तमुग्घाएण मायासमुग्घाएण
 लो जनमुग्घाएण समोहत्राण अत्तसमोहयाणय कयरे कयरेहितो अत्तया ४ ? गायमा । सख्योवा णेरइ
 या लो जसमुग्घाएण समोहत्रा, मायासमुग्घाएण समोहया सखेजगुणा, माणत्तमुग्घाएण समोहया सखे

दुपातसमवृत्ता विशेषाधिका असमवृत्ता सखेयगुणा । एतेया जदत्त । नैरयिकाया क्रोचमानमायालो जसमुद्घातेन समवृत्तानामस मवृत्ताया च कतर कतरस्योऽल्पा वा ४ ? गीतस । सखस्त्रीका नैरयिका लो जसमुद्घातसमवृत्ता मायासमुद्घातसमवृत्ता सखेय साधिया असमोहया साखला । तेदो नोभकषाय विशपादि न तेदो असमोहया सखातगुणा । एणत्ति भते षेरइयाण कीरकषायसमुग्घाएण नापकषाय मायाकषाय कीरकषाय असमोहयाणय कतर २ इति त्रयावा ४ । एहन हेनान्वृ गारकीने कीरकषायसमुद्घातेन मान कषायसमुद्घात मायाकषाय कीरकषाय समोहाने अजमात्तया मादानादि लीता जिहा २ थो यावत् विशेषाधिक दुवे गुणोयसा सखस्त्रीका षेरइ या कीरकषाय समुग्घाएण समोहया मायाकषाय समुग्घाएण समोहया सखिजा कीरकषायसमुग्घा

रतेषा नदन्त । जीवानां क्रीडसमुद्घातेन मानसमुद्घातेन मायासमुद्घातेन लोभसमुद्घातेन च समवहृताना अकषाययोगेति कषायव्यतिरिक्तं त्रयेण समुद्घातेन समवहृताना मसमवहृताना च कतरे २ ज्योऽल्पावा बहवोवा ऽर्थवशा द्विजक्तिपरिणाम इतित्याया त्पचम्या. स्थाने वृत्तीया. परिणमनात् कतरे-कतरे स्तुल्यावा कतरे २ ज्यो विशेषाधिका सव गौतमेन पृष्टे भ्रगवानाह-गौतम । सवस्तोका जीया अरुपायसमुद्घातेन कषायव्यतिरिक्तं त्रयेण समुद्घातपटकेन समवहृता कषायव्यतिरिक्तसमुद्घातसमुद्घाताह क्वचि त्कदाचित् केनचिदेव प्रति


ण समोहयाण अकसायसमुघ्राण समोहयाण अ्यसमोहयाणं कयरे कयरेहितो अ्यप्पावा? ? गौयमा ! सख्योवा जीवा अ्यकसायसमुघ्राण समोहया माणसमुघ्राण समोहया अ्यगतगुणा कौहसमुघ्राण समोहया विसंसाहिया, मायासमुघ्राण समोहया विसंसा०

वैमानिकत्वे । एतया नदन्त । जीवानां क्रीडसमुद्घातेन मानसमुद्घातेन मायासमुद्घातेन लोभसमुद्घातेन समवहृतानामकषायसमुद्घातेन समवहृतानामसमवहृतानां कतरे कतरे ज्योऽल्पाया ? गौतम । सवस्तोका जीवा अरुपायसमुद्घातसमवहृता मानसमुद्घातसमवहृता अनस्तगुणा क्रीडसमुद्घातसमवहृता-विशेषाधिका मानसमुद्घातसमवहृता मायासमुद्घातसमवहृता विशेषाधिका लोभसमुद्घातसमवहृता वैमानिकपथे । एतसिण भते लीवाणं कांश्चसायसं माणकं मायाकं लोभकं । एतने हेभगवन् लोभने क्रीडकषायसमुद्घातेन मान कषाय सायाकषाय लोभकषाय । अकसायसं समोहयाण पसमांहयाणय कयरे २ इति भय्यावा ४ । अकषायसं समोह्याने अयसाह्याने किष्ठा २ यो मांशमाहि यावत् विशेषाधिक । गौयमा सख्योवा जीवा अकसायसमुघ्राण समोहया । हेगौतम सर्वथोयोवा जीव अकषायसमवहृता समो ह्या माणकसाय समुं समोहया अथ० । तेहथी मानकषायसमुद्घात समोह्या अनन्ता । कौडकसायनसुं समो० विसंसाहिया । तेहथो क्रीडकषाय मुद्घाते समोह्या विशेषाधिक । सायाकषायसमुं समोहया विसंसाहिया । तेहथो मायाकषाय विशेषाधिक । लोभकषायसमुं समोहया विसं

रेकत्वविषया कोषादिमुद्रपाता प्रत्येक चतुर्विंशतिदशकसूत्रे विचिचिता सम्प्रति तानेव नैरयिकादिवहुत्वविषयान् विचिचिन्तयिषु रिदमा
 र-नरइयाण जते । इत्याद ॥ नैरयिकाया प्रदत्त नैरयिकत्वे कियत कोषसमुद्रपाता अतीता प्रगवानाह-गीतम । अनन्ता अनन्तशो नैरयिक
 त्वस्य सर्वे जीवा प्राप्तत्वात् कियत पुरस्कृता गीतम । अनन्ता प्रथमसमयत्राविना मध्यं यद्गुनामनन्तशो नैरयिकत्व प्राप्तुकामत्वात् ॥ यामि
 त्यादि ॥ एव नैरयिकत्वेनात्रिलापप्रकारेण चतुर्विंशतिदशकसूत्रे यद्य निरन्तर तावद्वक्तव्य यावद्द्वैमानिकस्य वैमानिकत्वे वैमानिकत्वविषय सू
 त्र, तद्येव-वैमानिकाण जते । वैमानियत्ते केवइया कोइसमरचाया अतीता गीयमा । अणता केवइया पुरस्कृता गीयमा । अणता ज्ञातता प्राण
 वत्, यथाच कोषसमुद्रपाता सर्वेषु जीवेषु स्वस्थाने परस्थाने वा तीता प्रस्कृताज्ञानन्तवेनानता तथा मानादिस्समुद्रपाता अपि वाच्या ज्ञा
 याचाइ-एवमित्यादि ॥ एव कोषसमुद्रपातगतेऽ प्रकारेण चत्वारोपि समुद्रपाता सर्वत्रापि स्वस्थान परस्थानेषु या वक्तव्या यावद्द्वैजसमुद्र
 तो वैमानिकत्वविषय उक्तो जर्वात सर्वेव-वैमानिकाण जते । वैमानियत्ते केवइया लोचसमुद्रपाया अतीता गीयमा अणता कवइया पुरस्कृता गी
 यमा अणता सुगम, तदेव नैरयिकादिषुत्वविषया अपि कोषादिसमुद्रपाता प्रत्येक चतुर्विंशतिदशकसूत्रे चिन्तिता सम्प्रति कोषादिसनु
 द्याते कोषसमुद्रपातैश्च समवहतामसमवहताना परस्परमल्पयदुत्वमत्रिपित्सु प्रथमत सामान्यतो जीवविषय तावदाह-यमसिणमित्यादि ॥

एव सथाणपरथाणेषु य सव्य वि ज्ञानियञ्च सव्जीवाण चत्वारिन्नि समुद्रपाया जाव लोचसमुद्रपात्र
 वैमानियन्ति । एणसिण जत । जीवाण कोहसमुद्रपाण माणसमुद्रपाण मायासमुद्रपाण लोचसमुद्रपाण

ता ? एव यावद्द्वैमानिकत्वे, एव स्वस्थानपरस्थानेषु च सर्वत्रापि प्राणिन्या सर्वजीवानाम् । चत्वारोपि समुद्रपाता यावद्द्वैजसमुद्रपातो
 वैमानियत्ते एव सथाण परथाणेषु सव्य भाणि० । जेगीतम अनन्ता इम जालगे वैमानिक तालगे इम स्वस्थाननेविये सर्वेव कश्चिो । सव्वकीवाण य
 तारिस० जाव लोइकसायस० जाव वैमानियाण वैमानियत्ते । सर्वजीवने ४ समुद्रपातके कोवथीनाडो जालगे जामकपायसमुद्रपात ए ४ यावत् वै



शनता सुप्रतीता. पुरस्कृता कस्यापि न सति तत्र यो ऽमुककुमारश्चै प्रयतयती नच लोचनमुद्रयात् याता नापि तत् उद्दृष्टी
 न्नो व्यसुरकुमारस्त्व याता किं स्ववन्तरपारन्पयेण या सरस्यति तस्य न सति यस्य तु गतिं तस्यापि जघत्यन एको द्वी त्रयो वा उरकपत स
 ख्येषा असख्येषा यनस्ता स्तत्र गुक्तादय द्वीबायु अयाणा तद्भवन्नाजा प्रुय स्त्रीयानुव्यद्यमानाया सद्यगतया सख्ययादयो नैरयिकस्य च प्राय
 नीयाः, यमुरकुमारस्य नागकुमारत्वे ज्ञेयता प्राग्वत् पुरस्कृता कस्यापि न सा तत्र यो ऽसुरकुमारश्चै तत्रा दुद्दृता नागकुमारश्चै गता त
 स न सति जपस्य न सति यस्यापि सति तस्यापि स्या रसख्येषा स्या दसख्येषा स्यादतनता तत्र सकृद्नागकुमारश्चै प्राप्नुकामस्य सख्येषा
 जघत्यरियतावपि सख्येषां लोचनमुद्रयातामा ज्ञायात्, असख्येषान् वारान् प्राप्नुकामस्यासख्येषा यनतान् वारान् अतन्ता एव, यावत् सा
 नितकुमारश्चै, पृथिवीकायिकत्वे याव द्वैमानिकत्वं यथा नैरयिकस्य जगित तर्घव जगितय, यथसुरकुमारश्चै नागकुमारश्चैरपि ताव द्वक्त
 स्य याव रक्तनितकुमारश्चै वैमानिकत्वपि, वैम निकत्वविषय मूत्र तर्घव-पगमगस्सणं जन, यणियकुमारश्चै वैमायिकत्वे कजइया, लोचनमुद्रया
 या अर्हाता इत्यादि, एव ॥ एगमगस्सणं जते पुढविगाइयस्स नैरइयत्ते इत्याद्यपि सूत्र पूर्वोक्तनावनानुसाराण स्वय ज्ञावनीय तदव नैरयिकादे

सख्यजीवा अचुराई पंरइएसु लोचनकसाएण एगुन्नरिया णेयह्या । पंरइयाणं जते ! पंरइयत्ते केवइया कोह
 समुघाया अत्तीता ? गोयमा । अणता केवइया पुरेक्का ? गोयमा ! अणता । एव जाव वैमाणियत्ते

यिकेपु लोचनकपायनेकोत्तरिकया ज्ञातव्या । नैरयिकाणां जदला । कियत्त कोपसमुद्दाता गतीता ? गीतम । अनत्ता , कियत्त. पुरस्स

। जम कोधकपायनी यासावो कथा, तिम वड्ढो । अवर सद्यथावादि यसुरादि पेरइएसु लोचकसाएण पणुत्तारयो सेयववा । एभिणप गव्वेत्तीयाटिप
 दे नारकोत्तिये लोभकपायने जलावे एत्त ववारो कइणे । पेरइयाण भत पेरइयत्ते केववा कोइकसायसं चतीता । नारकोत्ते इभगवन् नारको
 पवे केतला कोधकपाय समुघात यतीतकाने पुवे । गावमा यववा केवइया पुरेक्का । इभोतम यनत्ता केतला पूर्वकृत । गावमा अणता एवजाव

प्रथं गतुं सस्येयां अश्वयेयां वारान् अश्वयेयां अनन्तवारान् अनन्ता , मनुष्यसूत्रे तु पुरस्कृतविषया प्रावना मूलत गवं यो नरकजवा दुहृते
 उपलोककपाय सन् मनुष्यजव प्राप्य लोचसमुद्रघातमगत्वा सिद्धिपुर यास्यति तस्य न सगित पुरस्कृता लोचसमुद्रघाता शोपस्य तु सति ,
 तस्यापि जयन्त्य गको द्वी त्रयो वा तेषु गक द्वी त्रीन् वा लोचसमुद्रघात प्राप्य सेतस्यन्ते , तै वेदितव्या सस्येयादय प्राग्ब ज्ञावनीया ॥ वाण
 मतरा जना असुरकुनारा इति ॥ यथा नैरथिकव्यासुरकुमारत्वे पुरस्कृतविषये सूत्रमुक्त तथा व्यक्तरेषुपि वक्तव्य किमुक्त जयति पुरस्कृतचित्ता
 यामेव वक्तव्य-जसह इत्यि कसह नस्य जस अत्यि सिय सये न सिय अतसज्जा सिय अगता इति ॥ नरयेकोत्तरिका वक्तव्या , व्यन्तरा
 या मव्यन्तरकुमारानिव जयन्त्यस्थितावपि सस्येयाना लोचसमुद्रघाताग जावान् ॥ जोडसियते इत्यादि ॥ ज्योतिशकत्रे अतीता अनता अन
 त्तयो ज्योतिशत्वस्य प्राप्त्यात् , पुरस्कृता कस्यापि सन्ति एत एमाग्ब ज्ञावनीय यस्याव तस्यास्ति कस्याचि दसस्येया कस्याचि दनन्ता नतु

जातुचित्तसस्येयाः । ज्योतिष्काणा जयन्त्यपदे व्यसस्येयवर्षापुक्तया जयन्ती व्यसस्येयाना लोचसमुद्रघाताना प्रावात् लोचसमुद्रघातत्वा ज्ञाते ,
 मय वैमानिकस्येपि पुरस्कृतचित्ताया यक्तव्य सदेव स्वस्थाने परस्थाने च लोचसमुद्रघात स्थित सस्येयसुरकुमारस्य न विचित्तपिपु रिद
 भाह-यमेगससगमित्यादि ॥ गककस्या सुरकुमारस्य नैरथिकत्वे लोचसमुद्रघाता अतीता अनन्ता नैरथिकत्वस्यानन्त प्राप्त्यात् , पुरस्कृता
 जयन्ति तस्य जयन्त्य गको द्वी त्रयो वा उरजयन्त सरयेया अश्वयेया आता तत्र सकृत्नरक गामिन गकादयो नैरथिकाणा मिष्टद्रव्यसयोगाज्जावत
 मायो लोचसमुद्रघातस्यासम्भवात् उक्तच मूलतैकाया-नैरथयाण लोचसमुद्रघाता योवाचेव प्रवति तेषामिष्टद्रव्यसयोगा प्रावतो गगादिसजव
 इति, सस्येयान् वारान् नरक गतु सस्येया, अश्वयेयान् वारान् अश्वयेया अनन्तान् वारान् अनन्ता , असुरकुमारस्यासुरकुमारत्वे उतीता

व्य उरुकर्यत सख्येया वा ऽसख्येया वा ऽनन्ता वा , तत्र सख्येयान् नरकजवमागामिन सख्येया असख्येयान् वारान् असख्येया अनन्तान् वारान्
 अनन्ता , तथा नैरियकस्यासुरकुमारत्वविषये अतीतसूत्र तथैव ज्ञावनीय , पुररुतसूत्रे-कस्सः अत्यि कस्सः नत्थिति ॥ यो नरकजवा दुहुतो
 नाऽसुरकुमारत्व प्राप्त्यति तस्य न स त्यसुरकुमारत्वविषया. पुररुता लोत्रसमुद्घाता यस्तु प्राप्त्यति तस्य सति, तत्र जघन्य पदे सख्येया जय
 न्यस्थिता वप्यसुरकुमाराणा सख्येयाना लोत्रसमुद्घाताना ज्ञावात्, लोत्रवदुलत्वा तथा उरुपदे सख्येया असख्येया अनन्ता वा तत्र असख्येया
 स्थिता वसकृष्णचन्यास्थितेषु दीर्घस्थितेषु वा उरुपदेसमानाना मत्रसेय , अनन्ता उरुपदेसमानाना अनन्ता , एव नैरियकस्य नागकुमारारदि
 पु नैरन्तरतावदृक्त्व याव रत्नानिसकुमारत्वे यथावाह-एव जात्र अणियजुमारसे ॥ पृथिवीकापिकत्वे ऽनीनसूत्र । तथैव पुररुताचिन्ताया
 तु कस्यापि सति कस्यापि न सति, तत्र नरका दुहुतो न पृथिवीकापिकत्व प्राप्त्यति तस्य न सति योपि गत्ता तस्यापि जघन्यपदे एको

द्वीवा उरुकर्यत सख्येया असख्येया अनन्ता वा तंघैव-तियंक्पचेन्द्रियजवा लोत्रसमुद्घातेन समुद्घन. सन् य उरुकारं पृथिवी गता
 तस्य एको द्वी वारी भतु द्वी त्रीन् वारान् गतु ख्य सख्येयान् वारान् सख्येया असख्येयान् वारान् असख्येया अनन्तान् वारान् अनन्ता ॥
 एव जाण मशूनसे इति ॥ एव पृथिवीकापिकतेनाजलापशोरत्र ताव दृक्तय याव लन्यत्वे तद्यत्र-यगभेगस्सण जते । नेरइयस्स आरुकाइ
 यते इत्यादि ॥ याव लन्यसूत्र तत्राप्येकापिकदिपनस्सपत्तिपयन्मंत्रनादना पृथिवीकापिकसूत्रं द्वीन्द्रियसूत्रे पुररुतचिन्ताया जघन्येन एको
 द्वीवा त्रयोवति , एत उरुद्वीन्द्रियजव प्राप्तकामन्यु, वेदितव्य उरुपदे असख्येया अनन्ता वा तत्र सख्येयान् वारान् द्वीन्द्रियजव प्राप्त
 कामस्य सख्येया असख्येयान् वारान् असख्येया अनन्तान् वारान् अनन्ता , एव द्वीन्द्रियचतुर्दिन्द्रियसूत्रेऽपि ज्ञावनीये , तियंक्पचेन्द्रियसूत्रवि
 पयात्वेव ज्ञावनी-सकल्पन्वेन्द्रियजव गतुकामस्य स्वजायत एवास्पलोत्रस्य जघन्यत एको द्वी त्रयोवा शेषस्य उरुकर्यत तियंक्पचेन्द्रिय

माणियतेवि प्राणियव । यगमेभरसणं प्रते । असुरकुमारस्व नरइयते केवइया लोजसमुघाया अतीता गोयमा अणता । केवइया पुरस्वळा गो
यमा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि अस्स अत्थि जइन्नण एकोवा दोवा तिननिवा सखेळा वा असलजा वा अणता वा । यगमेगस्वरु ज
ते । असुरकुमारस्व असुरकुमारत्ते केवइया लोजसमुघाया अतीता गोयमा अणता । केवइया पुरस्वळा गोयमा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि ज
स्व अत्थि जइन्नण एकोवा दोवा तिननिवा सखेळा वा असलजा वा अणता वा । यगमेगस्वरु जते असुरकुमारस्व नागकुमारत्ते
पुष्ठा गोयमा अणता । केवइया पुरस्वळा गोयमा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सलत्थि सिय असलजा सिय अणता । यय जा
व थणियकुमारत्ते । पुढविकाइयत्ते जाव वमाणियत्ते अहा नरइयस्व जणिय तइव जणियव । यय जाव थणियकुमारस्व वेनाणियत्ते । यगमेग
स्वरु जते पुढविकाइयस्व नरइयत्त केवइया लोजसमुघाया अतीता गोयमा अणता केवइया पुरस्वळा गोयमा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि ज

स्व अत्थि सिय सखेळा सिय असलेळा सिय अणता एव जाव थणियकुमारत्ते पढविकाइयत्ते अतीता अणता पुरस्वळा कस्सइ अत्थि कस्सइ
नत्थि जस्व त्थि जइन्नण एकोवा दोवा तिननिवा सखेळेण सलजा वा असलेळा वा अणता वा एव जाव नणुसत्त थाणमत्तरत्ते जहा असुरकु
मारत्त जोइसियत्ते वेमाणियत्ते अतीता अणता पुरस्वळा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सलत्थि सिय असलजा सिय अणता एव जाव नणुसस्व
वेमाणियत्ते ॥ थाणमत्तरस्व जहा असुरकुमारस्व ॥ यय जात्रमियवेमाणियात्थि ॥ अस्यायमय-नैरयिकस्व नैरयिकत्वे अतीता लोजसमुघाता अण
त्ता अतत्तगो नैरयिकस्व प्राप्त्यात् पुरस्वृत्तचिन्नाया कम्प चि त्थान्ति कस्सचि ज सन्ति तत्र य प्रथममया दूढे लोजसमुघातसमाम एव नरक
प्रया दुस्सृत्वा नत्तर पारस्पर्येण वा सेस्सति नव जूयो नरकगामी नचागतोपि लोजसमुघात गत्ता तस्य नैरयिकोपि पुरस्वृत्तो लोजसमुद्
पात आपस्व तु प्रावी तस्यापि कस्सचि द्वी कस्सचि जय एतच्च प्रथममया दूढमपि तद्भवजाजा सठवरकमेव मागाभिना वा वेदित

नां नैरियिकत्वे पुरस्कृतचित्तायां स्यात्सर्वयोः स्यादसर्वयोः स्यादन्तता इत्युक्तं । अत्र तु सर्वे जीवा असुरकुमारादयो नैरियिकेषु पुरस्कृतचित्
 त्यनाना एकोत्तरिकया ज्ञातव्याः, एकोत्तरस्य ज्ञातव्य एकोत्तरिका द्वेद्वेचौरादिस्योऽप्युक्तं इति चौरादिराहतिगणतया युजि, एको द्वौ त्रय इत्या
 दिरूपतया एकोत्तरतया इत्यर्थः, नैरियिकाणां निरतिशयत्वं सर्वेदनाजित्ततया नित्यमुद्दिनाना प्रायो लोचसमुद्घातासजघात्, नृशालापज
 यैव-एगमेगस्सण जते । नेरइयस्स नेरइयत्ते केवइया लोचसमुग्घाया अतीता गोयमा । कस्सइ अत्थि कस्स
 इ नत्थि जस्स अत्थि एगोवा दोवा तित्थिवा उक्खेण सखज्जावा अणत्तावा । एगमेगस्सण जते । नेरइयस्स अमुरकुमारत्ते कथइया लोचसमुग्घा
 या अतीता गोयमा अणत्ता केवइया पुरक्खहा गोयमा कस्सइ अत्थि जस्सत्थि सिय सखेज्जा सिय अणत्ता । एव
 जाय नेरइयस्स घणियकुमारत्ते । एगमेगस्सण जते नेरइयस्स पुठत्थिकाइयत्त केवइया लोचसमुग्घाया अतीता गोयमा अणत्ता केवइया पुरक्खहा
 गोयमा कस्सइ अत्थि जस्सत्थि जहनेण एक्को वा दोवा तित्थिवा उक्खेण सखज्जा वा अणत्ता वा एव जाय मण
 सत्ते । वाणमत्तरत्ते जहा अमुरकुमारत्ते एगमेगस्सण जते । नेरइयस्स जोइसियत्ते केवइया लोचसमुग्घाया अतीता गोयमा । अणत्ता, केवइया
 पुरक्खहा गोयमा कस्सइ अत्थि जस्सत्थि एक्को वा दोवा तित्थिवा उक्खेण सिय सखज्जा सिय अखेज्जा सिय अणत्ता, एव वे

एवं जहा वेयणासमुग्घात्तं जणित्तं तथा कोहसमुग्घातोवि चाणियद्धो निरसेस जात्र वेमाणियत्ते । माण
 समुग्घाए मायासमुग्घाएय निरवत्सेस जहा मारणत्तिसमुग्घाए । लोचसमुग्घात्तं जहा कसायसमुग्घात्तं नवरं

हाता अतीता ० गौतम । अन्ता । एव यथा वेदनासमुद्घातो प्रकितस्तथा कोचसमुद्घातोपि प्रकितयो निरयोप यायट्टेसानिकत्वे मान
 समुद्घातो मायासमुद्घातश्च निरवयोप यथा मारणत्तिकसमुद्घात । लोचसमुद्घातो यथा कपायसमुद्घातो नवरं सर्वत्रोवा असुरादिनेर

नागकुमारद्वया सहासपरदाशेषु आश्रित्युवा आद्य वैमाश्रितस्य वैमाश्रित्ये, अस्यायमर्थ - अतीतेषु सत्रेषु सर्वत्राप्यनन्तत्वं सुप्रतीत निरयिकत्वा
 दिव्यानां प्रत्येकमनन्तं प्राप्तत्वात्, पुररुतवचिन्तायास्त्वेव निरयिकस्य निरयिकत्वे ज्ञापना यो निरयिक प्रकाला दूहे मानसमुद्रघातमन्त
 रेण कारा छत्या नरकादुद्धृतो नन्तरपरस्परव्या वा मनुष्यजननवाप्य सत्स्यति न ज्ञयो नरकमागन्ता तस्य न सति पुररुता मानसमुद्रघाता य
 पुन स्नाद्वे वर्तनागे ज्ञयो वा नरन्मागत्येक वार मानसमुद्रघात गत्वा कालकरणेन नरकादुद्धृत्य संस्थति तस्यैक पुररुततो मानसमुद्रघाता य
 सधनेनसापि द्वी कस्यापि त्रय सुहृयान् गारान् नरकमागन्तु सहृया असहृयान् वारान् अनन्तान् वारान् असहृया मानसमुद्रघात ,
 सुरजुनारत्वे पुररुतवचिन्तायासिप ज्ञापना-यो नरकादुद्धृतो ऽधरकुमारस्य यास्यात तस्य न सति पुररुता मानसमुद्रघाता यस्त्वेक वार ग
 ता तस्य गता द्वी ज्ञापयो वा सस्ययान् वारान् गतु सस्यया असस्ययान् वारान् असस्यया अनन्तान् वारान् अनन्ता' एव तावद्भावनीय

याव त्तिर्यक्त्वेष्वेन्द्रियस्यै पुररुतवचिन्ता, मनुष्यचिन्ताया चैव ज्ञापना-नरकादुद्धृतो मनुष्यजन प्रप्य मानसमुद्रघातेन गत्या संस्थति तस्य ना
 रयेकापि पुररुततो मानसमुद्रघातो यस्तु मनुष्यत्व गत सत्यैक वार मानसमुद्रघात गत्वा तस्यैको परस्य हावन्त्यस्य त्र्यादय सहृयान् वारान्
 गन्तु सहृया असहृयात् वारान् असस्यया अनन्तान् वारान् अनन्ता' व्यन्तरज्योतिर्यैमाश्रितत्वेपु ज्ञापना यथाऽधरकुमारत्वे यथाच नैरपि
 कस्य निरयिकत्वादिपु पतुर्विंशतिस्थानेषु ज्ञापना कृता तथा ऽधरकुमारादीनामपि वैमानिकपयवसानाना पतुर्विंशतिदशकक्रमेण कतव्या य
 या य मानसमुद्रघातस्य पतुर्विंशतिस्थानेषु ज्ञापना कृता तथा ऽधरकुमारादीनामपि वैमानिकपयवसानाना पतुर्विंशतिदशकक्रमेण कतव्या य
 यत्नक्रमेण यत्कव्यानि मूल्यगमकत्वात्, अधुना एतेष्वसमुद्रघातवतिदशत आर-लोजसमुद्रघातो यथा कपायसमुद्रघात ॥ नवर चवृज्जीवा असुरा
 इंनेरदशमु लाञ्छकसायण एतुर्नारियाय नैयव्वा इति ॥ यथा माकू कपायसमुद्रघात एक स्त्रया लोञ्छकपायोपि वकव्यो नवर तनाऽधरकुमारादी

प्रगवानाह-अनता ऽनतशी ऽसुरकुमारजवस्थ प्राप्त्वात्, प्रतिजयं च क्रोधसमुद्घातस्य प्रायो ज्ञावात्, पुरस्कृतचिंतोयां कस्यापि सति क
 स्यापि न सति यस्य प्रश्नकालाद्दृढमघरकमारत्वेपि वर्तमानस्य न प्रावी क्रोधसमुद्घातो नापि उद्भूतो ज्ञूयो व्यसुरकमारत्व याता तस्य न सति
 य स्तु सकृदसुरकुमारत्वमागामी तस्य जघन्यपदे यको द्वीवात्रयीवा उदकपंत सख्येया असख्येया अनता वा सख्येयान् वारान् आगामिन सख्येया
 असख्येयान् वारान् असख्येया अनतान् वारान् अनता, एव चतुर्विंशतिदण्डककमेण नागकुमारत्वार्त्विषु, असुरकुमारस्य निरन्तर ताव दृक्तव्य-
 यावद्द्वैमानिकत्वेन तथाचाह-यद्य नागकुमारत्वे वीत्यादि ॥ तदेव मसुरकुमारेषु ऋषयसमुद्घात स्थित सम्प्रति नागकुमारद्विषतिदेशमार-यवमि
 त्यादि ॥ एत मुक्तनाजलापगतत प्रकारायया चतुर्विंशतिदण्डककमणा सुरकुमारो नैरयिकादिषु वैनालिकपर्यवसानेषु प्राणिन तथा नागकुमारा
 दय समक्षेषु स्वस्थानपरस्थानेषु जखितव्याः यावद्द्वैमानिकस्य वैमानिकत्वे आलापक, एवमेतानि नैरयिकपतुर्विंशतिदण्डकादिसूत्राणि वैमानि

कचतुर्विंशतिदण्डकपर्यवसानानि चतुर्विंशतिसूत्राणि धेदितव्यानि, तदेव चतुर्विंशतिदण्डकसूत्रे क्षीपसमुद्घात स्थित सम्प्रति चतुर्विंशत्येव,
 चतुर्विंशतिदण्डकसूत्रे मानसमुद्घात मायासमुद्घात चाजिधिसु रतिदेशमाह-मायासमुद्घाए मायासमुद्घाए निरवसस जहा मारणतियसमु
 ग्याए इति ॥ यथा प्राक् मारणान्तिकसमुद्घाते विहित सूत्र तथा मानसमुद्घाते मायासमुद्घात व निरुजोप मजिधातव्य, तथैव-एगमेगस्सण जते
 नैरइयस्स नैरइयत्तं केवइया माणसमुद्घाया अतीता गा० । अणता केवइया पुरक्खका गो० कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सत्थि एहणेण एक्कोवा
 दोवा तिज्जिवा उक्कोसेण सखेज्जावा असरेज्जावा अणताया। एवमसुरकुमारत्ते जाव वैमाणियत्ते । एगमेगस्सण जते । अमुरकुमारस्स नैरइयत्ते कथ
 इया माणसमुद्घाया अतीता गो० अणता केवइया पुरक्खका गो० कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सत्थि जहक्खण गक्कावा दोवा तिज्जिवा उक्कोसे
 ण सखेज्जावा असखेज्जावा अणताया, एव नागकुमारत्ते जाव वैमाणियत्ते एव जहा असुरकुमारत्ते नरइयाइवेमाणियपज्जवसाणंसु प्राणिय तरा

विद्यते, यस्त्वसकृद्भूमानिकर्त्तुं प्राप्नोति सन् सकृदेव क्रीडसमुद्रं प्राप्नोति याता तस्य जघन्यत एकीवा द्वीवा त्रयोवा शेषस्य सत्यातान् वारान् वेमा
निकत्व प्राप्यत उत्येया असत्येयान् वारान् असत्येया अनन्तान् वारान् अनन्ता ॥ एगमेगस्यमित्यादि ॥ प्रश्नसूत्र सुगम, गीयमा । अण
ता इति ॥ अनन्तशो नैरयिकत्व प्राप्तस्य एकैकस्मिन् नैरयिकजने जघन्यपदेपि सत्येयाना क्रीडसमुद्रं घाताना प्रावात्, पुरस्कृता कस्यचि रस
न्ति कस्यचित न सन्ति किमुक्त जघति शो उरुक्रुपारजवा दुहृहो नरक यास्यति किं त्वनन्तर परस्परया वा मनुज्यन्नवमवाप्य संरस्यति तस्य
नैरयिकत्वाप्यज्ञाद्विन पुरस्कृता क्रीडसमुद्रं घाता न सन्ति नैरयिकत्वावस्थाया एवासम्भवात्, यस्तु तद्वा दूहे पारस्पर्येण नरकगामी
तस्य सन्ति तस्यापि कस्यचि रसत्येया कस्यचि रनन्ता स्तत्र य, सकृजघन्यस्थितिकेषु नरकमध्येयु समुत्पस्यते तस्य जघन्यपदेपि सत्येया दशा
वर्षसहस्रप्रमाणायासपि स्थितौ सत्येयाना क्रीडसमुद्रं घाताना प्रावात्, क्रीडकडुलत्वा कारणेण मसकृद्दृष्ट्यित्यु सकृद्वा गमने सत्येया अ
नन्तशो नरकगमने अनन्ता, तथा एकैकस्य प्रदग्ता सुरुमारत्वे त्यितस्य सत सकृत्सतीतकालमपिकृत्य कियत क्रीडसमुद्रं घाता अतीता
वा उक्तीसेण सखेज्जा असखेज्जा अणता वा । एव जाव वेमाणियस्त । एवं जाव लोन्नसमुग्घाए एते

चत्तारि दग्गा । णेरइयाण जते । केवइया क्रीडसमुग्घाया अतीता ? गीयमा । अणता । केवइया पुरे
स्कृता ? गीयमा ! अणता । एव जाव वेमाणियाण । एव जाव लोन्नसमुग्घाए । एव एएवि चत्तारि
दग्गा । एगमेगस्सण जते ! णेरइयस्स णेरइयस्से केवइया क्रीडसमुग्घाया अतीता ? गीयमा ! अणता
धट्टेमानिकाना एव यावलोन्नसमुग्घात । एवमेतं चत्तारयतुर्विंशतिदशका । एकैकस्य जदन्त । नैरयिकस्य नैरयिकत्वे कियन्त क्रीडसमु

जघा मारणतिसमवाए भणित्थो जघा निरवसेवी भाणित्थो । मानकपायसं मायाकपायसं नो अधिकार विन मारणानिकसं नैविपे क्खी
तिणपरे निरवगोपपणे क्खिवो । खोइकसायसं जघा खोइकसायसं कसायसमुग्घाओ भणित्थो तथा भाणियत्था । लोमज्जपावसं नो अधिकार

पुरस्कृतो गीयमा । कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सत्थि जहन्नेणं एकौवा दोवा तिविवा च्छेक्का वा यस्सरेज्जा वा एव नागकुमार
 ते जाव वेमाणियत्ते एव जरा असुरकुमारत्तु नेरइया वेमाणियपज्जइसाणेत्तु प्राणिया तद्वा नाकुमारादिया सथाणे परछाणेत्तु प्राणियत्ता जाव
 वेमाणियत्ते इति ॥ अस्यार्थं - कियन्तो प्रदन्त । एकैकस्य नारकस्या चत्वारभोजनत काल मर्यादीकृत्य नैरयिकत्वे प्राविन सता सर्वराज्या पु
 रस्कृता क्रोधसमुद्घाता जगवानाह-कस्स अत्थीत्थादि ॥ आसन्नमरणक्रोधसमुद्घात मनासाद्या त्यन्तिकमरणेन नरका दुहुत्त सेरत्थति तस्य
 नात्थि नैरयिकत्वनाविन एकौपि पुरस्कृत क्रोधसमुद्घात जेपस्य तु सति यस्यापि सन्ति जघन्यत एको द्वी त्रयो वा एत च्छीणजीपायुपा
 तद्भवस्थाना जूयो नरकेषु त्यद्यमानाना वेदितव्यं जूया नरकपुत्राना जघन्यपटपि संत्येया प्राप्यन्ते नैरयिकाणा काधसमुद्घातप्रचूरत्वात् ।
 चरकेर्पत सख्येया वा ऽसख्येया वा ऽनन्ताया सत्र सठन्नरकेषु जघन्यास्थितिकेषु त्यस्यमानस्य सत्येया अनेरुशो यदिवा दीपस्थितिकेषु चरुद
 पि च्छत्वरस्यमानस्या सख्येया अनन्ता च्छत्वरस्यमानस्या नन्ता इति ॥ एवमित्यादि ॥ एव नैरयिजोक्तप्रकारेणा सुरकुमारत्ये तदनन्तर चतुर्वि
 शतिदशकक्रमेण ताव इत्थं यावद्द्वैमानिकत्वाविषय सूत्रं तत्रैव-यगमेगस्सण प्रते । नेरइयस्स केवइया कोत्थसमुग्घाया अतीता गीयमा । अ
 णता केवइया पुरस्कृता गीयमा । कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सत्थि जहन्नेणं एकौ वा दोवा तिविवा च्छेक्का वा असखेक्का वा
 णणता वा ॥ अत्राप्यय प्रावार्यं-अतीताचित्ताया मनन्ता अनन्तशो वेमानिकत्वस्य प्राप्तत्वात्, पुरस्कृतचित्ताया योऽनन्तरजवे नरका दुहुत्तो
 मानुष्यत्व मवाप्य सरत्थति प्राप्नो वा परम्परया सरुद्धैमानिकजवे न क्रोधसमुद्घात गत्ता तस्यैकोपि पुरस्कृतक्रोधसमुद्घातो वेमानिकत्वेन

केवइया पुरस्कृता ? गीयमा । कस्सइ अत्थि जहन्नेणं एकौ वा दो वा तिविवा

दहका । नैरयिकाणां प्रदन्त । कियन्त क्रोधसमुद्घाता अतीता ? गीतम । अनन्ता । कियन्त पुरस्कृता ? गीतम । अनन्ता ? एव या

वाद्यो तिम सर्वं क्रोधसंपादनो यत्र वाणिवो निरवशेषपणे यावत् वेमानिकता दण्डकवती कश्चिन्ने । सायकसावसमुग्घाए आवाकसायचमुग्घाए

दत्तव्यं यावद्देमानिकानां यथाचैप क्रोधसमुद्घातं श्रुतिविशेषितदयत्नकर्मणोक्तं एव मानादिसमुद्घातां श्रुतिं तावद्दत्तव्यां यावद्दोषसमुद्घात
 एवमेतेषु सकलनारकादिद्विषया यत्त्वार श्रुतिविशेषितदयत्नगा प्रवृत्तिं साम्प्रतनेकेकस्य नैरयिकादिषु प्रावेषु वर्तमानस्य कति क्रोधसमुद्घाता
 श्रुतीता कति प्राचिन इति निरूपयितुकाम आह-एगमेगसखनित्यादि ॥ एकैकस्य विवद्वितप्रश्नसमयकाला त्पूव सकल
 मतीत काल मवधीकृत्य तदा नैरयिकत्य प्राप्तमत सर्वसङ्ख्या कियन्त क्रोधसमुद्घाता श्रुतीता ? गीतम । जगधानाह-छानन्ता । नरक
 गते रनन्तज्ञ प्राप्तत्वात्, एकैकस्मिंश्च नरकजने जघन्यपदे पिसरयेयाना क्रोधसमुद्घाताना ज्ञावात् ॥ एव जहृत्यादि ॥ एव मुपदञ्चितेन
 प्रकारेण यथा वेदनासमुद्घातं प्राग् ज्ञानितं तथा क्रोधसमुद्घातोपि ज्ञानितव्यं इत्याह-निरवधोप क्रियाविधोपशमेत त्वामरत्येनेत्यथ ।

समोहता सखिज्जं, वेदित्यसमुग्घाणं समोहया सखेज्जं, मारणंति यसमुग्घाणं समोहया अ्सखे
 ज्जगुणा, वेदणासमुग्घाणं समोहया अ्सखेज्जं, कसायसमुग्घाणं सखेज्जं अ्समोहया सखेज्जगुं,

कति जदन्त । कपायसमुद्घाता मच्छसा ? गीतम । चत्वारसद्यथा-क्रोधसमुद्घातोमानसमुद्घातो मायासमुद्घातो लोभसमुद्घात
 नैरयिकाणा जदन्त । कति कपायसमुद्घाता मच्छसा ? गीतम । चत्वार कपायसमुद्घाता मच्छसा । एव यावद्देमानिकानाम् । एकैक

जगे । एगमेगस्य भते येरदयस्य केवइया कोइकसाय समुग्घाया श्रुतीता । एवेका हेमगवन् नारकोने केतसा प्रोध कपायसमुद्घात भतीतकाले इ
 वे । गीयसा श्रुणता केवइया परेक्खडा । हेगीतम अनन्ता केतसा पूर्वकृत । गीयसा कस्यइ पत्यि कस्यइ नत्ति जस्यत्ति जस्यत्ते एखोवा दीवा तिणि
 वा उखोसेण सखिज्जावा असखिज्जावा अणतावा एवं जाव वेसाणियस्य एवंजाव लोभकसायसमुग्घायाण मणिया एवं एते चत्तारिदडगा भाणि
 यदवा । हेगीतम केइनेके केइने नही जेइनेके तेइने जघन्य एक पदवा दाय भयवा तीन उरकट सययाता असययाता अनन्ता पिय कइइवा इम
 जालती वेमानिक लगे इमसवं पाठ यावत् लोभकसायसमुद्घातलगे कइइवे इम दइक ए खालावा कइइवा । येरदयाण भते केवइया कोइ कसाय

कपायसमुद्घातमतेरेव काले लब्धा नरका दुहृती मनुयज्ञव प्राप्य कपायसमुद्घातमगतएव सेरस्याति तस्य नास्ति पुरस्कृत यत्कीपि कपायसमुद्घातो यस्यापि सति जपन्त एको ही त्रयो वा तत्र प्रागुक्तस्वरूपस्य चरुत्कपायसमुद्घातगामिनो वेदितव्या उरुत्कर्पत- सङ्घेया अयङ्घेया अनन्ता वा, तत्र सशयेकालसारावस्थायित, सशयेया असशयेकालमसरयया अनत काल मनता, एव मसुरकुमारारदिक्रमेण तावद्वाच्य यावद्देवानिकस्य ॥ स्वर्गमित्यादि ॥ एवं चतुर्विंशतिदण्डकक्रमेण मानादिकपायसमुद्घाता स्त्वाव दृक्तव्याः यावन्नोत्रसमुद्घात एवमेतं चत्वारश्चतुर्विंशतिदण्डका प्रवृत्तिः एतथैकेनकारादविषया उक्त्वा सम्प्रत्येतानव चतुर्विंशतिदण्डकान् सकलनारकादिविषयानाङ्ग-नेरइयाणमित्यादि ॥ अतीतवृत्त सुप्रतीत, पुरस्कृता अनन्ता प्रशंसयन्नाविना नारकाणा मध्ये बहूनामन्तकालमवस्थायित्वात्, एव नेरयिकोक्तेन प्रकारेण ताव

एण केवलिसमुद्घाएण समोहयाण अ्समोहयाणय कयरे कयरेहिती अ्यप्यावाः ? गीयमा ! सच्चस्योवा मणुस्सा अ्याहारगसमुद्घाएण समोहया, केवलिसमुद्घाएण समोहया सखिजगुणा, तंयगसमुद्घाएण

दघातसमवहता सशयेयगुणा । वैल्लियसमु० समवहता सशयेयगुणा, नारणान्तिकसमु० समवहता असशयेयगुणा, वेदनासमु० समवहता असशयेयगुणा कपायसमुद्घातसमवहता सशयेयगुणा असमवहता असशयेयगुणा । वानव्यन्तरव्योतिकवेमानिका यथासुरकुमारा ।

गुणा तेहयो कपायसमुद्घात समोह्या एव० तेहयो वेदनासमुद्घात समोह्या विशेषाधिक तेहयो चसमोह्या असययाता । बाष्पतर लोहसिय वे माषिया जडा असरकुमारा । वानव्यन्तर ल्योतियो वेमानिकने निम असुरकुमारनीपरे कदिवो । कइण भते कपायसमुद्घाया प० । द्विवे हेभगयन् केतवा कपायसमुद्घात कइया । गीयमा चत्वारि कसास० ह० । ऐगोतम थार कपायसमुद्घात कइया । कोइ कसायसमुद्घाया मायकसाय लोइ कसाय । कोइ मान माया लोम कोइ कपायसमुद्घात मानकपाय मायाकपाय मोनकपाय । बेरइयाण भते कइ कसाय समुद्घाया पणत्ता नारकी हेभगयन् केतवा कपायसमुद्घात कइया । गीयमा चत्वारि कसाय एव जाव येमाषियाय । ऐगोतम ष कपाय इम यावत् वेमानिकना २४

सरयेपत्यात् तेज्योपि वेदनासमुद्घातेन समुद्घाता अक्षयेयगुणा श्रियमाणराइयेक्षया अक्षयेयगुणानाभक्षियमाणानां तद्भावसम्भवात् । तेज्य-
 कपायसमुद्घातेन समुद्घाता सख्येयगुणा प्रवृत्ततया तेषां प्रायमाणत्वात्, तेज्यो व्यसमवहता अक्षयेयगुणा समुच्चयमनुष्याणां गल्पकपाय
 या मृत्कटकपायिन्यो सरयेयगुणानां सदा लज्यमानत्वात्, व्यन्तरज्योतिष्पयैवानिका यथा सुरद्रुमारा स्तया वक्ष्या. तदेवमुक्तं समुद्घातासमुद्घा-
 तविषयमसपवहुत्व मयुना कपायसमुद्घातगता विशेपवक्तव्यता गजिधित्तु राह-कऽणमित्यादि ॥ इदं सामान्यतः कपायसमुद्घातविषयं च
 तु विशेतिदण्डकक्रमेण गतं च सूत्रं सुप्रतीकम् अत्यन्तैकैकस्य नैरयिकाटे यतुं वैज्ञानिकविदपडकक्रमेण वैमानिकपर्यवसानस्य तद्वक्तव्यता मानु-यगने
 गसणमित्यादि ॥ अत्रातीतं सूत्रं सुप्रतीकं, पुररुते सूत्रे कस्वइ अतिय कस्व नतियति ॥ यो नरकजवभाते वत्तमान स्वभावत एवास्वकपाय

कसायसमुद्घाणं समीहया अखेजगुणा । मणस्त्राण जले ! वेदगासमुद्घाणं
 समीहयाण कसायसमुद्घाणं मारणतियसमुद्घाणं वेडिहियसमुद्घाणं तयगसमुद्घाणं आहारसमुद्घाणं

गुणा । मनुष्याणां वेदनासमुद्घातसमवर्तानां कपायमारणान्तिकविक्रियेतजसाद्धारककेवलितमुद्घातसमवहतानामसनद्यत्तानां च कृत
 रे कतरभ्योऽल्प्यावा ४ ० गीतम । सर्वस्तीका मनुष्या आहारकसमुद्घातसमवहता केवलितमुद्घातसमवहता सख्येयगुणास्तेजससमु-

सदातगुणा जाणिषा । मणुसाण भते वेगणसमुद्घाणं वाव केवलिसमुद्घाणं सनीहयाथ असमीहयाथ कयरे २ हितो अयावा ४ । नसुवने
 हेमगवन् वेदनासमुद्घातयावत् केवलिसमुद्घात सनीहया असमीह्याने माहोर्मात्रे किदा २ थो यावत् विषेपादिक । गीतना सख्योवा मणुसा
 आहारसमुद्घाणं समीहया केवलीसमं समीहया सये । हेमोतम सर्वो वीडा मनुष्य आहारकसमुद्घात समीह्या केवलिसमुद्घातसनेह्या न
 से । तैयगसमुद्घाणं एमो सखि । वेडिहियसं समो सखि । मारणतियं समो सखि । वेवशासमुद्घाणं समो प्रसं । वेवशासमुद्घाणं समो
 विषे असमीहया मचं । तं दथी तैजससमुद्घात समीह्या सं । तं दथी वैश्वियसमुद्घात समीह्या सं । तं दथी मारणतियसमुद्घात समीह्या सख्येय

गुणानां केपाचि दुर्नजानामपि वैकियलब्धिरहितानां वैकियलब्धिमतां च भरणसमुद्घातसम्भवात्, तेभ्योपि वेदनासमुद्घातेन समुद्घातात् प्रस
 रयेयुणा चियमाख्यीवराशयेषुया श्रियमाशाना असख्येयगुणानां वेदनासमुद्घातनावात्, तेभ्य कपायसमुद्घातेन समुद्घाता असख्येयगु
 णा, तेभ्योप्यसम्भवात् असख्येयगुणा, अत्र प्रावना प्रागवत् मनुष्यसूत्रे सर्वस्तोका आहारकसमुद्घातेन समुद्घाता अतिस्तोकानामाहारकशरीर
 प्रारम्भसम्भवात्, तेभ्य केवलिसमुद्घातसमुद्घाता सख्येयगुणाः अतपथकशरयया [माप्यमाणत्वात् । तज्योपि वैकियसमुद्घातेन समुद्घाता च
 श्ययगुणा कोटोसख्येयलभ्यमानत्वात्, तेभ्योपि मारणान्तिकसमुद्घातन समवहता असख्येयगुणा, सख्येयसमुद्घातनामपि तन्नावात्, तेपाचा

समुद्घाएण समोहयाण तेयासमुग्घाएण समोहयाण अ्यसमोहयाण य कयरे कयरोहितो अ्यप्यावा४ ? गो
 यमा । सख्येयोवा पचिदियतिरिक्कजोणिया तेयासमुग्घाएण समोहया, वेउच्चियसमुग्घाएण समोहया
 अ्यसखिज्ज०, मारणतियसमुग्घाएण समोहया अ्यसखिज्ज०, वेदणासमुग्घाएण समोहया अ्यसखिज्जगुणा,

स । सर्वस्तोका पञ्चेन्द्रियतिप्योनिक्कात्तेजससमुद्घातसम्भवात्, वैकियसमुद्घातसम्भवात् असख्येयगुणा, मारणान्तिकसमुद्घात
 समवहता असख्येयगुणा, वेदनासमुद्घातसम्भवात् असख्येयगुणा, कपायसमुद्घातसम्भवात् असख्येयगुणा, असम्भवात्, असख्येय
 गसमुग्घाएण । समोहयाएण असमोहयाएण कयरे २ इति प्रणवा ४ । पचेन्द्रिय तियं चयोनिक्कने हेभगवन् वेदनासमुद्घात मारणान्तिकसमुद्घात वे

क्रयसमुद्घात तेजससमुद्घात समोह्या असमोह्याने माहोमहि किहा २ थो यावत् विद्याधिक । गोयमा सख्योवा पचिदियतिरिक्कजोणिया ते
 यगसमुग्घाएण समोहया वेउच्चियसमुग्घाएण समोहया असखेज्जा मारणतियसमुग्घाएण समोहया असखेज्जा वेयथासम्भवाएण समोहया असखेज्जा
 क्षमायमसम्भवाएण समोहया सखिज्जा असमाहया सखिज्जगुणा । हेभोतम सर्वयोहा पचिदियतिरिक्कजोणिक तेजससमुद्घात समोह्या ज्ञापिवा तेहथो
 वैकियसमुद्घात समोह्या अस० तेहथो मारणान्तिकस० समोह्या अस० तेहथो वेदनास० समोह्या अस० तेहथो कपाय समोह्या अस० तेहथो असमोह्या

ताव दृक्त्वया याव हुनरपतिकारिका ॥ वायुकारिकान्प्रति विशेष मन्त्रिषित्सु राह-नवरमित्यादि ॥ नवर वातकारिकाना मरुपवुत्वचिन्ता
 यामेव वक्तव्य सबस्तीका वातकारिका वैक्रियसमुद्घातेन समुद्घाता वादरपर्याप्रसस्ययज्ञास्य वैक्रियलघु सम्भवात्, तेज्योपि मारणान्तिकस
 मुद्घातेन समुद्घाता असस्येयगुणा, पर्यापार्यासूक्ष्मवाटरजैर्दाज्ञानाना सर्वेषामपि वातकारिकाना मारणसमुद्घातसम्भवात् तेज्योपि च
 पायसमुद्घातेन उमुद्घाता असस्येयगुणा, सकलसमुद्घातगतवातकारिकापेक्षया स्वन्नावस्थाना वातकारिकाना स्वभावत एव सस्येयगुणतया
 प्राप्यमाणत्वात्, हीन्द्रियसूत्रे-सबस्तीका हीन्द्रिया मारणातिकसमुद्घातेन समुद्घाता प्रतिनियतानामेव प्रशसमय मरणसङ्गावात्, तेज्यो वेद
 नासमुद्घातेन समुद्घाता असस्येयगुणा, शीतातपादिसम्यक्तोतिप्रज्ञाना वेदनासमुद्घातजावात्, तेज्य कपायसमुद्घातेन समुद्घाता अस
 स्येयगुणा, अतिप्रज्वलतराणा लोत्रादिकपायसमुद्घातजावात्, तेज्याप्यसमवहता सस्येयगुणा ॥ एवमित्यादि ॥ एव हीन्द्रियगतेन प्रकारेण
 ताव हुक्तव्य याव चतुरिन्द्रिया, तियेकपंचेन्द्रियसूत्रे-सबस्तीका कौजससमुद्घातेन समुद्घाता कतिपयानामेव तेजोलाब्धिजावात्, तेज्यो वेदना
 समुद्घातेन समवहता असस्येयगुणा, तेज्योपि वैक्रियसमुद्घातन समवहता असस्येयगुणा प्रज्ञानाना वीज्यलब्ध ज्ञावात् । तेज्योपि मार
 णान्तिकसमुद्घातेन समवहता असस्येयगुणा, समुच्छिन्नमजलपरस्वलपरस्वरायामपि सर्वेषा वैक्रियलाब्धिरहिताना प्रत्येक पूर्वोक्तस्यो चस्येय

मोहया सखिज्जगुणा, असमोहया असखिज्जगुणा । एवं जात्र चउरिन्दिया । पचिदियतिरिक्कजोगियाण
 जत ! वेदणासमुग्घाएण समोहयाण कसायसमुग्घाएण मरणसमुग्घाएण समोहयाण वेडच्चिय

असमुद्घातसमवहताना वैक्रियसमुद्घातसमवहताना तेजसमुद्घातसमवहताना असमवहतानां च कतरं कतरंभ्योऽल्पा वा ४ ? गीत

इया पनखेज्जा असमोहया सखिज्जा एव जात्र चउरिन्दियाणं । तेइथी कपायसमुद्घात समोह्या असस्येयगुणा तेइथी असमोह्या संख्यातगुणा इम
 यावत् चौरिन्द्रियजगे कान्दो । पाषादिट्तिरिक्कजोगियाणं भते वेयणासमुग्घाएण कसावसमुग्घाएण मारणान्तिकसमुग्घाएण वडच्चियसमुग्घाएण तेय

न यदूना कपायसमुद्घातमननावात्, तेज्योपि वैकियसमुद्धता सख्येयगुणा, परिधारणाद्येकनिमित्तमतिवर्णा मुत्तमवैकियमरणात्ना सत्कथात, तेज्यो प्यसमवहता असख्येयगुणा वदूना मुत्तमजातीना सखयागरावगढाना पूर्णकेज्यो सख्येयगुणाना कनापि समुद्घातना ऽस मवहताना सदा लन्यमानत्वात् ॥ एवमित्यादि ॥ यथा सुरकुमाराणा मन्पयहुत्व मुक्त गव सर्वेषा प्रवनपतीना द्रष्टव्य याव तस्लानितकुमारणा निति, सप्रति पृथियौकायिकगत मत्पयहुत्व माह-एगसिखमित्यादि ॥ अत्र कपायसमुद्घातसमुद्धताना वेदनासमुद्घातसमुद्धताना ल्व सख्येयगुणत्व असमवहताना ल्वा सख्येयगुणत्वे प्रावता स्वय प्रावनीया सुगमत्वात् ॥ एवमित्यादि ॥ पृथिवीसायिकगतन प्रकारेणा तपयहुत्व

विसेसाहिया, असमोहया सखेज्जगुणा । वेडिटियाण जते । वेदणासमुघाएण कसायसमुघाएण मारण तियसमुघाएण समोहयाण असमोहयाण य करे करेहिता अप्पावा ४ ? गायमा ! सख्योवा वेड दिवा मारणतियसमुघाएण समोहया, वेदणासमुघाएण समोहया असखिज्जो, कसायसमुघाएण स

द्वीन्द्रिया मारणान्तिकसमुद्घातसमवहता वेदनासमुद्घातसमवहता असख्येयगुणा, कपायसमुद्घातसमवहता सख्येयगुणा असमवहता असख्येया । एव यावच्चतुरिन्द्रिया । पन्चेन्द्रियतिग्योनिकाना नदत्त । वेदनासमुद्घातसमवहता कपायसमुद्घातसमवहताना नर कागली कडिवा पर पत्रियेय साककयनेवैयै सर्वथोवाहा वैकियस समोह्या जाडिया तडयो मारणातकस समोह्या अस तडयो कपायस स म ह्या सखयातगुणा वेदनास समोह्याविशयाधिक तिकथो असमोह्या अस । वेद दियाच भते वयणासमगवाएण कसायसमवहारण मारणतियसमु रघाएण समोह्याएण असमोह्याएण करे २ हितो यणावा ४ । डिव वेदय हेमगवन् वेदनासमदुघात कपायसमुद्घात मारणान्तिकसमुद्घातने म नाद्याने असमोह्याने माडीमाडि जोता कित्वा २ यो विशेषाधिक । गीवमा सखत्यावा वेदिया मारणतियसमुघाएण समाहया नेयणसमुघाए ष समोहया अस । हेमोतम सर्वथोयोवा वेन्द्रिय मारणान्तिकसमुद्घाते समोह्या वेदनासमुद्घाते असयात । कसायसमुघाएण समो

• दो. ॥

• म् ।

• प. ।



• भा. ॥

ना सकृत्तैर्वैक्रियानां च सर्वसख्ययोत्तरेवैक्रियप्रारम्भकेन्योऽसख्येयगुणानां कषायसमुद्घातसमुद्घातत्वेन प्राप्यमाणत्वात् तैर्न्योपि वेदनासमुद्घातेन समुद्घाता सख्येयगुणा यथायोग्य क्षेत्रज्ञपरमाधर्मकोदीरितवेदनाजिप्रायो बहूना सदा समुद्घातत्वेन प्राप्यमाणत्वात् तन्मोक्षेनापि समुद्घातेना समवहता सख्येयगुणा, वेदनासमुद्घातमन्तरेणाप्यतिबहूनां सामान्यतो वेदना मनुजवता सम्भवात्, सम्प्रत्यसुरकुमामैल्पबहुत्वमाह-यगसिन्धिमित्यादि ॥ प्रश्नसूत्रसुगम, प्रगवानाह-गीतम । सर्वस्त्रोका अहुरकुमारा स्त्रीजसमुद्घातेन समुद्घाता स्त्रीजसो समुद्घातो महति क्षीपाधेशे क्वचि र्कटाधि र्केयास्त्रि इवति तत् स्त्रेन समुद्घातेन समुद्घाता सर्वस्त्रोका स्तन्यो मारणान्तिजसमुद्घातेन समुद्घाता प्रसख्येयगुणा परस्परसुहादी बहूना वेदनासमुद्घातेन समुद्घातानां प्राप्यमाणत्वात् । तैर्न्योपि कषायसमुद्घातेन समुद्घाता सख्येयगुणा येन तेन वा कारणे

हया, कसायसमुद्घाएण समीहया सखिज्जगुणा, वेदणासमुद्घाएणं समीहया विसेसाहिहया अ्समीहया अ्स० एव जात्र वणस्सड्काइया नवर सख्योवा वाउकाइया वेउच्चियसमुद्घाएण समीहया, मारणंति यसमुद्घाएण समीहया अ्सखेज्ज०, कसायसमुद्घाएण समीहया अ्सखिज्ज० वेदणासमुद्घाएणं समीहया

असमवहता असख्येयगुणा, यावहनरुपतिकायिका नवर सर्वस्त्रोका वायुकायिका वैक्रियसमुद्घातसमवहता, मारणान्तिकसमुद्घातसमवहता असख्येयगुणा, कषायसमुद्घातसमवहता असख्येयगुणा, वेदनासमुद्घातसमवहता विशेषाधिक्यका असमवहता सख्येयगुणा । इन्द्रियाणा नदन्त । वेदनाकषायमारणान्तिकसमुद्घातेन समवहताना अ्समवहताना मध्ये कतरे कतरैर्न्योऽल्पावा ध ? गीतम । सर्वस्त्रोका

अस० । इमोतम सर्वथीथोडा अथिवोकाव मारणान्तिकस० समीक्षा नामै तेहथी कषायस० समीक्षा असख्यातगुणा । वेयणस० समी० विस० असमीहया स० । तेहथी वेदनास० समीक्षा वियेयाधिक तेहथी असमीक्षा स० । एव जात्र वाउकाइया अवर वाउकाइयाण सख्योवा वाउकाइया वेउच्चियसमुद्घाएण समीहया मारणतिरस० समी० अस० कसायसमु० समी० सखे० वेयणस० समी० विस० असमीहया अस० । इन यावत् वनस्यतो



गरति इति वचना दत्त सर्वलोकानां मारणातिक्रममुद्घातसमुद्घाता तेष्वपि वैक्रियसमुद्घातसमुद्घाता अस्वययगुणा , समस्वयि पृथिवीषु प्र
त्येक यदूना परस्परवेदनोदीरणाय निरन्तरमुहूर्तवैक्रियसमारम्भसत्त्वात्, तेष्वपि कपायसमुद्घातेन समुद्घाता, स्वययगुणा , कृतोत्तरवैक्रिया

कपरै कयरोहितो अय्यावा१ ? गोयमा । मह्योवा असुरकुमारा तैयगसमुग्घाएण समोहया , मारणति
यसमुग्घाएण समोहया अस्खेज्ज०, वेदणासमुग्घाएण समोहया अस्खेज्ज०, कसायसमुग्घाएण समोह
या खेज्जगुणा, वेदवियमसमुग्घाएण समोहया खेज्ज०, असमोहया अस्खे० । एव जाव यणियक
मारा । एएसिण पुढविकाइयाण पुच्छा, गोयमा । तह्योवा पुढविकाइया मारणतियसमुग्घाएणं समा

समुद्घातेन समवहता स्वययगुणा असमवहताः स्वययगुणा । यतया नदत्त । असुरकुमाराणा वेदनासमुद्घातेन मारणान्तिकेन खेक्रि
येण तेजसेन समुद्घातेन समवहतानामसमवहताना व कतरे कतरज्योऽल्पावा ४ १ गीतम । सर्वलोकानां असुरकुमारास्तीजससमुद्घातसमव
हता । मारणान्तिकसमुद्घातसमवहता स्वययगुणा , वेदनासमुद्घातसमवहता असवययगुणा , कपायसमुद्घातसमवहता स्वययगुणा ,
वैक्रियसमुद्घातसमवहता स्वययगुणा, असमवहता असव्येगुणा । एवं यावत्तलनितकुमारा । यतेषा पृथिवीकायिकानां पुच्छा, गी० । सर्वे
लोकानां पृथिवीकायिका मारणान्तिकसमुद्घातसमवहता, कपायसमुद्घातसमवहता, वेदनासमुद्घातसमवहता विज्ञेयायिका

समोहया मारणतियस, समोहया अस, वेदणास, समाहया अस, कसायस, समो, सपुं, वेत्रजियमसुग्घाएण समो, सपि, असमाहया अस० ।
इगीतम सर्वथोडा असुरकुमार तेजसममहात समाज्ञा नामै तेहयो मारणातिक्रस, समाज्ञा चमण्यातगुणा तेहयो वेदनास, समोद्या अस, तेहयो
कपायस, समाज्ञा स्वयातगुणा तेहयो वैक्रियस, समोद्या स्वयात, तेहयो असमोद्या । एवं जाव अण्विक्कमारा पुढवोकाइयाच भते पुच्छा । रम
यावत् स्तनितकुमारलगे जाणिवी दिवे पृथिवीकायानो मदन । गोयमा तव्वलोना पुढवोकाइया मारणतियसमुग्घाएण समोहया कसायस० समोहया

वलिसमुद्घातेन समवहृतानां च मध्ये कतरं १ श्रुतौ बहुका सख्येयासख्येयादिगुणतया प्रभूता. कतरं २ तुल्या' समसख्याका अत्रार्थं सूत्रे विन
 क्रिविपरिणाम स्वयं योजनीय कतरं १ श्रुतौ विज्ञापयिका गमनाधिक्या वा शब्दा सर्वपि विकल्पार्थाः, जगवानाह-गीतम् । स्वस्तोका जीवा
 आहारकसमुद्घातेन समुद्भूता आहारकशरीरिणोऽहं, कदाचिदिह लोके पयसासान् याय न प्रवत्यपि यदापि प्रवन्ति तदापि लघव्यत् श्रु
 श्रुतौ त्रयो वा वक्तव्यं तु रहस्यपथज्ञा केवलमारारजसमुद्घात आहारकशरीरप्रारम्भकाले नशोपकाल तत स्तोकाएव युगपदाहारकसमुद्घाता
 प्राप्यते इति सर्वस्तोका आहारकसमुद्घातेन समुदता तेज्य केवलिसमुद्घातेन समुद्भूता सख्येयगुणा स्तया मंककाल ज्ञातपथज्ञानेन प्राप्यमा
 गत्वात्, यद्यप्यारकशरीरिण ॥ सतया ॥ उच्यते तयाप्याहारकसमुद्घातसम्भवात् सककाल मतिस्तोका प्रा
 प्यते न तेज्य केवलिसमुद्घातसमुद्भूतानां सख्येयगुणत्वविरोध कवलिसमुद्घातसमुद्भूतस्य तेजससमुद्घातेन समुद्भूता असख्येयगुणा, प
 चेद्वियतिर्यग्योनिकानां मनुष्याणां देवानामपि च तेजससमुद्घातसम्भवात् तेज्योपि वैक्रियसमुद्घातेन समुद्भूता असख्येयगुणा, प
 तिर्यग्योनिकानां मनुष्याणां नारकवातकाधिकानामपि वैक्रियसमुद्घातसम्भवात्, वातकायिकाश्च वैक्रियलब्धिसतो न स्तोका कितु देवैज्यो

जगु० तेजसमुग्घाएण समोहया अ्स०, वेदद्वियसमुग्घाएण समोहया अ्सखेज्जगुणा, मारणतियसमु
 ग्घाएण समोहया अ्णतगुणा, कसायसमुग्घाएण समोहया अ्सखेज्जगुणा, वेदणासमुग्घाएणं समोहया

असख्येयगुणा, मारणान्तिकसमुद्घातेन समवहृता अनन्तगुणा ? कपायसमुद्घातेन समवहृता असख्येयगुणा. वेदनासमुद्घातेन समव

यन्निममुद्घाते सनीद्या तेदथौ असमोद्या सख्यातगुणा तेदथो तेजससमुद्घात समोद्या ते असख्येयगुणा देव मनुष्य तिर्यच पाप्मिने तेदथो वैक्रियसमी
 द्या समवहृतगुणा । नराणतियमनुग्घाएण समोद्गा यस० कसायसमुग्घाएण समाहया अस० । नारको देव मनुष्य तिर्यच पाप्मिने तेदथी मार
 णातिकस० ते समोद्या अनन्तगुणा वनप्रतो लेता तेदथी कपायस० समोद्या असख्येयगुणा निगोदजीव अनन्ता असख्येयतमभाग विग्रहगतिवती

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

यते केवलिसमुद्घातविषया घृतुविंशति शतुविंशतिका दण्डना स्त्रिय सर्वेपि पृच्छाया पृच्छापरस्पर प्रकृत्या न्यिद्दूर या इतिमाए-
 वैमानिकाना वैमानिकत्वविषय सूत्र नष्टे-वेमाणयाण प्रते । वेमाणियते कवडया केवलिसमुघाया अतीता / गोयना । नत्यि, केवडया पुर
 सरका नात्य इति । तदवमुक्ता नैरयिकादिपु वैमानिकपर्यवसानये कत्वविंशतिपु बहुत्वविंशतिपु च भूतनाविवेकतादिनम्ट्घातसप्तगामस्यपु
 रस्परसत्याप्रमाणप्ररूपणा, सम्प्रति तेन समुद्घातेन यात्र स्त्रैश्लिसमुद्घातेन समुद्रुताना मसमुद्रुताना य परस्पर मत्पयुत्त्वमन्निधिरसुरा
 ह-सर्वावर्णसित्यादि ॥ एतेषा यथायोग प्राक् समवहतासमवहत्वेन निरूपिताना जदन्त । सामान्यतो जीयाना यदनासमुद्घातेन याय रक्ष

एण कनायसमुघाएण मारणतिसमुघाएण वेडिचियसमुघाएण तेयगतमुघाएण आहारगतमुघाएण
 केवलिसमुघाएण समीहयाण अ्यसमीहयाणय कयरे कयरहितां अ्यप्यावा वज्जयावा तुह्वावा त्रिनसाहि
 याना ? गोयसा । सव्व्योत्रा जीवा आहारगतसमुघाएण समीहया केवलिसमुघाएण समीहया सखे

च्छाया जणित्था , यावद्वैमानिकाना वैमानिकत्वे । गतया जदन्त । वेदनासमुद्घातेन मारणात्मिकसमुद्घातेन वैकिपसमुद्घातेन ते
 जससमुद्घातेन आहारसमुद्घातेन केवलिसमुद्घातेन समवहतानासमवहताना य कतरे कतरेच्योऽल्पावा यलुतावा तुल्यावा विज्ञापयि
 क्षावा ? गोतम । सर्वस्त्रोका जीया आहारकसमुद्घातेन समवहताः कवलिसमुद्घातेन समवदता सरययगुणास्तीजससमुद्घातेन समजहता

निर्ण भते जीवाण वेयणासमुघाएण कनायस० मारणतियस० वेडिचियस० तैलसस० आहारगतस० केवलिसमुघाएण । एतेने हेभगवन् जीवने वेदना
 स० क्षयायस० मारणात्मिकस० वैक्रियस० तैलसस० आहारकस० कवलिसस० । समीहयाण यसमीहयाणय कयरे ? हितो यणाया ६ । समीह्याने य
 समीह्याने किडा २ यो थोडाहवे ४ । गोयना सव्व्योत्रा आहारगतसमुघाएण सवाहता कवनिमसग एण समीहया सखि० तेयगतसमुघाएण समीह
 या सस० वेडिचियस० समीहया सस० । हेभौ तम सर्वथोयाडा आहारकसमुद्रुताना यथो समीह्या तेहयो यसमीह्या अरव्व्यातगुणा तेहयो थोडा के

रीया ।

मूल ॥

५ ।

पाप ।

मुहुर्तेना वक्ष्ये नि श्रेयसपदाधिगमात्, ततो नारकाणां मनुष्याः पर्यन्तु जीवास्वयवस्थास्वतीता पुरस्कृता य केवलिसमुद्भवाः प्रतिपेद्भवाः, म
 नुष्यत्वावस्थायामप्यतीताः प्रतिपेद्भवाः कृतकेवलिसमुद्घाताना नरकं गमनाज्जावात्, ज्ञाविनश्च प्रविष्यन्ति प्रश्रवसमयज्ञाविना मध्ये बहूना मस
 र्येयाना नरकाणा सुक्तिपदगमनयोग्यत्वात्, तत पुरस्कृता श्रवस्यया इत्युक्त ॥ यथा नैरयिकाणा केवलिसमुद्घातचिन्ता
 कृता मद्र मधुरजुमारारदीनामपि कृतंथा सा च ताव द्याव द्वैभानिकाना मवैव विज्ञोपमाह-नवर वनस्पतिकार्यिकाना मध्ये मनुष्यत्वावस्थाचि
 न्ताया मतीता प्रतिपेद्भवा, कृतकेवलिसमुद्घाताना सवाराज्जावात्, पुरस्कृता स्वनन्ता वाच्याः। समयज्ञाविना। वनस्पतिकार्यिकानां म
 यं बहूना ममन्ताना वनस्पतिकार्यिकाना वनस्पतिकार्यिकाना दुहृत्यानन्तयेषा वा कृतकेवलिसमुद्घाताना श्रेष्ठमानत्वात्, मनुष्याणा मनुष्यत्वावस्था
 चिन्तया मतीनाः कदाचि ज्ञा सति कृतकेवलिसमुद्घाताना सिद्धत्वज्ञावा दन्त्येया चाद्यापि केवलिसमुद्घातप्रतिपक्षे यदापि सति तदापि ज्ञय
 सत एतो ही वा त्रयो वा उरकयत्-शतपुण्यक पुरस्कृता स्या त्वशयेया स्या दशस्येया प्रश्रवसये ज्ञाविना मनुष्याणा मध्ये कदाचि श्रवस्ये
 याना कदाचि दशस्येयाना यथायोगमालतयेण पारपर्येण कृतकेवलिसमुद्घाताना श्रेष्ठमानत्वात्, सूत्रे सर्ववस्थामाह-एवमुक्तेन प्रकारेण

**कीवा दीवा तित्तिवा उक्तीस संयपुजत । पुरस्कृता ? गीयमा ! सिय सखेजा सिय श्यसखेजा एवमेते
 चउत्रीसदरुगा सखे पुच्छार ज्ञाणियस्रु जाव वेमाणियाप्रं वेमाणियत्ते । एएसिणं नते ! वेदणासमुष्वा**

का नवरं वनस्पतिकार्यिकाना मनुष्यत्वे ज्ञतीता नसन्ति पुरस्कृता वनन्तः। मनुष्याणा मनुष्यत्वे ज्ञतीता स्या त्सन्ति स्या त्सन्ति यद्यद्वि
 यको वा द्वीवा त्रयो घोरकर्षत" ज्ञतपुण्यकम्, पुरस्कृता ? गीतम । स्यात्प्रस्येया स्यादशस्येया । एवमेते चतुर्विंशतिदहका सर्वेपि पृ

मा सिय म० शिव चम० एत एतं चतुर्वीसं चउत्रीसदरुगा सानेवि पुच्छार भाणि० ज्ञाव वेमाणियाच वेमाणियत्ते । हेगीतम केतचा प्रागज करस्ये
 किञ्चि सख्याता विवारे अस्रव्याता इम इह ३४ त्वीवीसदरुके अर्धे प्ररजकीषा ज्ञाजगे वेमानिक वेमानियपणे कडिवी शिवे अश्रवदल कहैवे । एए

दशककर्मणो पितृता कृतां यय मसुरकुमारादीनामपि प्रत्येक षतुविंशतिदशककर्मण साय हृक्ष्या याव हेमानिकाना केवल यवालि विज्ञेय ता
 दंशयति-नवरमित्यादि ॥ नवर वनस्पतिकारिकाना मनुष्यत्वपितृताया मतीता पुरस्कृता य प्रत्येक मनन्ता वक्ष्यया , अनन्ताना पूर्वमधिगत
 षतुदशपुत्राणा ययायोगमेकज्ञो द्वि द्विषो कृताहारकसमु द्याताना वनस्पतिष्यस्थानात्, आतेरैव धनस्पतिकाया दुद्रुत्या नन्तयेण वा मनु
 ष्यत्वमवाप्य यथायोग मेकज्ञो द्वि द्विषुत् वा हारकसमुद्घाताना निवर्तयिष्यमाणात्, मनुष्यत्वावस्थाया मतीता पुरस्कृताश्च स्या रक्षत्येया
 कयमितिश दुष्यते-तेहि प्रशसमयजाविन सरक्ष्यपदपि सर्वज्ञाका श्रेयसख्येजानागतपदेशाराजिप्रमाणत्वात्, ततो विवक्षितप्रशसमयजाविना
 मध्ये कदाचि रक्षयेया कदाचि दसश्येया यथायोग प्रत्येकमेकज्ञो द्वि द्विषुत् वा कृतकारिण्याणाहारकसमुद्घाता प्राप्यन्ते उपसर्गमाह-एव
 मित्यादि ॥ यद्यन्तु कर्म प्रकारण एते आहारकसमुद्घातविषया यतु विंशतिदशका वक्ष्यया , सम्प्रतिकोशलसमुद्घात प्रिनयति-तरइयाणमित्या
 दि ॥ कोवलिसमुद्घातापि मनुष्यत्वावस्थाया नर्वात न ज्ञाप्यास्व यस्यासु न च कृतकोशलसमुद्घात सचार पयदति , कोवलिसमुद्घातानन्तर मन्त

नवर मणुस्सत्ते श्यतीता नल्य पुरेकठा श्यसखेजा , एव जाव वेमाणिया नवर वणस्सडकाइम्राण मणु
 रसत्ते श्यतीता नल्य पुरे० श्यणता । मणुसाण मणुस्सत्ते श्यतीता सिय श्यल्य सिय नल्य जइ श्यल्यि ए

पिका । एवमेते षतुविंशतिसत्तुविंशतिदशकाः । नैरयिकाणा जदन्त । नैरयिकारवे किप्रन्त कोवलिसमुद्घाता श्यतीता ? गीतम । ना
 स्ति कियन्त पुरस्कृता ? गीतम । नास्ति । यय यावहुमानिकारवे नवर मनुष्यारवे श्यतीता नल्य पुरस्कृता असस्येया , एव यावहुमानि
 बाराहे असख्याता । एव ज्ञाप वेमाणिया नवर वणस्सडकायाः च सण्णत्ते श्यतीता नल्य परश्ववडा मणता मणुसाण मण्यन्ते श्यतीतर । इमम
 यत् वेमानिक ष विंसेप वनस्यतीकारिक मनुष्यपणे कोधानधी आगल पनत्वा करिवाहे मनुष्यने मन्त्यणे श्यतीत । मियचल्य मियचल्य जस्यल्य न
 इ० एकोवा दोषा तिष्ठिया ए० ययपुइय केवइया पुरेस्वरा । षडनेह्ये कोइने नयो कोइनेह्ये वेइने जस्यन् एव दीय तीम एरकट २ पृथक्ता करे । योय

जीवराज्ञे नैरयिकादे रसुरकुमारोदंशे सति धेक्षियते त्रसममुद्राता ले तस्य वक्षस्या शीषेपु पृथिव्यादिषु स्थानेषु प्रतिपेदुष्या इति स्वामर्ष्यलज्य, कषायम रणान्त्रिकसमुद्रघाताः पुनः सुवैत्रापि वदन्तः सुद्रघातत्र वैशेष्यगानोताः परन्कृताद्या मन्ता वक्ष्याया नतु क्षापि निपेदुष्या , सन्प्रत्या हारकसमुद्रघाताद्विषय सूत्रसाध-नेरइयाणमित्यादि ॥ अ.ए.रसमुद्रातो व्याहारकलब्धौ सत्या साहारक्यरीरप्रारन्धकाते प्रवति नान्यथा हारक सन्धिद्यो पजायते चतुर्दशैगुवाधिम तेषा चतुर्दशाना पूर्वाणा साधगमो ननुयत्वावस्थाया न ज्ञापाया मवस्थायार्थमित' मनुयत्त्ववर्जितु शोपा स्ववस्थास्वतीताना प्ररकृताना साहारकसमुद्रघाताना प्रतिवेध , मनुयत्वावस्थायामपि पूर्वमतीता प्रसस्येया प्रप्रसमयज्ञाविनां नारकाणा म अं वदना मसङ्गेयाना नारकाणा पूर्व तदा २ मनुयत्त्वमवाप्याधिगतचतुर्दशपूर्वाणा प्रत्यक सुरुद्वित्रिर्वा रुताहाररुसमुद्रघातत्वात् , प्ररकृता अपि असस्येया प्रससमयजाविना नारकाणा मध्य यहुर्न रसस्येयै नारके नैरके नैरका दुहुस्या नन्तर्येण पारस्पर्येणवा तदा मनुयत्वावाप्तौ चतुर्दशपूर्वाण्यपीत्य प्रत्यकसाहारकसमुद्रघाताना नैकशो द्वि रिच द्यतुर्वा करियमाणत्वात् ॥ एव जाव वेमाणियार्थमिति ॥ नैरयिकाणा चतुर्विंशति

प्ररकृतावि । संसा सधे जहा णेरडया । एव एए चउत्रीसा टरुगा । णेरडयाण जते । णेरडयत्ते केवडया केवलिसमुग्घाया झ्यतीता ? गीयमा ! नत्यि केवडया पूरे० ? गीयमा ! नत्यि । एवं जाच वेमाणिनत्ते

काना मनुयत्वे प्रतीता श्रमता , मनुयाणा मनुयत्वे श्रतीता स्यात्सस्येया । एव प्ररकृता अपि । शोपा० एते यथा नैर

एव सेना मधे जहा णेरडया एव एते वषवीस चरवोसटडगा भाणि० । मनुयने मनुयत्वे कोधा क्षियरे सत्वाता किवरि चसंख्याता इम कतला । एव विशेषाधिक सचलाइ विम नारकोनोपरे इम २४ टडके कहवा । णेरडयाण भते णेरडयत्ते कवःया कयनिममग्वाग शतीता । नारकोन हेमग वन नारकोपच कतला कनसिमसुघात कोधा पूरे । गायमा नत्यि केवडया पूरेकडडा । हेगौतम नया कोधा कतला भागे करस्य । गौतना नत्यि एव जाव वेमाणियत्ते एवर मनुयत्ते प्रतीता नत्यि पूरेकडडा श्रम० । हेगौतम नयो नारसे इम जाशने वेमानिक एविमम मनुयत्वे कोधानयो प्रागत

वणस्सइकाइयाण मणुस्सत्ते अतीता अणता, मणूसाणं मणुस्सरी अतीता सिंय ससे० सिंय अ्ससे० एवं

वंशीवाना प्रथितवया यावद्वैमानिकाना वैमानिकत्वे । एव यावत्तेजसमुद्रपातो नवर उपयुज्य प्रणितव्यम् एस्यांस्त वैक्रियसमुद्रपात तेजससमुद्रपाते । नैरयिकाका प्रदत्त । नैरयिकत्वे क्रियन्त आहारकरमुद्रपाता अतीता ? गीतम । नयन्ति । कियन्त पुरस्कृता ? गीतम । नसन्ति । एव यावद्वैमानिकत्वे नवर ननुयत्वे अतीता एवरयेया पुरस्कृता प्रसस्येया , एव यावद्वैमानिकाना नवरं धनस्यपतिकामि नयो । परस्त्रडा कस्त्रड अति कस्त्रड नति कस्त्रडिय तस्त्र एकां मनुष्यस्य नपुंसत्ते अतीता । पूर्वकृत तेहनै केहने नही जेहाछे तेहनै मनुयत्ते न नयपणे पूं । कस्त्रड अति कस्त्रड न० कस्त्रडिय एकांवा परस्त्रडाविय एवचेव एव एते एवबोस एवबोसदृष्टगा भाषि० । केहनैके कहने नयो जेहनैके तेहनै एकके इम पूर्वकृत पिण जाणिवो इमदोक इय एह २४ दंडक जाणिवो चादिवा । ऐरदयाण नते येइया येववासमुद्रपाता अतीता । नारको हेमगवन् केतवा वेदनासमहात अतीत गया । गीयमा अणता येइया परस्त्रडा । हेगीतम अन्ता केतवा पूर्वकीथा । गीयमा अणता एव जाव वैमानियत्ते एव सखजीवाण भा० । हेगीतम अन्ता इम जालगे वैमानिकपणे इम सखजीवने कडिवो । जाव वैमावियाण वैमानियत्ते एव जाव तेगसमगघापवि एवर सवज्जेकण येयव्व । जालगे वैमानिकने वैमानिकपणे इम जालगे तेजससमहात एविमोप ज्ञपत्तियाने जाणिवो । जण्य लिय वत्रविय तेयगा तस्त्र भा० । तेहनैके वैक्रियसमुद्रपात तेहनै तेगससमहात । ऐरदयाण भत ऐरदयने केवदया आहारणसमगवाया अतीता । नारकोन हेमगवन् नारकोपणे केतवा आहारकसमुद्रपात कीथा पूं । गीयमा नति केवतिया पुरस्त्रडा । हेगीतम नथीकीथा केतवा चागे करखे । गीयमा नति एव जाव वैमावियत्ते एवर मनुष्यत्ते अतीता असखेका परस्त्रडा अम० । हेगीतम नथी इम जावगे वैमानिकपणे एविमोप मनुयत्ते मनुयपणे कीधानथी असत्याता आगले करवाळे । एव जाव वैमावियाण एवर एवखाकाइयाण मणकत्ते अतीता अणता अण० । इम जालगे वैमानिकने एविमोप अन्सतोकाइया मनुयने मनुयपणे आगस अन्ताकरी पाळे । मनुआणं मनुसुत्ते अतीता सिंय सं० सिंय अ्सं० एव पुरस्त्रडा

• नृ० •
• ५० •
। भाषा ।

विदग्धकर्मत्राणां मष्टयश्चिक्रं ज्ञातं जातं, असावस्सङ्काजान्येऽ बहुत्वविपयाख्यायि सूत्राणि प्रवन्ति तान्यपि विदग्धोपपुराण-नेरड्या शान्तिव्या
 िदि ॥ नेरपिजाणा विवक्षितप्रश्नमयज्ञाविना सवेपा भटल । एवसकलमतीत कालमधिकृत्य यथासम्भव नेरपिकरव वृत्ताना सता समुदायेन स
 वसङ्काया वटनासमुद्घाता अतीता जगवानाए-गीतम । अनन्ता बहुयामनन्कालमस्यव्यवहारराजो रुद्रुसत्वास् कियत पुरस्कृता , अतश्च सूत्र
 सूत्राणां परिपूर्णस्तु पाठ एव नेरड्याए ज्ञेते । नेरड्यत्ते दाभ्या वेयशाःसमुग्याया पुरस्खडा इति ॥ जगवानाए-गीतम । अनन्ता यदुनामन
 तशी ज्ञेयोपि नरक शागमनसस्यवात् ॥ सवमित्यादि ॥ यत्सुक्तेन प्रकारशा सुकुमारत्यादिपु स्थानेषु क्रमेण ताव द्रुक्तव्य याव ह्येमानिकृत्वे
 वैमानिकविषय सूत्र , तस्यैद-नेरड्याए ज्ञेते । येसाणियत्ते कःड्या वेयशा समुग्याया अतीता ? गोयसा । अथता केवड्या पुरस्खडा ? गोयसा ।

एवमेते चउवीस चउवीसा दुरुगा । नेरड्याए ज्ञेते । नेरड्यत्ते केवड्या वेदणासमुग्याया अतीता ? गो
 यसा । अथता । एव जाव वेमाणियत्ते । एव नह्यवीत्राण ज्ञाणियञ्जा जाव वेमाणित्राण वेमाणियत्ते ।
 एव जाव तेयगसमुग्याए नवर उवउज्जिजग ज्ञेयश्च । जरम अथित्य वेउह्नित्रंतयगा । नेरड्याए ज्ञेते !

तुविंशतिहरवदा यावद्वैमानिकस्य वैमानिकत्वे । एकेऽस्य नरक नेरपिऽस्य नेरपिकरव कियत केवलिसमुद्घाता अतीता ? गीतम ।
 नसन्ति । कियन्त पुरस्कृता ? गीतम । नसन्ति । सव याऽह्नित्रिकत्व एव मनूयत्ते अतीता नसन्ति पुरस्कृता कस्य सन्ति कस्य नसन्ति
 दीवा नकोसेण तिग्नि कारऽया परेखडा । केहनखे एहन गीत , नखे त जग्य न दीश अदिवा उरकण ३ कदिवा केतना प.लि कोधा । गोयसा
 कस्य अथि कस्य नथि नसन्त्ये जहं एकोवा दीवा तिग्निवा वक्रामेण चत्तारि एव सवजोवाण मयसाण नां मयसाए अतीता । इतीतम केद
 नेखे केहन नथो केहनेके तहन जवन्य एक दोग तोन चरकण ४ इम सर्वगोवा मनुयेन कदिवा मनुयेने यतीतकाल । कस्य अथि कअर नथि ज
 थथि जहं एकोवा टावा तिग्निवा च० चत्तारि परेखडाधि एवचैव एते पडयोस चउवीसडुगा जाव वेमाणियत्ते । कहनखे केहने नथी केहनेहे तेद

णि अग्नितव्याः सम्यति तैत्रससमुद्र्यातमतिदेवात् प्राह ॥ तैयगेत्यादि ॥ तैजससमुद्रातो यथा भारणातिकसमुद्र्यात स्थाया वक्तव्य किमुक्त
 प्रवति स्वस्थान परस्थाने वा गकोशरिकाया स वक्तव्य इति, नवर यस्य नास्ति न सजवति तैजससमुद्र्यात स्थाय न वक्तव्य वत्र नैरयिकपयि
 व्यपत्तेषोवायुवनस्पतिद्वित्रिषदुरिन्द्रियेषु न सम्भवतीति वक्तव्यः, सर्वैव-एगमेगस्सण जते । नैरइयस्स नैरइयत्ते केवइया तैयसमुग्घाया अती
 ता १ गो० । नात्य केवइया पुरस्सका १ गो० । नत्य एगमेगस्सण जते । नैरइयस्स असुरकुमारत्ते केवइया तैयससग्घाया अतीता १ गोयसा ।
 अणता केवइया पुरस्सका १ गो० । कस्सइ अत्यि कस्सइ नत्यि जस्सत्यि जस्सणैण एक्कोवा दोषा तिक्किवा एक्कोसण असरेज्जा वा अणता वा
 इत्यादि ॥ सुत्रोक्तावशेष मुपजीव्य स्वय परित्रावनीय , अथापि सूत्रसत्यासाह-एवमित्यादि ॥ यथं भारणातिकसमुद्र्यातगतं क्षयि स्वर्गया

स्स मणुस्सत्ते अतीता कस्सइ अत्यि जस्सत्यि जहन् एक्कोवा दोषा तिक्किवा उक्कोसं० च
 त्तिरि पुरेक्कणावि एव । एवमेते चउवीस चउवीसा दफुगा जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते । एगमेगस्सण
 जते । णैरइयस्स णैरइयत्ते केवतिया केवलिसमुग्घाया अतीता १ गोयसा । नत्यि केवइया पुरेक्कणा १

य यावद्वैमानिकत्वे नवर मनुयत्वे अतीता कस्य सन्ति कस्य नसन्ति यस्य सन्ति अपत्येनेको वा द्वी वोरकपत्तय । कियत्त पुरस्सता
 गीतम । कस्यास्ति कस्य नास्ति यस्यास्ति अपत्येनेको द्वी त्रयो वा उत्कर्षत यत्वार एव सर्वेजीवानां मनुयेषु प्रपितव्यम् । मनुयस्य मनु

कस्य अत्यि तस्य भा० । पर एविगेय जेइनेके तेइने कडिवा । जस्यनत्यि तस्य नमुच्चति यत्थवि चउवीस चउवीसइडगा भा० । जेइने नथी तेइने नक
 कसमुग्घात कस्यो तिम कडिवा । एतए टणहक अटा २ जगणिया । तैयससमुग्घापो जडा भारणतियससुग्घापो तडा भाणि० । तैजससमुग्घात जिम थडिले भारणाति
 कडिवा । एगमेगस्सण भते षेरइयस्य षेरइयत्ते केवइया चाहारगससुग्घाया अतीता । एकेवा इभगवन् नारकीणे नारकीणे केतवा चाहारकसमुग्घात

• टीका

• ५५ •

• ५६ •

• भाषा •

हा पुत्रविनाइयते तिरिकुसंपिदिपते मणुवते जहा वाउकाइयते वाशर्मतर तीइसियवेसामिणयत्तेशु जग अपुरकुमारते ॥ इति वाउकाइयते ॥
 द्घातसत्तव स्तत्र प्रावना कयायवमुघातव झावनीया ग्रन्थ तु प्रतियपथ मुप्रतीतो वाक्यनख्ये रेवाचसवात् ययाच नेरयिकस्य वतुविज
 तिदगहकक्रमेण सूत्रमपदज्ञितमेव मसुरकुमारादीनामपि चतुर्विंशतिदगहकक्रमेण सूत्रमगन्तव्य नरर मसुरानाराटिपु स्त नननुमारपर्यवसा
 नेपु व्यन्तरादिपु व परस्पर स्वस्थाने सुकान्तरिगा परस्थाने सख्येयादयो वक्तव्या , वायुकायिकातयकपञ्चान्द्रयमनुष्येषु परस्पर स्वस्थाने वा
 एकीतरिका शप तथैव एवमेतान्यपि चतुर्विंशतिदगहकमूत्राणि जवन्ति तथा वाह-ग्रामते चउवीसा दगडगा ज्ञापिपथा ॥ स्वमु
 पदज्ञितेन प्रकारेण अत्रापि वैक्रियसमुद्घातविषयपि चतुर्विंशतिसङ्ख्या ॥ चउवीसा इति ॥ चतुर्विंशतिस्थानपरिणामदयकसूत्रा

पदज्ञितेन प्रकारेण अत्रापि वैक्रियसमुद्घातविषयपि चतुर्विंशतिसङ्ख्या ॥ चउवीसा इति ॥ चतुर्विंशतिस्थानपरिणामदयकसूत्रा
 पुरे० ? गीयमा । नल्यि । एवं जाव वेमाणियत्ते नवरं मणुस्सत्ते, च्यतीता कस्सड च्यल्यि कस्सड नल्यि
 जरसल्यि जहन्त एक्कीवा दोवा उक्कीमंण तित्ति । केवडया पुरे० ? गीयमा । कस्सड च्यल्यि कस्सड नल्यि
 जरस च्यल्यि जहन्त एक्कीवा दोवा तित्तिवा उक्की० चत्तारि एव सख्जीत्राण मणुस्सत्तसु ज्ञापियव्व । मणुस्स

तेजससमुद्घातो यथा मारणान्तकसमुद्घातो नवर यस्यास्ति तस्य तदुच्यते एवमेत चतुर्विंशतिचतुर्विंशतिदयकका ज्ञापितया । मक्केफ
 स प्रदत्त । नेरयिकस्य नेरयिकले कियन्त आहारकसमुद्घाता अतीता । गीतम । नास्ति । कियन्त पुरस्सता. १ गीतम । नास्ति । ए
 त्तिवा । जाव वेमाणियस्य वेमाणियत्ते एव एते चउव्याम चउवी उडडगा भा० । यावत् वेमानिकने वेमानिकपणे ज्ञापिबो इन ० २४ दडक जुडा
 जडा ज्ञापिवा । मारणातिवसमग्घातो सङ्घाणेवि परङ्घाणेवि एगत्तरिवाण णेयव्वो । मारणातिकमग्घातने स्वस्थाने तथा परस्थाने १ इतर हडि वा
 पिबो । जाव वेमाणियस्य वेमाणियत्ते एव एते चउवीम डडगा भाणि० । जालग वेमानिकने वेमानिकपणे इन एणिय २४ दडक जुडा २ ज्ञापिवा ।
 वेवन्नियसमुग्घातो लडा कसावसमुग्घातो नपिथा तदा निरवसुवी भाणि० । वैक्रियसमुद्घात चपाउसमुद्घातनो परे निर्विशेषपण कडिबो । णवर

रस्यडा गीयमा । कसइ अत्थि कसइ नत्थि जसत्थि सिय असलेजा सिय अणना, एवं नेरइयसज जाव थणियकुमारते । एगमेगससण जते । नेरइयस पढविकाइयते केउइया वेउवियसमुग्घाया अतीता । गीयमा । नत्थि कइइया पुरस्सडा गीयमा । नत्थि एउ जाव तेउकाइयते । एगमेगससण जते । नेरइयस धाउकाइयते केउइया वेउवियसमुग्घाया अतीता गीयमा । अणता कइइया पुरस्सडा । गीयमा । कसइ अत्थि कसइ नत्थि जसत्थि जइनेण एकओवा दोया तिलिवा उक्कोसेण ससका या अससेजा वा अणता वा वणसइकाइयते जाव यउरिदियते ण मेते चउवीस चउवीसा दरुगा ज्ञाणियइया वेउवियसमुग्घाउ जहा कसायसमुग्घाउ तहा निरवनेसो ज्ञाणि यइयो नवर जसस अत्थि तसस त वुच्चइ एत्थि चउवीस चउवीसा दरुगा ज्ञाणियइया तेयसमुग्घाउ जहा मारणतियसमुग्घाउ नवर जसस अत्थि तसस त वुच्चइ एव एते चउवीस चउवीसा दरुगा ज्ञाणियइया । एग मेगससण जते । णेरइयस णेरइयते केउइया ज्ञाहारसमुग्घाया अत्थिता ? गीयमा ! नत्थि । केउइया मुद्दातो यया मारणात्तिकसमुद्दातो नवर यस्यात्ति एअमेते वनुविंशतिदइका ज्ञाणियथा यतुविंशतिदइका । मारणात्तिकसमुद्दात स्वस्थानेपि पकोत्तरिकया नतव्यो यावद्वैमानिकस्य वैमानिकथे । एवमेत यतुविंशतियतुविंशतिदइका ज्ञाणितरथा , वैक्रियसमुद्दातो यथा कयायसमुद्दातस्तथा निरवजयो ज्ञाणितवयो नवर यस्यात्ति तस्य तदुच्य ऽगपि यतुविंशतियतुविंशतिदइका ज्ञाणितरथा । धी जइनेछे तइने उत्तरहादि करिवां वानव्यतरन जिम नारकोपणे ज्ञातिया वैमानिकपणे पवे नवरता पागलेकोधा । कसइ यत्थि कसइ नत्थि ज रसात्थि सिउ स० सिय पसे० मिय अणता एव जाव मपुरसेवि सेयव्व । कइनेछे केउने नवी जेइनेछे तेइने कियारे सखाता किगरे यसयगाता कि धार थनरता इम जालगे मनुयता पाछे तालगे कइवी । वाणमतर जोरसिय वमणिग जइया अमुरकुमार । अवर सडाणे एगुत्तरियाए भापि० । वानयतर ज्योतियो वैमानिक जिम अमुकुमारतो परे जाणवो पर एविगेप सखाने १ उभार दइिकरो कइवी यावत् वैमानिकने वैमानिकपणे

। टीका ।

। ५०७ ।

। ५०७ ।

। ५०७ ।

र-वेऽथैत्यादि ॥ वैक्रियसमुद्घातो यथा क्षपायसमुद्घातः प्राक् प्रतिपादित स्त्रिया 'निरवशेषो' ज्ञपितव्यः, केवत यस्य वैक्रियसमुद्घा-
तो नास्ति वैक्रियलभ्यस्यासम्भवात्, तस्य नोच्यते शेषव्योच्यते सचैव-एगमेगस्सण प्रते । नेरइयस्स नेरइयते केवइया विवड्वियसमुघाया प्रती
ता । गोपमा । अणता । केवइया पुरक्खडा । गोपमा । कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि कस्सत्थि जइक्कण गक्कीवा दोवा तिनिवा उक्कोसेण सखेज्ज
या अससेज्जा वा अणता वा । एगमेगस्सण प्रते । नेरइयस्स असुरकुमारत्ते केवइया वेऽथवियसमुघाया अतीता । गोपमा । अणता केवइया पु

य झुणंता एव जाव मणुस्सस्स णेयव्व । वाणमतरजोडिसियवेमाणिया जहा असुरकुमारं नवरं सठाणं एगु
त्तरियाए जाणियव्वे जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते । एव एए चउत्रीस चउत्रीसा दहगा जाणियव्वे । ते
यगसमुग्घात्तं जहा मारणतियसमुग्घात्तं नवर जस्म झुत्थि एव एतेवि चउत्रीसा दहगा जाणियव्वे । चउ
वीसा दहगा । मारणतियसमुग्घात्तं सठाणंवि एगुत्तरियाए नेयव्वे जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते, एव

स्यादनन्ता । पृथिवीजायिकत्वे यागन्मनुष्यत्वे एकोत्तरिका । वानथ्यत्तरत्वे यथा नेरयिकत्वे, ल्योतिकवैमानिकत्वं प्रतीता अनन्ता
पुरन्दृता कस्यसि कस्यापि नास्ति यस्यासि स्यादनन्ता यव यावन्मनुष्यं ज्ञातव्यम् । वानथ्यत्तरज्योतिकवैमानिका यथाऽपुरकुमारी
नयुर स्वस्थान एकोत्तरिकया ज्ञपितव्यं ज्ञपितव्यं याग्टेमानिजस्य वैमानिकत्वे, एवमेते घतुर्वैशति घतुर्वैशतिदहका प्राणितव्या । तैजसस

रत्ते प्रतीता अणता पुरक्खडा । द्विवे असुरकुमारने पृथिवीकायने नारकोपणे पूर्वकीधा अनन्ता कोधा अगले । कस्सइ अ
त्थि कस्सइ नत्थि कस्सत्थि सिंय मखिल्ला सिंय चसं मित्रं अणता पुट्ठोविक्काऽवरम पुट्ठोकाइयत्ते जाव मणुस्सत्ते प्रतीता अणता परेक्खडा । केवइयत्ते क
इने नवोक्किनेके तेहन किवारे संयव्वता किवारे असंयव्वता किवारे अणता पृथिवीकायने पृथिवीकं यपणे, जालगे मनुष्यत्वे पूर्वकीधा अनन्ता कोधा
पुंजत्तं । कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि कस्सत्थि एगुत्तरिया-वाणमतरत्ते कदा वेरइयत्ते कीरइयत्ते कीरइयत्ते अणता प्रतीता पुरक्खडा । केवइयत्ते केवइने न

तिकसमुद्रघातमन्त्रेण काल कृत्वा नरका दुहृत्तोऽनन्तर पारपर्येण वा मनुष्यत्रय प्राप्य सेरस्थिति न प्रथो नरकगामी तस्य न संति पुरस्कृतो मारणातिकममुद्रघातः स पुन सद्भवे वत्समाप्तौ मारणातिकसमुद्रघातेन काल कृत्वा नरका दुहृत्त संस्थिति तस्यैव पुरस्कृता मारणातिक समुद्रघातो य पुन पूर्वोपि नरकभागस्य सर्वसख्येया द्वी मारणातिकसमुद्रघातो यवु त्रिप्रभृतयोपु प्रावनीया सख्येयान् वारान् नरकभागतु सख्येया , असख्ययान् वारान् असख्येया , अनन्तान् वारान् अनन्ता । मय मसुरकुमारस्य आलापको वाच्यो नगरमन्त्रेण जायमानो यो नरका दुहृत्तो मनुष्यत्रय प्राप्य सेरस्थिति यदि वा तस्मिन् प्रवे मारणातिकसमुद्रघात गत्वा मनुष्यमाशुच्य ततोव्यत्रव सिद्धि गता तस्यैव सति शेषस्या देवैकादिनावना प्रागिव व्यन्तरज्योतिरुज्ज्वलिते यथा नैरयिकस्य नैरयिकादिषु चतुर्विंशतिस्थानेषु चिन्ता कृता तथा सुरकुमारदीना विमानिक पर्यवसाना चतुर्विंशतिदशककर्मण कर्तव्या । तदेव मन्व्याव्याव चतुर्विंशतिदशककर्मणि प्रवृत्ति तथा गृह-एव एष चतुर्विंशत चतुर्विंशत गता नाराण्यथा ॥ इत्युक्तो मारणातिकसमुद्रघात चतुर्विंशत्या चतुर्विंशतिदशककर्म सास्त्रतमेतावत्सख्येयसूत्रे वैक्रियसमुद्रघात विजयपुरा

पुढविकाडयस्स णेरइयत्ते जाव थणियकुमारत्ते अतीता अणता , पुरेस्कृता कस्सड अल्लिय कस्सड नल्लिय जस्सल्लिय सिय सखिज्जा सिय अस्सखिज्जा सिय अणता । पुढविकाडयत्ते जाव मणुसत्ते एगुत्तरिया , वाणम तरत्ते जहा णेरइयत्ते , जोडसिन्वंमाणियत्ते अतीता अणता पुरे० कस्सड अल्लिय कस्सड नल्लिय जस्सल्लियसि

मय यावत्सन्तित्तुमारस्यापि विमानिकत्वे नवर सर्वेया स्वस्थने एकोनरिक परस्थाने यथा चेत्तुराजुमारस्य , परियवोकायिकस्य नैरयिकत्वं यावत्सन्तित्तुमारत्वेऽतीता अनन्ता , पुरस्कृता कस्याप्यति कस्यापि नास्ति यस्यात्तिस्यात्सख्येया स्यादसख्येया रक्षीनो कश्चो तिमन्नीन । एव जाव थणियकुमारस्यात्रि वेमाणिवत्ते षवर सर्वोस सङ्घणे एगुत्तरियाण एपरङ्घणे जडेव । इम जावने स्तानित्तुमारने वेमाणिकत्वे एवमथपि सर्वेठाने एक षष्पर हहकारिणे परठामे तिमहोब कहिंवा । षपुरकुमारस्य पुढवोकाडयस्य खेरइयत्ते जाव थणियकुमा

तेषु नैरयिकस्य पृथिवीकायिकत्व इव प्रावनीया ॥ वाणमत्तरे जहा नैरडयत्ते इति ॥ व्यन्तरत्वे तथा वक्तव्य किमुक्त प्रवर्त एकोत्तरिका न वक्तव्या किंतु ॥ सुरेजा धिय अणता इति ॥ वक्तव्य ॥ जोइसियइत्यादि ॥ ज्योतिकैवैमानिकत्वे यथा चातीता स्वयैव पुरस्कृता , यदि सति ततो जप्यपदे ऽवश्यपया चरुष्टपदे ऽनन्ता , यवमपूकायिकस्य याव ल्मन्यस्य नतव्य , व्यन्तरज्योतिकैवैमानिकाना यथा सुरकुमारस्य नवर पुरस्कृतचित्ताया संव स्वस्थाने गकोत्तरिकया वक्तव्य परस्थान यथा ऽसुरकुमारस्य सूत्र सूत्रपर्यंत दर्शयति-याव हेमानिकत्वे वैमानिकत्वविषयम् यवमेते कपायसमुद्घातगता चतुर्विंशतिसंख्या चतुर्विंशतिदशका ज्ञातव्या तदेव मुक्त चतुर्विंशत्या चतुर्विंशतिदशकसूत्र कपाय समुद्घात सम्प्रति चतुर्विंशत्यै चतुर्विंशतिदशकसूत्रे भारणान्तिकसमुद्घातमाह-भारणान्तिकसमुद्घात-पुरस्कृतचित्ताया स्वस्थान परस्था नै वा गकोत्तरिकया नेतव्यो याव हेमानिकत्वविषयसूत्र तत्रैव ॥ एगमेगस्वशा जते । नरडयस्स नैरडयत्ते कवइया भारणतियसमुग्घाया अतीता १ गायमा । कस्सइ अत्यि कस्सइ नत्यि जस्सत्यि जहत्तेण एक्कोवा दोवा तित्तवा उक्कोवेण ससज्जावा असखज्जावा अणतावा ॥ तत्र यो भारणा

पुरे० एगुत्तरिया । एव नागकुमारस्ते निरतरं जात्र वैमाणियत्ते जहा णेरडयस्स ज्ञाणियं तहेव ज्ञाणियच्च ।
एव जात्र थणियकुमारस्सवि वैमाणियत्ते नवर सखेसि च्छाणे एगुत्तरिच परछाणे जहचेव अ्सुरकुमारस्स

असुरकुमारस्य नैरयिकत्वेऽतीता अनता पुरस्कृता कस्य सति कस्य न सति यस्यास्ति स्यात्सङ्घेया स्यात्सङ्घेया स्यादनता । असुरकुमारस्ते अतीता अमन्ता , पुरस्कृता एकोत्तरिका । नागकुमारस्ते निरतर यावद्वैमानिकत्वे यथा नैरयिकस्य ज्ञाणित तथैव ज्ञाणितव्यम् ।

मूक्या यनत्त चागले करणे कहनेके कहने नथो जेहनेके तेहने ससगाता यमसगाता किशारे यनत्ता । असुरकुमारस्य यमुरकमारस्ते अतीता । असुरकुमारस्ते पसरकुमारपणे केतला पूर्वकोधा । गोवमा अणता पुरख्खडा एगुत्तरिया एव नागकुमारस्ते जात्र वैमाणियत्ते जहा णेरडयस्स भणिय तहा भाणियच्च । हेभोतम यनत्ता पूर्व करस्ये एक चत्तर दहकस्सि एव नागकुमार ते पिण कस्सिवा जाखी वैमानिक पिण इमहीज जाणिवो जिनना

गारत्वे ततज्जं चतुर्विंशतिदशककर्मण निरन्तर याव हेमानिकत्वे वैमानिकत्वे सूत्र यथा नेरोयिकस्य अखित तथैव अणितव्यम् । किमुक्त
 प्रयाति नागकुमारत्वाद्यु स्तानितकुमारपर्यवसानेषु, पुरस्कृतचित्ताया-कस्सइ अतिय कस्सइ नतिय अस्सात्य सिध सखज्जा सिध असखेज्जा सि
 य अणता ॥ पृथिवीकायिकाटिपु मनुष्ययवसानेषु ॥ अस्सतिय अण्णोवा दोवा तिक्खिवा उक्कोसेण सखेज्जावा असखेज्जावा अणतावा ॥
 व्यन्तरत्वे ॥ अस्सतिय सिध सखेज्जा सिध अणता ॥ ज्योतिक्खत्वे ॥ अस्सतिय सिध असखेज्जा सिध अणता ॥ एव जायत्यादि ॥
 यवमुक्तेन प्रकारेण सुरकुमारत्वे नागकुमारस्य याव स्तानितकुमारस्य प्रत्यक याव हेमानिकत्वे वैमानिकत्वेयसूत्र ताव दृक्त्वव्य अत्रैव विशेष्यता
 व्या ॥ पुढाधिकइयस्स नेरइयत्ते इत्यादि ॥ पृथिवीकायिकस्य नेरियिकत्वे याव स्तानितकुमारत्वे ऽधीता अनन्ता, अत्र प्रावना प्रागिव पुररु
 ता कस्यापि सति कस्यापि न सति तत्र य पृथिवीकायिकस्य नेरियिकत्वे याव स्तानितकुमारत्वे ऽधीता अनन्ता, अत्र प्रावना प्रागिव पुररु
 व्य सिद्धि गता तस्य न सति तत्र य पृथिवीकायिकस्य नेरियिकत्वे याव स्तानितकुमारत्वे ऽधीता अनन्ता, अत्र प्रावना प्रागिव पुररु
 द्याताना प्रायात्, उरुत्कर्पतो ऽसत्ये या अनन्तावा तत्र प्राग् इहाधियतव्या, पृथिवीकायिकस्य याव मनुष्यत्वे अतीता स्ते तथैव प्रायिन
 एकोत्तरिकया वक्तव्या सापैव-कस्सइ अतिय कस्सइ नतिय असखेज्जा सिध सखेज्जावा असखेज्जावा अणतावा ॥

कस्सइ नतिय अस्सतिय सिध सं० सिध अण्णता । असुरकुमारस्स असुरकुमारस्ते अतीता अण्णता

ता अनता, पुरस्कृता कस्य सति कस्य नसति यस्य सति स्यादसङ्ख्यया स्यादनता । एव वैमानिकत्वेपि स्यादसङ्ख्यया स्यादनता ।

कस्सने नधी जेइनेहे निवारे सख्याता किवारे यमख्याता किवारे अनन्ता इम वैमानिकत्वे पिण कोइ सख्याता कोइ असख्याता कोइ अनन्ता । न
 सुरकुमारस्स अरयत्त अणता पुरेखडा कखर भलिय कखर नतिय अस्सतिय सिध सं० सिध असखेज्जावा असखेज्जावा अणतावा । असुरकुमारा नरपत्ने केतला कोकरी

तेषु नैरयिकस्य पृथिवीकायिकत्व इव भावनीयाः ॥ वाणमरुत्ते जहा नैरइयत्ते इति ॥ व्यन्तरत्वे तथा वक्तव्य किमुक्त भवति एकोत्तरिका न
 वक्तव्या किमु ॥ सुरेजा विष अणना इति ॥ वक्तव्य ॥ जोइसियइत्यादि ॥ ज्योतिकैवमानिकत्वे यथा चातीता स्तथैव पुरस्कृता , यदि सति
 ततो जप्यपदे उवश्यया चरुष्टपदे अनन्ता , यवमपकायिकस्य याव ल्मन्यस्य नतव्य , व्यन्तरज्योतिकैमानिकाना यथा सुरकुमारस्य नवर
 पुरस्कृतचित्ताया समं स्वस्थाने एकोत्तरिकया वक्तव्य परस्थाने यथा अशुरकुमारस्य सूत्रं सूत्रपर्यंत दर्शयति-याव द्वैमानिकत्वे वैमानिकत्वविष
 यन्त एवमेते कपायसमुद्र-पातगता अतुर्विशतिसस्या अतुर्विशतित्थका जणितथ्या तदेव मुक्त अतुर्विशया अतुर्विशतित्थकासूत्र कपाय
 समदपात सम्प्रति अतुर्विशयैव अतुर्विशतित्थकासूत्रे मौरणान्तिकसमुद्र-पातमाह-भारणान्तिकसमुद्र-पात-पुरस्कृतचित्ताया स्वस्थान परस्था
 ने वा एकोत्तरिकया नेतव्यो याव द्वैमानिकत्वविषयसूत्र तत्रैव ॥ एवमेगस्सण जते । नरइयस्स नरइयत्ते कवइया मारणान्तियसमुच्चया अतीता ॥
 गोयमा । कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि जस्सत्थि जहत्थेण एक्कोवा दोवा तित्थिवा वक्कोसेण सखज्जावा असखज्जावा अणतावा ॥ तत्र यो मारणा

पुरे० एगुत्तरिया । एव नागकुमारस्ते निरतर जाव वैमाणियत्ते जहा णेरइयस्स जणियं तहेव जणियत्तं ।
 एव जाव थणियकुमारस्सवि वैमाणियत्ते नवर सखेसि सठाणे एगुत्तरिजे परठाणे जहचेव अशुरकुमारस्स

अशुरकुमारस्य नैरयिकत्वेऽतीता अन्ता पुरस्कृता कस्य सति कस्य न सति यस्यास्ति स्यात्सहेया स्यादसहेया स्यादन्ता । अशुरकु
 मारत्वे अतीता अनन्ता , पुरस्कृता एकोत्तरिका । नागकुमारत्वे निरतर यावद्वैमानिकत्वे यथा नैरयिकस्य जणित तथैव जणितव्यम् ।
 नव्या अनन्त पागले कररे कंइनेके केइने नयो जेइनेके तेइने नसगाता अससगाता किचारे अनन्ता । असरकुमारस्य अशुरकुमारस्ते अतीता । असु
 रकुमारने असरकुमारपणे केतना पूर्वकीषा । गोयमा अथता पुएब्बडा एगुत्तरिया एव नागकुमारस्ते जाव वैमाणियत्ते जहा णेरइयस्स भणियं तहा
 माणियत्तं । इगोतम अनन्ता पूर्व करस्से एक सत्तर इवकरिये इम नागकुमार ते पिण कव्विपो-जावगे वैमानिक पिण इमहीज जाणिवो जिमना

मय्युरकुमारणांनिव जघन्यस्थितानांनिव सर्वथेयाना कथायसमुद्घातानां लस्यमानत्वात् । असुरधीयानां तद्भावनाप्यसुरकुमारवत् ॥ लोड्विधियते
 इत्यादि ॥ ज्योतिषकत्वे अनीता अनन्ता वक्तव्याः, पुररुहतास्तु कस्यापि सति कस्यापि न सति एतदपि प्राग्द्वावधीय । यस्यापि सति त
 स्यापि कस्याचि त्वहेयाः कस्याचि दननाः नतु स्या त्वहेया इति वक्तव्यं कुनश्चित्थे दुच्यते-ज्योतिषाणां जघन्यपदेप्यसहेयकालायुक्तया
 जघन्यतो प्यसव्येयाना कथायसमुद्घातानां लस्यमानत्वात्, अनन्तस्यसूत्र जिगमिषूणा मनन्ता, एव वेमानिकत्वेऽपि । पुररुहताचिन्ताया
 स्यादवल्येया स्यादनन्ता इति वक्तव्यं, ज्ञावना प्राग्द्वात् तदेव नैरियिकस्य स्वस्थाने परस्थाने च कथायसमद्घाता स्थितता सम्प्रत्यसुरकु
 मारेषु तान् चिन्तयितुमाह-गगनगश्वाभिन्यादि ॥ एकैकस्यासुरकुमारस्य नैरियिकत्वे कथायसमद्घाता अतीता अनन्ताभिन करय चि रच
 ति कथायच न सति, तत्र सोऽसुरकुमारजवा दुष्टो नरक यास्यति तस्य न सति यत् यास्यति तस्य सति तस्यापि जघन्यत सत्येया ज
 घन्यस्थितावपि सत्ययाना नरकषु जावात्, उरुच्यतोऽसहेयेया अता वा तज जघन्यस्थितिषु सत्तद्वत्तद्वा जिगमिषो रस
 थयया अनन्तजो जिगमिषो रनना । असुरकुमारस्यासुरकुमारत्वे अतीता अगता, पुररुहतास्तु कस्यापि सति कस्यापि न सति, तज योऽसुर
 कुमारजव पर्यतजती नच कथायसमद्घात याता नापि तत्र प्रज्जटो जूयोऽसुरकुमारजव लक्ष्या यि त्वनतर पारंपर्येण वा सस्यति तस्य न सति
 शेषस्य तु सति यस्यापि सति तस्यापि जघन्यत एको द्वीवा प्रयोवा उरुच्यत सहेयेया अनन्ता वा, तत्र गकादय शीकापु शंयाणा
 वनाधजाजा जूय सत्रेया नुत्पस्यमानाना सबगक्तव्याः, सत्ययादयो नैरियिकत्वे इव ज्ञावनीयाः ॥ एवमित्यादि ॥ एवमित्येन प्रकारेण नागकु

एव वेमानियवत्तेवि सिय श्पस० रियत्र श्पणता । असुरकुमारस्व णेरड्यत्ते श्पणता श्पतीता पुरे० कस्सड्ड श्पल्यि

स्य सानितकुमारत्वे पयिवीकापिकव एकोत्तरिकया श्वातव्यम्, एव यावन्ननुष्यत्वे । वागव्यतरत्वे यथाऽसुरकुमारत्वे । ज्योतिषकत्वे अती

नां सिय असखेजा सिय नयता एवं वेमानियवत्तेवि सिय सखेजा सिय असखेजा सिय नयता । अनन्ताकांथां ज्ञातव्या आगते कारसे केहनहे

मध्यसुरकुमारानामि अथस्थानाश्चपि संश्लेषानां कथायसमुद्घातानां लब्धमानत्वात् । अर्शस्थेयानां तद्भावनाप्यसुरकुमारवत् ॥ जोडस्थियत्ते
 इत्यादि ॥ ज्योतिष्कत्वे अनीता अनन्ता यक्त्याः । पुरस्कृतास्तु कस्यापि यति कस्यापि न सति एतदपि प्राग् द्वावीय । यस्यापि खति ॥
 स्यापि कस्यचि रसहेया कस्यचि वनन्ताः नतु स्या रसहेया इति यक्त्य कुनइतिचे दुच्यते-ज्योतिष्काणां अथन्यपदेप्यसहेयकालायुक्तनया
 जयन्तो प्यसुख्येयानां कथायसमुद्घातानां लब्धमानत्वात् । अनन्तस्यसूत्रे जिगमिपूणा मनन्ताः । एव वेमानिकत्वेऽपि । पुरस्कृताचिन्ताया
 स्वादसख्येया स्वादनन्ता इति यक्त्य । ज्ञानना प्राग्बत् तदेव नैरपिकस्य स्वस्थाने परस्थाने च कथायसमुद्घाता अचिन्ता सस्रत्यसुरकु
 नारेषु तान् चिन्तयितुमाह-पगमगस्सणमित्यादि ॥ एकंजरयासुरकुमारस्य नैरपिकत्वे कथायसमुद्घाता अतीता अनानाविदन. कास्य चि रस
 ति कास्यचि न सति । तत्र यो असुरकुमारजग दुहुतो नरक यास्यति तस्य न सति यस्तु यास्यति तस्य सति तस्यापि जयन्त सस्येया ज
 यन्त्यस्तितावपि सशयानां नरकपु जावात् । उरुजपतो असहेया अनता वा तत्र जयन्त्यस्त्वितिथ सकृदीर्पस्थितिपु सजडसकृदा जिगमिपो रस
 स्यया अनतशीजिगमिपो रनता । अमुरकुमारस्यासुरकुमारत्वे अनीता अर्गता । पुरस्कृतास्तु कस्यापि सति कस्यापि न सति । तत्र यो असुर
 कुमारजय पपंतवती नव कथायसमुद्घात याता नापि तत्र प्रज्ज्ञो नूया असुरकुमारभव एतस्या पि त्वनतर पारपयंग वा सस्यति तस्य न सति
 ज्ञापश्य तु सति यस्यापि सति तस्यापि जयन्त एको हीवा जयोवा उरकपत सहयेया असस्यया ध्याना वा । तत्र मकादय जीशायु ज्ञोपाणा
 सद्भावनाना नूय स्त्रेया तुत्पत्स्यमानावा भवगन्तव्याः । सख्येयादयो नैरपिकत्वे इव ज्ञानवीयाः ॥ एवमित्यादि ॥ एवमुक्तेन प्रकारण नागकु

एव वेमाणियत्तंवि त्तिव ज्युस० सिध ज्युणता । असुरकुमारस णेरडयत्ते ज्युणता ज्युतीता पुरे० कस्सड ज्युत्थि

स्य स्तानितकुमारत्वे पृथिवीकायिकत्व एकोत्तरिकया धातव्यम् । एव यावन्ननुष्यत्वे । वाग्व्यंतरत्वे यथाऽसुरकुमारत्वे । ज्योतिष्कत्वे अती

ना सिध यसखेजा सिध गणता एवं वेमाणियसोवि सिध सखेजा सिध असखेजा सिध अथता । यपन्तावीया जंतवा प्राग्बो कारस्ये केवने

क्षेत्र्यां कसायसमुदाया अर्द्धया २ गीयमा । अणता । केवइया पुरेख्यहा २ गीयमा । कस्सड अतिय कस्सड नतिय जस्सतिय जइनेण एकोवा
 दोया तिलिवा उकोवेण सरेज्जा अचरेज्जावा अनतावा । गय याव त्थनयसूत्र तत्रापूजायादिवनस्पतिपर्यंते सूत्रजावना-पृथिवीकायसूत्रव
 हीन्द्रियनूत्र पुररुत्तपिन्ताया जयन्तेन एको हीवा त्रयोपंतितं सुरुज्जघन्यस्थितिक हीन्द्रियजव प्राप्तजायस्य सहुंया असहुंया अनत्तान् अनत्ता ।
 एव ग्रीन्द्रियपतुरिन्द्रियमूत्रेऽपि जावनीय । तिर्यक्पण्चेन्द्रियमनुष्यसूत्रविषया त्वेव जावना सकल्पण्चेन्द्रियजव प्राप्तुकायस्य स्वनायत एवाल्यक
 पायस्य जचन्त एको हीवा त्रयोवा शेषस्य सख्येयान् तिर्यक्पण्चेन्द्रियजव प्राप्तुकायस्य सख्यया याव दनत्तान् वारान् अनत्ता । मनुष्यसूत्रेपु
 पुररुत्तविषयाजावनेय-योमरकनवा दुहुतो ऽल्पकपाय सन मनुष्यजव प्राप्य कपायसमुद्घातमप्राप्तएउ सिद्धिपुर गता तस्य न सति शेषस्य
 सति तस्याल्येकुही वीन् वारान् कपायसमुद्घातान् प्राप्य सेत्सति एको ही त्रयो वा सख्येयान् जवान् यदिवेकस्तिनपि जवे सख्येयान्
 कपायसमुद्घातान् गतु सख्येया असख्येयान् जवान् प्राप्तुकायस्य ऽसख्येया अनत्तान् अनत्ता ॥ वाणमतरत्ते जहा असुरकुमारत्ते ॥ प्रागुक्त
 किमुक्त जवति पुररुत्तचित्तायाभेव वक्तव्य ॥ जस्सतिय सिय सरज्जा सिय अखसेज्जा सिय अणता वा ॥ नत्वेकोत्तरिका वक्ताया । ध्यत्तराणा

णियकुमारत्ते पृढविकाइयते एगुत्तरियाए नेयइ एव जाव मणुस्सत्ते । वाणमतरत्ते जहा असुरकुमारत्ते ।
 जीइसियत्ते अतीता अणता पुरे ० कस्सड अतिय जस्स अतिय सिय अतिय ० सिय अणता ।

न कस्यास्ति कस्य नास्ति परयास्ति एकोत्तरिका यावदनता । एकैकस्य जदन्त । नैरियिकस्याचुरकुनारत्ते कियत्त समुद्घाता अतीता ।
 गीतम । अनता । कियत्त पुररुत्ता २ गीतम । कस्यास्ति कस्य नास्ति परयास्ति स्यात्सख्येया स्यादनता एव यावत्तरियिक

खानितकमारली कहिवो पृथिवीकाय प्रति यानावे १ जाविवो । एव जाव नणुत्तत्ते वाणमतरत्ते जहा असुरकुमारत्ते जीइसियत्ते गतीता । २ म
 वासिगे मनुयने पिपवातवत्तर जिम् असुरकुमारने ज्योतीषीपषे केतवा पूरे इया । अणता पुरेखडा नखइ अतिय कखइ नतिय जस्सतिय सिय सखे

। टीका ॥

। मू ।

। मू ।

। मू ।

थाव रस्तानितकुमारत्वे तथाचाह-ग्वं जावेत्यादि ॥ पृथिवीकायिकत्वे ऽतीतसूत्रं तथैव पुरस्कृतचिन्ताया तु कस्याचि त्सन्ति कस्यचि न सन्ति तत्र यो नरः आदुद्वृत्तो न पृथिवीकायप्रव गभी तस्य न सन्ति योपिगन्ता तस्यापि जघन्यपदे एको द्वीवा उत्कर्षत सद्भेयावा ऽधरयेयावा तत्रैव तियगुपञ्चेन्द्रियप्रवा न्मनुष्यप्रवा हेउन्नवा हा कपायसमुद्घातसमुद्भूत सच प एकवार पृथिवीकायिकेषु गन्ता तस्य एको द्वीवारी गन्तु शीन् वारान्त्रय सख्येयान् वारान् सख्येया अख्येयान् वारान् अनन्तान् वारान् अनन्ता तथाचाह-पुढविकाशयत्ते एगुत्तरियाय् नैयद्यति तथा सव जाव मणुसत्ते सति ॥ एव पृथिवीकायिकतेनाप्रिलायप्रकारेण तावद्वाच्य याव न्मनुष्यत्वं तर्धैव-एगमेऽस्सण प्रते । नेरइयस्य आउकाइयत्ते

१ गोयमा ! कस्सड् झ्यल्लि कस्सड नल्लि जस्स झ्यल्लि एगुत्तरिया जाव झ्यणता । एगमेगस्सणं जंते ! णेर ड्यस्स झ्यसुरकुमारत्ते केवडया समुग्घाया झ्यतीता ? गोयमा ! झ्यणता । केवडया पुरे० ? गोयमा ! क स्सड् झ्यल्लि कस्सड् नल्लि जस्स ल्लि सिय सखि० सिय झ्यसखि० सिय झ्यणता एव जाव णेरइयस्स थ

का प्रयाति । एकैकस्य प्रदत्त । नैरयिकस्य नैरयिकत्वे कियत्त कपायसमुद्घाता श्रतीता ? गौतम । अनता , कियत्त पुरस्कृता. ? गीत नात्रा इषे ते विचारोने कहवा । एगमेगच्छय भते णेरइयस्स णेरइयत्ते केवडया कसायनसग्घागा श्रतीता । एकैजा हेभगवन् नारकीने नारकापणे के वला कपायसमुद्घात पूर्वकीवा । गोयमा श्रणता केवडया पुरस्कृता । हेगौतम अनन्ता केतला पूर्वकीवा । गोयमा कच्छड अल्लि कच्छड नल्लि ज झल्लि एगुत्तरिया जाव श्रणता । हेगौतम केवडये केवडये नही जे करस्से एकोत्तर एक जावगे बनत्सा । एगमेगच्छय भते णेरइया अस्सुरकुमारत्ते केवडया वमायसनग्घाया श्रतीता । एकैभीने हेभगवन् नारकीने अमुरकुमारपणे केतला कपायसमुद्घातपूर्वकीवा । गोयमा श्रणता केवडयापरेच्छडा । हेगो म अनन्ता केतला पूर्वकीवा । गोयमा कच्छड अल्लि कच्छड नल्लि ज झल्लि सिय सखिजा सिय प्रसखिजा सिय प्रसखिजा केवडये केवडये न वी जेवडये तेवडे सख्याता असख्याता अनन्ता पिण । एव जाव णेरइयस्स वणियकुमारत्ते पुढवीकाशयत्ते एगुत्तरियाए षेवच्च । इन जासगी नारकीने

दाहकसूत्रादीनि वैमानिकचतुर्विंशतिदशकसूत्रपर्यवसानानि चतुर्विंशति स्तदेव चतुर्विंशत्यादशकसूत्रे वैदनासमुद्घात चिन्तित सम्प्रति च त्रिविंशये चतुर्विंशतिदशकसूत्रे कपायसमुद्घात चिन्तयिषु रिदमा-एगमेगस्वशाभित्यादि ॥ तत्र नैरयिकस्य स्वाविषय प्रप्रसू सुगम पुरस्कृत चिन्ताया तु कस्यचि त्सन्ति कस्यचि न सन्ति तत्र य क्षीणोपायु प्रप्रसमये प्रवर्षयन्ते वर्तमान कपायसमुद्घात ममाप्तमय नरकत्रया दुट् वृत्यानन्तर पारस्पर्येणवा संरस्यति न नूयो नरकवासगामी तस्य न सन्ति पुरस्कृता नैरयिकरथे कपायसमुद्घाता शेषस्य तु सन्ति तस्यापि जघन्यत यत्रो द्वौवा त्रयोवा तेष क्षीणायु शोषाणा लङ्घनाना मवसेया, उत्कर्षत सत्येयाअसरयया वा अनन्तावा, तत्र सर्येयवर्षायु शो पाणा मसरयेया यदिवा सकृज्जघन्यस्थितौ उत्परस्थमानाना सरयेया असकृज्जघन्यस्थितौ सकृदसकृद्दोर्घस्थितावत्परस्थमानाना मनन्ता तया नैरयिकस्येवा सुरकुमारत्वविषये ऽतीतसूत्र तथैव पुरस्कृतसूत्रे-कसह आय कसह नत्यति ॥ यो नरकाट् दवृत्तो ऽसुरकुमारस्य प्राप्स्यति तस्य न सन्ति पुरस्कृता असुरकुमारत्वविषया कपायसमुद्घाता यस्तु प्राप्स्यति तस्य सन्ति' तथ जघन्यत सरयया जघन्यस्थिताव प्यमुरकुमारि या सरययाना कपायसमुद्घाताना ज्ञावात् लोनाटिकपायवदुलत्वा तथा उत्कृष्टपदे असरयेया अनन्तावा तत्र सकृद्दोर्घस्थितौ वा समुज्जघन्य स्थितिषु वा उत्परस्थमानाना मसरयेया अनन्तश्च उत्परस्थमानाना मनन्ता एव नैरयिकस्य नागकुमारत्वादिषु स्थानेषु निरन्तर ताव दृक्तव्य

अथचेत्सेसु ठाणपठाणेषु ज्ञानियेया जाय वैमाणियत्से । एवमेव चउवीस चउवीसा दहगा हवति । एगमे गस्सण जते । णेरइयस्स णेरइयत्ते केवडया कसायसमुग्घाया च्यतीता ? गीयमा ! चणता, केवडया पुरे०

नेषु प्रथितस्तथा नागकुमारादिका अवशेषेषु स्थानप्रस्थानेषु प्रथितव्या याऽऽमानिकस्य वैमानिकत्वे । एतमेव चतुर्विंशतियतुर्विंशतिदण्ड यो ज्ञानगे वैमानिक इम जिन वेदनासमुद्घात असुरकुमार नारकीघ्राटि वैमानिकपर्येत तिम काहिबो विम नागकुमाराटि बीजे धनरंठ,मि स्व स्थान परचोने काहिबो । जाय वैमाणियस्य वैमाणियत्से एवमेते चउवीस दहगा भयति । जाबगे वैमानिक वैमानिकपणे कसिंवा इम एधवा २४ धा

दीवा ।

॥ १ ॥

॥ २ ॥

॥ ३ ॥

चि त्सन्ति कस्यचि न सन्तीति ज्ञाव , अत्रापीय ज्ञावना यो ऽसुरकुमारजवाटुद्वृत्तौ नरक यास्यति किन्त्वन्नर परम्परया वा मनुष्यजव प्रा
 प्य संतस्यति तस्य नैरयिकत्वावस्थाजावितन पुरस्कृता वेदनासमुदघाता न सान्त नैरयिकत्वावस्थाया गयासम्भगात् यस्तु तद्गवाद्द्वेपारस्पर्येण
 नरक गमिष्यति तस्य सान्त तस्यापि कस्यचि त्सख्येया कस्यचि दसरयेया कस्यचि दनना स्तत्र य सकृत्पन्यास्यतिपु मध्ये समुत्पद्यते तस्य
 जप्यपदे सरयेया संवजचन्यस्थितावापि नरकेपु सख्येयानां वेदनासमुदघाताना ज्ञावात्, वेदनावहुलत्वा क्षारकाणा असकृदीघस्थितिपु सकृदा
 गमने असख्येया अनन्तयो नरकगमने अनन्ता , तथा एकैकस्य जटन्तासुरकुमारस्या ऽसुरकुमारस्य स्थितस्य सत सकलमाधिभृत्य कियन्तो वेद
 नासमुदघाता अतीता । जगजानाष्ट-अनन्ता पूर्वमप्यनन्तशक्तज्ञावस्य प्राप्तत्वात् प्रतिजव च्च वेदनासमुदघातस्य प्रायो ज्ञावात्, पुरस्कृताचि
 र्ताया कस्यचि त्सन्ति यस्य मशसमयाद्द्वे असुरकुमारत्वेपि वत्तमानस्य ज्ञाविवेदनासमुदघातेनापि तत उद्वृत्य नूयो प्यसुरकुमारस्य प्राप्तस्य
 ति तस्य न सन्ति यस्तु सकृत् प्रास्यति तस्य जप्यपदे एको ह्योवा त्रयोवा चरुपेत खख्येया असख्येया अनन्ता वा सरयेयान् वारान् उत्प
 रस्यमानस्य सख्येया असख्येयान् वारान् अनन्तान् वारान् अनन्ता गव पतुर्वंशतिदशकक्रमेण नागकुमारत्वादिपु स्वस्थानेषु वा
 सुरकुमारस्य निरन्तर ताव इक्तव्य याव द्वैमानिकत्वे तथाचाह-एव नागकुमारत्वे वेत्यादि ॥ तदेव नसुरकुमाराणा वेदनासमुदघात चिन्तित
 सम्प्रति नागकुमारादियदितिशमाए-एवमित्यादि ॥ उपदर्शिताञ्जिलापन यया चतुर्वंशतिदशकक्रमेणानुरयिकादिपु वैमानिकपर्यवसानेषु
 जगित स्तथा नागकुमारादयो विज्ञेषु समस्तेषु स्वस्थानपरस्थानेषु जगितस्था याव द्वैमानिकस्य वैमानिकत्वे एव चैतानि नैरयिकसत्तुविशति

एवं जहा वेदणासमुघाएण असुरकुमारि णेरइयाइ वैमाणियपज्जवसाणेषु ज्ञाणिए तथा नागकुमारादिद्या

असख्येया वा ऽनता वा । एव नागकुमारत्वेऽपि यावद्वैमानिकत्वे । एव यया वेदनासमुद्घातेनासुरकुमारो नैरयिजादिवैमानिकपर्यवसा
 ययासमुघाएण असुरकुमारि णेरइयादि वैमाणियपज्जवसाणेषु भणिया तथा यागकुमारादिव प्रवत्तेषु सट्ठणेषु भा० । इम नागकुमाराने नाग

स्येया । श्रगत्तान् वारारु श्रतना । एव चतुर्विंशति-शतव क्रमेण नागकुमारत्वादियु स्थानेषु निरन्तर द्युमपाठ जाव दृश्य यव द्वैजानिकत्य विषय सूत्र ॥ एगमेगस्सणमित्यादि ॥ एकैकस्य जदनासुरकुमारस्य पूव नैरयकत्वे दृतस्य सत सकलमतीत काल संपेक्ष्य खवसत्यया क्षिपती वेदेनासमुद्रघाता शतीता १ प्रगवानाह-श्रतीता अनन्तशो नैरयिकत्वस्य प्राप्तत्वात् एकैकस्मिन् नैरयिकस्य प्रवे जपत्यपटपि सरयेयाना वद नासमुद्रघाताना प्राधात्, कियन्त पुरस्कृता स्यात्सन्ति स्यान्नसन्ति कस्याचि रसन्ति कस्यचिन्नवर्तीति श्रमणीय प्रायाना-यो ऽसुरकुमारजवा दुद्रुतो नरक यास्यति कि त्वन्तरपरम्परया सखेणो वेदनासमुद्रघाता शतीता प्रगवानाह-श्रतीता व्यक्तशो नैरयिकत्वस्य प्राप्तत्वात्, एकैकस्मिन् नैरयिकस्य प्रवे जपत्यपटपि सखेयाना वेदेनासमुद्रघाताना प्राधात् कियन्त पुरस्कृता स्या र्वन्ति स्या न सन्ति कस्य

छणतात्रा । एगमेगस्सण श्रते । असुरकुमारस्स असुरकुमारत्वे केवडया वेदगासमुग्धाया श्रतीता १ गीय मा । छणता, केवडया पुरस्कृता १ गीयमा ! कस्स छल्यि कस्स नल्यि जस्स छल्यि जहन्नेण एक्योवा दोवा तित्तिवा उक्कोसेण सखेज्जावा श्रसंज्जावा छणतावा । एव नागकुमारत्तेवि जाव वेसाणियत्ते ।

स्यास्ति तस्य स्यात्सखेयया स्यादसखेयया स्यादनता वा । एकैकस्य प्रदन्त । असुरकुमारस्यासुरकुमारत्वे कियन्तो वेदनासमुहता श्रती ता १ गीतम । श्रतता । कियन्त पुरस्कृता १ गीतम । कस्यापि सन्ति कस्य नास्ति यस्यास्ति जपत्यनेको वा द्वीवा त्रयोदशकयत सरयेया वा

नैहै केवने नयो जहनेहै विधारे सख्याता विधारे श्रसख्याता विधारे श्रतता । एगमेगस्सण भते समुरकुमारस्य समुरकुमारत्ते केवरा वेयपासग्धाया श्रतीता । एककते हेमगवन् समुरकुमारने समुरकुमारण्णे कतना वेदनासमुद्रघात कथा पूवे । गीतना श्रतता केवडया परेखुडा । हेगीतम यन्ता केतला पूवे खरसे । गीयमा कस्स छल्यि कस्स- नल्यि जस्यत्ति चड- गड्योया दोवा तित्तिवा ४० सखेज्जाया श्रसखेज्जावा श्रततावा । हेगी तम केवनेहै केवने नयो जहनेहै ते जपत्य एव दीय योन परखट सस्याता पसख्यावा यन्ता । एव नागकुमारत्तेवि जाव वेसाणियत्ते एव जहा वे

। ५० ।
। ५० ।
। ५० ।

काल मुरुटपदे केवलितानुद्घातासादनात् ॥ केवड्या पुरस्वडिति ॥ कियन्तो मनुष्याणा केवलिसमुद्घाता पुररुता प्रगवानाह-
 स्यात्सख्येया स्यादसख्येया मनय्यादि सम्पूर्णा गन्तव्यता य सर्वसमुदिता उरुटपदे प्रागुक्तप्रमाणा स्त्रात्रापि विर्यसिद्धतप्रसमयप्रविना
 मये कदाचित् केवलिसमुद्घाता सङ्ख्या यद्वानामत्रयाना प्रावात् कदाचिदसख्येया वहूना प्रायिकेऽलिसमुद्घाताना प्रायात्, सम्प्रति एके
 कस्य नैरयिकत्वादिप्रायेषु वत्तमानस्य प्रत्येक कवि वेदनासमुद्घाता अतीता कति प्राविन इति निरूपयितुकाम आह-एगमेगस्सणमित्यादि ॥
 एकैकस्य जदन्त । नैरयिकस्य सकलमतीत काल सवधीकृत्य तदा नैरयिकत्वे वृत्तस्य सत सर्वसङ्ख्या कियन्तो वेदनासमुद्घाता अतीता प्रगवा
 नाह-गीतम । अनन्ता नरकस्यानस्यानन्तज्ञ प्राप्तत्वा देकैकस्मि य नरकजने जघन्यपदेऽपि सख्ययाना वेदनासमुद्घाताना प्रायात् ॥ केऽड्या
 पुरस्वडिति ॥ कियन्तो जदन्त । एकैकस्य नैरयिकस्यारमोक्षमनागत काल सवधीकृत्य नैरयिकत्वे प्राविन सत सर्वसख्यया पुरस्कृता वेदना
 समुद्घाता प्रगवानाह-कस्वड अतिय इत्यादि ॥ तत्र य आसन्नमृत्यु वेदनासमुद्घात मप्राप्यात्तिकमरणेन नरका दुदृष्टत्य संस्थिति तस्य ना
 स्ति नैरयिकत्वे प्राविन एकोपि पुरस्कृतो वेदनासमुद्घात ज्ञापयत्यु सति यस्यापि जघन्यत एको द्वीवा यथोवा यतश्च क्षीणशोषायुषा तद्गवा
 नन्तर वेरस्यता द्रष्टव्य न ज्ञूयो नरकेऽपरस्यमानानो ज्ञूयो नरकेऽपरपत्नी जघन्यपदेऽपि सख्येयाना प्राप्यमाणत्वात् यदाऽ मूलटीकाकार-नरकेय
 जघन्यस्थितिपू र्वकस्य नियमत सरयया एव वेदनासमुद्घाता प्रचुरत्वात्नारकाणामिति उक्तयेत सरयया असख्येया अननावा तत्र सकृत्नर
 केपु जघन्यस्थितिपूर्वपरस्यमानस्य सरयेया अनेकशो दीर्घस्थितिपु सकृद्वा उरपरस्यमानस्या नन्ता ॥ सर्वमित्यादि ॥ एव नैरयिकगतेनाजिलाप

यमा ! झुणत्ता, केवड्या पुरेस्कठा ? गीयमा । कस्वड झुणित्य कस्वड नतिय जस्व झुणित्य जहन्तेणं पुक्ती

नैरयिकत्वे कियन्तो वेदनासमुद्घाता घतीता ? गोतम । अनन्ता, कियन्त पुररुता ? गोतम । कस्यास्ति कस्यापि नास्ति, यस्यास्ति
 नारकोने नारकोपणे कीतवा वेदनासमुद्घात पूर्वकीषा । गोयना अथता केवड्या पुरेस्कठा । हेगोतम अनन्ता केतवापाकने करसे । गोयना कषः

वातीतश्रीया. नारकादिजीवराइयपेक्षया स्तोका स्तत्रापि ये पूर्वप्रवेपु कृताहारकक्षरीरा स्ते कतिपया स्तेच कटाचित् विवदितप्रप्रनमये सख्ये
 या कदाचि दसङ्केया , ततूक्त-सियु सखेज्जा इति ॥ अनागतेपि काली विवदितप्रश्रसमयत्राविना मध्ये कतिसख्या एवाहारकक्षरीमारस्सप
 ते सौपि कदाचि रसङ्केया कदाचि दसङ्केया , तत आह-एव पुरकलडाविचि ॥ एव मतीतगतेन प्रकारेण वनस्पतिकार्यकाना मनुष्याणा च पुर
 रकृता अपि आहारकसमुद्रयाता वेदितव्या स्तेचैव-वणस्सइकाव्याण प्रते केवइया आहारगसमुद्रयाया परकलना गीयमा । अणता । अणस्वाण
 प्रते केवइया आहारकसमुद्रयाया परकलना गीयमा । सिय सरज्जा इति ॥ केवलसमुद्रयातविषय प्रप्रमूत्रमाह नेरइया
 ण नते । इत्यादि ॥ सुगमं जगधानाह-गीतम । न सन्ति कचना तीता नेरियकाणा केवलसमुद्रयाता कृतकेवलिसमुद्रयाताना नारकादिगम
 नासम्भवात्, कियन्त पुरस्कताइति प्रश्र । जगधानाह-गीतम । सङ्केया सर्वदा विवदितप्रश्रसमयत्राविनामध्ये ऽसङ्काताना प्राविकेवलिसमु
 द्वातत्वात्, तथा केवलिवेदसोपलये एव चतुर्विंशतिदयइकक्रमेण निरन्तर ताथ द्वाच्य याव द्वैमानिकाना सूत्र तथावाह-एव जाव वमणि
 याणु ॥ अथैव विशेषमाह-नवरमित्यादि ॥ नवर वनस्पतिकार्यिकपु मनुष्येषु षड वस्यमाणलक्षण नानास्व तदेवाह-वणस्सइकाव्याणमित्यादि ॥
 तत्र प्रश्रसूत्र सुप्रतीत उत्तरसूत्र निवचनमन्ता अनन्ताना प्रािकेवलिसमुद्रयाताना तत्र जावात् ॥ मणस्वाणमित्यादि ॥ यत्रापि प्रश्रसूत्र सुग
 जगधानाह-गीतम स्यात्सन्ति स्यात्सन्ति किमुक्त जवति यदा प्रश्रसमये समुद्रयाता निवृत्ता प्राप्यन्ते तदा सन्ति शोपकाल नसन्ति तत्र ॥ जइ
 यन्ति ॥ यदि प्रश्रसमय कृतकवलिसमुद्रयाता मनुष्यत्वमनुभवन्त प्राप्यन्ते तदा जपन्त्य एको द्वी वयोवा उरकपंत ज्ञातपुयक्य यतायता एक

ज्जा सिन सुसखिज्जा । एगमेगस्सण जते ! णेरइयस्स णेरइयस्स केवइया वेदनासमुद्रयाया व्यतीता ? गो

लि जपयेनेतो वा द्वीवा त्रयोवा उरकपंत ज्ञानपुयक्यम् । त्रियन्त पुरस्कता ? गीतम । स्यात्सखेया स्यात्सखेया । एइकस्य जइत्त ।

वसङ्केया । एगमसखं भते णेरइयस्स णेरइयस्स केवइया वयण समुद्रयाया व्यतीता । इगीतम कोइ सख्याता कोइ वसख्याता एकाकीने इमगवन्

प्रगवानाह-अनन्तानामधिगतवतुदंशपूर्वाका कृताहारकचमुद्रुघाताना प्रसादवञ्जतठ पचितससाराणा वनस्पतिय प्रावात् पुरस्लता अनन्ता अन
 लाना वनस्पतिकाया दुहृत्य वतुदंशपूर्वाप्यगमपुरस्सर कृताहारकचमुद्रुघाताना प्रथसिष्टिगमनसम्भवात् ॥ नगुस्साण जत इत्यादि ॥ अगवि
 प्रश्नत्र प्रतीत जगवानाह-गीतम । स्यादिति निपातनेकातद्योतीति ततोप मथ-कटाचि रथरथया कदाचि दसथया कथामितिचे दुव्यत-
 इह समुच्छिमगजव्युत्क्रातसमुद्रापाविक्षाया वारुष्टपदे मनुष्या अहुलमात्रवत्रे यावान् प्रदेशराशिं स्तस्य यत् प्रथमवर्गमूलं तत इवनीयेन वर्गमूलेन
 गुणितं सत् यावत्प्रमाणं प्रवर्तितं तावत् प्रदेशप्रमाणांनि सकाति पनीकृतस्य लोकस्य एकप्रदेशिकाया श्रेणी यावन्तं गतावत्प्रमाणा एकहीना ते

स्सडकाडयमणुस्सेसु इम नागत्त-वणस्सडकाडयाणं जते । केवडया केवलिसमुग्घाया अत्तीता ? गीयमा !
 अणुणता मणुस्साण जते । केवडया केवलिसमुग्घाया अत्तीता ? गीयमा ! भिय अणुणिय सिय नलिय जड
 अणुणिय जहन्नेण एक्कीवा दोवा तित्तिवा उक्कीणण सयपुहत्त । केवडया पुरेस्सका ? गीयमा । सिय सखे

निकाना नवर वनस्पतिकापिकमनुष्येष्विदं नानात्व-धनस्पतिकापिकाना जदन । कियत्तः केवनिमद्रुघाता अनीना ? गीतम । नसन्ति
 कियत्त पुरेस्कृता ? गीतम । अतन्ता । मनुष्याणा प्रदन्त । कियत्त कवलिसमुद्रुघाता अतीना ? गीतम । स्यादल्लि स्यात्ताल्लि । पय

वर वणस्सडका-वमणस्सम इम णणत्त । इगीतम उमच्छाता इम यावत् वैमानिकलंगं पर एविशेष वनस्पतिकायन मनथरे वदेछे । वणस्सडकाइयाय
 भत केवडया केवनिमसमुग्घावा अतीता । वनस्पतीकायन हेभगवत् कतला कानाममुहात् पूर्वकीषा । गीयमा नाय कंधावा पुरेस्सडा । गीयमा नद्यो
 कीषा कतला कररये । गीयमा अणुणता मणुस्साण भत केवडया कवलिसमुग्घाया अतीता । इगीतम अतन्ता सर्वजावनौ प्रपचये ननयने हेभगवन्
 कंतला कानामसमुहात् पूर्वकीषा । गीयमा सियत्तात्त मियनात्त जइ अत्ति जइकण उक्कीवा दोवा तित्थिया उ० मयपइत्त केवडया पुरेस्सडा । इगीतम
 कियरे कीषाळे कियरे मद्यो कीषा जेइनेछे तां जषन्त्य एक दाय तीन उटकटनी यत्तपुयत्त प्रमाण कंतला पूर्वकीषाळे । गीयमा सिय सखेत्ता सिय

• १०५ •
 • मू •
 • प •
 • १०५ •

यत्कर्मण ताव द्वाच्य याव हेमानिकाना , आह व-गय जाव, वेसाणियाण ॥ तत्रैव यो विशेष कर्हूर्वायिपुराह-नवरमित्यादि ॥ नवर वन
स्पतिकायचित्ताया मनुष्यचित्ताया च नैरयिकापेत्तया नानात्व मवशेय . तदेव नानात्वमाह-वणस्सइकाइयाणमित्यादि ॥ अत्रप्रश्नसूत्र नुगम

एव जाव वेसाणियाण नवरं वणस्सइकाइयाण मणुस्साणय इम नाणत्तं-वणस्सइकाइयाणं जते ! केवड
या आहारगसमुग्घाया अत्तीता ? गोयमा ! अणता । मणुस्साणं जते ! केवडया आहारगसमुग्घाया
अत्तीता ? गोयमा ! सिय सखिज्जा सिय असखिज्जा । एव पुरेस्कन्हावि । णेरडयाणं जते ! केवलिसमु
ग्घाया अत्तीता ? गोयमा ! नलिय , केवडया पुरेस्कन्हा असखिज्जा । एव जाव वेसाणियाणं नवर वण

या , एव यावहेमानिकाना नवर वनस्पतिकायिकाना मनुष्याणा चेद नानात्व-वनस्पतिकायिकाना जदत्त । कियत्त आहारकसमुद्घाता
अत्तीता ? गीतम । अनत्ता । मनुष्याणा जदत्त । कियत्त आहारकसमुद्घाता अत्तीता ? गीतम । स्यात्सङ्खेया स्यादसस्यया . एव पुर
स्कृता अपि । नैरयिकाणा जदत्त । कियत्तः केवलिसमुद्घाता अत्तीता ? गीतम । नवन्ति । कियत्त पुरस्कृता असस्यया . एव यावहेमा

व जाव वेसाणियाण एवर वणस्सइकाइयाण मणुस्साण इम णाणत्तं । हेगीतम असख्याता जालगे वैमानिक तालगी कहिको एविशेष वनस्पतीने मनुष्य
ने विशेष कहेहे । वणस्सइकाइयाण भतेकेवडया आहारगसमुग्घाया अत्तीता । वनस्पतिकायने हेभगवन् कतला आहारकसमुद्घात कथा पूर्वकीधा ।
गोयमा अर्थता मणुस्साण भते केवडया आहारगसमुग्घाया अत्तीता । हेगीतम अनत्तासमुद्घात कथा मनुष्यने हेभगवन् कतला आहारकसमुद्घात
पूर्वकीधा प्रमाटे १४ पूर्वी अनत्ताकाल निगोदमाटि वसे मन्थने कतना कीधा । गोयमा सिय सखेज्जा सिय असखेज्जा एव पुरेस्कन्हावि । हेगीतम
शिवारे सख्यात किवार असख्यात इम णाणत्तं एव करस । णेरःवाण भते केवडया कश्चिसमग्घाया अत्तीता । नारकीने हेभगवन् कतला केव
लोचमुद्घात पूर्वकीधा । गोयमा नलिय केवडया पुरेस्कन्हा । हेगीतम नयो पूर्वकीधा कतला करस्ये अणे । गोयमा असखेज्जा एव जाव वेसाणियाण ए

चित्तनीया । तथाचाह-एव साव तैयगसमुग्धाया ॥ एव ॥ सति यतान्यपि बहुत्वविषयाणि पञ्च षट्त्रिंशत्तिदृशसूत्राणि प्रवृत्ति चिदंश्याए-एवमेयं पञ्चचत्वीसदृश्या इति ॥ आहारकसमुद्घाताच्चिता कुर्वन्नाए-नेरद्वयाणामित्यादि ॥ अत्र प्रश्नसूत्र सुगम जगदानाए-गीतम । अस्येत्या , इयमत्र प्रावना-इह नैरयिका सर्वदापि प्रश्नसमयेनास्ति सर्वस्यप्यस्येया स्तेपानपि मध्ये कतिपया सत्येयातीता इतपूर्वाहा रकसमुद्घाता स्तौ उच्येया एव तेषा मतीताहारकसमुद्घाता षट्ते नापि सत्येया , एव पुरस्कृता अपि प्रावनीया , एव षट्त्रिंशत्तिद

णता । एव जाव वैमाणियाण । एव जाव तैयगसमुग्धाए । एव एएति पञ्च चत्वीसदृश्या । णेरद्वयाण
 तते । केवद्वया आहारकसमुग्धाया इतीता ? गीयमा । अस्खेजा , पुरस्कृता ? गीयमा ! अस्खेजा ।

णा नदत्त । कियन्तो वदनासमुद्घाता इतीता ? गीतम । एतन्ता । एव यावद्वैमानिकानाम् । एव यावत्तैयगसमुद्घात । एवमतेपि प
 ल्व षट्त्रिंशत्तिदृश्याणि । नैरयिकाणा नदत्त । कियन्त आहारकसमुद्घाता इतीता ? गीतम । असङ्ख्या , पुरस्कृता ? गीतम । असङ्ख्ये
 चाये जचत्वीरकश्च एक फरसे इम जासगी वैमानिकानी कडिवा णवियेप मन्थने किय कौधाके पन्तममय । कस्मैर पत्ति कस्मैर नतिय जसस्यित्तस्य
 पक्षी एव पुरेखडावि । किन्नेनथो कौधा लिये कौधाके तिये एके कौधाके इम चागल पिय एकडोख करसे । णेरद्वयाण भते कश्चदया वैयणासमुग्धा
 या इतीता । नारकीने इमगवन् केतलावेदता समहात कक्षा पाकलि कौधा । गीयमा चयता केवद्वया पुरेखडा । इंगोतम चयन्ता केतला चानी क
 रसे । गीयमा चयता एव जाव वैमाणिया एव जाव तैयगसमुग्धाए एव णतेपि पञ्चचत्वीस दृश्या भाए० । इंगोतम चयन्ता इम जालगे वैमानि
 का इम जासगे तैयगसमुद्घात इम ए पिय ५ चरकोसदृशक कडिवा । णेरद्वयाण भते केवद्वया पाहारक समुग्धाया इतीता । नारकीने केतला प्रा
 डारकसमुद्घात धौसे दृशके खडिवा । गीयमा चसखिजा केवद्वया पुरेखडा । इंगोतम पंचलाता कौधा सब पूरे कौधा । गीयमा पञ्च खिजा ए

मतीतोपि कस्याप्यसि कस्यापि नास्तीति घक्त्य स्त्रयः केवलिसमुद्राथा प्रप्रतिनिवृत्ती घर्षते नचाथापि मुक्तिपद मवाप्नोति तस्यारत्यतीत
 केवलिसमुद्रात स्ते च सर्वसव्यया उरुपपदे ज्ञानपृथक्प्रमाणावेदितव्या , कस्यापि नारत्यतीत. केवलिसमुद्रातो यो न समुद्रत गतवान् , ते च
 सर्वसव्यया थसव्येया द्रष्टव्याः ज्ञानपृथक्प्रमाणावेदितव्या संप्रया मय्यसम्प्राप्तकेजलिसमुद्रातत्वात् अत्राप्यस्तीति निपातस्य सर्वलिङ्गचचनत्वा
 त् ॥ कस्मिन्, अस्ति कस्मिन् नस्ति ॥ इत्युक्ती बहुत्वाज्ञाका स्या त्त कर्तव्यव्यवहारीयस्य अनुप्यतीत. केवलिसमुद्रात स्तस्य नियमा देको न
 द्विजा एकेनैव समुद्रातेन प्रायाः समस्तप्रातिकर्मणा निर्मूलकापकथितत्वात् ॥ एव मतीतमनागतन प्रकारेण पुरस्कृता न
 पि कथलिसमुद्राता वाच्या , तच्चैवम् ॥ कस्मिन् अस्ति कस्मिन् नस्ति , जस्त अस्ति यत्को इति ॥ अत्र प्रावना पूर्वोक्तानुसारेण स्वय जावनीया
 तदेव मनीतमनागत च काल मधिकृत्य एकैकस्य नैरयिकादे वेदनादिसमुद्रातचित्ता कृता , सम्प्रति नैरयिकादे प्रत्येकं समुद्रायलपस्य त
 क्षिणा चिकीर्षु राए-नरइयाणमित्यादि ॥ नैरयिकाया विवक्षितप्रश्रसमयजाविना सर्वेषा समुद्राये प्रदत्त । कियन्तो वेदनासमुद्राता कृतीता ?
 जगवानाह-गीतम । अमला यद्वृता ननत्कालसयवहारराज्ञे रहुतत्वात् , कियन्त पुरस्कृता अथापि प्रशसन्नपाठ सयव द्रष्टव्य •नर•य या जत
 केन्द्रया वेपणासमुद्रया पुरस्कृता इति ॥ जगवानाह-गीतम । अमला यद्वृता ननत्कालनाविससारावस्थानभावात् , एव चतुर्विंशतिदण्डक

जस्त इत्यि एको एव जाव वेमाणियस्त नवरं भणस्तस्त इतीता कस्तमइ इत्यि कस्तमइ नस्ति जस्त
 इत्यि एको । एवं पुरस्कृतावि । जेरडयाणं जते ! केवडया वेदणासमुद्रया इतीता ? गीयमा ! इ

पस्यारत्येक एव यावद्वैमानिकस्य नवरं मनुव्यस्यातीता कस्य शन्ति कस्यापि न सन्ति यस्य सत्येक । एव यावत्पुरस्कृता अपि । नैरयिका

धनौसमुद्रात पाच्छल कीधा । गोवमा नस्ति एको कस्मिन् पुरेखुडा । हेगीतम नथी कौवा वेवत्तोसमहात पूरे आगल कस्मिन् । गोयना कस्मिन् अस्ति
 कस्मिन् नस्ति जस्तस्य तस्य एका एव जाव वेमाणियस्य नवरं भणस्तस्त इतीता । हेगीतम कौइ कस्य मथ्यनो प्रपेचये कोइरनहो करे थमव्यती यपे

ना अतीता २ जगधानाह-नल्पिति ॥ नास्यतीत एकोपि केवलिसमुद्घातानन्तर ह्यन्तर्मुहूर्त्तन नियमतो जीवा परमपद मनुव्रते, ततो यद्यनविष्य
 द्केवलिसमुद्घात स्मिं नरकमवा नागमिष्य दयव सस्मति नरकगामिनो वन्ते तस्मा त्वास्त्येकस्या प्यतीतकेवलिसमुद्घात ॥ केवइया पुरख
 इति ॥ कियन्त पुरस्कृता केवलिसमुद्घाता इति मन्त्रः, प्रगवानाह-गौतम । कस्सइ अत्यि कस्सइ नल्पिति ॥ इह केवलिसमुद्घात एकस्य प्राणिन
 याकाल मेकएव जयति नदित्रा ततो स्तीतिनिपातो व्र मकवचनातो वेदितव्य ततथायमर्थ -कस्यापि कथलिसमुद्घात पुरस्कृतोस्ति दीघंतरे
 यापि कालेन मुक्तिपदप्राप्त्यवसरे विषमस्थितिकमां कस्यापि नास्ति यो मुक्तिपदमवामुसयोग्यो योग्यो वा केवलिसमुद्घातमन्तरेणैव मुक्तिप
 द गत , तथाच वल्पति-अगतकयमुग्घाय मगथाकेवलीणिणजररणाविष्यमुक्का िसिहि वरगइ गया इति ॥ इहा स्तीति निपात समलिङ्गमघन
 इत्यविदितासिद्धान्तस्य बहुत्वाशङ्कापि कस्यचि दस्यात् तत स्रदपनोटाथमाह-जसस आत्य ॥ एको यस्यास्ति पुरस्कृत केवलिसमुद्घात स्तस्य
 एको नूप सखाराप्रावात् ॥ एव जाव वेमाणियससि ॥ एव नैरियिउगताजिलापमकारेण वतुविशयतिदयठककम मनुमृत्य ताव इत्तव्य याव द्वि
 मानिकमूत्र तच्चद-पगमेगस्सण जते । वेमाणियस केवइया केवलिसमुग्घाया अतीता ? गीयमा । नल्पि । केवइया पुरखउडा २ गीयमा । कस्सइ
 अल्पि कस्सइ नल्पि, जसस अल्पि एक्को इति ॥ अत्रैव विशेष माह-नवरमित्यादि ॥ नवर मय विशयो मनुष्यस्य केवलिसमुद्घातस्य चित्ताया

मणुस्सस्स झतीतावि पुरेस्कृतावि जहा णेरइयस्स पुरेस्कृता । एगमेगस्सण जते । णेरइयस्स केवइया
 केवलिसमुग्घाया झतीता ? गो० । नल्पि, केवइया पुरेस्कृता ? गीयमा ! कस्सइ अल्पि कस्सइ नल्पि ।

एकेकस्य प्रदन्त । नैरयिकस्य कियन्त केवलिसमुद्घाता अतीता गौतम । नास्ति, कियन्त पुरस्कृता ? गौतम । कस्यास्ति कस्यनास्ति ।
 णवर मणस्य अतीतावि पुरेखउडावि जहा णेर-वका पुरेखउडा । पविशय मनुष्यने पाखले कोधा आगल पिण करले नारकीने आगसकरस्ये पिण पाख
 ल नयो कोधा आहाएक ना-धथी नरक नवाय । एगमेगस्सण णेरइयस्य केवइया कवलिसमुग्घाया अतीता । एकका नारकीने

रन्तर तावद्वाच्य यावद्धैमानिकस्य सूत्रं नवर ननुयस्यां तीर्त्वा अपि पुरस्कृता अपि तथा वाच्या, अतीता अपि चत्वार पुरस्कृता अपि चत्वार
 उरुपर्यतो वाच्या इत्यर्थं, सूत्रपाठ्यैव-एगमेगरसस्य मणुस्सस्य केशया आहारगणमुयाया अतीता ? गीयना । कस्सः अत्रत्य कस्सः नत्थि ज
 रस अत्थि जहन्नेण गच्छोवा दोवा तिलिवा उक्कोसेण चत्वारि ॥ अत्र प्रावना इह य अतुयवेलमाहारकशरीर करोति स नियमा तद्भवएव सु
 क्तिमासादयति नं गत्यंतर कथमेत दवसीयते इतिचे दुच्यते-सूत्रपीवांपर्यपोलोचनात्, तथाहि-यदि चतुयवेलमप्यारकशरीर कृत्वा गत्य
 न्तर सकामेन ततो नैरियिकादा वन्यरस्यां गती उरुपर्यत श्रत्वारो प्याहारकसमुद्घाता उच्येरन् नपोच्यते ततो वसीयते पतुपंवेलमाहारकश
 रीर कृत्वा नियमा तद्भवएव मुक्तो प्रवर्ति नगत्यन्तरगामी, तत्र य प्रागाहारकशरीर कटाचनापि न कृतवान् तस्यातीताहारकसमुद्घातो ना
 स्ति तत क्षुद्रपेक्षयोक्त-कस्सइ नत्थि ॥ यस्यापि सति चापि यदि पूर्वमकवार माहारकशरीर कृतवान् तस्येको ऽनीताहारकसमुद्घातो द्वौ

धारी कृतवतो द्वौ त्रीन् वारान् कृतवत खयो त अतुयवेलमाहारकशरीर कृत्वा आहारकसमुद्घाता अतुयवेलमपि निवृत्ती यत्तते नचाद्यापि न
 नुग्नवति विषह्वाति तस्य चत्वार पुरस्कृता अपि समुद्घाता कस्यापि न सति, तत्र य अतुयवेलमाहारकशरीर कृत्वा हारकसमुद्घाता
 अतिनिवृत्तो यदिवा पूर्वमकृताहारकशरीरो व्यथवा एकवारकृताहारकशरीरोपि यदिवा द्विःकृत्य कृताहारकशरीरोपि त्रिःकृत्य कृताहारकश
 रीरोपि तथाविधसामग्र्यनाथात् उत्तरकालमाहारकशरीरमन्वैव मुक्तिमवाप्स्यति तस्य पुरस्कृताहारकसमुद्घाता नसति यस्यापि सति
 तस्यापि जयन्त एकोवा द्वौवा त्रयोवा चत्वार, तत्र एकादिमन्त्रं पूर्वोक्तनावनासारेण तस्य जायनीयो यस्तु पूर्वनालमेकवारम
 पि आहारकशरीर न कृतवान् अथचोत्तरकाल तथाविधसामग्र्यीनावतो यावत्सत्रम माहारकशरीर कर्ता तस्य चत्वारो न ज्ञोपस्य, सम्प्रति केव
 लिसमुद्घाताविषय दशनसूत्रमाह-एगमेगरसस्यमित्यादि ॥ एकैकस्य धदन्त । नैरियिकस्य निरवधिः सतीत काल मपि कृत्य कियत् अथलिसमुद्घा

नेगस्यगमित्यादि ॥ एकैकस्य प्रदत्त । नैरपिकस्य पात्रात्स्य सकनमतीत कालमपेक्ष्य कियत आहारजसमुद्घाता प्रतीता १ प्रगयानाह- पीतम । कस्यापि ॥ अस्तीति निपात स्वलिगवधवा यदाह-आकादायगव्यासठत् अस्तीति निपात स्वराट्प्रवर्धनंश्रिति , ततोयमर्थ -कस्याप्य तीता आहाकसमुद्घाता सति कस्यापि न सति येन पूर्व मानुष्य प्राप्य तयाविषयामगुन्नायत श्रुतुदेऽय पूर्व्याणि नाथीतानि श्रुतुदशपूर्वाधिग से वा हारकतत्रय्यज्ञावत तयाविषयमयोपनाजावतो वा आहारककारीर न कृत तस्य न सतीति , यस्यापि सति तस्यापि कथन्य एको हीवा वरक र्पत स्वयो नतु चत्वार षतु कृत्य कताहारककारीरस्य नरकगमनाभावात् , आह-च मूलटोकाकार -आहारसमुद्घाया उक्तोसेऽप तित्वि तटुजरि नियमा नरग नगच्छइ जरस चत्वारि प्रवति इति ॥ पुरस्कृता अपि कस्यापि न सति , तत्र यो मानुष्य प्राप्य तयाविषयामगुन्नायत श्रुतुदेऽप्य पूर्व्याधिगसमाहारजसमुद्घात वातरेण संरस्यति तस्य न सति शेषस्य तु यथासमय जघन्यत एको हीवा उरुर्ध्वत त्वत्वार तत जद्वमय इय गत्यक्तदासकनशा हारकसमुद्घातमन्तरेण च सिद्धिमननावात् ॥ एव नैरपिकोक्तेन प्रकारेण चतुर्विंशतिदिपहककमण ति

जरस झ्यल्य जहन्नेण एक्कोवा दोवा उक्को० तित्ति केवडया पुरेस्कृता कस्सड झ्यल्य कस्सड नल्य ।
जरसड झ्यल्य जहन्नेण एक्कोवा दोवा तित्तिवा उक्कोनेण चत्वारि । एव निरतर जाव वेमाणिया नवर

कस्यापि नास्ति यस्यास्ति जघन्येनैका वा द्वी वोरुपेण इय , कियत पुरस्कृता, कस्यास्ति कस्य नास्ति , यस्यास्ति जघन्येनैकोवा द्वीवा नयोवोरुपर्येण चत्वार , एय निरतर यावद्वैमानिका नवर मनुष्यसाधीतापि पुरस्कृताअपि यया नैरपिकस्य पुरस्कृता ।

तित्ति कोइया परेखवा । ईगीतम केहनैके केहनै तथो जहनैके तेहनै जघन्य १ नधमा २ वरकट ३ आहारकनी करवधार वेगसा प्रागलकारस्ये । गो यमा जघन्यइथल्य कस्सड नात्य । ईगीतम केहनैके केहनै नयो । जघन्यति तस्य जघन्येण एजाडा दोवा तित्तिवा उक्कोनेण चत्वारि एव निरतर प्राव वेमाणिया । केहनैके तेहनै जघन्य एक दोय तीम वरकट ४ नधार कस्ये तिधारपछी नियव नोच तेमाटे इम निरतर वेताभिकलगे कइथी ।

१ व्यापवा
२ न
३ ई

४ ७९७ ॥

। नू ।

। २० ।

। भाष ।

सह्यता असत्यातकालससारावस्थायिनो ऽसत्याता अनतकालससारावस्थायिनो ऽनन्ता ॥ एव नैरयिकोक्तेन प्रकारेण
 सुरङ्गुमारस्यापि याव स्तान्तिकुमारस्य वाच्य , तत अतुर्विंशतिदण्डकक्रमेण निरन्तर ताव द्वाच्य याव द्वैमानिकस्य किमुक्तं प्रवति स
 र्वेषुपि अहुरादिषु स्थानेधनीता वेदना समुद्घाता अनन्ता वाच्या पुररुहतास्तु कस्यापि सति कस्यापि नसति यस्यापि सति तस्या
 पि लघन्यत यको द्वीवा त्रयोवा वत्कपंत सङ्ख्या वा अनन्ता वा इति वाच्या , प्रावनापि पूर्वोक्तानुमारेण स्वय परिप्रावनीया । एव च
 तुर्विंशतिदण्डकक्रमेण कपायसमुद्घातो मारणातिकसमुद्घातो वेक्रियसमुद्घात स्तौजससमुद्घातय प्रत्येक तत एव चतुर्विंशतिदण्डकसूत्राणि
 प्रवन्ति , तथाषाह-एव जात्र तेपससमुग्याए इत्यादि ॥ एव वेदनासमुद्घातेषुपि प्रत्येक तावह त्वय याव तौजससमुद्घात ज्ञाय सुगम ॥ एग

जस् अत्यि जहन्नेण एक्कोवा दोवा तित्तित्रा उक्कोवेणं सखेज्जा अ्यसखेज्जा अणतवा । एव अ्यसुरकुमार
 स्सवि । निरतर जाव वेमाणियस्स । एव जात्र तेयचचउवीसा दंठगा । एगमेग
 स्सणं जते ! णेरडयस्स केवडया आहारगसमुग्घाया अ्यतीता ? गोयमा ! कस्सड अ्यत्थि कस्सड नत्थि ,

चन्यनीको वा द्वीवा त्रयोवा वत्कपंत संखेयाअसखेया अनन्ता वा , एवमसुरकुमारस्यापि । निरन्तरं यावद्वैमानिकस्य । एव यावत्तैजस
 समुद्घात । एवमेते चतुर्विंशतिदण्डका । एकैकस्य जदन्त । नैरयिकस्य कियन्त आहारकसमुद्घाता अतीताः ? गीतम । कस्याप्यस्ति

त अथवा दीम अथवा तीन् वत्कट ससारस्थायो सख्याता असख्याता सवारस्थायो अनन्ता ससारोने । एव अमुरकुमारस्त्वपि निरतर जाव वेभाण
 या एव जाव तेयससमुग्घाण एव एते एचचउवीसा दण्डगा मा० । इम अमरकुमारने निरन्तरे करो जालगं वेमानिकने पिय कण्डिवो इम जालगे ते
 यसमुद्घातलगे ५ समुद्घात कण्डिवा इम ५ समुद्घात २४ दण्डक कण्डिगे । एगमेगस्य भते षेददयस्य केवडया आहारगसमुग्घाया अतीता । एका
 को नारकोने हेमगवन् केतवा आहारकसमुद्घात कञ्जा पूर्वकीधा । गोयमा कस्सड अ्यत्थि कस्सडं नत्थि चच्छ भत्थि तस्य अण्णेण एक्कोवा दोवा च०

सुभय सहयेया अशरयेया वा प्रतिपत्त्वा केवल कतिपयेति इति न विवक्षिता ॥ इदं सूत्र पाठनूचामात्र सूत्रपाठस्त्वेव
 सगमेगस्तथा जत । नेरइयस्स केवइया वेयणासमुग्घाया पुरेक्कहा इति ॥ सुगम पुरोऽग्रे जुहा स्तत्परिणामप्राप्तियोग्यतया व्यवस्थापिता साम
 य्यां तत्कतृपेवेनति गम्यते पुरस्सुता अनागतकालजविन इति तास्यर्थं , यत्र जगवानाप्त-कस्यापि सति कस्यापि नसति यस्यापि सति त
 स्यापि जप्यत एको द्वीवा त्रयोवा चत्वार्येवा अशरयेयाया अनतावा इयमत्र प्रावना योनाभाववक्षितप्रशसमानत्तर वेदनासमुद्घा
 तमन्तरणेव नरकादृष्ट्यान्तरमनुज्यय वेदनासमुद्घातमप्राप्तय चेरस्याति तस्य पुरस्कृतो वेदनासमुद्घात एकोपि नास्ति यस्तु विवक्षितमप्र
 सयानन्तरमायु इपे कियरकाल नरकजवे स्थित्वा तदनन्तरमनुज्यजवमागत्य सेरस्याति, तस्य एकादिसम्भव सत्यातकालसवारावस्थापिन

मारणतिय० तेयासु० आहारसमु० कवलीसमुग्घाए । एगमेगस्सण जते ! नेरइयस्स केवइया वेदना
 समुग्घाया झ्यतीता ? गोयमा । झ्यणता । केवइया पुरेक्कहा ? गोयमा । कस्सइ झ्यत्थि कस्सइ नत्थि

त कपायसमुद्घातो नारणान्तिकसमुद्घातो वैक्लियसमुद्घातस्तेजससमुद्घातो नवर मनुष्याणा समविष समुद्घात प्रक्षप्तस्यया-वेद
 नासमुद्घात कपायसमुद्घातो नारणान्तिकसमुद्घातस्तेजससमुद्घात आहारकसमुद्घात कवलिस्समुद्घात । एकैकस्य जटल । नेर
 यिकस्य कियन्तो वेदनासमुद्घाता अतीता ? गौतम । अनता । कियत्त पुररकता ? गौतम । कस्याप्यस्तिकस्यापि नास्ति यस्यास्ति ज
 य मनुष्ये ० समुद्घात ते कहे । वेयण कमाय मरचे वेवविण तेवसे आहार केवलिण । वेदना कपाय मरण वेक्लिय तेजस आहारक केवलसन् ० । ए
 गमेगस्सण भते नेरइयस्स केवइया वेयणासमुग्घाया यतीता । एकैको नारकोने हेमगवन् केतना वेदनासमुद्घात कला पवेकीया । एणता केवइया
 परेखडा । हेगौतम अनत्तास० केतनाणञ्च यावे फरले परणवा मेवो मयाळे । गौतमा कखइ थत्थि कञ्चनत्थि नञ्च थत्थि तस्य अइत्थेण एकीया दी
 वा तिस्सिशा उ० सखिज्जावा मसखिज्जावा अणतावा । हेगौतम लीवनीयत्ति खेदनेथे परमाणु पाते खेदने तथो गेत्था खेदनेथे तेदने चसन्चसमुद्घा

कद्वित्रिचतुरिन्द्रियाणां माद्यां स्त्रियं सौपां वैशितियदिलक्ष्यन्नावात् उत्तरेषां चतुर्गानपि समुद्रातानां चसंत्तमात्, धायुकायिजानां माद्यां शल्या
 रतेषां वैशितियलब्धिसंभवेन वैशितियसमुद्रात्सर्गापि सम्भवत् । पञ्चोन्द्रियतिययोगानि कानां माद्यां पञ्च केषां च तेषां तजोलक्ष्येषुपि ज्ञावात्,
 मनुष्याणां सप्त मनुष्येषु सर्वसंज्ञात्, व्यन्तरज्योतिर्कवेसामिनिकानां माद्यां पञ्च वैशितियतजोलब्धियन्नावा तुसुरी द्वौ तु ना सम्भवात् धामरकलब्धि
 केमलत्वायोगात्, सम्प्रति चतुर्विंशतिदण्डकक्रमेण मापकृत्य एकैकस्य सूत्रं मकारो लाघयिकः, प्रदत्त । नैरियिकस्य सकलमतीतकालमधिकृत्य ॥
 क्षेत्रव्यपत्ति ॥ कियतो वेदनासमुद्रात्ता अतीता अतिज्ञाना ? जगत्तानाए-गीतम । अन्तत्ता नारकादिस्थानानां मनतश्च । प्राप्तत्वा देवैकसिंघुना
 रकादिस्थानप्रसिक्ताले प्रायोऽनेकशो वेदनासमुद्रात्तासां संज्ञावात्, मत्तश्च वाहुल्यापेक्षं मुख्यतो यद्यो हि जीवा अन्तत्ताकालमस्यव्यवहारराशो न
 हृता वर्तते ततः स्तदपेक्षया एकैकस्य नैरियिकस्थानना अतीता वेदनासमुद्रात्ता सपपद्यन्ते, यंतु लोकाकालमस्यव्यवहारराशो रुहता स्तेषां यथा

वेदनासमु० कसायस० मारणतियस० वेडधियसमुद्राए । पचिदियतिरिक्कजोणियाण जात्र वेमाणियाण
 जते ! कडु समुद्राया पखत्ता ? गोयमा । पच पखत्ता, तजहा-वेदनासमु० कसायसमुद्राए मारणतियसमु०
 वेडधियसमु० तेषासमुद्राए नवर मणुस्साण सत्तविहे समुद्राए पखत्ते, तजहा-वेदनास० कसाय०

धायुकायिजानां चत्वार समुद्रात्ता प्रज्ञप्तास्तद्यथा-वेदनासमुद्रात्ता कपायसमुद्रात्ता मारणान्तिकसमुद्रात्ता वैशितियसमुद्रात्ता ।
 पञ्चोन्द्रियतिययोगानि कानां यावद्देमाणिकानां प्रदत्त । कतिंसमुद्रात्ता । प्रज्ञप्ता ? गोतम । पञ्च समुद्रात्ताः प्रज्ञप्तास्तद्यथा-वेदनासमुद्रात्ता

म० त० । वेदनास० कपायस० मरणस० इम, जाल्लो चोमिन्दिण पविषप धायुकायने ४ समुद्रात्ता ते कथेहे । वेगणकमायमरी वेडधिए पचिदिय ति
 रिक्कजोणियाण पुच्छ । वेदना कपाय मरण वेडधिय पचिदियमिणसुगमिनिको प्र० । गोयमा पचस० त० । हिमोतम पाचसमुद्रात्ता कथा । वेडया वा
 साय मरये वेडधिए तेषे एव जात्र वेमाणिया एवर मणुस्साण सत्तविहस० तं । वेदना कपाय मरण वेडधिय तेजम-इम जाल्लो वेमाणिक एणिय

सुदृष्टात् , एते पदव्याया अन्तर्भूतिका केवलिसुदृष्टात् स्वस्वसामयिक , सचानन्तरमेव प्राखित एतानेव समुद्र्याता यतुर्विंशतिदशकम्
 मेष विचिन्तयिषु राह-नेरइयाणमित्यादि ॥ नेरयिकाणा माद्या झलार स्तया तेजोलघ्याएरकलव्यिकेगलित्वाजावत ज्ञेपसमुद्र्याताप्रयासजवा
 न्, यधुरकुमारदीना दज्ञानामपि प्रवचनपतीना तेजोलेइयालब्धिजावा दाद्या पचसमुद्र्याता पृथिवीकायिकाएकायिकतेनकायिकवचनरपतिकायि

सुरकुमारानं जते ! कइसमुग्धाया पखत्ता ? गीयमा । पचसमुग्धाया पखत्ता , तजहा-वेदणासमुग्धाए क
 सायसमुग्धाए मारणतियसमुग्धाए वेउच्चियसमुग्धाए तेयासमुग्धाए । एव जाव यणियकुमाराण । पुढाविना
 डयाण जते ! कइसमुग्धाया पखत्ता ? गीयमा ! तिन्लि समुग्धाया पखत्ता , तजहा-वेदणासमुग्धाए क
 सायसमुग्धाए मारणतियसमुग्धाए , एव जाव चउररिदिया नवर वाउकाडयाण चत्तारिसमुग्धा प० , त०

सुरकुमाराणा नदत्त । कतिसमुद्र्याता प्रश्ना ? गीतम । पच समुद्र्याता सप्रसालद्यथा-वेदनासमुद्र्यात कपायसमुद्र्यातोभारणा
 त्तिजसमुद्र्यातो वैक्रियसमुद्र्यात स्तेजससमुद्र्यात । एव यावरलनितकुमाराणाम् । पृथिवीकायिकाना नदत्त । कति समुद्र्याता प्रश्
 ना ? गीतम । त्रय समुद्र्याता-प्रश्नास्तद्यथा-वेदनासमुद्र्यात-कपायसमुद्र्यातो मारणान्तिकसमुद्र्यात ३ । एव यावच्चतुरिन्द्रिया नवर

इए प० । हेगीतम चाठ समयनीस्ति कही । करइयाण भंते कइसमुग्धाया प० । नारकीने हेभगवन् कतला समुद्र्यात कछा । गीयमा चत्तारिस०
 त० । हेगीतम चारसमुद्र्यात ते कहेछे । वेयणा कसाय मरणे वेउच्चिए । वेदनासमुद्र्यात कपायस० मारणातिकस० वैक्रियस० ४ । अमुरकुमाराणं
 भंते कइसमुग्धाया प० । असरकमारने हेभगवन् केतलासमुद्र्यात कछा । गीयमा पचस० त० । हेगीतम ५ समुद्र्यात तेकहेछे । वेयणा कसाय मरणे
 वेउच्चिए तेयमे । एव जाव चत्तारिकुमारा । इम यावत् स्तनितकुमार । पुढगीकारयाण भंते कइसमुग्धाया प० । पृथिवीकायने हेभगवन् केतलाम०
 कछा । गीयमा तिखिसमुग्धाया त० । हेगीतम ३ समुद्र्यात ते कहेछे । वेयण कसाय मरणे एव जाव चउररिदियाण पवर वाउकाडयाण पत्तारि

ति कृत प्रसंगेन प्रकृत प्रस्तुतम् ॥ तत्र सद्यहृदिगाथोक्तमर्थं स्पष्टयन् प्रथमतः समुद्घातसत्याविषय प्रयत्नञ्च मारु-कण्डुमित्यादि ॥ कति किंपरि
 माणा क्तिमित्वाक्यालङ्कारे । प्रदत्त । प्रगवती वदुमानस्वामिन आसन्नया प्रदत्त । त्वञ्च जगत् परमकल्याणयोगित्वाद्यद्विवाञ्जवातेति द्रष्टव्य च
 कलससारपर्यंतवर्तित्वात् अथवा जयात इह पर लोकादित्रेदन्निजसमप्रकारप्रयतिनाशकत्वात्, समुद्घाता उक्तगद्यार्थो प्रद्यप्ता भ्रावानाह-गो
 यमेत्यादि ॥ गीतम् । सप्त समुद्घाता प्रद्यप्ता स्तद्यथा वेदनासमुद्घात इत्यादि वेदनाया समुद्घातो वेदनासमुद्घात एव याव दाहारकसमुद्
 घात केवलिसमुद्घात इति । केवलिन समुद्घात केवलिसमुद्घात स्मर्यात क. समुद्घात किपन्त काल याव द्रवतीत्येतन्निरूपणार्थं मारु-
 वेयणत्यादि ॥ सुगम ॥ नवर जावत्यादि ॥ एव मुक्तप्रकारणाजिलापेना कर्मुद्घुत्प्रमाणतया च समुद्घाता क्षमेण ताव द्वाच्या याव दाहारकस

यमा । अस्खेजसमडए अतोमुजतिए पखत्ते । एव जाव व्याहारसमुग्घाए । केवलिसमुग्घाएण जते !
 कडसमडए पखत्ते ? गोयमा ! अठसमडए पखत्ते । णरडयाण जते । कतिसमुग्घाया पखत्ता ? गोयमा !
 चत्तारि समुग्घाया पखत्ता, तजहा-वेदणसमुग्घाए कनायस० मारणतिरसमुग्घाए वेउच्चियसमुग्घाए । अ

समुद्घात । केवलिसमुद्घातो जदत्त । कतिसानयिक प्रद्यप्त . गीतम् अष्टशामयिक प्रद्यप्त । नैरयिकाणा जदत्त । कतिसमुद्घाता
 प्रद्यप्ता ? गीतम् । चत्वार समुद्घाता प्रद्यप्तास्तद्यथा-वेदनासमुद्घात कपायसमुद्घातो मारणान्तिकसमुद्घातो वैक्रियसमुद्घात ४ । अ

चत्तमुद्घुत्तं पावे कपायसमुद्घात कोषवसे अत्तमु० मरणसमुद्घात पाताना मरणान्त वैक्रियसमुद्घात सख्यातगोजने टण्ड विजुवे तेजससमुद्घात
 म क्तवीला प्रदश साहमाने चाले आहारसमुद्घात कवलिसमुद्घात ७ । वयणमसग्घाएण कः समरुए प० । वेदनासमुद्घातना केतलासमय काल
 कक्षो । गोयमा अरुखिलसमरुण अतोमुद्घुत्ते प० एव जाव, आहारसमुग्घाए । इगीतम् असध्यातसमय अत्तमुद्घुत्तं कान्कञ्चो रम जाले आहारक
 समुद्घातखगे काल कश्चिवा । केवलीसमुग्घाएण मते कडसमरुए प० । केवलीसमुद्घातनो केतलो हेभगवन् समयनी स्थितिकही । गोयमा अठसम

ते सर्वस्यैवजागस्या न्नागस्यघानन्ततमन्नागस्य पुन युञ्चा यथाकमसस्येया अन्ता य न्नागा क्षियते ततश्च तृतीये समये स्थिते रसस्यैवान् प्रा
 गान् इति एक मुञ्चति अनुन्नागस्य घानन्तान् प्रागान् इति, एकमन्तनाग मुञ्चति अत्रापि प्रशस्तप्रकृत्यनुन्नागघानो ऽप्रशस्तप्रकृत्यनुन्नागन
 ध्यप्रवेशनेना ऽवस्ये ' तत पुनरपि तृतीयसमयावधिष्ठस्य स्थिते रसरययन्नागस्या न्नागस्य घानन्ततमन्नागस्य युञ्चा यथाकमसस्येया अन्ता
 य न्नागा क्रियते, तत अतुर्थसमये स्थिते रसरयेयान् न्नागान् इति एक स्तिष्ठति अनुन्नागस्याप्यनन्तान् न्नागात् इत्येको वक्षिष्यते प्रशस्ताप्रकृत्य
 न्नागघानतश्च पूर्वदवधेयः । सवध स्थितिघातादिकुर्वत अतुर्थसमये स्वप्रदेशापुरित समस्तलोकस्य प्रगयत कथानां वेदनीयादिकर्मत्रयस्थिति
 रायुष सङ्केयगुणा जाता, अनुन्नागरस्वद्याप्यनन्तगुण अतुर्थसमयावधिष्ठस्य च स्थिते रसरयेयन्नागस्यानुन्नागस्य घानन्ततमन्नागस्य नूयापि युञ्चा
 यथाकम सस्येया अन्ता य न्नागा क्रियन्ते ततोऽवकाशान्तरसंहारसमये स्थिते रसरयेयान् न्नागान् इति एक रसरययन्नाग शोपीकराति, अन
 नागस्यानन्तान् न्नागान् इति एक मुञ्चति एवमेतेषु पञ्चसु दृष्टादिसमयषु प्रत्येक सामयिक द्यरुक्कमुरकीर्ण समये र स्थितितदयत्नकानुन्नागदृष्ट
 कथातनात्, अत पर पष्ठसमयादारभ्य स्थितिकरुक्कमनुन्नागकरुक्क चाल्मुद्गूर्त्तन कालेन विनाशयति प्रयत्नमन्दीनायात् पष्ठादिषुच समयेषु द
 र्शकस्य प्रतिषमयमेकैक शकल ताद्यदुत्तिकरति याव दन्तमुद्गूर्त्तपरमसमय सञ्जलमाप तत्करुक्कमुरकीर्ण भवति, एत साल्मुद्गूर्त्तकानि स्थितिकरु
 क्कमनुन्नागकरुक्कानि च यातयन् तावद्वेदितव्यी याव रसयोग्यवस्थावरमसनय, सर्वाण्यापि घामूनि स्थित्यनुन्नागकरुक्कान्यसङ्ख्यान्यायगन्तव्यानी

वेदद्विच्यं तयासमुं आहारसमुग्धाए केवलिसमुग्धाए । वेदनासमुग्धाए नते ! कडसमद्गु पयते ? गी

त कवलिसमुद्घात ७ । वेदनासमुद्घातो प्रदत्त । कतिनामयिकः ० गीतम असङ्खेयसामयिकोऽन्तमुद्गूर्त्तिक प्रपत्त । एय यावदारारुक्

ये लीवसरदे मनुष्यते षसातेहो हवे । १ । कदविहाय भते समुग्धाया प० । केवलिसङ्गे इभमन्त्त समुद्घात कथा । गीयना मत्तम० त० । हेगीतम मा
 त समुद्घात कथा । वेदसमुग्धाए कसायथ० सरपथ० यद्विज्जस० तेजसथ० भाहारस० केवलिस० । वेदनासमुद्घात यतावेदनापदेय वाद्यकृति

• गीतम •

• मूल •

• प •

• भाग •

निर्विरेता अहावापरं पुगले परिखाहेइ इति २ एवं तेजसाहारसमुद्रघातावपि प्रायनीयी नवर तेजससमुद्रघात स्त्रोजोलेश्याविनिर्ग
मभाल सच तेजसनामकर्मपुद्गलपरिज्ञातरेतु , आहारकसमुद्रघातगत स्वत्वारकशरीरनामकर्मपुद्गलान् परिज्ञातयतीति । केवलिसमुद्रघातगत
केवली सदयहेद्यादिकर्मपुद्गलपरिज्ञात करोति सच यथा कुण्ठते तथा विनयजनानुगताय प्राच्यते इति केवलिसमुद्रघातो एषानपिक , तथा
कुर्वन् केवली प्रथमसमय दाहल्यत स्वशरीरप्रमाणमूद्गमपद्य लोकात्प्रपद्यत मात्सप्रदशाना दह नारधयति द्वितीयसमये पूर्वापर दक्षिणोत्तरवा
कपाट तृतीये मथान , चतुर्थेव काशातराणा पूरण , पथमे ऽवकाशातराणा सहार , पष्ठे मन्य , सप्तमे कपाटस्य अष्टमे स्वशरीरस्थो ज्वलति
वह्यति च षडसमये दण्ड करेइ इत्यादि ॥ तत्र दहकसमयात् प्राक् या पत्योपमाऽवह्नेयजागमात्रा वेदनीयनामगोत्राणा स्थिति रासीन् तस्या
युच्चा ऽसत्येयाजागा क्रियते , ततो द्यकसमये दह कुर्वन् अवह्नेयान् जागान् हति एको ऽवह्नेयो जागो ऽवतिष्ठते यद्य प्राक् कर्मत्रयस्यापि

रस तस्याप्यनन्ता जागा क्रियते तत त्वास्मिन् दहसमये धसातवेदनीयप्रथमवर्णसंस्थानपचकाऽप्रशस्त्वर्णादिवह्नुष्टयोपघाताप्रशक्तविहायोग
तितुर्नंगास्थिराऽपयसिज्ञाज्ञानादेयापय कीर्त्तिनीर्धिर्गोत्ररूपाण पञ्चविंशतिप्रकृताना मनन्तान् जागान् हति , एकोनन्तजागो वंशियते तस्मि
न्नेत्र च समये सातवेदनीयदेवगतिदेवानुपूर्वापञ्चोन्द्रियजातिशरीरपञ्चकागोपाद्गत्रयप्रथमसंस्थानसहनमज्ञास्त्वर्णादिवह्नुष्टयागुरुलघुपराघातोच्छ्वा
सप्रशक्ताविहायोगतिवस्यारपर्योत्पत्त्येकातपोद्योतस्थिरशुभ्रजगसुखरादेयश कीर्त्तनिर्माणतीर्थकरोश्चेर्गोत्ररूपाणा मेकोनचत्वारिंशत प्रकृती
ना मनुजागो ऽप्रशस्त्वप्रकृत्यनुजागमध्यप्रवेशनेनोपहन्यते समुद्रघातमाहात्म्यमेतत् तस्यचोद्गुरितस्य स्थिते सख्येयजागस्या नुजागस्य चानन्तजा
गस्य पुन यथाक्रम अवह्नेया अनन्ताद्य जागा क्रियते , ततो द्वितीये कपाटसमये स्थितेरसत्येयान् जागान् हन्ति एको ऽवोशियते अनुजागस्य
चानन्तान् जागान् हन्ति एक सुष्विते अथाप्यप्रशस्त्वप्रकृत्यनुजागमध्यप्रवेशनेन प्रशस्त्वप्रकृत्यनुजागघातो द्रष्टव्य पुनरप्येतत् समयेऽवशिष्टस्य स्थि

श्री मलयगिरिविचितायं० पञ्चविंशतम वेदनार्यं पद समाप्तम् ॥ - ३५ ॥ ० ॥ ० ॥
 तदेव व्याख्यात पञ्चविंशतम पद समति षट्त्रिंशत्तम आरभ्यत तस्यैव मन्त्रिसव्य इष्टानन्तरपदे गतिपरिणामविज्ञोपा येदना प्रतिपादिता इ
 वन्ति तद्यथा-वेदनकसायसरणइति ॥ यदेन च कयाप इ मरण च वेदेनशपायसरण समाप्तोद्देश स्तस्मिन् विषये त्रय समुहता ज्ञानलि तद्यथा-
 वेदनासमदूयात कयापसमुदूयातो मरणसमदूयातय ॥ वेदविषयि ॥ वैकियविषय शतुर्षु समुदूयात सौत्रम पक्षमसमदूयात पट ॥ व्यापार
 इति ॥ आहारकशरीरविषय सप्त केवलिक केवलियु जवन्ति ॥ जीवमणुसंखण्डसते ॥ सामान्यतो जीवचित्ताया मन्युद्वारचित्ताया सदेव स
 तपरिमाणसमुदूयाता वक्तव्या न न्यूना समानार्थे तत्र सम्भवात् ॥ सत वेति ॥ स्वकारोऽ परिमाणे यत्तते परिमाणे गजशब्दो यदाह ज्ञान
 टापन्यासठत्-एवोवचारणपयकपरिमाणोषिति, शोषहारचित्ताया तु यथासत्रय थाव्या सौ चान्ने स्वयमेव सूत्रठता त्रिधास्यत इत्येकसमग्रदण्डि
 गाथासलेषायं, अथ समुदूयात इति क शब्दायं उच्यत-समित्येकोभावे उरभ्रायत्य एकीभावेन प्रायत्येन यात समुदूयात फा सर एकीताव

वेदणकसायसरणे वेदविद्येयएयव्याहारे । केवाल्यसमुग्धाए जीवमणुसंखण्डसत्तेव ॥ १ ॥ कण्डण ज्ञते !
 समुग्धाया पण्यता ? गोयमा । सत समुग्धाया पण्यता, तजहा-वेदणासमुग्धाए कसाय० मारणतिय०

वेदनकयायसरण वैकियतैजसतथाहारम् । कैरिरिकसमुदूयातो जीवमणुषो सते ॥ १ ॥ कति जदत्त । समुदूयाता मद्यता ० गीतम । सप्त
 समुदूयता मद्यताल्लद्यथा-वेदनासमुदूयात, कयापसमुदूयातोमारणान्तिकसमुदूयाता वैकियसमुदूयात सौत्रसमुदूयात आहारजसमुदूया

दिवे क्तोसमीपदे गतिपरिणाम विग्रह समुहता प्रतिचित्तेवे सहातानान कष्टे । वापञ्चमाऽमरले वेदविद्यतेऽण्यथाहार । कश्चिण्चमने
 जीवमणुखाणसत्तेव ॥ १ ॥ वेदनासमुग्धात कथाऽसमुग्धात मरणसमुग्धात वैकियसमुग्धात तैपसमुग्धात आहारसमुग्धात कैरिसमुग्धात ० नियम इ

१०५

३५

१०५

सुगम, जगज्जानाट-गोपमेत्यादि ॥ ज्योतिष्कादि द्विविधा भाग्यिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नका अभापिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नका यः, तत्र सायानियत्तित य रक्तम
 मिथ्यात्वादि तदपि साया कार्यकारणोपचारत्वात् साया विद्यत येषा त भायिनो ऽतएव मिथ्यात्वोदया मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टि यंस्तत्त्वप्र
 तिपत्ति र्येषा ते मिथ्यादृष्टयो भायिनश्च ते मिथ्यादृष्टयथेति भायिमिथ्यादृष्टय स्त च ते उपपन्नका यः, तत्र भायिमिथ्यादृष्ट्युपपन्नका स्तादिपरी
 ता अभापिसम्यग्दृष्ट्युपपन्नका तत्र यते भायिमिथ्य दृष्ट्युपपन्नका स्तोपि मिथ्यादृष्टित्वादेव त्रतविराधनातो ऽज्ञाततपोवशाद्वा वयमेव त्रिधा
 उपपन्ना इति न जानते तत सम्यग् यथावस्थितपरिज्ञानाभावा दनिदा वेदना यदयमाना स्तं यदितत्या , य त्वनापियस्यग्दृष्ट्युपपन्नका स्त
 सम्यग्दृष्टित्वात् यथावस्थित स्वरूप जानन्ति ततो या काश्चन यदना यदयते ता सर्वाभ्यपि निराभ्यति ॥ सब स्वैत्र वमाखियाधि इति ॥ यव ज्यो
 तिष्कोक्तं प्रकारेण वैमानिका अपि देवा निदानिदावेदना वेदयमाना यदित्तव्या साया भापि मिथ्यादृष्टिसम्यग्दृष्टिभेदतो द्विविधत्वात् ॥ इति

दति, तस्यण जेतै छुमाडंसम्रादिठीउववन्नगा तेणं निदाय वेदण वेदति से तेणठेण गोयमा ! एव बु
 च्छड-जोडसिना दुविहामवि वेदण वेदति, एवचेव वेमाणियावि ॥ इति पत्तत्रणाए जगवतीए पचतीस
 तिस वेदणापदु सम्मत्त ॥ ३५ ॥

पि वेदना वदयन्ते एव चैव वैमानिका अपि ॥ इतिश्री मनुष्याध्याय रामचन्द्रगणेश्वियनानकचन्द्रविरचिते प्रज्ञापनानुवादे पञ्चत्रिंशत्तम
 पद समाप्तम् ॥ ३५ ॥

पना । तथ अनिटादपि वे० । ते अनिदा पिण वेदे । तस्य जेसे भमार सम्पत्तिहे स० तेण निटार वे० । तिहा अभायोसम्यग्दृष्टाधो जपना ते नि
 दा वेदना वटे । संज्ञेण्डण गीउमा एव बु० । तमाटे भोतम इमकसै जो-सिया दुविह प वे० एव वेमाणिया । ज्वातिपी टोगकार पिण वेदना वटे
 इम वैमानिक जाली । पथवणाएयथापय सम्मत्त । इति प्रज्ञापना भगवतीमाहि वेदनापदु वैवीषमा समाप्त ॥ ३५ ॥ ३

। टीका ॥

। सूत्र ॥

। ३० ॥

। भाषा ॥

पंचद्वयतिर्यग्योनिर्का मनुष्या व्यन्तराय यथा नैरयिवर साया वत्तव्या इति शेष । निदामनिदामपि वेदना वेदयत इति वक्तव्या इत्यर्थः । कस्मा
 दिदिते दुच्यते-इत्त पंचद्वयतिर्यग्योनिर्का मनुष्या च द्विधा प्रवर्तन्त तद्यथा समूच्छमा गज्ज्युत्कात्का श्रु । तत्र ये ते समूर्च्छिमा स्ते मनोवित्त
 लत्वा दनिदा वेदना वेदयते ये तु जंज्युत्कान्ता स्ते समनस्का इति निदा वेदना मनुजवन्ति व्यन्तरास्तु साज्जस्यो प्युत्पद्यन्ते उर्ध्वस्योपि तत
 स्तेपि नैरयिकव विदा वाऽनिदा वा वेदना वेदयमाना प्रावनीया ॥ जोऽसुयाय मित्यादि ॥ ज्ञातकार् मन्त्रस्य गवात्पद्यन्ते तत स्ते पुन
 नैरयिकोक्तं प्रकारेण निदा ऽनिदे वेदने न सजावनीये कितु प्रकारान्तरं तत समव प्रकारं युज्जत्सु मन्त्रसूत्रमाह-चे कण्ठय जत । इत्यादि ॥

हा नैरइया । जोइसियाणं पुच्छा, गीयसा । निदायपि वेदणं वेदति इति निदायपि वेदति । त्त् कण्ठेण
 जतं ! जोइसिया निदां इति निदायपि वेदणं वेदति ? गीयसा । जोइसिया दुविहा प ? त माईमिच्छा
 दिठी उववन्ताय इमाइसम्मदिठी उववन्ता य । तत्पणं जेतं माईमिच्छदिठी उववन्ता गु तंणं इति निदायं वे

च्छा । गीतम । निदामप्यनिदामपि वेदना वेदयन्ते । अय कर्णं जतन्त । एवमुच्यते-ज्योतिका निदामप्यनिदामपि वेदना वेदयन्ते ?
 गीतम । ज्योतिका द्विविधा मन्त्रास्तद्यथा-सायिमिध्यादृष्ट्यु पपत्तकायामायिसम्यग्दृष्ट्यु पपत्तकाय । तत्र ये सायिमिध्यादृष्ट्यु पपत्तकाले
 ऽनिदा वेदना वेदयन्ते, तत्र ये ऽसायिसम्यग्दृष्ट्यु पपत्तकाले निदा वेदना वेदयन्ते ततनार्थेन गीतम । एवमुच्यते-ज्योतिकाद्विविधाय

पुच्छा । इम जातगे चौरिद्विवेनं पंचेन्द्रयतिर्यग्योनिर्का मनुष्य वा न्यन्तर जिम नारकीतिम ज्योतियोतो प्र० । गीयसा शिदायपि वे० अण्डियायपि ।
 इगीतम निदा यिषवेदे अनिदा यिष वेदे । सेकेण्डेण भते एववु० तिसाट्टे मगवन् इमग्गहे । ज्ञा-सिया शिदायि वे० अण्डियायि वे० । ज्योतिर्पि ।
 निदा यिष वेदे अनिदा यिष वेदे । गीयसा जोऽसिया दुविहा प० त० । इगीतम ज्योतियोना दावभट्ते कहहे । सा-मिच्छादिङ्का उववन्ताय च
 नारसस्मादिङ्कोष० । सायीमित्यादिष्टिषो कएना अनायोसस्मादिष्टिषो जप्रजा । तत्पणं जेतं माईमिच्छादिङ्को ष० । तिसा-जे सायानिध्यादिष्टिषो क

कुमारदय स्तानितकुमारपर्यवसाना नृपतपथो वक्तव्या होषामपि सञ्चिजो अर्धञ्चिज्य शीरपादसम्भवात्, पृथियपत्ते तीवाद्युपनस्पतिद्रिगिगतु रिन्द्रिया समूच्छिन्ना इति मनोयिकलत्वात्, अनिदासं च वेदना वेदयन्ते ॥ पचिदिपतिरिस्वभाषिया मणुस्वभाषमन्त्रा जडा नरइया इति ॥

नृता ते अग्निदाय वेदति से तेणठेण गोयमा । एव वृञ्च-नेरइया निदायपि अग्निदायपि वेदण वेद
ति एव जाव थणियकुमार । पुढविकाइयाण पुच्छा, गोयमा । नाग्निदाय वेदण वेदति अग्निदाय वे
दण वेदति । से केणठेण नते । पुढविकाइया नो निदाय वेदति ? गोयमा । पुढविकाइया सञ्च
अमन्ती अमन्तीनूत अग्निदायं वेदण वेदति से तेणठेण गोयमा । पुढविकाइया नो निदाय वेदणं वे
दति अग्निदाय वेदण वेदति, एव जाव चउरिदिया । पचिदियतिरिस्वजोणिया मणस्सा चाणमतरा ज

तत्र ये अवञ्चिज्जुता स्ते अनिदा वेदना वेदयन्ते तत्तवार्थेन गीतम् । मधमुच्यते नेरियका निदामप्यनिदामपि यदना वेदयन्ते । एव याय
रक्षामितकुमार । पृथियोकार्थकाना पुच्छा, गीतम् । अनिदा अनिदा वेदयन्ते । अथ कनार्थेन पृथिवीकार्थिका सानिदा वेदना
वेदयन्ते ? गीतम् । पृथिवीकार्थिका सर्वेऽप्रञ्चिज्जुतामप्यञ्चिज्जुता वेदना वेदयन्ते तर्त्तनार्थेन गीतम् । एवमुच्यते-पृथिवीकार्थिका नो निदा
वेदना अनिदा वेदना वेदयन्ते । मधु यावश्चुरिन्द्रिया । पृथ्विन्द्रियातययानिका मनुष्या वानव्यन्तरा यथा नेरियका । ज्योतिष्काणा प

पिण वेदना वेदे । सेकेणइण गोयमा ए० । तेमाट गीतम् इमच्छे । अरइवा निमग्गपि व० अनिदायमिते० एव जाव वणियकुमारा । नारको नि
दा पिण वेदना वेदे अदिद मिय वेदना वेदे इम चाल्दो स्तानितकुमार । पठोकाइया सव अमणो अमणाम्भु अनिदाऽ वेदेवन्ति । पृथियोकायना
मधुना नमन्ती अमन्तीभूत अनिदावेदा वेदो मतेणइण । व० । तेमाट गीतम् इमच्छे । पठविकाइया अनिदाय वे० अनिदाय व० । पृथिवी
कार्थिकत वेदना वेदे नृनो अनिदावे वेदना वेदे । एव जाव चउरिदिया पचिदियतिरिस्वजाषिया मनुष्या चाणमतरा जडा केरइया जोइयियाण

• दोषा ।

• पूजा ॥

• य ।

• पाप ।

दात इत्यधिकरणे घट्टा सामान्येन चित्तवती सम्यग्भिवेकवती वा इत्यर्थं, इतरा त्वनिदा चित्तत्रिकला सम्यग्भिवेकविकला यतामेव चतुर्वि
 शनिदगलकनण प्रतिपादयति-नरहयाण मिन्यादि ॥ द्विविधा हि नैरयिका सञ्जिन्ना असञ्जिन्नाश्च, तत्र य त सञ्चिन्त्य उदयला स्ते च
 चिन्ना य त्वसञ्चिन्त्य स्ते ऽसञ्चिन्ना असञ्चिनश्च पाद्यात्य न किमपि जन्मातरुत शुन वेरादिक वा स्मरति, स्मरण हि तत्र प्रवर्तते न ही
 त्रेणभिसवयन कृत जगति न चासञ्चिन्तव पाद्यात्ये तेषा तीव्रान्निषधि राशी न्यनाविकलत्वात्, ततो यामपि काचि हेदना नैरयिका वेदयते
 ता मनिदा पाद्यात्यनमानुनूतित्विषयस्मरणपटुचित्तसम्भवात्, सञ्चिन्ना तु सममपि पाद्यात्य मनुस्मरतीति त निदा वेदना वेदयत एवमसुर

ते । वेदणा प० ? गोयमा ! दुविहा प० त०-निदाय अ्निदाय जते । कि निदाय वेदण
 वेदति अ्निदाय वेदण वेदति ? गोयमा ! निदायपि वेदण वेदति अ्निदायपि वेदति । से केणठेण
 जते ! एव बुच्चड-नेरडया निदायपि वेदण वेदति अ्निदायपि वेदति ? गोयमा ! नरडया दुविहा पं
 त-सन्नीञ्जुताय अ्निदायपि वेदण वेदति तत्त्यण जते सन्नीञ्जुता तं निदायपि वेदण वेदति तत्त्यण जंतं अ्निदायपि

कि निदा वेदयते अ्निदा वेदना वेदयते ? गोतम । निदामप्यनिदामपि । अय कतार्येन जदल । एवमुच्यते-नैरयिका निदामप्यनिदामपि
 वेदना वेदयते । गोतम । नैरयिका द्विविधा-प्रज्ञा सद्यथा-सञ्चिन्ना चासञ्चिन्नाश्च । तत्र ये सञ्चिन्ना स्ते निदा वेदना वेदयते ।

वेदण वेदति अ्निदाय वे० । नारको किञ्ची वेदना वेदे निदा के अ्निदा वेदे । गोयमा निदायपि वे० अ्निदायपि वे० । इगोतमनिदा पिण अ्निदा
 पिण वेदे । सेकेणठेण भते एवव० । खामाठे इमभवन् इमकहे । खेरया निदायपि अ्निदायपि वे० । नारको निदा पिण अ्निदा पिणवेदे । गोयम
 खेरया दविज्ञो प० त० । इगोतम नारकोना दोमभट कक्षा ते कहेके । मणोभूयाय असणोभूयाय । सद्रोभूत असद्राभूत मनविना । तत्त्यण जे मनो
 भूया तेष निदाय वे० । तिहा जे सद्रोभूत ते निदा पिण वेदना वेदे । तत्त्यण जे असणोभूया तेष एनिदाय वेदय वे० । तिहा जे असद्रोभूत अ्निदा

की, पृथिव्यपतेजीशायुनरपतिद्वित्रिचतुरिन्द्रियार्णा मनोविकलतया विवेकाज्ञात स्थापतिपते रनाथात्, नारकनगपतिव्यत्तरज्योतिकवे मानिकाना च चवस्वनात्राद्यादिति, मन्दथ सूत्रकत् प्रतिपादयति-नरइयाण प्रते । इत्यादि ॥ सुगम पुन प्रकारान्तरेण वदनामग निधिस्तु राह-कइविराण प्रते । इत्यादि ॥ निदा ॥ अनिदा च, तत्र नितरा निधित वा सम्यक् दीयते चित्तमस्या इति निदा, यदुलाधिकारा दुपसर्गा सुहपि वेदण वेदति । एव जात्र वेमाणिया । कतिविहाण जते । वेदणा पणता ? गीयमा । दुत्रिहा वेद

णा प०, त०-अप्लोत्रगमियाय उवक्कमियाय । णेरइयाण जते । अप्लोत्रगमिय वेदण वेदति ? गीयमा । नो अप्लोत्रगमिय वेदति उवक्कमिय वेयणं वेदति एव जात्र चउरिडिया । पच्चिट्टितिरिक्क जोणिया मणुस्सा दुत्रिहपि वेदण वेदति । वागमतरजोडसियवेमाणिया जहा नेरइया । कतिविहाण ज

औपक्रमिकी वेदना वेदयत्ते । एव यावत्तुरिन्द्रिया । पल्वान्द्रयातययोत्तका मनुष्या द्विविधामपि वदना यदयत्ते । वानञ्जत्तरज्योति क्वैमानिका यथा नैरयिका । कतिविधा प्रदत्त । वेदना प्रज्ञप्ता ? गीतम । द्विविधा प्रज्ञप्ता सद्यथा-निदायानिदा च । नैरयिका प्रदत्त । निक्क । कइविहाण भते वेयण, पं० । कतमाभेट इभगवन् वेदना कही । गीयमा दुविहा वेयथा त० । हे गीतम दीयभेदे वेदना ते कइहे । अभावगमि याय उवक्कमियाय । अभ्युपगमन जापोन वदना यामिं त कसंवल्ल इदय थावे त उपक्रम वेदना । खेरइयाण भत पभोत्रगमिय वेयण वेदेर उवक्कमिय वे० । नारको इभगवन् पथ्यपगमन वदनावदे उपक्रमकोवदना वेदे । गीयमा नोपभो गमिय वे० पवक्कमिय वे० । हे गीतम नदी अभ्युपगमको वेदन इदम जानकी चवरिदिय पंचेन्द्रिय तिउसगानिक मनुष्य वेमन्वारनो वेदना वद वानमत्तर ज्योनिपा वेमानिक जिम नारको तिम । कइविहाण भते य यथा प० । कतसा उभगवन् वेदना कही । गीयमा दुविहा वेयथा त० । हे गीतम दायभेदे वेदना ते कइहे । निदाय चानिदाय । खेरइयाण कि निदाय

५७० ॥

सुररूपा असाता दुःखरूपा सातासातां सुगुटु सार्विक एतन्नेत्र नैरधिकारिषु विज्ञातिर्नकक्रमेण विनियति-नैरश्यामिभित्वादि ॥ तत्र तीर्थकरजन्मादिकाले सातवेदना वेदयते ओपकालमसातवेदना वेदयते यदा तु पूर्वसागतिको देवो मा टानवो वा यपनामृतं वेधति, तदा मनसि सात शरीरे तु ज्ञेगानुजायतो असात यदि वा मनस्येव महज्जनत गृहचनश्रयणत य सात पश्चात्तापापुनयत स्वसात मिति, तदा सातासातवेदना मनुजश्रान्त अत्रापि ताघत विधत्तिका कालमेक विधत्तिका सातासातानुजको युग्य प्रतिपादित, परमार्यंशु क्रमेणैव वदितव्य इति एव नैरधिकारिकारेण सर्वे जीका साव हस्तव्या यावद्वैमानिका साव प्रायव्यादयो यावत्याद्याप्युपद्रुं सनिपतन्ति तावदसातवेदना वदयते उपद्रवसपाते स्वसातवेदना मधयमेदेनोपद्रवसपातसमावे सातासातयदना, व्यक्तरज्योतिकवेमानिका देया सुगुमनुजयन्त सातवेदना अवनदिकाले स्वसातवेदना परविज्ञातिदर्शनतो सातवर्षाद्युनये स्वश्लमद्वीपरियङ्गाद्यनुजने न युग्य ज्ञायमाने सातासात वेदना वदयते इति ज्ञेय प्रकारातरेण एतामेव प्रतिपादयन् प्रश्ननियजनमत्र साङ्ग-कडविशेषण प्रते। इत्यादि ॥ वेदना नैकातेन दुःखा ज्ञाणितुं शक्यते सुरस्यापि ज्ञावात् नापि सुरा दुःखस्यापि ज्ञावात्, सा अटुपसुरा सुगुटु मालिका इत्यर्थ, अय सातासातयो सुगुटु एयो य परस्पर

ण वेदति नोमाणस वेदति नोसारीमाणस वेदण वेदति । कतिविहाणं जते ! वेदणा पणहा ? गो यमा ! तिविहा वेदणा पणहा, तंजहा-साता असाता स.तासाता । णरडयाण जते ! कि सात वेदण वेदति

सातवेदना वेदयते सातासातवेदना वेदयते ? गीतम् । त्रिविधमपि । मय सर्वंजीग यावद्वैमानिका । कतिविधा प्रदत्त । वेदना प्रथमा ? गीतम् । त्रिविधा प्रथमा तद्यथा-दुःखा सुखा अटु छासुरा । नैरयिका प्रदत्त । किं दुःखा वेदना वेदयन्ति पृच्छा . गीतम् । दुःखम् वेदना पिय नहो । स्वविशेष भते ववणा प० । कतवेदेदे इमभवन् वेदना कही । गोयना तिविधा वे० त० । इभीतम तोन वेदना ते कइहे । सा या असाता सातासाता । सातावेदना असातवेदना साताप्रथमा सातासातवेदना वेदना । नारको

चित्तयति-शरीररूपानां प्रते । किं दधेते वैषणं वंथति इत्यादि ॥ सकलमपि सुगमं, प्रकारान्तरेण वेदनामपि प्रतिपिपादयिषु प्रश्ननिर्वचनसूत्रे आह-कइविराण प्रते । इत्यादि ॥ शरीरे जवा शारीरी मनसि जवा मानसी तदनुभवजवा शारीरमानसी शारीरीच मानसीच शारीरमानसी पुवटकर्मधारये इति पुंवद्भाव ' एतामेव चतुर्विंशतिदण्डक्रमेण चितयति-नेरइयाण प्रते । किं शारीर वेपण वंथति इत्यादि ॥ सुगम तत्र यदा परस्परोदीरखत परमाधार्मिजोटीरखतो वा जोगानुभावतो वा शरीरे पीडा अनुभवन्ति तदा शारीरी वंदना वेदयते यदा तु केवल मनसि दुःख परिजाध्यते पाथात्य वा प्रव मात्सीय दुष्कर्मकारिण मनुस्मृत्य पद्याभाप मतीउ कुयंते तदा मानसी वेदयते । यदा तु शरीरे मनसि चोक्तप्रकारेण युगप स्वीकामनुभवन्ति तदा शारीरमानसी इहापि वेदनानुक्रमेणैव केवल विवलितावरकालमध्ये शरीरे च पीडा अनुभवन्ति मनसिपैव तावन्त कारमेक विवलिता युगपच्छरीरमन पीडानुभव प्रतिपादित इत्यदोप ॥ एव जाध वेमाणिया इत्यादि ॥ एव नेरपिकोत्तेन प्रकारेण सूत्र तावदुक्तथ याव द्वैमानिका नवर मेकेन्द्रिययिकतन्द्रिया शारीरी वेदना वेदयते नो मानसी तेषा मनसोऽप्रावात्, तत सादनुसारेण तद्विषयसूत्र वक्तथ प्रकारान्तरेण वेदनामभिधित्तु प्रश्ननिर्वचनसूत्रे आह-कइविराण प्रते । इत्यादि ॥ तत्र साता

वेदण वेदति माणस वेदण वेदति सारीरमाणस वेदणं वेदति ? गोयमा ! सारीरपि वेदण वेदंति माणसपि वेदण वेदति सारीरमाणसपि वेदण एव जाव वेमाणिया नवरं एगिदियविगलिदिया सारीर वेद

न्ते, एव यावद्वैमानिका नगरमेकेन्द्रियविकलेन्द्रिया शारीरी वेदना वेदयन्ते नो मानसी नो शारीरमानसी वेदना वेदयन्ते । कतिविधा ज दन्त । वेदना प्रज्ञप्ता ? गीतम । त्रिविधा वेदना प्रज्ञप्ता तथथा-साताऽघाता सातासाता । नेरपिखा प्रदन्त । किं सातवेदनां वेदयन्ते प्र

सपि वे० एव जाव वेनापिण । हेगौतम शरीर पिण वेदे मन पिण वेदे शरीर मिय पिण वेदे इम जानी वेमानिक । एव परमिदिय विगलिदिया शरीर वे० । एविषेप एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय शरीर । नोमपसीवे० नोषरीरवे० नोसरीरमाणसीवे० । शरीरवेदनाहोब वेदे मनवेदना नष्टो शरीरमनसा

मानिका सावत्सूत्रं पक्त्यं तद्यैष-पुढविकाश्याण ऋते । कि सीयवेयण वेयति सखिण वेयणं वेयति ? गीयमा । सीय
पि वेयण वेयति सखिणपि वेयण वेयति इत्यादि ॥ सत्र पृथिवीकायिकादयो मनुथपर्यवसाना शीतवेदना शिवादिप्रपातपि वदयमाना वेदि
तद्या , उरणयदना मन्वादिस्म्यं शीतोष्णवेदना मववण शीतोष्णपुद्गलसम्बन्धे इति, व्यन्तरज्योतिकवेमानिना स्वनुरकुमारय द्वायनीया
उक्ता शीतादिभेदा त्रिविधा वेदना सम्प्रति तामेव वेदना प्रकारानिधिसु प्रथमनिर्वचनसूत्रे षाड-ऋद्विद्याइत्यादि ॥ इह यदना द्र
व्यङ्गेकालजावसायीवशा दुत्पद्यते सर्वस्यापि यस्तुनो द्रव्यादिसामयीवशा दुत्पद्यमानत्वा तत्र यदा स्वेय वदनपुद्गलद्रव्यसम्बन्धमपि नृत्य
चित्यते तदा द्रव्यवेदना द्रव्यतो वेदना द्रव्यवेदना, नारकाद्युपपातलोमचिकृत्य चित्यमाना इन्द्रवेदना, नारकादिप्रवशासम्बन्धेन वि
वक्ष्यमाणा कालवेदना वेदनीयकर्मोदया दुपजायमानत्वेन परिजावयमाना जायवेदना, यतामेव षतुर्विधा वेदना षतुर्विंशतिदण्डकक्रमेण

खेत्तत्र कालत्रं जावत्रं । णेरड्याण ऋते । कि दव्वत्रं वेदण वेदति जात्र कि जावत्रं वेदति ? गीयमा !
दव्वत्रंवि वेदण वेदति जाव जावत्रंवि वेदण वेदति । एव जात्र वेमाणिया । कतिविहाण ऋते । वेदगा प० ?
गीयमा । त्रिविहा वेदणा पणत्ता , तजहा-सारीरा माणत्ता सारीरमाणसा । णेरड्याण ऋते । कि सारीर

मदत्ता । वेदना प्रदृशा ? गीतम । त्रिविधा यदना प्रदृशा तद्यथा-शारीरी मानसी शारीरमानसी च । त्रैयिका ऋदन्त । कि शारीरी वेद
ना वेदयन्ते मानसी वदना वेदयन्ते शारीरमानसी वदना वेदयन्ते ? गीतम । शारीरीमपि मानसीमपि शारीरमानसीमपि वेदना वेदय
वेमानिक । कद्विहाण मते वेयणा प० । केतवो हेमवत् वेदना कश्चो । गीतमा त्रिविधा वेयणा प० त० । हेगीतम तीनवेदना ते खवेच्छे । सरीर
वे० माणसीवे० सरीरमाणसी वे० । शरीरवेदना माणसीवेदना शरीरमानसीवेदना । खेरड्याणभते कि सरीरीवेयणा वेदं माणसीवे० सरीरनापसी
वेयणा । नारको हेमवदन् शरीरवेदना वेदे कि मानसीवेदना वेदे कि शरीरमानसीवेदना वेदे । गीतमा सरीरपि वेयण मती

• दोष •

• मू •

• प •

• पाप •

राण जते । कि सीय वेदण वेयति उचिण वेयणं वेयति इति, प्रगवानार-गोयमेत्यादि ॥ शीतामपि वेदनां वेदयते यदा शीतलजलसम्पूर्णं द्वादित्पु निमज्जनादिक विदधति, तस्मापि वेदना वेदयते यदा कोपि मर्द्दक सज्जातीयो अन्यजातीयो वा कोपवशात् विरूपतया दृष्ट्या वलोकमान शरीरं सत्तापमुत्पादयति यथा प्रथमत्यत्र ऐशानेन्द्रो वलिचचारजघानीवास्तव्याना मसुरकुमाराणा मुत्पादितवान् अन्यथा वा तथा विधोऽप्रदुल्लसपृक्तावुणवेदनामनुभवतो वेदितव्या, यदात्वयवाजेदेन शीतपुद्गलसपृक्कं तृणपुद्गलसपृक्कं योजायते तदा शीतोष्णवेदना वेदयते ननुपयोगकर्मण जीवाना जवति तथास्वानावात् कथमन शीतोष्णवेदनामनुभवतो युगपरप्रत्याप्यते इति उच्यते-इहापि वेदनामनुभवकर्मणैव तथा जीवस्वानावात् केवल शीतोष्णवेदनाहेतुपुद्गलसम्पर्कयुगपदुपजायत इति सूक्ष्माशुसचारिणमुपयोगकर्मनपत्त्य यथैत ते वेदयमाना युगपदन्ति मन्यते तथैव प्रतिपादित मिति न कथि होप सामान्यत सूत्रस्य प्रयुक्तत्वात् ॥ एव जाव वेमाणिपत्ति ॥ एवमसुरकुमारोक्तेन प्रकारेण यावहे

सारण पुच्छा, गोयमा ! सीतपि वेदण वेदति उचिणपि वेदणं वेदति सीतोसिणपि वेदणं वेदति । एवं जाव वेमाणिपत्ति । कडविहाणं जते ! वेदणा पसुता ? गोयमा । चउच्चिहा वेदणा पसुता, तजहा-दच्चन

मदत्त । वेदना प्रसुता ? गोयमा । चतुर्विधा वेदना प्रसुता तद्यथा-द्रव्यत क्षेत्र कालतो प्रावत । नैरयिका मदत्त । कि द्रव्यतो वेदना वेदयते यावदिक जावतो वेदयते ? गोयमा । द्रव्यतोपि वेदना वेदयते यावद्जावतोपि वेदना वेदयते एव यावहेमानिका । कतिविधा षण्ण पिण वेदे गोताण पिण वेदे । एव जाव यणियकुमारा एव जाव वेमाणिपत्ति । इम जावगे स्खनितकमार यावत् वैमानिक । कडविहाण भते वे यणा प० । केतलेभदे इभगवन् वेदना कडो । गोयमा चउच्चिहा वेदणा प० त० । हेगौतम चरिभटे कद्या तं कहेके । दच्चयो खेत्तपो कालतो भाव पो । द्रथयो चैत्रयो कानयो भावयो । चेरदवाण भते कि दच्चयो वेदण वेदेन जाव कि भावयो वेवण वे० । नारकी द्रव्यवेदना वेदे कि इभगवन् जा उगी स्तु भावयो वेदे । गोयमा दद्वयोत्रि वे० जाव भावयोत्रि वे० । हेगौतम द्रथ पिण वेदे जावगे भावयो पिण । एव जाव वेमाणिपत्ति । इम जावगे

शीतोष्णपुद्गलसम्पर्केन शीता रक्षा च सा शीतोष्णान् संनामेव निबिधौ वेदना नैरयिकाविचतुर्वैशितिककर्मणश्च चिन्तयति नैरुद्याणमित्यादि ॥ तत्राद्यासु तिसृषु पृथिवीयुष्मा वेदना वेदयते तदि शीता ये नरकावासाश्च तदाश्रयभूता सर्वतो जगत्प्रसिद्धादिनागारातिरिक्तबहुप्रतापोष्णपुद्गलसञ्जाता चतुर्थ्यांस्तु पद्मप्रजाजिघानाया पृथिव्या केषिच नैरयिका उष्णवेदना कश्चियु शीतवेदना मनुजवति तत्रत्यनरजावासाणां शीतोष्णानेदतो द्विधा जेदात्, केवल ये उष्णवेदना वेदयते ते प्रज्जतरा प्रज्जतेषु नारकावासापुष्पवेदनासद्भावा दिदरे शीतवेदना मनुजवति स्तोका स्तोकरेषु नरकावासेषु शीतवेदनासञ्जात्, धूमप्रजायासपि पृथिव्या केषिच दुष्णवेदनाकाः नवर शीतवेदनाना मनुजतरा मज्जतेषु नरकावासेषु शीतवेदनासञ्जात् स्तोका उष्णवेदना कतिपयेष्वेव नरकावासेषुष्णवेदनाभावात्, अथस्तस्यो स्तु द्वयो. पृथिव्यो शीतवेदनामेव नैरयिका अनुभवति तत्र नैरयिकाणां सर्वेषां मुष्णयोनिक्त्वात् नरकावासानां त्वनुपमरिमानुपक्त्वात् यथावत्सूत्र चिरतनेसु वि प्रतिपत्त्या श्रूयते केषिडाचार्यो पुनरेतद्विषयमपिक्वमपि सूत्र पठति एत स्तन्मतसाह-केन्द्रंकेकीय पुढवीयु वेयण प्रणति इति । केषिदाचारां एकैकस्या पृथिव्या मत्तनिबधनरूपतया वेदना यथा प्रणति तयोपदंशयति-रयणप्पजेत्यादि ॥ सुगम तदेव नैरयिकाणां चिन्तिता शीतादि

नापुढविणेरइयाण जते ! पुच्छा, गीयमा ! नो शीतवेदण वेदति उंसिण वेदणं वेदति नो सीतोसिण वे

प्रनापृथिवीनैरयिकाणां पुच्छा, गीतम ! नो शीतवेदना वेदयन्ते तस्मा वेदना वेदयन्ते नो शीतोष्णा वेदना वेदयन्ते, एव यावद्वातुकांम हो । सीया वसि या सोश्रीसिणा । ते शीतवेदना षण्णवेदना शोवीण्णवेदना । चेरइयाण भते कि सोववेयण वेदेइ, वसिण वे० सीतोसिण वे० । नारनी ने इमगवन् शीतवेदना वेवे के षण्णवेदना वेवे शीतोष्णवेदना ववे । गीयमा शीतोष्णवेदना वेदेइ वसिणपि वे० नो सीतोसिण वे० । इगीतम गीत पिय वेवे वण वेवे नवेवे गीतोष्ण । केदे एकेको पुढवी वेयणाशी भणति रयणप्पमपुढवी चेरइयाण पुच्छा । केदे एकेको पृथिवीवे वे वेदना वडो विये विजे ष कइइए लप्रमा पृथिवीना नारकीनो प्रंज्ज । गीयमा नो सीतवेयण वेदेइ वसिण वे० नो सीतोसिण वे० । इगीतम नही शीतवेदना षण्णवेदना वने न

रीरमनोनिययना शारीरी मानसी तदुजयसमुद्भवा धेति ज्ञाव , निदानिदादिगत स्तु विश्वीपी न सगृह्णीती वैचित्रत्वात् सूत्रगते , यथोद्देश नि
 दय इतिन्यायात् प्रथमत शीतादिवदना प्रतिपादनार्थमाह-कविहाण जते । इत्यादि ॥ शीता शीतपुद्गलसमुत्था एव मुष्ठा याचावयवाज्जदेन

सायसर्वे सुहचदुरकञ्जदुरकमसुन्नच । माणसरहियविगलि दियान्ससादुविहमेव ॥ २ ॥ कडविहाणं जते !
 वेदणा पखत्ता ? गोयमा । तिविहा वेदणा पखत्ता , तजहा-सीता उसिणा सीतोसिणा । णेरडयाण जते !
 कि सीत वेदण वेदति उसिण वेदण वेदति सीतोसिण वेदण वेदति ? गोयमा ! सीतपि वेदण वेदति
 उसिणपि वेदण वेदति नो सीतोसिणं वेदण वेदति । कइं एक्केकीए पुढत्रीए वेयणाञ्ज जणति , रयणप्प

दु यमसुसाच । मानसरहिताविकलेन्दिया यजेयाद्विषामेव ॥ २ ॥ कतिविषा जदन्त । वेदना प्रज्ञसा ? गीतम । त्रिविधा वेदना प्रज्ञसा
 तद्यथा-शीता उष्णा शीतोष्णा । नेरयिका जदन्त । कि शीता वदना वेदयन्ते उष्णा वेदना वेदयन्त शीतोष्णा वेदना वदयन्ते ? गीतम ।
 शीतामपि वेदना वेदयन्ते उष्णामपि वेदना वेदयन्ते नोशीतोष्णा वेदना वेदयन्ते । कंविदाचार्यो एक्केकस्या पुरिय्या वेदना जस्यन्ते । रत्त

पणवथाए परियारण्य पय सज्जत । इति प्रज्ञापना भगवतीमाहि परिषारणापद ३४ को समाप्त थयो ॥ ३४ ॥ ३
 िद्वे गतिपरिणामे वेदना परिणाम प्रकासियेतिहा ए आदि स्वयणतो गाथा कइंछे-सोयावदञ्जसरो रयायतइवेयणाभवइदुक्खा । अभुयगमोव
 कमिया निहा २ यनायत्वा ॥ १ ॥ शीतवेदना उष्णवदना शीतोष्णवेदना ए अधिकार पक्के अथपगमिको उपत्तमोवेदना पक्के निदा अनिदा जाणवी ।
 सायमसायमत्त्वे सुहचदुरकञ्जदुरकमसुन्नच । मणरहियविगलि टयाओ सेसासर्वेदुविहमेव ॥ २ ॥ सर्वसंसारो साता असता वेवे साता असतावेद
 नो सुख दुख अतिदुख सुख चदुख यसख विक्खेदिय च ग्रह्या असनाओ पचेदिय मनरहित वदना वेवे याक्तावीव वेपकारनो वेदना शरीर मन
 ए दाययी जपनी वदना वेवे । कविहाण भते वेषणा प० । केत्तेपकारे हेमगवन् वेदना कही । गोयमा तिविहा वेयथा प० । हेगीतम तीनभदे क

। टीका ॥

। ७०६ ॥

। ३४ ॥

। भाषा २

दीना भीशानाताना सर्वेषा कायपरिचारकत्वात् । तेषा सर्वसव्यया प्रतरासख्येयज्ञागर्तितज्ञ प्रदेशरविप्रमाखत्यादिति ॥ इति श्री मलयगि
 रिविरचिताया० परिचारणाख्य चतुस्त्रिंशत्तम पद समाप्त ॥ ३७ ॥
 तदेवमुक्त चतुस्त्रिंशत्तम पदं सम्यत् पञ्चत्रिंशत्तममारभ्यत-श्रव्यधायमाप्रसवध इडानन्तरपदे वेदपरिणामविशेष प्रवीचार प्रतिपादितो ऋतु
 गतिपरिणामविशेषो वेदा प्रतिपाद्यते तत्रादौ सकलवक्तव्यतासग्रहपर इमे द्वे गाथे-सोयायदवैत्यादि ॥ वेदना प्रथमतः शीता च शब्दा दु
 स्त्रा शीतोष्णा च वक्तव्या, तदनन्तरं मास्युपगमिकी श्रीपक्रमिकी च वेदना वक्तव्यतया च ज्ञातव्या, ततोऽप्यनन्तरं निदा च अनिदाचेति ज्ञात
 सुखादीना विशेष मास्युपगमिक्यादिशब्दात्ता मयत्स्ये वक्ष्याम, सातादियेदना आचरुत्य यो विशेषो वक्ष्यते तदसग्राहिका द्वितीया गाथा-सा
 यमसायमित्यादि ॥ सर्वे सवार्णव सातामसाता च शब्दा स्वातासाता च वेदना वेदयते, तथा सुरा दुर्ग ऋतु करासुरा च, तथा विकरोन्दि
 या एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियास्तु ज्ञाप्याधिकारायेंससूचना दर्शाद्यपञ्चैन्द्रियाय मानसरङ्गिता मनोवक्त्रता यदना वेदयते शोपास्तु द्विविधामेव ज्ञा

खिज्ज० कायपरिचारगा अस्वे० ॥ इति पन्तवणाए नगवतीए परियारणापदं चोत्तीसमं ॥ ३४ ॥
 सीयायद्वसारी रसीयतहवेदणाहवतिदुस्का । अणुत्रगमोवक्त्रमिया निदानिदायनायद्या ॥ १ ॥ सायम

रामचन्द्र गणि शिष्य नानकचन्द्र विरचिते प्रज्ञापनानुवादे परिचारणापदं चतुस्त्रिंशत्तम समाप्तम् ॥ ३४ ॥
 शीताषट्त्रय्यशारीर मानसी च तथा वेदना प्रवतिदुस्का । आस्युपगमिकीयक्रमिकी निदानिदाचघातव्या ॥ १ ॥ सातमसातसर्वे सुराचदु क्लाम

परिचारगा अस्वे० कायपरिचारगा अस्वे० कायपरिचारगा अस्वे० । मनपरिचारकने सख्यातगुणा अनन्तादिक ४ प्रपेद्याये तेऽ
 शौ प्रत्यविषयना सवपहार असख्यातगुणा मद्यागुण सदस्त्रार प्रपेद्याये तेऽशौ रूपनाविषय देवता प्रमख्याता प्रष्ट तात्त्व प्रपेद्याये तेऽशौ स्वर्गना
 सवपहार असख्यातगुणा सततकुमार साहेन्द्रनो प्रपेद्याये सायनाविषयनो सवपहार प्रस० शोधमं इगान भवनपति व्यस्तर ज्योतिषो प्रपेद्याये ।

न स्तेषु सर्वस्यप्या श्रेष्ठपत्न्योपमासख्येयज्ञागवर्तिनः प्रदेशाराशिप्रमाणा इति तेभ्योपि मन परिचारकादेवाः सख्येयगुणा स्तोपमानतादिकल्प
 वतुष्टयवर्तित्वात् तद्वर्तिना च पूर्वदेवापेक्षया सख्येयगुणैश्चपत्न्योपमासख्येयज्ञागवर्तिनापिमाकृत्वात्, तस्य शब्दपरिचारकाश्च
 सरययगुणाः स्ति महान्नुत्तरस्वारकल्पवर्तिना स्तो न चनीकृतस्य लाकस्य एकप्रदेशिकाश्च श्रेष्ठे रसख्येयतमे ज्ञाने यावत् आकाशप्रदेशा स्ता
 यदप्रमाणा स्तोभ्योपि रूपपरिचारका देवा असख्येयगुणा स्तोऽहं ब्रह्मलोकलातकल्पनिवांसिनः स्तश्च पूर्वदेवानधिकृत्या सख्येयगुणश्रेण्यासख्येय
 ज्ञागवर्तिनश्च प्रदेशाराशिप्रमाणा स्तोभ्योपि स्पञ्जपरिचारका देवा असख्येयगुणा स्तोपा सनत्कुमारमार्हेन्द्रकल्पवर्तित्वात्, तद्वर्तिना च ब्रह्मलोक
 लातकदेवानपेक्षया सख्येयगुणश्रेण्या सख्येयज्ञागवर्त्याकाशप्रदेशपरिमाकृतयार्थोत्त्वात्, तेन्य कायपरिचारका देवा असख्येयगुणा जवनपत्या

यारगाण्युपरियारगाण्य कयरे कयरेहितो व्युष्पावाऽ गीयमा ! सख्योत्रा देवाः सुपरियारगा मणपरि
 यारगा सखिज्जगुणा सदपरियारगा व्युसखिज्जगुणा रुद्रपरियारगा व्युसखिज्जगुणा फरिसपरियारगा व्युस

परिचारकाणा च कतरे कतरेभ्यो ऽप्यावाऽ ? गीतम् । सर्वस्तीना देवा अपरिचारका , मन परिचारका सख्येयगुणा , शब्दपरिचारका
 असख्येयगुणा , रूपपरिचारका असख्येयगुणा , स्पञ्जपरिचारका असख्येयगुणा , कायपरिचारका असख्येयगुणा ॥ इति श्री मनुपाध्याय

शारङ्गोष्ठी देवाङ्गना अनेरा ७० अत्यन्त सुठामनो वन्ध परत्परे मननो अथ स मनसकल्प करणरूप विकुर्वी मन विस्तारं । तएव देवा ताहि अ
 र्कराहि सखि मणपरियारण करेत्तए सखे निरवसेत् तच्चेव जाव भुख्यो २ परिचयः । तिवार ते देवताये एतले ते अस्तरासाथे मननोविधय सेवा
 करता विचरे वीजाधाकता पाह्लोपरे बारवार सुखे परिचमे । एणसिच भते देवाण्य कायपरियारण जाव अपरियारगाण्य कयरे २ हितो म
 प्यावा ४ । दिवे अथ बहुल खड्के, एङ्गने हेभगवत देवताने कायपरिचारकने जानगी मनपरिचारकने माहीमाहि कहा २ धी खोडाहुवे । गीयमा
 सख्योया देवा यपरियारगा । हेगीतस सर्वयोथाहा देवता विपविना अपरिचारक येवेयक यनुत्तर अपेक्षायै तेहयो । मणपरियारगा सखे ७ सह

॥ टीका ॥

॥ मूल ॥

॥ प. ॥

॥ पाप ॥

ति, जासि पुण पणयालीस पलिउविरि समयाहिया ठिई जाव पणपत्रपलिया ताउ श्चुयदेवाणं तत्यदिगउधेव फाणावलवणे हुति इति ॥ त
 मयमित्यादि ॥ ततो यमिति पूर्ववत्, ते देवा तानि रसरोजि साहं मन परिचारणसुरतानुवधिपरस्परसव्यासज्यमन सकएकरणरूप कुर्व
 ति ॥ सेसमित्यादि ॥ सोप ॥ से जहानामए सीया पोगला इत्यादि ॥ निरवशेष ताव इत्तथ्य यावत् जुजो २ परिणमतीति सर्वोन्तिस वाक्य,
 व्याख्याघास्य प्राग्बत् तत ऊर्द्धतु ग्रवेयकदेवा मनसापि योपितो न प्राथयते मतनुवेदोदयत्वात् यथोत्तरवातेऽनन्तगुणसुस्रजान स्तथाहि-काय
 प्रधीचारेऽप्योऽनन्तगुणसुखा-स्पर्शपरिचारका स्तोत्र्योऽनन्तगुणसुखा रूपपरिचारका स्तोत्र्यो व्यनन्तगुणसुखा मन परिचारका स्तोत्र्योपि अपरि
 चारता, चास्त्रतमतेपामेव परस्परमहपवहुत्वमन्निधिस्सुराह-एयसिणमित्यादि ॥ सर्वस्तोका देवा अपरिचारका स्तेरि ग्रैवेयकानुत्तरोपपाति

ज्ञावयाइं मयाइ पहारेमाणीउ २ चिठति तएण ते देवा ताहि च्छ्चुराहि सट्टि मणपरियारणं करंति
 सेस निरवसेस जाव जुजो जुजो परिणमति । एणसिण भते ! देवाणं कायपरियारगाण जाव मणपरि

सति विप्रमेव ता अप्सरस सत्रगता श्वेव सत्यो नुत्तराण्णुद्वावचानि मतासि प्रधारयत्य स्तिष्ठन्ति तदानी ते देवा स्तान्निरसरोजि सा
 हं मनपरिचार कुर्वन्ति शेष निरवशेष यावद्भूयोभूय परिणमन्ते । एतेषा प्रदत्त । देवाना कायपरिचारकाणा याजन्तन परिचारकाणा अ

स्कृष्ट मनाहर मोठास्वर उद्देशरीयको विस्तारयको रहेछे । तएण देवताहि अस्कराहि सति सएपरियारण करेइ सेस तचेय जाव भुज्जो २ परिण
 मर । तिवरि ते देवता अप्सराना शब्देनेविषय करवा श्रेयथाकतो मवं पाकूतोपरि जानगे वारवार सुखे पारिणमै । तएण जेसे मणपरियारगा देवा
 तसि इच्छेामणे समुपपत्ताति । तिइ जे मननाविषय सेवनहार देवता तेहनविषे इच्छा मनमाडि जणजे । इच्छामेण अस्कराहि सति मणपरियार
 ण करेत्तण । जेइने आमरासाथे मननीविषय सेवाकरिये । तएण तेहि देवहि एव मणको लएसमाणे खिण्णमेव ताओ । तिवारे तेदेवताये एइओ मन
 नाहि चित्तस्थीयके गीउ उतावला । अस्कराओ तत्वमयाओ केन समानीओ अणुत्तराहं, उवाववाइ मयाइ, अहारेनाओओ २ चिट्ठति । अप्सरा ति

इतिवदता दैव्य स्रष्टार भाव द्रुच्छति न परत इत्याद्येदित द्रुष्ट्य , तथावाह संग्रहणमूलतीकाकारो हरिनद्रसूत्रि -सन्तकुमारदिदेवाना रताजिलाये सति दैव्य खरयपरिरुहीता स्रष्टार भाव द्रुच्छतीति , तथा सग्व प्रदेशातरे आह-इह सोहम्मे कप्ये जासि देवीण पालउव माउ गताउ तद्दवाणयेव ह्यति जासि पुण पलिउवमाइसमयाहिया णिइ दुसमयतिसमयसरज्जाअसयेज्जसमयाहिया जाव दसपलिया सो ह्मणवेधीउ ताउ सणकुमाराण गच्छति , एवं दसपलिउवरि जासि समयाहिया णिइ जाव वीसपलिया ताउ वृजलोगगयाण गच्छन्ति ; एवं वीसपलिउवरि जासि समयाहिया णिइ जाव तीसपलिया ताउ मह्मसुकुदयाण गच्छन्ति , एवं तीस पलिउवरि जासि समयाहिया णिइ जाव चत्तलीस पलिया ताउ आणयदेवाण तत्पठियायेव काणालवण हुति , एवं चत्तलीस पलिउवरि जासि समयाहिया णिइ जाव ताउ आरणदेवाण , तत्पठियायेव काणालवण हुति , तथा ईसाण जासि देवीण पलिउउममहियमाउय ताउ तद्देवाणचव ह्वति , जासि पुण अहियपलिउवमाइसमयाहिया णिइ दुसमयतिसमयसरज्जाअसयेज्जसमयाहिया जाव पकरसपलिया ताउ माह्हदेवाण गच्छति , एवं पण रसपलिउवरिसमयाहिया णिइ जाव पणवीसपलिया ताउ लतगदेवाण , जासि पुण पणवीसपलिउवरि समयाहिया णिइ जाव पचतीस पलिया ताउ स्रष्टारदेवाण , जासि पुण पचतीसपलिउवरि समयाहिया णिइ जाव पणयालीस ताउ पाणयदेवाण , तत्पठियाउयेव भाणालवणे हु

नादेवता तेहने इच्छा मनमाहि जपजे वाकैले । इच्छामिण अरुकराहिं सदि सइपरियारण करेत्तय । जेहने अरुसास्ये शब्दवियगनी सेवाकरी । तरण तेहि देवीहि एव मणसो कयममाके तद्देव जाव अरुसबइवियाइ क्वाः विरुच्छति २ सा । तिवारे ते देवता एहवां मनमाहि चिन्तवेथके तिमहोळ अरुसा अरुसवेत्तियरुप विक्रवे विकुर्णे । जेणामव ते देवा तेषामेव अवागच्छति २ सा । जिहा ये शब्दवियगनादेवता तिहापावे तिहा थाधीने । तेसिण देवाण अदूरसामते ठिया । ते देवताने समीपवर्ती आन कर्होने । अणुसराइ अथावयाइ सराइ समुदरेमाथीयो २ विठ्ठति । च

द्यास्या प्राग्वत् नवर मस्मिन् स्पशंशुकुपुल्लकमो दिव्यप्रभावा दृश्येय , एवं रूपपरिचारादावपि प्रावनीय , तदेव मुक्ता स्पशंपरिचा
 रका. सस्मति रूपपरिचाराया विनावयिषु राह-तत्यखमित्यादि ॥ सुगम याव ताव द्विकुर्वत्वा ॥ जेषामेवति ॥ यत्रैव देवलोके विमाने
 प्रदंडो च ते देवा सन्ति तत्रैव स्थाने ता अप्सरस उपागच्छन्ति उपागस्य ॥ तपा देवाना मदूरसमीपे इति अदूरसमीपे स्थित्याः तानि पूर्व
 विकुर्वन्तानि सदाराणि याव दुत्तरवैक्रियाणि रूपाणि उपदत्तयत्य स्तिष्ठन्ति तत स्तो देवा स्तात्रि रप्सरोत्रि साद्रे रूपपरिचाराया यस्य
 र सविलासदृष्टियिज्ञेया स्मत्यङ्गनिरीक्षणनिजानुरागप्रदर्शनपट्टिचंष्टाप्रकटनादिरूपा कुवन्ति ॥ सेस तवेवति ॥ शोप ॥ स जहानामए
 इत्यादि ॥ तदेव यावत् ॥ जुज्जी २ परिणमतीति ॥ वाक्य' तदेव प्राविता रूपपरिचाराया सप्रति शोपपरिचाराया जावयितुकाम आह-तत्यख
 मित्यादि ॥ कव्यम् नवर मदूरसमीपे स्थित्वा अनुत्तरान् संगमन मल्लादजनकतया अनन्यसदृशान् उच्चावचान् प्रयत्नर तरमन्मयाद्दीपकसज्यास
 व्यरूपान् शदान् नपुसकनिर्देश प्राकृतत्वा रसमुदीरयत्य स्तिष्ठति, शोप तथैव ॥ एव तत्यखमित्यादि ॥ मनःपरिचाराकसूत्रमपि तथैव याव
 त्मन परिचारे मनसि कृते सति क्षिप्रमथ ता अप्सरस स्ताग्रस्थिता म्थ सीधर्मज्ञानदेयलोकातंगतस्य २ विमानस्थितामथ सत्योनुत्तराणि परम
 सतीपजनकतया अनन्यसदृशानि उच्चावचानि कामानुपकृतस्यासन्नरूपाणि मनासि प्रचारयत्य स्तिष्ठन्ति, इह ॥ तत्यगयाचेन समाणीडे ॥

मच्छर २ सा । जिहा ते देवताखे तिहा देवी आवे चावीने । तेसि देवाण अदूरसामते ठिवा । ते देवतानि अतिसमीप नशी अतिदूर नशी इम रशी
 ने । ताः उरालाह जाव मणोरमार, उत्तरवैश्वियाह कवाह उवदसेमाणीषा २ चिश्ति । तेहवा उटार जालगी मणोहर उत्तरवैश्विक्यरूप ते देवा
 इतीजको वैमोरह । तएण तेदेवा ताहि अच्छराहि सद्धि कवपरिगारण करेह सेस तवेव जाव भुक्की २ परिणनर । तिगारे ते देवता अपारासात्रै रूप
 नौ सेवाकरेणै पाकनोपरे जालगी बारवार सुखे परिणमै । तत्यण जेते सदपरिचारागा देवा तेचिण् इत्कामाचे सुमुपपन्न । तिहा जे मय्दने विप्रय

भते । तासि अचरारण कीसताए म्रुज्जो २ परिणमन्ति ? गोयमा । सोइदियताए इइसताए कवताए म्रुज्जो २ परिणन्ति ॥ अस्यापि पावनिका

इच्छामणे समुपज्जइ इच्छामोण अचरारहि सद्धि सद्धपरियारण करित्तए तएणं तेहि देवेहि मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउच्चियाइ रुवाइ विउच्चति विउच्चिता जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छति उवागच्छिता तेसि देवाण अदूरसामते ठिच्चा उच्चावयाड सद्दाइ समुदीरिमाणीउर चिठ्ठति, तएणं ते देवा ताहि अचरारहि सद्धि सद्धपरियार करति संस तचेव जाव म्रुज्जो परिणमति, तएण जेते मणपरियारगा देवा तेसि इच्छामणे समुपज्जइ इच्छामोण अचरारहि सद्धि मणपरियारण करित्तए तएण तेहि देवेहि एव मणसी कए समाणे सिप्यामेव ताउ अचरारउ तत्यगयाउ चेत्र समाणीउ अणुत्तराइ उ

ति तपेव यावदुत्तरवेक्किपाणि रूपाणि विकुर्वन्ति विकुल्य यीव त देवा सत्तेवो पागच्छन्ति, उपगत्य तेषा देवाना मद्दरसामन्ते स्थित्थोघा वपानि शब्दानि समुदीरयत्यस्तिष्ठन्ति, तदानी ते देवा सान्निस्सरोत्ति सादं शब्दपरिधारण कुर्वन्ति शोप तच्चैत्र यायद्दुयो म्रुय परिण मत् । तत्र ये मन परिधारका देवा सतेपा मिच्छामन समुत्पद्यते-इच्छामो उपसरात्ति सादं मन परिधारण कर्तुं तदा ते देवेरेव मनसि कृते सावत्थपणे तेइने शारवार परिणमे । तएण जेसे फासपरियारगादेवा तेसिण इच्छामणे समुपज्जइ एव जहेव कावपरियारगा तहेव निरवसेसा भा षियवत्था । तिहा फरसना प्रधारक देवता ते इच्छा मनमाहि कपले इम जिमहीन कावसेवा तिमहीज परिवारानावशेषेपणे कइवो । तएण जेसे कवपरियारगा देवा तेसिण इच्छामणे समुपज्जइ इच्छामोण अचरारहि सद्धि कवपरियारण करित्तए । तिहा जे रूपनी सेवना करणहार देवता ते इने इच्छा मनमाहि कपलेजे वाक्ये अस्सरासायै रूपनी परिधारना सेवाकरिये । तेष तहि एव मणसीकणसमाणे तहेव जाव उत्तरवेउच्चियाइ रु वाइ विउच्चति २ ता । ते देवताए एइवो मनमाहि चिन्तव्येके तिमहीज जालगे उत्तरवेक्किव रूपने विकुर्वन्ति । जेणामेव तदेवा तेणामेव सवा

टीका ॥

पृष्ठ ६

५० ॥

५५५ ॥

त सुखं नृपजायते अर्होऽर्थि दैन्ययेति सशयानो देवानां शुक्रपुद्गलास्तस्य पुच्छति-अत्यणमित्यादि ॥ अस्तीति निपातोत्र वदुर्ध्वं एमिति पूर्वम्
 त्, प्रदन्त । तथा देवानां शुक्रपुद्गला यत्सम्पन्नो देवीनां सुखं नृपजायते, जगवानाह-रतात्रत्य ॥ गीतम् । सन्ति कवल वैश्वियज्ञरीरान्तर्ग
 ता इति, नगवृन्धानहेतव ॥ तेषां जते । इत्यादि ॥ शुक्रपुद्गला एमिति पूर्ववत्, प्रदन्त । तासां मष्परसां कीदृक्स्वरूपतया ज्ञूयो २ यदा च
 रति तदा २ इत्यथ ॥ परिणमति ॥ जगवानाह-गीयमेत्यादि ॥ श्रीब्रह्मिन्द्रिययावत् स्पृशनेन्द्रियतया तेषि कदाचि दानष्टतया परिणमन्त सम्भा
 व्यत तत आह-इष्टत सीजाग्याय सीजाग्यहेतवे रूपयौवनलावण्यरूपा गुणा यस्य तदसीजाग्यत्पयौवनलावण्यगुण तद्भाव सप्ता तथा, तत्र क
 पसीन्दैवती आकृति यौवन परम स्तनरणिमा लावण्य मतिज्ञायी मनोजवधिकाररत्नं परणतिविशयो यत सीजाग्यहेतुरूपादिगुणनिवधत
 या परिणमति तत सुनगतया परिणमन्तीत्युच्यते, एव ते शुक्रपुद्गला स्तासां मष्परसां ज्ञूयो २ परिणमति तदव कायपरिचार उक्त सम्प्रति

स्पर्शपरिचार विजावयिषु राह-तत्यणमित्यादि ॥ तत्र तेषु परिचारकादिषु मध्ये एमिति पूर्ववत्, येते स्पर्शपरिचारका देवा स्तेषा एमिति
 पूर्ववत्, एव मिच्छामन स्पर्शपरिचारविषयेष्वा प्रधान मनं समुत्पद्यत ॥ मव जरेवेत्यादि ॥ एवमुक्तेन प्रकारेण यथैवानन्तर प्राक् कायपरि
 चारका उक्ता सार्थैव स्पर्शपरिचारकैवपि निरवशीय प्रणितस्य तच्चैव-इच्छामोण यच्छरणाह सदि फासपरियार करेतत् तस्य तेषि देवैरि मव
 मणसो कए समाधौ सिध्दामेव तेषां अच्छरात् तरानाह जाव विवर्धिता तसि दवाण गतिय पातद्भवति तस्य तेदेवा अच्छरादि सिदि फास
 परियार करति ॥ स्पर्शपरिचारण वटनचुवनस्तमदंनवाहूपग्रहप्रथनोरुपप्रभृतिगात्रस्पर्शरूप ॥ से जहानाए सीयापुगला सीय पप्य सीय
 वेव अहमइहाण चिठति वसिणावा पोगला वसिणपप्य वसिणचव अइवइहाण चिठन्ति एवमव तेषि देवैरि तांश्च अच्छराहं फासपरियार
 णे कए समाधे इच्छामोण सिध्दामेव अवेह ॥ अस्य सपतानिका दयास्यां प्राग्बत् ॥ आत्यण जते । तेषि देवाणं सुकृपोगला हता अत्यि, तेषा

त्, तथाचामुमेवार्थे दृष्टान्तेन दृढयति-से अहानामस त्यादि ॥ से इति ॥ अथ शब्दार्थं, सचात्र वाक्योपन्यासे यथानाम ते विवक्षिता शीता पुद्गला शीत शीतयोनिकं प्राणिन प्राप्य शीतमेव शीतत्वमेवातिव्रज्या तिशपन गत्वा तिष्ठन्ति, किमुक्तं त्रवति विशेषत शीतीन्नतस्य शीतयो निकस्य प्राणिन सृष्टित्वायोपकल्पन्ते, उज्ज्वाहा पुद्गला उज्ज्वाहोपकल्पन्ते, उज्ज्वाहा पुद्गला उज्ज्वाहोपकल्पन्ते गत्वा तिष्ठन्ति विज्ञा पत स्वप्नपलाप्रसपत्या तस्य सृष्टित्वायोपकल्पन्ति इति प्राव, एव अननैव प्रकारेण ते देवा स्ताञ्जि रप्वरानि स द्व यथोक्तरूपे कायपरिवा रणे कते सति इच्छामन कामविषये प्रधान मा श्लिप्रमवा तितृप्तिप्रावात् शीतीन्नवति, इयमत्र प्रावना-यथा शीतपुद्गला शीतयोनिकस्य प्रा णिन सस्पशे शीतत्व विशेषत आसादयत सास्य सुप्तत्वायोपकल्पन्ते, उज्ज्वाहा वा उज्ज्वाहोपकल्पन्ते प्राणिन सस्पशे उज्ज्वाहोपकल्पन्ति प्रज्ञत मा सादयन्त मुखाय घटते तथा देवीशरीरपुद्गला अपि देवीशरीरमवाप्य परस्पर तदुण्णता प्रजमाना परस्पर सुखित्वायोपकल्पन्ते

तत स्तृप्तिरुपजायते, तृप्तिप्रावाद्या जिलापनिवृत्ति प्रवर्तति, या इष्टमपि किञ्चि तस्वरूपतो ऽकात त्रवति यथा चूर्करादीना मिष्टमपि विष्टा दि तत आह-काल्तया कमनीयतया काल्तमपि किञ्चि न्नन स्पृहणीय न त्रवति तत आह-मनाद्यतया तिरस्पृशीयतया तदप्यतिस्पृहणीयत्व क दाचि दापातकालमात्राणि सन्भाव्यते, तत आह-मनश्चापतया मनश्चाप्रवृत्ति मनसि सटारमत इति आप स्तद्गाय स्तत्ता तथा मनसा सदा स्पृहणीयतयतिजाय, कस्मादितिचे दत ग्राह-मुजगतया आह-उजगतया निमित्तकारणहेतु सर्वासा विन्नक्तीना प्रायोदशन मितिन्यायात् अत्र हेतो तृतीया ततोऽनयर्थे-यत सुजगतया सर्वानमितयथा परिणमति तत उच्यते इष्टतया काततयत्यादि, सुजगतया परिणमनमपि कथमि ति चे दत आह-सोहृगुरुजोष्ठशुण्णलायकत्ताएइति ॥ अत्र प्राकृततया गुणशब्दस्य लावण्यशब्दान् पूर्व निपात परमार्थतस्तु परतो द्रष्टव्य ततो यमर्थे-इह मन्युस्त्रीणा मन्युपुरुषोपयोगेषु शुक्रपुद्गलसकमत सुखमुपजायमान लब्ध तस्कि देवानामप्युपयोग्यदवसत्कशुकपुतलसकम

-मनीहराणि स्वस्वोपनोग्यस्य देवस्य मनोहरति आत्मज्ञ नयतीति मनोहराणि लोनादित्या दत्त स्वमनोरत्न प्रथमसमयापातनात्राब्धिपि
 प्रवति तत आह-मनोरमाणि मन स्वस्वोपनोग्यदेवसम्बन्धि रमयन्ति क्रीडयन्ति प्रतिक्षणमुत्तरोत्तरानुरागसपृच्छ जनयन्तीति मनोरमाणि तानि
 इत्यज्ञतानि उत्तरवे क्रियाणि रूपाणि विदुर्वैत्वा तेषा देवता मत्तिक समीप प्रादुर्भवन्ति ॥ तथामित्यादि ॥ ततो शुभिति पूर्ववत्, ते देवा
 स्तानि रश्मरोनि साइ कायपरिचारण मनुष्यैश्च मनुष्यैश्चि सर्वाङ्गीणकायकपूर्वक भैशुनोपसेवन कुर्वन्ति एवमेव तेषा वेदोपज्ञानिज्ञावा

यारण करेत्तए तएण तेहि देवाहे एवं मगसी कए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउहियाइं रूवाइं विउव्वति
 विउव्वतिहा जेगामेव ते देवा तेगामेव उवागच्छतिर हा तेसि देवाणं अदूरसामते ठिच्चा ताड उरालाइं
 जाव मणोरमाइ उत्तरवेउहियाइं रूवाइं उव्वत्तमाणीर उव्वचिठति, तएण ते देवा ताहिं अच्चराहिं सद्धिं
 रूव्वपरियारण करति सेस तचेव जाव नुज्जी नुज्जी परिणमति । तत्यण जेते सद्धपरियारणा देवा तेसिं

विदुर्गन्ति, विदुर्मं यत्रैव ते देवा स्तत्रैवोपागच्छन्ति, उपागत्य तथा देवानामन्तिके स्थित्वा तान्युदारणि यावन्मनोरमाणि उत्तर वेक्रिया
 णि रूपाणि उपदर्शयन्त्य स्तिष्ठन्ति तदानीं ते देवा स्ताजिरश्मरोनि. सादं रूपपरिचारण कुर्वन्ति शेष तद्यैव यावद्भूयोन्नय परिणमन्ते ।
 तत्र ये शब्दपरिचारका देवा स्तेषा इच्छामन् समुत्पद्यते-इच्छामो उत्तरनोजि. सन शब्दपरिचारण कर्तुः, तदा तैर्देवैरय मनसि कृते च

इत्युपागता । ये हेमगवन् देवताने शक्तपुत्रन दिव्यने प्रभावे जागवो । इता गोंयमा अत्रि तेष भते ताहि अच्चराहि कीसत्ताए भळो २ परिणमद ।
 हागौतम विकुर्वणा करै ते अशरा देखी तैसोविध अर्थपणे किम वार २ परिणमे । गोंयमा सोतेद्विउत्ताए वल्लिदियत्ताए वायेदि० रसेनादि० फासे०
 इहत्ताए कतत्ताण मणुत्ताण मणामत्ताए समगत्ताए गोंडगुरूज्जोव्यणगुणबावत्ताए ताहि भुळी २ परिणमति । हेगौतम योत्रेन्द्रियपणे वल्लेन्द्र
 यपणे प्राणेन्द्रियपणे रचेन्द्रियपणे अर्थेन्द्रियपणे इष्टवक्त्रमपणे कान्तप्रियपणे संतोषपणे सन्नमाहि गमतापणे युभगपणे सौभाग्यपणे रूपयौवनपणे गुण

मित्यादि ॥ तत स्त देवैरेव मुक्तैः प्रकारेण कावपरिचारे मनसि कृते सति द्विप्रमेव शीघ्रमेव ता अप्सरसु स्वस्योपनीगणोपदेयानिप्राप्तयामयेत्य
परिवाराभिलाषुकतया उत्तरवेत्क्रियाणि रूपाणि विभुयन्तीति सत्यम् । कथञ्चनानीत्यत आह-उदारानि स्फारानि नतु हीनावययानि तानि अपि
शृङ्गारानि शृङ्गारो विभूयणादिभि मरुत स विद्यते येषा तानि शृङ्गारानि अत्रादित्य इत्यादि अत्रत्यम् । धिन्नूयणादिक्रुतीदारशृङ्गारानीत्य
य । तानिच कदाचि द्रुस्यचि दमनोच्चा न प्रवेयु अत आह-मनोच्चानि स्वस्वापनीग्येवमनीविषयत्रावपेसलानि तानि संश्रुतो सनाध्यन्ते तस

मा । सोइदियत्ताए चरिदिद्यत्ताए चाणिदियत्ताए रसिदियत्ताए इठत्ताए कतत्ताए मणुय
त्ताए मगामत्ताए सुन्नगत्ताए सोन्नगरुत्रजोद्विगगुगलायसत्ताए ते तसि शुजो नुजो परिणमति । तत्यणं
जेते फासपरियारगा देवा तेसिण इच्छामणे समुप्यज्जइ एव जहेत्र परिवारगा तहेत्र निरवनेस जाणिय
इ तत्यण जेते रूवपरियारगा देवा तेसिण इच्छामेण समुप्यज्जइ-इच्छामेण इच्छाराहि सद्धि रूवपरि

तया कासतया मनोघतया मनापतया कुन्नगतया सोजाग्यरूपयीवनगुणलावण्यतया ते तासा ज्योत्नूय परिणमन्ते । तत्र ये ते स्फजोपरि
चारका देवा स्तोपा इच्छामन समुत्पद्यते एव यथैव परिवारका स्तथैव निरवजोप प्रणिगत्यम् । तत्र ये रूवपरिचारका देवा स्तोपामिच्छा
मन समुत्पद्यते-इच्छामो उत्सरोजिः सगुं रूवपरिपारण कर्तुं, तदानी तद्वै रंय मनसि कृते सति तथैव याद्यदुत्तर यैक्रियाणि रूपाणि
यका । कायसेवा करतायका मन शीतकथाय । सेकहाणामए सोया पीगला सोय पय सोयसेव अइव २ ता पिशुति । तेजिम हट्टाले शीतयोनि
याने शीतपाशोने पीतानी चाकपणी शीतभावपथी रहे । समिणवा पायला समिण पय समिणसेव पइवःसाय चिभुति । जिन पणयोनिवा ॥
एप्रतिपामै पीतानीपाका लणपते पांभीने रहे । एवामन तेहि ताहिं पच्छराहि सति कावपरियारणे कणनमाणे चरच्छामसे पिण्यामेव अवेइ ।
इम एइवे देवताये ते यस्सरासाये कावपरिपार कोपेथक्के ते इच्छा मामादि एतावथो निवत्ते पासा सतापपाथे । यद्विण भते तेसि देवाण सु

सापि यथा ते तथा तथा प्रतनुनोहोदयतथाप्रशमसुधांतर्हीनत्वात्, यद्येव कथं न ते प्रहृष्टचारिण उच्यन्ते-चारित्रपरिशामान्नावात् ॥ सेतेणठेण
मित्यादि ॥ निगमनवाक्यं तत्र ये कायपरिचारका देया स्तेषां कायपरिचर विजावयिषु रिदमाह-तस्यशान्त्यादि ॥ तत्र तपु कायपरिचारका
दिपु देवयु मध्ये ये ते पूषमुक्त्वा कायपरिचारका प्रवनपतिव्यन्तरव्योतिकसौधर्मशानदेया स्तेषां शान्तिवाक्यात्तजारे इच्छामन कायपरिचार
च्छा प्रधान मनः समुत्पद्यते, केनाह्येयन समुत्पद्यते? इच्छामो ऽजलपाभो कर्मिणः साह्यै कायचार कर्तुमिति ॥ तएण

अच्छराहि सद्धि कायपरिचारण करति, करतिज्ञा से जहानामए सीता पोगला सीत पप्य सीतचेत्र
अडवडज्ञाण चिठति उसिणा वा पोगला उसिणचेत्र अडवडज्ञाण चिठति एवमेव तेहि देवेहि ताहि
अच्छराहि सद्धि कायपरिचारणे कए समणे इच्छामणे सिष्यामेवावेति । अल्पिण जते ! तेसि देवाणं
सुक्ष्मपुगला ? हता अल्पि । तंगं जते ! तासि अचकराण कीमत्ताए ज्ञुज्जो परिणमति ? गीय

म जीता पुद्गला शीत प्राप्य शीत वैवातिव्रत्य तिष्ठन्ति, उष्ण वा पुद्गला उष्ण प्राप्योष्ण वैवातिव्रत्य तिष्ठन्ति गवमेव तेदेवे स्तान्निरप्स
रोसि सम कायपरिचारणे ज्ञे सति इच्छामन सिप्रमवापैति । सति प्रदत्त । तेषां देवानां अक्रुपुद्गला ? इत्त सन्ति । ते नदत्त । ता
सांमन्वरसा कीदृक्तया प्रयोञ्ज्य परिणमन्ते ? गीतम । श्रोत्रेन्द्रियतया वास्यन्द्रियतया श्रोत्रेन्द्रियतया रसेन्द्रियतया स्पर्शेन्द्रियतया इए

धि देवसि मयसो कएसमाणे सिष्यामेव ताओ अचकाराओ चरानाः सिगाराइ मणुणाः मनोहराइ मणोरमाइ उतरवेवच्चिय इ उधार त्रिकवति
ना । तिवारे देवता एहवो मनमोमते करेयके शोभते देवोए अस्परयिं तेठना नननीभाव जालीने उठार सपूर्णप्रथयत्र अङ्गार भूणादि मणुंति
मनोज्ञमनने गमनरूप मनोहर जे देखाने मनसखीपभाष्ययणे रमि एहवा उतरवेकिय रूपप्रते विकुंति । तेसिग देवाणे अतिथं पाठयवति । तेठ देव
ता सनीपे मननीसमीप पासै मकटथाय भावे । तएण ते देवतासि अचकाराहि सति कायपरिचारणे करेर । तिवारे ते देवता अस्परसाथे रमता

धारकाः ज्ञानेन शब्दमात्रशब्देन परिचारी येषां ते तथा तेषां इच्छाविषयीकृतदेवीसदृशोत्सवितसितसविकारजापितनूपुरादिच्छनिश्रवणमात्रत एव
 कायप्रवीचारा दनन्तगुण सुख मुपनुजते तावन्मात्रैरेव च तथा वेद उपशांतिमिति । आनतप्राणतारणाच्युतेषु कल्पेषु देवाः मन परिधारका मन
 सा मनोभवविकारीपटञ्जितपरस्पररोच्चावचमन सकल्पेन परिचारी मेषुनोपसंभवन येषां ते तथा तेषां परिस्पररोच्चावचमन सकल्पमात्रगुणैव कायप्रवी
 चारा दनन्तगुण सुखमाप्नुवति तृप्ताश्च तावन्मात्रैरेवोपजायन्ते गुणैकानुत्तरोपपातदेवा अपरिधारका न विद्यन्ते परिचारी मेषुनोपसंभवन मन

देवा अपरिधारगा से तेणठेण ? गोयमा ! तत्रैव जाव मणपरिधारगा । तत्पण जेतै कायपरिधारगा
 देवा तेसिण इच्छामणे समुप्यज्जइ इच्छामोण अच्चारहि सद्धि कायपरिधार करेत्तए तएण तेहि देवेहि
 एव मणसी कए समाणे खिप्पामेव ताउ अच्चारान उरालाइ सिगाराइ मणुत्ताइ मणोहराडं मणोरमाइ
 उत्तरविउत्थियाइ रूवाइ विउत्थिता तेसिं देवाण अतिय पाउत्थवति तएण ते देवा ताहि

गीतम ! तत्रैव यावन्मन परिधारका' तत्र ये कायपरिधारका देवा सौया मिच्छामन समत्पद्यते-इच्छामो अप्सरोजि साहं कायपरिधा
 र कर्तुं ततस्सोदैवेरेव मनसि कृत सति चिममेव ता अप्सरस उदारणि शङ्कराणि मनोघ्नानि मनोरमाणि उत्तरवैक्रियारिण क
 पाणि विक्रुर्वन्ति विक्रुर्वं तेषा देवानामन्तिके प्रादुर्भवन्ति तदानीं ते देवा स्त्रानिरप्सरोजि साहं कायपरिधारण कुर्वन्ति कृत्वाय यया ना
 मषप० । आनत प्राणत आरथ अच्युतना देवताने मननो परिवार मनविषय । मविल्लग अणुत्तरोवाइयादेवा अपरिधारणवा । प्रवेयक ८ ना ५
 नत्तरना देवताने अपरिधारविषय भाव मनसाहि नथो सुखपाने । सेकेण्डेण गोयमा ए० तत्रैव जाव प० । तेमाटे गोयम इमकइ तिनहोव जाउवी
 परिधार कइ । तत्पण जेतै कायपरिधारगादेवा तेषिण इच्छामणे समुप्यज्जति । तिहा जे कायनो सेवानाकरणहार देवता तेइनेत्रिये इच्छा मनमा
 हि तपणे । इच्छामिण अप्पहाराहि सिद्धि कायपरिधार करेत्तए । जे इच्छाहे वाक्खूँ अप्परावायेकरी रमने कायपरिधारनी इच्छाकरे । तएण ते

सापि येषां ते तथा तेऽपि प्रतनुमोहोदयतथाप्रज्ञामनुगतौनत्वात्, यद्येव कथं न ते प्रसन्नचरिण उच्यन्ते चारिणपरिणामाज्ञायात् ॥ सेतेऽर्चिता
 मित्यादि ॥ निगमनवाक्यं तत्र ये कायपरिचारका देवा स्तेषां कायपरिचरं विनावाक्येषु रिटमाह-तय्यथामित्यादि ॥ तत्र तपु कायपरिचारका
 दिषु देवेषु नय्ये ये ते पूजन्तः कायपरिचारका जवनपतिव्यन्तरस्योतिकसौधर्मशान्देवा स्तथा यामितिवाक्यारानरे इच्छामन कायपरिचारं
 च्छा प्रधानं मनः समुत्पद्यते, केनाक्षेपनं समुत्पद्यते? इच्छामोऽन्तलपाभो यमिति पूर्ववत्, अप्सरोभि सादृं कायचारं कर्तुमिति ॥ तपण

अच्छराहिं सद्धिं कायपरिचारणं करति, करतिज्ञा से जहानामए सीता पोगला सीतं पप्य सीतयेत्र
 अहवडज्ञाण चिच्छति उसिणा वा पोगला उसिणचेत्र अहवडज्ञा ण चिच्छति एवमेव तेहि देवेहि ताहि
 अच्छराहिं सद्धिं कायपरिचारणे कए समणे इच्छामणे खिप्यामेवावति । अल्पिण ज्ञते ! तेसि देवाणं
 सुक्ष्णपुगला ? हता अल्पि । तेणं ज्ञते ! तासि अच्छराणं कीसत्ताए ज्ञुज्जो परिणमति ? गोय

न ज्ञीता पुद्गला ज्ञीत माप्य ज्ञीत चींजातिव्रज्य तिष्ठन्ति, तथा वा पुद्गता एव प्राप्योक्त चैवातिव्रज्य तिष्ठन्ति एवमेव तदेवै स्तान्निर्भस्
 रोचि. सम कायपरिचारणे कृते सति इच्छामनं खिप्रमवापति । सन्ति जटन्त । तेपा देवाना शुक्रपुद्गला. ? पुन्त सन्ति । ते जटन्त । ता
 सामप्सरसा कीदृक्तया ज्ञुपोज्ञयं परिणमन्ते ? गौतम । श्रोत्रेन्द्रियतया चत्विन्द्रियतया प्राणेन्द्रियतया रसेन्द्रियतया स्पर्शनेन्द्रियतया इष्ट

दि देवेहि मणसो कएतमाणे खिप्यामेव तागो अच्छराथो वरासाह मणुष्याः मनोहराः मनोरमाः उत्तरवेद्विद्यः इ ऊच्यन्ति विववति
 र ता । तिवारे देवता एहवी मननोमते करेथके योषते देवीए यस्सरे तेहना मननीभाव जाथीने उटार सपूर्णभवय यद्धार भूयणाटि सज्जोने
 मनोज्ञमनने गमनरूप मनोहर ज देवोने मास्खीपभाच्यणे रमे एहवा उत्तरवेद्विद्य रूपप्रथे विकुर्धने । तेसिण देवाण अतिव पाडक्यवति । तेह देव
 ता सनीपे मननीसनीप पाचे मकटयान भावे । तएण ते देवताहि अच्छराहि सद्धिं कायपरिचारणे करेद । तिवारे ते देवता अप्सरासाथे रमता

धारका शब्देन शब्दमात्रवशेन परिचारी येषां ते तथा तेहि इच्छाविषयीकृतदेवीसदकगीतहृदितसविकारनापितनूपुरादिष्वनियममात्रत मन
 कायप्रवीचारा दनत्तगुण सुख सुपुत्रते तावन्मात्रेणैव च तथा वेद उपशान्तिमति, आनतप्रणतारणाच्युतेषु कल्पेषु देवाः मन परिधारका मन
 वा मनोभवविकारोपटन्निपरस्पररोच्चावचमन सकल्पेन परिचारी मनोपसेधन येषां ते तथा तेहि परस्पररोच्चावचमन सकल्पमात्रेणैव, कायप्रवी
 चारा दनत्तगुण सुपुत्रमाप्नुवति तृप्तस्य तावन्मात्रेणोपजायते त्रैवयकानुत्तरीपपातदेवा अपरिधारका न विद्यते परिचारी नियुनोपसेधन मन

देवा अपरिधारगा से तेणठेण ? गीयमा ! तत्रैव जाव मणपरिधारगा । तत्यण जेतै कायपरिधारगा
 देवा तेसिण इच्छामणे समुप्यज्जइ इच्छामोण अच्छरान्हि सद्धि कायपरिधार करेत्तए तएण तेहि देवांहि
 एव मणसी कए समणे खिप्पामेव ताउ अच्छराउ उरालाइ सिगाराइ मणुत्ताइ मणोहराइ मणोरमाइ
 उत्तरविउच्चियाइ रूवाइ विउच्चिता तेसि देवाण अत्यि पाउप्पवति तएण ते देवा ताहि

गीतम । तच्चैव यावन्मन परिधारकाः तत्र ये कायपरिधारका देवा स्तेषा मिच्छामन समश्यते-इच्छामो अप्सरोन्नि साद्धं कायपरिधा
 र कर्तुं तत्तस्यैदेवैव मनसि कृतं सति क्षिप्रमेव सा अप्सरस उदारानि शृङ्गारानि मनोह्रानि मनोरमानि उत्तरीक्षितारणि क
 पाणि विजुर्वन्ति विकुम्भं तेषा देवानामन्तिके मादुर्जं वन्ति तदानीं ते देवा स्तान्निरप्सरोन्नि साद्धं कायपरिधारण कुर्वन्ति कल्याण यथा ना
 मन्थ० । आनत प्रापत भारण अच्युतना देवताते मनतो परिवार मनविषय । गविल्लम अणुत्तरीववारयादेवा अपरिधारया । येवेवक ८ ना थ
 नत्तरना देवतानि अपरिधारविषय भाव मनमाहि नयो सखपामे । सेकेण्डेण गीयमा ए० तत्र जाव प० । तेमाटे गीतम इमकहे तिनहोल आसने
 परिवार कइ । तत्यण जेतै कायपरिधारगादेवा तेसिण इच्छामणे समुप्यज्जति । तिहा ज कायनो सेवानाकरष्वार देवता तेइनेत्रिये इच्छा मनमा
 हि तपले । इच्छानिण अप्सराहि सिद्धि कायपरिधार करेत्तए । जे इच्छाके वाक्कू, अप्सरासायैकरी रमने कायपरिधारनी इच्छाकरे । तएण ते

टोच ।

१८

३४

७६०

स्तान्नुजोरुजपनादिगात्रसंरपञ्चनं परिचारं प्रवीचारी येषां ते तथा तेहि यदा प्रवीचारमत्रिलपन्ति तदा प्रवीचाराप्रिलापकतया प्रत्यासत्कीञ्जता ना देवीना स्तनाद्ययवान् सरपृञ्चति तावन्मात्रेणैव तेषां कायप्रवीचारादनक्तगुण सुख वेदोपशातियोपजायते, ब्रह्मलोकलान्तकयोः कल्पयो देवा रूपपरिचारका रूपेण रूपमात्रदर्शनेन परिचारी मैष्टुनोपसेवन येषां ते तथा तेहि सुरसुन्दरीणा मनोजवराजस्थानीय दिव्यमुन्मादजनकं रूपमुपलभ्य कायप्रवीचारादनक्तगुण सुरतसुख सावादयति तावन्मात्रेणोपजातवेदा उपजायते, महाशुकसहस्रारंपु कल्पंपु देवा शब्दपरि

से केणठेणं जते ! एवं बुञ्चुड-पचविहा परियारणता पस्यता, तजहा-कायपरियारणया जाव मणपरि चारणता ? गीयमा ! जवणवडवाणमतजोडससोहम्मीसाणेसु कप्पेसु देवा कायपरियारगा, सणंकुमार माहिदेसु कप्पेसु देवा फासपरियारगा, वजलीयलतगेसु कप्पेसु देवा रूवपरियारगा, महासुक्कसहस्सा रिसु देवा सइपरियारगा, झ्याणयपाणयझारणाञ्चुएसु कप्पेसु देवा मणपरियारगा, गेविज्जाणुत्तरोववाइया

प्रसंसा तद्यथा-कायपरिचाराणा यावन्मन परिचाराणा ? गीतम । प्रवनपतिवानव्यन्तरज्योतिकसीधंशानेषु कल्पेषु देवा कायपरिचार का' सनत्कुमारमारैन्द्रयो कल्पयो देवा सपशंपरिचारका, ब्रह्मलोकलान्तकयो कल्पयो देवा रूपपरिचारका, महाशुकसहस्रारयो दे वा शब्दपरिचारका, ज्ञानतम्राणतारणाञ्चुत्तंपु कल्पेषु देवा मन परिचारका, त्रैवेयकानुत्तरोपपातिका देवा अपरिचारका स्तत्तेनार्धेन

क्षी ते कवेहे । कायप० जाव मणप० । कायपरिवार कावगे मनपरिवार । गीयमा भवनपति वानमत र कोइसियुंसाइमोसाणकप्पेसु देवा कायपरि चारणा पं । हेगीतम भवनपती वानव्यन्तर ज्योतियी सौधमं इमान कन्यना देवताने कावनीसेवा कायत्रिययनी परिवारहे ते कक्षी । सणकुमार माहिदेसु कप्पेस देवा फासप० । सनत्कुमार माहेन्द्रकले देवताने फरसनी विपयहे । बभनीए लतएसु कप्पेसु देवा रुवाप० । वजलीक ज्ञान्तकना दे वतारूपनी विपयहे । महासुक सहस्रारिसु देवाससप० । महाशुक सहस्रारना देवताने शब्दपरिवारना विपय । चाणय पाणय चारण चक्षुएसु देवा

दि ॥ सुगम जगधानाह-गोपमेत्यादि ॥ गतार्थे, नवर ॥ कायपरिचारणा इति ॥ कायेन शरीरेण मन्युच्छीपुसानामिव परिचारी मेयुनोपसे
 धन येषां ते कायपरिचारका किमुक्त प्रवति प्रबनपत्यादय इजानदेवलोकर्यता सतिष्टोदयपुसपयदकमप्रजावतो मनुष्यवत् मेयुनसुखप्रतीप
 माना सवाद्गूण कायकृशज सस्पर्शसुखमवाप्य प्रीतिमासादयन्ति नान्ययेति, सनक्षुमारमारन्द्रयो कल्पयो देवा स्पशपरिचारका स्पशोन

वण देवा सदेवीया अपरियारा से तेणठेण गोयमा । एव वुच्चइ-अत्येगतिया देवा सदेवीया सपरियारा
 तचेव नोचेयणं देवा सदेवीया अपरियारा । कतिविहाण जते ! परियारणा पयत्ता ? गोयमा । पच
 विहा पखत्ता, तजहा-कायपरियारणा फासपरियारणा रुवपरियारणा सहपरियारणता मणपरियारणता ।

रोपवातिका देवा अदेवीका अपरिचारा नैवच देवा सदेवीका अपरिचारास्ततेनार्थेन गौतम । स्वमुख्यते-सत्येकके देवा सदेवीका सप
 रिचारास्तच्चैव नैवच देवा सदेवीका अपरिचारा । कतिविधा प्रदत्ता । परिचारणा प्रदत्ता ? गीतम । पञ्चविधा प्रदत्ता तद्यथा-कायप
 रिचारणा स्पशपरिचारणा रूपपरिचारणा शब्दपरिचारणा मन परिचारणा । अथ केनार्थेन प्रदत्त । एय, मुख्यते-पञ्चविधा परिचारणा
 गेयिकाग अणुसरीववाया देवा सदेवीया अपरिवारा नोचेव देवा सदेवीया अपरिवारा । प्रेयकना अणुत्तरनादेवता देवीसहित परिवारसहित
 एभागो न होल तिये देवता देवीसहित अपरिवार । संकेण्डुणं गोयमा ए० । तेमाट गौतम इमकहे । अथेयगए देवा सदेवीया अपरिवारा । कोइ
 क देवीसहित देवता अपरिवार । तचव जाव नोचेव देवा सदेवीया अपरिवारा । तिमहोल कांठनी नहो तियव देवता सदेवी अपरिवार । पाःवि
 हाप भते परियारणया ए० । केतलेभेदे हेमगवन् परिवार कक्षा परिवार केहवे कहिये मेयुनसेवे ते परिचार । गोयमा पचविहा परियारणया ए०
 त० । हेगौतम पाचेभेदे परिवारना कक्षा तेकहे । कायपरियारणया फासप० रूपप० सहप० मयप० । कायनो भयनसेवा अयं परिवार रूप जो
 इ चतोपयामे शब्दयो सताप मनयोसताप यामे । संकेण्डुण भते ए० । तेमाटे होमगवन् इमकह्यो । पचविहा परिणवा ए० त० । पाचभेदे परिवार क

दीपा ।

सु ।

। ४० ।

। भाषा ।

सन्तकुमारमार्गदेव्यो ब्रह्मलोकनातकयो मर्दाशुक्रसहस्रारयो रानतार्णवचतुष्टु कल्पेषु देवाश्च देवीका स्त्रा देवीनामत्यादाज्ञावात् अथच सपरिचरणासहिता सौधमैशानगतदेवीज्ञ सह यथाक्रम स्पर्शरूपवाद्भवन प्रवीचाराज्ञावात्, यवैयकानुत्तरोपपत्तिनो देवा अदेवीका देवीनां तत्रोत्पादाज्ञावात् अपरिचारा अप्रवीचारा मनसापि प्रवीचारासन्वात्, नपुन स्त्री देवा- सदेवीका अपरिचारा स्त्रायान्नब्रह्माज्ञावात् ॥ सेतेणमित्यादि ॥ निगमनवाक्य, देवा सदेवीका सपरिचारा इत्युक्त तत्र परिचाराणामेव जिज्ञासु पृथ्विति-कहविद्याणमित्या

नोचेत्रण देवा सदेवीया अपरिचारा । से केणठेणं नते ! एवं बुद्धेड-अत्येगितिया देवा सदेवीया सपरिचारा तचेत्र जाव नोचेवण देवा सदेवीया अपरिचारा ? गायमा ! नत्रणवडवाणमतरजोडससोहम्मी साणेषु कप्पेसु देवा सदेवीया सपरिचारा । सणकुमारमाहिदयत्रलोगलतगमहासुक्कसहस्रारअणयपाणय-अणरणञ्जुणुसु कप्पेसु अदेवीया सपरिचारा । गेविज्जाणुत्तरोववाइया देवा अदेवीया अपरिचारा नोचे-

चारा, सत्येकके देवा अदेवीका अपरिचारा नैव देवा सदेवीका अपरिचारा । अथ केनार्थेन प्रदत्त । एवमुच्यते-सत्येकके देवाः स देवीका- सपरिचारास्तत्रैव यावन्नैव देवा सदेवीका अपरिचारा । गीतम । भवनपतिथ्यन्तरत्योतिफसीधमैज्ञानेषु कल्पेषु देवा सदेवीका सपरिचारा । सन्तकुमारमाहिन्द्रत्रल्लोकलान्तकमहाशुक्रसहस्रारानतप्राणतारणाध्यतेषु कल्पेषु अदेवीका सपरिचारा । गैवैयकानुत्त

जाव नोचेत्रण देवा सदेविगण अपरिचारा । केतलाएक देवता देवीसहित परिवारसहित तिमहीज जासगे देवता देवोसहित परिवार सहित । गायमा भवणपति वाणमतर जोडसिय सोइसोसाणेषु कप्पेसु देवा सदेविगण सपरिचारा । इगौतम भवनपति वानव्यत्तर क्योतपो सौधमैशानदेव लोचना देवता देवाङ्गनासहित सपरिचारे । सणकुमार माहेट वभकीय नत्तक महासुक सहस्रार आणय पाणय आरण अञ्जुसु कप्पेस देवा अदेवीया सपरिचारा । सन्तकुमार माहिन्द्र भ्रमलोक सातक महासुक सहस्रार आनत प्राणत आरण अस्थुत देवलोचनादिवता देवीविवाहुवे सपरिचारा ।

य प्रगवानाह-गीतम् । सम्भोत्यादि ॥ सुगम त्रिविधाया अपि प्राप्ते यथायोगं सुगमम् ॥ यय जीवे त्यादि ॥ ययं नैरविकल्पतेनाभिज्ञापकारेण
 निरन्तर तावद्वक्तव्यं यावद्देवानिका नवरसकेन्द्रियाणां विक्षलेन्द्रियाणां केवान्त्रि रत्यामादममम्यक्रमवि नस्यते तथापि ते भिम्यात्यानमुरा
 धति तदपि तत्र विवक्षित सम्प्रति परिचारवप्रतिषिपाटपिपु रिटमाह-दवाणमित्यादि । सुगम नवर प्रवचनपतित्यन्तरज्यातिक्रमोपभेदानरुप
 पु देवा सदेवीका , देवीना तत्रोत्पादात् अतएव सपरिवाराः परिवारवासुद्धिता दवीना तत्परिसदृ पयायोग प्राप्तः कायवशीचारजाघात्

मीति मिच्छन्ताज्ञिगमीचि सम्प्रामिच्छन्ताज्ञिगमीचि । एव जाय वेसाणिया नत्रं एणिटियथिगलिटिया
 नोसम्प्रज्ञाज्ञिगमी मिच्छन्ताज्ञिगमी नो सम्प्रामिच्छन्ताज्ञिगमी । देवाणं जते ! किं सदेवीया सपरिवारा
 सदेवीया सपरिवारा अदेवीया सपरिवारा अदेवीया सपरिवारा ? गीतमा ! अत्येगतिया देवा सदे
 वीया सपरिवारा , अत्येगतिया देवा अदेवीया सपरिवारा , अत्येगतिया देवा अदेवीया सपरिवारा

गामिनः गीतम् । सम्प्रज्ञाज्ञिगामिनोपि भिम्यात्यानिगामिनोपि सम्प्रामिच्छन्त्यात्यानिगामिनोपि । यय मायद्वेषादिना नवरसेकेन्द्रियादि
 कलेन्द्रिया नासम्प्रज्ञाज्ञिगामिनो भिम्यात्यानिगामिन सम्प्रामिच्छन्त्यात्यानिगामिन । देवा जदन्त । किं सदेवीका सपरिवारा सदेवीका य
 परिवारा अदेवीया सपरिवारा अदेवीका सपरिवारा । गीतम् । नवरसके देवा सदेवीका सपरिवाराः , सुगमपक्त सदेवीका सपरि
 षट्त्रिया सपरिवारा । दशता हेममग्नं स्रु दूवोमहितं द्रुवे परिवारमहितं द्रुवे देवीमहितं इवे परिवारविना देवीविना परिवारमहितं देवीविना
 परिवारविना । गीतमा थयगणया सदावया सपरिवारा परतेः देवा सदेविया सपरिवारा सपरिवारा सपरिवारा सपरिवारा सपरिवारा स
 परिवारा । इगीतम् कान्तकाणक दशोमहित परिवारमहित कान्तकाणक देवीमहित सपरिवारमहित कान्तकाणक देवीमहित सपरिवारे केराक टणे
 विना सपरिवारे नही नये देवया सदेवो सपरिवार । एकं द्रुप मत ए० । तेषामाटे हेममग्नं इमकण्यो । परतेः देवा सदेविया सपरिवारा तसे

जानत इति चे दुःकृते-इहा वश्यकप्रथमपीठिकाया नवविज्ञानाधिकारे त्रिद्वित-सखेज्जकर्मदद्वे लोयधो-ऊणयपल्लिय । अस्यायमर्थ -ज्ञानंयत्तरीर
 इव्याणि पश्यन् क्षेत्रतो लो-रुस्य सखेयान् प्रागान् पश्यन्ति कालत स्तोका त ल्योपम यावत् अनुतरास्तु सम्पूर्णा लोकनाही पश्यन्ति । सन्धि
 क्लोयगन्तिलिपसन्ति अनुत्तरयेथाइतिवचनात्, तत स्ते मनोज्ञत्याहारयोग्यानापि पुद्गलान् जानन्ति आरुच मूलटोकाकार -ते जानन्ति आहारयन्ति
 य विज्ञुद्वुत्वा दर्षाधारिन्द्रियविवपस्य चातिविज्ञुद्वुत्वा स्पश्यन्त्यपि इति, अत्रेन्द्रियविवपस्येति इन्द्रियपाटवत्यतिप्राव उपसङ्घारवाक्य प्रतीताये
 अय्यवसानचित्ताया प्रत्येक नैरयिकादीनामखत्यन्याय्यवसानानि प्रत्येक प्रायोन्यान्याय्यवसानावात्, सम्यक्ताअधिगमचिन्ता कुर्वन्नाह-नेरइया
 यमित्यादि ॥ नैरयिका यानिति पूर्ववत्, नदन्त । कि सम्यक्ताधिगमिन सम्यक्ताप्रसिबन्त, एय मिथ्यात्वाधिगमिन सम्यग्मिथ्यात्वाधिगमिन

नते ! कि पसत्या अ्युपसत्या ? गोयमा ! पसत्यावि अ्युपसत्यावि । एव जाव वेमाणियाणं । णेर
 इयाणं नते । कि सम्यक्ताधिगमी मिच्छताधिगमी ? गोयमा ! सम्यक्ताधिग

तम् । प्रशस्तान्यप्यप्रशस्तान्यापि । एव यावद्वैमानिकानाम् । नैरयिका नदन्त । सम्यक्ताधिगमितो मिथ्यात्वाधिगमिन सम्यक्पुष्यात्वात्तानि

वसाय कक्षा । गोयमा असखेज्जा अककं । हेगौतम पसख्याता अथवसाय । तेणभते पसत्या अपसत्या । ते हेभगवन् प्रयस्तु के अपसत्या । गोयमा प
 सत्यावि अप० एव जाव वेमाणिया । हेगौतम प्रयस्तु पिण अपसत्या पिण इम जावगे वेमानिक । णेरइयाण भते कि सम्यक्ताधिगमी मिच्छताधिग
 मी सन्नामिच्छताधिगमी । नारको हेभगवन् सम्यक्ताधिगम इवे के सन्नामिथ्याअधिगम इवे । गोयमा सम्यक्ता भि० मि
 च्छता भिगमोवि तस्मिन्निच्छताधिगमोवि एव जाव वेमाणिया । हेगौतम सम्यक्ता प्रते पाभै मिथ्यात्वप्रते पाभै तेइने मिथ्यात्वभिगमे पिण इम जा
 तमी वैमानिक । एवर एगदिय विगणित्वाणी सन्नामिच्छताधिगमी मिच्छताधिगमी । एविगेण एकद्विय विकलोद्वय नहो सम्यक्ता प्रतपाभै मिथ्यात्व पा
 भै । णो सन्नामिच्छता भि० । नहो सम्यक्ता मिथ्यात्व प्रते पाभै । देनाण भते कि सदेतीया अपरिवारा सदेविवा अपरिवारा अदेविवा अपरिवारा

अद्विष्टिउववल्गगा सेह न याकति नपासति आशरति तत्थ जेते अमायिसुम्भादिष्टिउववल्गगा तेण दुविहा पल्लता त-अशतरोववल्गगा परप रोववल्गगाय । तत्थ जेत अशतरोववल्गगा ते नयाणति नपासति आशरति तत्थ जेत परपरोववल्गगा ते दुविहा पल्लता त-पज्जतगाय अपज्जतगाय । तत्थ जेते अपज्जतगा ते नयाणति नपासति आशरति जनं पज्जतगा त-दुविहा पल्लता त-उववत्ताय अणुउत्ताप , तत्थ जेने अणुउत्ता ते नयाणति नपासति आशरति तत्थ जेते उववत्ता त नाणति पासति आशरति से तण्णेण गोयमा । सय दुसुइ-अत्थेगइ या न जाणति नपासति आशरति , अत्थेगइया जाणति पासति आशरति इति , अस्यायमय-सुय येते मायिमिप्यादुत्थु पपलका उपरित नोपरितनोपरिवेयकपर्यवसाना इत्थं , ते मनोउत्थाएरयायान् पुद्गलान् न जानन्ति अवापिज्जानेन तदेवावधे स्तोपामविपत्तात् न पइय लि पइया तथाविधपाटयाज्जायात् , येव्यमायिसुम्भुदुत्थु पपलका अनुत्तरावमानवाचिन इत्थं , तं द्विधा अनन्तरोपपलका परपरोपपलका य' प्रथमसमयोत्पत्ता अमथमसमयोत्पत्ता इत्थं , अथ य ते अनन्तरोपपलका स्ते न जानन्ति न पइयन्ति प्रथमसमयोत्पत्तयाऽवापिज्जानोपयो गत्थ च्छुरिद्रियस्याभावात् , किंत्विवसेवाएरयन्ति तत्र ये ते परम्परोपपलका स्त द्विविधा साद्यथा-पर्योसा य, तत्र ये ते अपपर्यंत का स्ते न जानन्ति नथ पइयन्ति पर्योसानामसुखेनावध्याद्युपयोगाभावात् , येपि पर्यासा स्तेपि द्विविधा साद्यथा-उपपुक्का अनुपुक्का च , तत्र ये ते उपपुक्का स्ते जानन्ति अवधावनद्वतो पयाशक्तिनयनेन ज्ञानस्य स्वविषयपरिच्छेदाय प्रवृत्तिसमवात् , परयन्ति वसुया इद्रियपाट वस्य तेषामतिविशिष्टत्वात् , येत्युपपुक्का स्ते न जानन्ति नथ परयन्ति अनुपुक्कत्वादेव उपपुक्का अपि कथ मनोउत्थाएरयोग्यान् पुद्गलान्

परइयाणं अते ! केअतिया अज्जवसाणा पणत्ता ? गोयमा ! अस्सिखिज्जा अज्जवसाणा पणत्ता । तेणं

या प्रदत्त । कियत्थव्यवसानानि प्रवृत्तानि ? गौतम ! असव्येयान्यव्यवसानानि प्रवृत्तानि । तानि प्रदत्त । किं प्रवृत्तान्यप्रवृत्तानि ? गो

विधो । जाम् संकेपेण गो० ए० । जावगे तेमटे हगौतम इम कइया । परइयाथ भते विइया अज्जवसाणा पं० । नारको हेमगवन् कुंतवा अथ

जानत इति चे दुष्यते-इहा वश्यकप्रथमपीठिकाया अवधिज्ञानाधिकारे प्रिहित-सखेज्जकर्मदधे लोपधीकण्यपलिय । अस्यायमर्थे -ज्ञानशब्दरारि
द्रव्याणि पश्यन् क्षेत्रो लोकस्य सखेयान् प्रागान् पश्यन्ति कालत स्तोका त ल्योपम यावत् अनुत्तरान्तु सम्पूर्णा लोकनाही पश्यन्ति । सस्मि
नलोगनलिपासन्तिअनुत्तरपेगाइतिवचनात्, तत स्तोमनोन्नत्याहारयोग्यानापि पुद्गलान् जानन्ति आहच मूलटोकाकार-ते जानन्ति आहारयन्ति
च विज्ञुदुत्वा दवचिरिन्द्रियव्ययस्य चातिविज्ञुदुत्वा स्पर्शन्यपि इति, अत्रेन्द्रियविषयस्येति इन्द्रियपाटवस्यतिप्राव उपसहारवाक्य प्रतीताथ
अध्यवसानचिन्ताया प्रत्येक नैरयिकादीनामख्येयान्यध्यवसानानां प्रत्येक प्रायोन्त्यान्याप्यवसानप्रावाद् सम्यक्तात्राधिगमचिन्ता कुर्वन्नाह-नेरइया
यमित्यादि ॥ नैरयिका यान्ति पूर्ववत्, जदन्त । किं सम्यक्ताधिगमिन सम्यक्ताधिगमिन सम्यग्निव्यात्वात्वाधिगमिन

जते ! किं पसत्या अपसत्या ? गोयमा ! पसत्यावि अपसत्यावि । एव जाव वेमाणियाणं । नेर
इयाणं जते ! किं सम्मत्तान्निगमी मिच्छत्तान्निगमी ? गोयमा ! सम्मत्तान्निग

तम । प्रज्ञस्तान्यप्यप्रज्ञस्तान्याम् । एव यावद्वैमानिकानाम् । नैरयिका जदन्त । सम्यक्तात्रागमिनो मिथ्यात्वात्रागमिन सम्यक्त्वध्यात्वात्तान्नि

वसाय कक्षा । गोयमा असखंजा अज्ञः । हेगौतम असख्याता अथवसाय । तेषभते पसत्या अपसत्या । ते हेमगवन् प्रयस्तु कौ अप्रयस्तु । गोयमा प
सत्यानि अपः, एव जाव वेमाथिया । हेगौतम प्रयस्तु पिथ अप्रयस्तु पिथ अप्रयस्तु वेमानिक । येरइयाण भते किं सम्यक्ताभिगमो मिच्छत्ताभिग
मो सन्मानिच्छत्ताभिगमो । नारको हेमगवन् सम्यक्ताभिगमो अभिगम यामे मिथ्यात्वत्राभिगम इवे के सन्मानिथ्यात्राभिगम हुवे । गोयमा सम्यक्ता भि० मि
च्छत्ता भिगमोवि तस्मिन्निच्छत्ताभिगमोवि एव जाव वेमाणिया । हेगौतम सम्यक्ता प्रते पामे मिथ्यात्वप्रते पाने तेरने मिथ्यात्वभिगमे पिथ इन जा
नगे वेमानिक । एवर एगिदिय विगणित्वाणो सम्यक्ताभिगमो मिच्छत्ताभिगमो । एविशेष एकन्द्रिय विखलेन्द्रिय नही सम्यक्ता प्रतिपामे निव्यात्व पा
मे । णो सम्यक्ताभिच्छत्ता भि० । नही सम्यक्ता मिथ्यात्व प्रते पामे । देवाण भते किं सदेवीया अपरिधारा सदेविवा अपरिधारा अदेविवा अपरिधारा

च्छादित्वववन्नगा तेसु न यच्छति नपासति आहारति तस्य जेते अन्नायिसम्पत्तिववन्नगा तेर्षं दुर्विहा पन्नता तं-अन्तरोवन्नगा परप
 रोवन्नगाय । तस्य जेत अन्तरोवन्नगा ते नयाच्छति नपासति आहारति तस्य जेते परपरोवन्नगा ते दुर्विहा पन्नता त-पञ्जतगाप
 अपञ्जतगाय । तस्य जेते अपञ्जतगा ते नयाच्छति नपासति आहारति तेने पञ्जतगा त दुर्विहा पन्नता त-उवन्नगाय अन्तरोवन्नगाय , तस्य
 जेने अन्तरोवन्नगा ते नपासति नपासति आहारति तस्य जेते उवन्नगा त आच्छति नपासति तेने तस्यैव गोपमा । एव दुर्विहा-अन्तरोवन्नगा
 या न आच्छति नपासति आहारति , अन्तरोवन्नगा आच्छति पासति आहारति इति , अन्तरोवन्नगा-सूत्रे येते मायिमिष्यदृष्ट्युपपन्नता उपरित
 नोपरितनोपरिवेकपर्यवसाना इत्यर्थे , ते मनोवन्नगाएरयायान् पुद्गलान् न जानन्ति अवशिष्टानेन तदेवावचे स्तोपाभविष्यत्वात् न पश्य
 न्ति वक्षुषा तथाविधपाटवाभावात् , येव्यमायिसस्यगृह्युपपन्नता अन्तरोवन्नगा इत्यर्थे , ते द्विषा अन्तरोवन्नगा परपरोवन्नगा
 यः प्रथमसमयोत्पन्ना अप्रथमसमयोत्पन्ना इत्यर्थे , अत्र ये ते अन्तरोवन्नगा स्ते न जानन्ति न पश्यन्ति प्रथमसमयोत्पन्नताऽवशिष्टानोपयो
 गस्य वक्षुरिद्वयस्याभावात् , कित्त्वैवमेवाएरयन्ति तत्र ये ते परपरोवन्नगा स्त द्विषा स्तथा-पर्यासा अपर्वासा य , तत्र ये ते अपर्वासा
 का स्ते न जानन्ति नच पश्यन्ति पर्यासानामसपूर्वत्वेनावध्याद्युपयोगाभावात् , येषि पर्यासा स्तथा-उपयुक्ता अनुपयुक्ता य ,
 तत्र ये ते उपयुक्ता स्ते जानन्ति अवधावनशतो यथाशक्तिनियमेन जानन्त्येवमिदं प्रवृत्तिसम्बन्धम् , पश्यन्ति वक्षुषा इद्विषपाट
 वस्य तपामतिविशिष्टत्वात् , येत्वनुपयुक्ता स्ते न जानन्ति नच पश्यन्ति अनुपयुक्तत्वादेव उपयुक्ता अपि कथं मनोवन्नगाएरयोयान् पुद्गलान्

णेरइयाण जेते ! केवतिया अज्जवसाणा पयत्ता ? गोयमा ! अस्सिखिजा अज्जवसाणा पयत्ता । तेणं

या प्रदत्त । किंयस्यप्यवसानानि प्रदत्तानि ? गीतम अस्येयान्यप्यवसानानि प्रदत्तानि । तानि प्रदत्त । किं प्रवृत्तान्यप्रदत्तानि ? गो

वदितो । जात्र संज्ञेषु गो० ए० । जालगे तेनाटे इतीतम इस कम्मा । परइयाण भंते किंइया प्रवृत्तसाणा प० । गारको इममवन् कुंतवा अथ

दासु नजायति नपासति आहारति इति ॥ अगवानाह-गीयसेत्यादि ॥ माया पूर्वव्रतकृता विद्यते येषा तेषामयिनो मायया हि यथा तथा वाद
रूपकतया कल्पकर्मप्रदुर्जाव कल्पयेच कर्मण्युदयमागते प्रवप्रत्यदुया द्युपजायसतो उवधि नांतिसमोचीनो प्रवति एतेच सम्यन्तुर्जां बिदि
तथा , तथा मिथ्या विपर्यस्ता दृष्टिर्जिनप्रणीतवस्तुतत्वप्रतिपत्ति र्थया ते मिथ्यादृष्टय मायिनश्च मिथ्यादृष्टयश्च नायिमिथ्यादृष्टय स्तेच ते च
पपत्तासु मायिमिथ्यादृष्ट्युपपत्ता स्तयव स्वार्थिक कप्रत्ययविधानात् , मायिमिथ्यादृष्ट्युपपत्तका स्तेषोपरितनोपरितनोयहप्रयवसाना विद्येया
स्तथा यथायोग मवरुप मिथ्यादृष्टत्वस्य मायित्वस्य च ज्ञावात् , तद्विपरीता अमायिसम्यग्दृष्ट्युपपत्तका स्तेषानुत्तरविमानवाचिन रूपाम् इय
सम्यग्दृष्टित्व पूर्वानतरप्रवे नितरा प्रतनुकोपमानमायालोजत्वस्योपशान्तकपायत्वस्य च ज्ञावात् , याहच मूलटीकाकार -वेमाश्रया माहूर्मच्छ
विही उववन्नगा जाय उवरिमगेवजा अमायिसम्भदिही उववन्नगा अनुत्तरा एव गृह्यन्ते इति ॥ एव जहेत्यादि ॥ एवमुक्तेन प्रकारेण प्राक् य
या इद्विपर्यक्ते प्रथमोद्देशके त्रणित तथा त्रणितस्य तच्च तावत् यावत् सर्वोत्तम-सेरणमित्यादिना निगमनवाक्य तत्रैव-तत्पर्य जेते मायिमि

ज्ञते । एव बुद्ध-वेमाणिया झ्येगतिया जाणति पासति आहारति झ्येगतिया न जाणति न पासति
आहारति ? गीयमा । वेमाणिया दुविहा पश्यता , तजहा-माहमिच्छदिहीउववन्नगाय झ्यमाहसम्भदि
ठिउववन्नगाय । एव जहा इदियउहेसे षठमे त्रणिण ए तहा त्रणिणस्य जाव से तणठेणं गो० ! एवं बुद्ध ।

स्युपपत्तमाद्यामायिसम्यग्दृष्ट्युपपत्तकाद्य । एव यथेन्द्रियोद्देशके प्रथमे भणित तथां त्रणितस्य यावत्तैतोर्येन गीतस । एवमुच्यते-वेमायिका
नयापइ नपासत था० । केतसाइक आणे दखे आहारि केतसाएक नजाणे नदखे आहारि । गीयमा वेमाणिया दुविहा प० त० । हेगौतम वेमानिकन
दोवनेर कथा तेकवइ । माहमिच्छदिही उववन्नगाय अमाह सम्भदिही उववन्नगाय एव जहा इदिवउहेसए षठमं भणियं तत्रैव भाषि० । मायो मि
थ्यादृष्टयो जपना १२ सग लगे अमायोमिथ्यादृष्टयो जपना तव वैवेकताइ पश्चानुत्तरविमान इम जिम इन्द्रियउहेयो पहिलो कथो तिमहेज

पिठत्यैवजायना सत्येकके तिर्यक्पञ्चेन्द्रिया ये प्रकृपे साधार जायति सम्यग्मानितया तेषां यथावस्थितपरिज्ञानात् पश्यति पशुरिन्द्रियज्ञाया
त्, एव साधारयति सत्येकके ये जानति पूर्वय न प पश्यत दर्शन या साधारतः अनाभोगेन वा व्याहृतत्वात् । तथा सत्येकके ये न जान
न्ति मिथ्याज्ञानतया सम्यक्परिज्ञानाभावात्, पश्यन्ति पूरा चुरिन्द्रियानात् तथा सत्येकके ये न जानन्ति मिथ्याप्रानित्या अ प पश्यन्ति
पूर्ववत्, एव साधारयति सामाशारापक्षया त्वेव भावना-सत्येकके त्र्यक्पञ्चेन्द्रिया य सामाहारमपि जानति विशिष्टावधिज्ञानपरिकलितत्वा
त्, पश्यति तयावधययोपशमजावत् इन्द्रियावस्थानविशुद्धत्वात्, सत्माधारयन्ति तथा सत्येकके य जानन्ति पूर्वयत् न च पश्यति तथा
विषयेन्द्रियावस्थानाभावात्, तथा सत्येकके न जानति पश्यति तथारूपपाटवाभावादात्, एव मनुष्याणामपि लोमाद्वारप्रक्षेपादारी प्रतीत्य
वतुर्जंगी भावनीया ॥ बाणमतरजोडसिया जहा नेरडया ॥ नेरयकावधिरय व्यन्तरज्योतिःकावधि रपि मनोज्ञत्वेष्याहारपुद्गलानामावधयपत्त्या
त् ॥ वमाणियाण पुष्टति ॥ वेमानिकाना पृथक् सूत्र वक्तव्य ॥ येमाणियाण जत । जे योगले साहारताए गिरइति तेकिं जायति वाचति च

न पासति आहारति । एव मणुस्सावि । बाणमतरजोडसिया जहा नेरडया । वेमाणियाण पुच्छा, गो
यमा । अत्येगतिना जाणति पासति आहारति अत्येगतिना न जाणति न पासति आहारति । स कंणठेण

मित पश्यन्ति आहारयन्ति, सत्येकके नजानन्ति नपश्यन्ति आहारयन्ति । अथ केनाप्येन जदत्त । एवमुच्यते-वेमानिका सत्येकके जा
नन्ति नश्यन्ति आहारयन्ति सत्येकके न जानन्ति न पश्यन्ति आहारयन्ति ? गीतम् । वेमानिका द्विविधा प्रज्ञासत्त्वद्वया-गायिमिथ्यादृ

षे नदखे वाहारे । एव जण्ठ्यावि बाणमतर जोडसिय जहा नेरडया वेमाणियाण पुच्छा । इम मनयने पिण वानञ्चत्तर ज्योतिषी जिम नारकी ति
म जाणिवो वेमानबनी प्र० । गीयमा अत्येगदया जाणइ पासइ चा० अत्येगए नजाणइ नपासइ चा० । हेगीतम केनलाणक जाणे देखे वाहारे
केतलाएक नजाणे नदखे वाहारे । सेकिरठेण भते एवं बुचइ वेमाणिया । तेमाटे हेमगवन् इम कक्षा वेमानिक । अत्ये० जाणइ पासइ चा० तये०

श्रीवा ।

पृष्ठ ३

॥ ७७६ ॥

॥ ७७६ ॥

दि ॥ अज्ञोगनिर्वर्त्तितो यदा मन प्रखिधानपूर्वमाहारं गृह्णाति शेषकालमनाज्ञोगनिर्वर्त्तितं स च लोभारो वसातव्य एवं शोपाशानपि शीवा
नानाज्ञोगनिर्वर्त्तितो उनाज्ञोगनिर्वर्त्तितं आहारो जावनीय , नवरमकेन्द्रियाणा मतिस्तीकापटुननोद्वयलाव्यसपन्नत्वात्, यदुतर आशो गो नोपजा
यते इति तेषा सर्वदा नाज्ञोगनिर्वर्त्तितं एवाहारी नपुन कदापिद व्याज्ञोगनिर्वर्त्तितं अपुना दायंमाणपुद्गलविषये ज्ञानदर्शने चितयति-नेरइ
याशइत्यादि ॥ नैरपिका शमितिविवाक्यालकारे अदन्त । यान् पुद्गला नाहारतया गृह्णाति जगवानाह-गीतम । ज्ञान त्यवधिज्ञानेन लोभाहारतया
तेषा मतिस्सूक्ष्मेन नारकावधे रविषयत्वात्, न च पश्यति चतुरिन्द्रियविषयाज्ञात्वात्, हीन्द्रिया न जानति मिथ्याज्ञानतया तेषा सम्यक्परि
ज्ञानाज्ञात्वात्, हीन्द्रियाणां चि सत्यज्ञान तदपि चास्पष्टनन प्रक्षेपाहारमपि न ते स्वयं गृह्यमाणमपि सम्यक् जानति न च पश्यति चतुरिन्द्रिया
ज्ञात्वात्, एव त्रीन्द्रियाण्यपि ज्ञानदज्ञानविकला जावनीया , चतुरिन्द्रिया ॥ अत्यगइयति ॥ सत्येकले स्वयं गृह्यमाणमव्याहारप्रक्षेपजनरूपमपि न
जानति मिथ्याज्ञानित्यात्, तेषामपि हि हीन्द्रियाणामिव सत्यज्ञान तदपि चाविस्पष्ट मिति, चतुरा पुन पश्यति चतुरिन्द्रियसद्भावात्, त
यादि-पश्यति मक्षिकादयो गुहाटिकमिति एव साहारयति तथासत्यकले चतुरिन्द्रिया ये न जानति मिथ्यात्वा लघ पश्यति अन्धकारादिना
चतुर्दशो नस्य व्याहृतत्वात्, अनाज्ञोगसज्जवा हा तिर्यक्पूर्वोन्मिरथा चतुर्जगोप्रक्षेपाहार लोभाहार वाधिहृत्य जावनीया तत्र प्रक्षेपाहारम

रति । पचिदियतिरिक्कजोणियाण पुच्छा, गोयमा । अत्येगतिया जाणति पासंति आहारंति अत्येगति
या जाणति न पासति आहारति, अत्येगतिया न जाणति पासति आहारति अत्येगतिया न जाणति

न्ति न पश्यन्ति आहारयति । एव मनुष्या अपि । धानव्यन्तरत्योतिका यथा नैरयिका । वैमानिकाना पृच्छा, गीतम । सत्येकके ज्ञान
आहारं पचोद्वयतिर्वचनिकनी प्र० । गोयमा अत्येगइण जाणइ पासइ अहारइ अत्येगइण जाणइ नपासइ आ० । हेगीतम केऽ जाणे देखे आहा
रे केतला नापे न देखे आहारं । अत्येगइण नजाणइ पासइ आ० अत्ये० नवाणइ नपासइ आ० । केतलाएक नवाणे देखे आहारं केतलाएक नज

ण नते । आहारे किं आशोगनिवृत्तिरु ? अशोगनिवृत्तिरु ? गो० ! आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु
 वि । एव असुरकुमाराण जाव वेमाणियाण नवर एगिदियाण नो आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु ।
 णेरडयाण नते । जे पीगले आहारत्ताण गेरुहति ते कि जाणति पासति आहारति उदाज्ज न जाणति न
 पासति आहारति ? गोयमा । न जाणति न पासति आहारति । एव जाव तेडडिया । चउरिदिद्याण
 पुच्छा, गोयमा । अत्येगडया न जाणति पासति आहारति, अत्येगडया न जाणति न पासति आहा

स । आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु । एव असुरकुमाराण जाव वेमाणियाण नवर एगिदियाण नो आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु
 यत्तिरु । नैरियाण नदत्त । यागपुद्गलानाआरतया गृह्णति तान् कि जानति पश्यति आहारयति उदाहो न जानति न पश्यति आ
 हारयति ? गीतम । न जानति न पश्यति आहारयति । एव यावच्छीन्द्रया । चतुरिन्द्रियाण पुच्छा, गीतम । सत्येकके न जानति आ
 पश्यति आहारयति, सत्येकके न जानति नपश्यति आहारयति, सत्येकके न जानति पश्यति आहारयति, सत्येकके न जान
 के पनजाणेन नोपावे । गोयमा आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु । एव असुरकुमाराण जाव वेमाणियाण नो आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु

एव असुरकुमारने जालगी वेमानिकने कडिवा । एव एगिदियाण ना आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु । एव असुरकुमारने जालगी वेमाणियाण नो आशोगनिवृत्तिरु अशोगनिवृत्तिरु
 नदुव पनाभोग हुवे । एररायाण भते जे पीगले आहारत्ताण गेरुहति ते कि जाणति पासति आहारति उदाज्ज न जाणति न जाणति न
 ते सु नावे देखे आहारि । एटाङ्ग नजावद नपासद आहारि । आहारि ते कडिवा मनावे नदखे आहारि । गोयमानजावद नपासद आहारि ।
 हेगीतम ननावे नदखे आहारि । एव जाव तेडडिया चउरिदिद्याण पुच्छा । एव जाव तेडडिया चउरिदिद्याण पुच्छा । गोयमा अत्येगडया न जाणति न पासति आहारि ।
 आहारि अत्येगडया नपासद आहारि पश्चिदिग तिरिखिजाणियाण पुच्छा । हेगीतम अत्येगडया नपासद आहारि देखे आहारि केशेण नजावदे नदेखे

रस्य क्रमेण शरीरस्येति निर्वृत्तिता निष्पत्ति संवति ॥ तत्र शरीरनिष्पत्ते रारस्य पर्यादान यथायोग्य मगप्रत्यर्गं लभ्या
 हारादिना समतत पुद्गलादान ॥ तत्र परिणामकथा इति ॥ तत्र पुद्गलादानानन्तर तेषां पुद्गलानां परिणामन भिन्नियदिरूपतया परिणम
 त्यापादान ॥ ततोपरियारकथा इति ॥ तत्र इन्द्रियदिरूपतया परिणम त्यापादानां दूरे परिधारणा यथायोग्य ज्ञादिरूपयोपभोग तत्र यथा

याङ्गता तत्र परिणामगता तत्र विडम्बगया तत्र पक्का परिचारगया ? हता गी० । असुरकुमारा अण
 तराहारा तत्र निवृत्तगया जाव तत्र पक्का परिचारगया । एव जाव थणियकुमारा । पुढत्रिकाड्याणं ज्ञते !
 अणतराहारा तत्र निवृत्तगया तत्र परियाङ्गता तत्र परिणामगता तत्र परियारगता तत्र विडम्बगया ?
 हता गी० ! तत्रैव जाव परिचारगता नोचेत्रण विडम्बगता एव जाव चउरिदिया नवर वाडम्बगता पचि

पृथिवीकायिका जटल ! अनन्तराहारास्ततो निर्वृत्तता तत्र पर्यादानता तत्र परिणामनता तत्र परिचारगता ततोयिदुव्युत्ता ? हत
 गीतम । तत्रैव यावत्परिचारगता नैव विडम्बगता एव यावच्चुनुरिन्द्रिया नवर वायुकायिका. पञ्चेन्द्रियतियग्योनिता मनुष्या यथा नैर
 या तथापक्कापारयाणया । असुरकुमार हेमगवन् अनन्तराहारा एक शरीरनोपावे पके पुद्गले इन्द्रियनोपावे परिवारनापावे तिवारपक्क पार
 यमावे तिवारपक्के विडम्बगता करे परिचारणा करे । हता गायमा अशरकुमारा अणतराहारा तथा निवृत्तगया जाव तत्रोपक्का पारयारणया एव
 जाव थणियकुमारा पुढत्रिकाड्याणं भते अणतराहारा तत्रो निवृत्तगया तत्रो पणियाङ्गता तत्रो पारणामकथा तत्रो परिचारणया तत्रो विडम्ब
 गता । हागीतम असुरकुमार अनन्तर अत्राहारे पके शरीरनो पावे जात्रगे विडम्बग तिवारपक्के इन्द्रियनो पावे इम यावत् ज्ञानतकमार पृथिवीका
 यिक हेमगवन् अनन्तराहारा तिवारपक्क शरीर पावे तिवारपक्क उथायोग्य प्रमग पुद्गलाहारे तिवारपक्क परिणामावे तिवारपक्के परिचारमुख । नोचे
 वथ विडम्बगया एव जाव चउरिदिया एव वाचकाशया पंचादवर्तिरूजाणया मनुष्या जहा शेरया वापमतर जोडशिव वेमाणिया जहा अ

पेक्षया समुच्चये । आस्यातां तदन्तर ॥ समतस्य आदि मने इति ॥ सम्यक्साधियमो नैरयिकादिचतुर्विंशतिदृक्कामेषु चिदनीय ॥ तस्य
परियारणाय वोपवा इति ॥ तत कायप्रवीचारादीना मल्पबहुत्वनामप्रधानोय निर्देशो उपबहुत्व वक्तव्य, चक्रति यथोद्दिता निर्देश इति प्र
थमतो जनन्तराताहारवक्तव्यता मन्निधितसु रिदमाह-नैरयया जते । इत्यादि ॥ नैरयिका अनितियाकालकारे, जटन्त । परमकल्याणयो
तिन् परमसुखयोगिन् वा अनन्तरसुपपातकप्रमसिसनयमव आहारयती त्यन्तराहारा इति ॥ ततो निवृत्तयया इति ॥ ततो नन्तराहारयया दा

हारा ततो निवृत्तयया ततो परियाडणया ततो परिणामयया ततो परियारणया ततो पच्छा विडहण
या ? हता गीयमा ! णेरडया अणतराहारा ततो निवृत्तयया ततो परियाडणया ततो परिणामयया
तत्त परियारणया तत्त पच्छा विडहणया । असुरकुमारानं जते ! अणतराहारा तत्त निवृत्तयया तत्त परि

रयता तत्त पद्याद्विकुर्वणता ? गीतम् । नैरयिका अनन्तराहारास्ततोनिर्वर्णिता तत्त पर्यादानता तत्त परियामनता तत्त परिचारयता
तत्त पद्याद्विकुर्वणता । असुरकुमारा जटन्त । अनन्तराहारास्ततोनिर्वर्णिता तत्त पर्यादानता तत्त परियामनता ततोविकुर्वणता तत्त प
द्यात्परिचारयता ? इत्त गीतम् । असुरकुमारा अनन्तराहारास्ततोनिर्वर्णिता यावत्त पद्यात्परिचारयता । एव यावद्वान्निक्तुमारा ।

तिवारपछे गरीर नीपजावे । ततो परियाडणया ततो परिणामयया ततो परियारणया ततो पच्छा विडहणया । तिवारपछे यथायोग्य प्रसंग
पुत्रलोहारने तिवारपछे परिणमावे तिवारपछे परिवारसख भोगवे तिवारपछे लब्धिवशयो नानारुप विकुर्वणाकरे । हता गीयमा णेरडया मणत
राहारा ततो निवृत्तयया ततो परियाडणया ततो परिणामयया ततो परियारणया ततो पच्छा विडहणया । इतीतम नार
को अनन्तराहार तिवारपछां गरीरनीपजावे तिवारपछे इन्द्रियनी पावे तेठामछे लोमाहारा तिवारपछे परिणमावे विषय उपभोग उपाले तिवार
पछे नानाप्रकारे विडुर्वणा करे । असुरकुमारोण भते अणतराहारा ततो निवृत्तयया ततो परियारणया ततो परिणामयया ततो पच्छा विडहण

तदेवमुक्तं प्रयत्नितं शतम पदं वर्धते चतुर्लिं शतमभारज्यते अम्यथायमप्रिसंस्थस्य इहानन्तरपदे शानपरिधानविशेषो ऽथचि कृत्तो ऽतु परि
 यामसाया त्रेदपरिणामिजप प्रवीचार प्रतिपाद्यत इति तत्र च च ११३३ यतोपयग्राहिक इमे गाये-अथतराशरत्वादि ॥ प्रथममनतरा
 गताशरको नैरयिकादि वंक्तव्य , तदन्तरमाए-आयशाडात ॥ आशरानोभोगता आदिशब्दा द्वाशराऽनालागता च वक्तव्या ॥ यथा नैरज्याग
 जन्ते । आशरै कि आभागनिधिसिप इत्यादि ॥ तथा योगलाभेव जायति ॥ इति नैरयिका आशरतया र्णीतान नैर जागती त्यादि चतुयि
 शक्तिदककमप वक्तव्य ॥ त्रकवसायति ॥ आयिपति ॥ तदनकर नैरयिकादीना क्षणेगाध्ययवानानि सूने सुपिगनिर्देश प्राकृतत्वात्, च पूर्वो

इति छिन्दपदं तैत्तीसं सम्मत्तं ॥ ३३ ॥ ॥ ॥

अणतरागयाहारे आहारिजोयणार्हया । पांगलेनेवजाणति अल्लवसाणंयञ्च्युहिया ॥ १ ॥ सम्मत्तस्सञ्च
 हिगमे तमुपरियारणायवीथया । काण्फासेरुत्रं सद्देयमणंयञ्च्यञ्चवज्ज ॥ २ ॥ णेरडयाण जन्ते । अणतरा

ध्यायरासचद्रगक्षिप्यामानकषद्रत्रिधिते प्रद्यापानागटे प्रवीपिपदं त्रयसिं शतमं समाप्तम् ॥ ३३ ॥

अनन्तरागताशर आशरानोभोगतादिषु । पुद्गलान्निवजानन्ति अथ्यवसानानवार्तितानि ॥ १ ॥ स्यक्तसाधिगमलातप्रपरिचारणाशयोदुःया ।
 कायैरपुर्णरूपं शब्देवमनस्यस्यसु ॥ २ ॥ नैरयिका प्रदन्त । अनन्तराशरा सतोनिर्वर्तिता स्तत पर्योदानता परिगलनता तत परिचा

जिम तारको तिम । पशुदशाए आशोपव मयत । इति प्रद्यापना भगवतीनी त्रवधिषट तैत्तीससो सयास धवो द्विये ॥ ३३ ॥
 अणतरागयाहारे आशरिभावधारया । पांगलोवजाणति अल्लवसाणंयञ्च्युहिया । १ । अणतराशर आया वसो चाशर आशरानोभनानि पुद्गल
 नोच जाणे अथ्यवसाय कडिवा । ययातम्रश्रदिम तत्तापत्विारणावयाधया । काण्फासेरुत्रं सद्देयमणंयञ्च्यञ्चवज्ज ॥ २ ॥ स्यक्त साधिगतसङ्घित तिवा
 रपछा परिवारकर्तुवा कायसर्गं रूपं यद्द मम प्रत्यबुद्धल । २ । णेरडयाण न्ते अणतराशरा ततो निवक्तवया । तारकीनी हेमयवन् आन्तराशर

वदुद्विच्छिन्न वलयरूपावकवरियाण उदाहृतं मुद्गं गो हे ठारुतेन हीवीरिनणुतु । पुष्पसिंहावलिरयया चगेरीपुष्पचगेरी ॥ जवनालिउत्तिज्जइ उ
 क्षीरकच्छुत्तुं कुमारीय इति ॥ अनेन च सस्थानप्रतिपादनेने देमावेदित द्रष्टव्य , व्यन्तराणा मुद्गे प्रज्जुतोवचि वैमानिकाना मधोज्योतिष्कनारका
 या तियक्त्वाचिगे नरतिरियासाह-प्रवणवडवणसरण उक्तं वुद्गोशरापसस ण । नारगजोडसियाण तिरियत्तरालिउत्तिवित्ते ॥ १ ॥ तथा नैरयिक
 जवनपतिअन्तरज्योतिष्कवेमानिका तथाजवस्वाजाव्या दग्धे नंध्यवत्तिनो न पुन वडि . किमुक्क भवति सुवत प्रकाशिलसाहूर्णवघयो अंतलि न
 तु स्पद्दंकावघयो विखित्तावघयोवा तिर्यक्त्वाचिद्वियास्त्ववघेत्तनंविद्यते किंतु वडिरत्राप्यप ज्ञावार्थे -तिर्यगपचेद्विया स्तथाजवस्वाजाव्यात् ,
 स्पद्दंकावघयो विखित्तापातरालमर्धतः प्रकाशवघयो वा प्रवर्त्तन् स्पद्दंकाद्यपयगेत्तिजाव , देजावघिसर्वांवाचिस्ताया मनुष्यवज्जो सर्वापि दे
 ज्ञावघयो , मनव्यास्तु देजावघयोपि जवन्ति सर्वावघयोपि परसावघेरोप परसावघेरोप तया सम्भवात् , आनुगामिकादिचित्ताया नैरयिकनहनपतिव्यन्तर
 ज्योतिष्कवेमानिका आनुगामिकाप्रतिपात्यवस्थिताऽवघयो नत्वा नानुगामिका वद्दमानहीयमानप्रतिपात्यनवस्थितावघय स्तथाज्जस्वाजाव्यात् ,
 तिर्यक्त्वाचिद्वियाणां त्वष्टवावधिदिति ॥ इतिश्री मलयगिरिविर्षितायाऽत्रयस्त्रिंशत्तम पद अथथास्य समाप्तम् ॥ ३३ ॥

वाइं अत्रठिए नोअणवठिए । एवं जात्र थणियकुमाराणं । पचिदियतिरिक्कजोणियाण पुच्छा , गोयसा !
 अणुगामिएचि जाव अणवठिएचि । एव मणुसाणंति । वाणमतरजोडसियवेमाणियाणं जहा णेरइयाणं ॥

नोवद्दंमानको नोहीयमानको नो प्रतिपात्यप्रतिपात्यवस्थितो नोऽनवस्थित । एव यावत्स्तनितकुमाराणा । पञ्चे द्वियतिर्यग्यानिकाना पुच्छा ,
 गौतम । आनुगामिकापि यावदनवस्थितोपि । एव मनव्याणामपि । वानव्यन्तरज्योतिष्कवेमानिकाना यया नैरयिकाणाम् ॥ इतिश्री मद्रुपा
 कानगे स्तनितकमार । पचिदिय तिरिक्कजोणियाण पुच्छा । पचेदोतिवच्चगानिचनो प्र० । गोयसा अणगामोए जाव अणवठिएचि एवं मणुसावि
 थाणमतर जोडसिय वेमाणियाण जहा णेरइया । इगौतम मनुगामिक जालग अणवस्थित पिण इम मनुष्येने पिण वानव्यन्तर ज्योतिषी वेनानिक

ही । एव जाव यणियकुमाराण । पचिदियतिरिक्कजोणियाण पुच्छा , गोयसा । देसोही नो सद्दोही ।
 मणुस्साण पुच्छा , गोयसा । देसोहीवि सद्दोहीवि । वाणमत्तरजोडसियवेमाणियाण जहा णेरडयाण ।
 णेरडयाण जते । उही कि छ्याणुगामिए छ्याणुगामिए पवहुमाणए हायमाणए पछिवाडए छपछिवाडए
 छ्यत्रठिए छ्यणवठिए ? गोयसा । छ्याणुगामिए नो छ्याणुगामिए नो बहुमाणए नो पछिवाड्हे छ्यपछि

म । दशावधयो नोसर्वावधय । एव पाठस्तनितकुमारका । पचेद्वियतिययोनिक्काना पुच्छा , गीतम । देगावधयो नो सर्वावधय । मनु
 व्यासो पुच्छा , गीतम । देशावधयोपि सर्वावधयोपि । वानव्यन्तरज्योतकवैसानिकाना यथा नैरयिकाणाम् । नैरयिकाणा मदत्त । अथपि
 कि छानुगामिकोनानुगामिक मवहेमानको हीयमानक प्रतिपात्यप्रतिपात्ययत्सितोऽन्यस्थित ? गीतम । छानुगामिको नो छानुगामिका

पेरयाण भत कि दनाडा सत्वाडो । नारको हेभगवन स्तु दयथो अवधि कि सर्वथो अवधि । गोयसा दयाडो ना सत्तोही । हेगीतम दयथो एवे मयं
 थो नडा एव जाव यणियकुमारा पचिदियतिरिक्कजोणियाण पुच्छा । इस जालग स्तनितकुमार पचेद्विवतिययानिकनो म० । गोयसा देसोही
 गोसत्तोही मयप्याण पछा । हेगीतम दयथो एव सर्वथो न एव मनुयनो म० । गोयसा देसोहीवि सत्तोहीवि । हेगीतम दयथो अवधि सर्वथो अवधि
 पिण । वाणमत्तर जोऽसिद वनाणियाण जहा णेर-या । वानव्यन्तर ज्योतियो वैमानिक जिय नारको । णेरयाण भते यानि कि मणुगामो यणायु
 गामो वडसाथो होयमाणो पछिवाड पपछिवाड अवधि हेभगवन अवधि मनुगामिक लीचननोपरे सायेयावे सणानगामिक
 सायेयावे सणानवधनी जाने वहेमानो कै घटन । जान होनमानो प्रतिपातो शार्थ्याजाय प्रप्रतिपातो साखो नजाय प्रवस्यत यावत् लीचनपयन्त तथा
 पछि एवे । गायसा मणुगामो नोप गाणगमोण नोप गाणगमोण नोपहिवाड नोपहिवाड प्रवद्विग नोपहिवाड एव जाव यणिय
 कुमारा । हेगीतम मनुगामिकपुत्रे पिण मनुगामिक नहो वहेमानो नहो होनसानो नहो प्रतिपातो प्रवस्यत इवे नहो प्रवस्यत इय

रीरस्थानसंस्थित, अनुसरीपयातिक्रमेवानां कर्त्वाधोलका परंपर्यायजत्रमीनिकांशम्यानसंस्थितं तथाप्यत् प्रकारादीना व्याख्यानानिद प्राप्यकदा
इ-तत्पण्यसमागरी तस्यागरीशयायत्तयो । उद्गायतोपप्लो उर्वरिर्विशिकापसंयतो ॥ नक्षायतोसमोविय पडभोदेहोवरपइतीसो ॥ यत्ना

स्युतो वाहि ? गोयमा ! स्युतो नो वाहि । एव जात्र थो गेयकुमाराणं । पचिदियतिरिख्जोपिनाणं
पुच्छा, गोयमा ! नो स्युतो वाहि । ननुस्साण पुच्छा, गोयमा । स्युतोवि वाहिवि । वाणसतरजोडसि
यत्रमाणिनाणं जहा णेरडयाण । णेरडयाण जेतं । कि देसोही स्योही ? गांयमा ! देसोही नो उद्यो

वाना पच्छा, गीतम । जनु सुदसुआरसंस्थित प्रपन्न । गमन्य देवानाम् । त्रैवेवत्तवाना पच्छा, गीतम । गुप्पवारिवागस्थानसंस्थित
त प्रपन्न । अनुसरीपयातिक्रमेवाना पच्छा, गीतम । यवनागलकाम स्युतोव प्रपन्न । नैरयिका प्रदत्त । त्रयथ किमल्लो वाहि ? गी
तम । सल्लो ना वाहि । एव यावत्सन्निजुमाराणाम् । पंचद्विपर्याययानिकता पच्छा, गीतम । नो जल्लो वाहि । ननुय्याथा पच्छा,
गीतम । सल्लोपि बहिरपि । वानस्यत्तरज्योतिक्रमेनामिकाना यथा नैरयिआयान् । नैरयिजा प्रदत्त । कि दसापचय सधोवपय ? गीतम

दगाव नदिल्लगदेवप पुच्छा । हेगीतम कचा मादकनेससान इम ससु देवतान पिप नैवेवकटगताना प्र० । गोयमा पक्षचंगेरि स० अणुत्तरीववा
इवाण पुच्छा । हेगीतम पुष्पवगरीतरान हवे अनुत्तरवाधाने प्र० । गारमा कवातिरसठाथमठिया चोडि प० । हेगीतम तुनागनिका कव्याव
सुजो तेहन चाकारं ससान प्रवधि हुवे । अरयाण भत त्रोटि कि अतो वाहि । गारकोण सुमगवर्ी अत्रधिप्राा स्सु यथप्रत्यय भरो नाडि वाहिर ।
गीयमा त्री नो वाहि एव जात्र थपियकमारा पाचदियतिरिख्जोपिनाण पच्छा । हेगीतम नाडिंवे वाहिरहुवे यथप्रत्ययतो इर जालनी स्तनित
कुमार पंचेन्द्रतिर्ययीनिकनो प्र० । गोयमा नो अतो वाहि मसुस्साथ पुच्छा । हेगीतम नडोमाहि हुवे याहिर हुवे, मणुयना प्र० । गीतम मणि
वाहिवि वाणसतर जीदसिय नेमापिया बहा अरया । हेगीतम नाडि पिपहने वाहिर पियहने वानयत्तर ज्योतिपो देसानिक जिम नारको ।

धारविशेषं सद्योऽपि उपरिचक्षिंस्त्विति । पर्वद्वयतिर्यग्योनिकानां मनुष्याणां च नानार्थस्थानसंस्थितो यथा स्वयङ्गुसशोढरी मरत्या ,
 यद्यपि तत्र मरत्यानां जलयाकारसंस्थानात्प्राक् तिर्यग्मनुष्यावधिस्तु तदपि प्रवर्तते उक्तञ्च-गाण्यारातिरियं सप्तसुमन्त्रासयजुर्मन्त्रात् । तस्य
 पलयनिर्यदु तस्सपुणवलयपराज्जाहि ॥ व्यतराणां पट्टसंस्थानसंस्थित पट्टञ्च आतोद्यविशेषं सच किंपिटापयत उपयथैव समप्रमाणं , ज्योति
 क्रदेयानां कर्त्तरीसंस्थानसंस्थित कर्त्तरी पर्वोवनसुविस्तीर्णवलयकाकारा आतोद्यविशेषरूपा देवविशेषप्रसिद्धा , शीघ्रमववादीनामभ्युत्तदेवपर्यन्ता
 ना मृदङ्गसंस्थानसंस्थित मृदङ्गो धाद्यविशेषं सवाचस्मात् विस्तीर्णं उपरिच तनुक् सुमतीत , शीघ्रकदेवानां यद्यितपुण्यवर्षिणाकल्पवर्षाद्गौ

संठिए पश्यते । एव मणसाण वि । वाणमतराण पुच्छा , गोयमा ! पक्रहसंठाणसंठिए पश्यते । जौ
 डिसियाण पुच्छा , गोयमा ! ऊह्ररिसंठाणसंठिए पश्यते । सोहम्मगदेवाण पुच्छा , गोयमा ! उठमड
 गागारसंठिए पश्यते । एव अञ्जुयदेवाण । गेवेज्जयदेवाण पुच्छा , गोयमा ! पुष्कचगेरिसंठिए पश्यते ।
 अणुत्तरोववाइयाण पुच्छा , गोयमा ! जवनाडियासंठिए उही पश्यते । णेरडयाण जते ! उहिरस कि

नैरयिकाणां प्रदत्त । किं सस्यतोयचिं प्रदत्त १ गीतम् । तत्राकारसंस्थित प्रदत्त । अस्तुरकुमाराराणां पुच्छा , गीतम् । पत्यञ्चस्थानसंस्थित
 त प्रदत्त । एव यावत्स्तानितकुमाराराणां । पत्येन्द्रियतिर्यग्योनिकानां पुच्छा , गीतम् । नानासंस्थानसंस्थित प्रदत्त । एव मनुष्याणां अपि
 धानव्यन्तराणां पुच्छा , गीतम् । पट्टसंस्थानसंस्थित प्रदत्त । ज्योतिष्काणां पुच्छा , गीतम् । कर्त्तरीसंस्थानसंस्थित प्रदत्त । शीघ्रमर्कदे
 नितञ्जुमार पचेऽत्र तिर्यग्योनिकानां प्र० । गोयमा आयासंठाणसंठिया प० एवं मणसाणि भावि० । हेगीतम नानाप्रकारानो मरत्या कश्चो इमं न
 नुष्यत पिण वानव्यन्तरानो प्र० । गोयमा पट्टमठाणसंठिया प० ऊरिसियाण पुच्छा । हेमगवन् पडहो मरत्याने कश्चो ज्योतिषानो प्र० । गोयमा भक्त
 रसंठाणसंठिए प० सांद्मगदयाण पुच्छा । हेगीतम कर्त्तरीसंस्थान कश्चो शीघ्रमर्कदेवतानो प्र० । गोयमा उड्यामुवगा संठाणसंठिए एव अणुव

नन्दारमाह-नेरइयाणमित्यादि ॥ तप्यागारसठिणत्ति ॥ तप्रोनाम काष्टसमुदायविद्योपी यो नदीप्रवाहेण हाव्यमानो दूरादानीयते सचायत
 ल्यल्लथ प्रवति तदाकारस्यतोवपि नाकांषा , अरुरकुमारदीना सर्वपामपि प्रवनपतीना पल्लकसत्यानसस्थित पल्लकोनाम लाटदंशधान्या

यमा । जह० झुगुलञ्चसखे० ज्ञागं उक्त्तो० अहे सप्तमाए पुढवीए हेठिल्ले चरिमंते तिरियं जाव अ्सखे
 ज्जदीवसमुद्दे उट्ट जाव सयाइ विमाणाइं उहिणा जाणति पासति । अणुत्तरोववाइयटेवाण ज्ञते ! के
 वइय खेत्त उहिणा जाणति पासति ? गीयमा ! सन्नित्तलोगनालि उहिणा जाणति पासति । णरइयाणं
 ज्ञते । उही कि सठिए पयत्ते ? गीयमा ! तप्यागारसठिए पयत्ते । असुरकुमाराणं पुच्छा , गीयमा !
 पल्लगसठिए ! एव जाव थणियकुमाराण । पचिठियतिरिक्कजोणियाण पुच्छा , गीयमा ! नाणासठाण

समाया पणियथा अथक्कन चरमान्त । तियग्यावदसण्येगन्हीपसमुद्रान् , कट्टे यावत्सर्कीयानि विमानानि अवधिना जानन्ति पइयन्ति ।
 अणुत्तरोपपातिका देवा जदन्त । कियत्त इवसवधिना जानन्ति पयन्ति ? गीतम ! सन्नित्तलोकनाही अवधिना जानन्ति पयन्ति ।

अभयुवेयकना देवता नीच जालगी छिशेनरकप्रथिवी तंइ कंइडासगे देखे जपरिका अवेयकदेवतानो इभगवन् कतली प्र० । गीयमा जइ० अगुल्लस
 प्रस० इ० अइसत्तमाणपुठोण जाव अस० दीवसमुने उट्ट जाव सवाइं विभाणइ चोइयाण जाणइ पासइ । इगौतम जवन्त्य अगुल्लनो असख्यात
 इ० नीचे सातमौना छइजानगी केइछ तिरक्का जालगी असख्याताइोपसमइ क्कवा थापनाविमान ताई अवधि जाके देखे । अणुत्तरोववाइवदवाए भ
 ते के० । अनुत्तरवासीएवनी इभगवन प्र० । गीयमा सपुण लोक्कनालि चोइयाण जाणइ पासइ । इगौतम सपूर्ण लोक्कानल अवधि जाणे देखे । केर
 इयाण भते चोइए एक साठण । नारकी इभगवन् अवधि इण्डकसखान कट्टो । गीयमा तप्यागारसठिण प० अमरकमारारणं पुच्छा । इगौतम थापा
 नो आकार कल्लो अमुरकुमारनी प्र० । पल्लसठिण प० एव जाव थणियकुमारा पचिठियतिरिक्कजोणियाणं पुच्छा । पात्तानोसखान इम जालगी स्त

यथा २ भित्तिद्विमासादपति तथा २ लोके सूक्ष्मान् सूक्ष्मतरान् रमन्वान् पश्यति यावदन्ते परमाणुमपि उक्त्व-शामस्यमेतमुत्तं दृष्टव्यमप्यद्वे
 क्षापच्छक । नेउतततत्यः च्छिज्जउसोख्खिनिवधणोउज्जिउं ॥ बहुतोपुण्यं हि लोगत्यथयपासईदवु । सुहुमयर २ परमोहीजावपरमाणु ॥
 इत्यत्रूतपरमावधिकलिनश्च नियमा दन्तमुद्दत्तन क्षयलात्ताक्षक्ष्मी मालिगति यन्त्रक-परमोहिनाद्यावज्ज कंबलमतोमुद्दत्तमेतेषु इति । वेमा
 निजाना यत् जपत्यपदे उदुलाखरययतागप्रमाणं संवृत्त तत्र पर आह-नन्यगलासुरयजागमाहृप्रपरिमितो ऽर्थाथ सवत्रघयो जयति
 सवत्रघनपद्यावधि स्तिपयन्नुय्येद्यव न ज्ञेयेषु यत् आह-त्रायकत् स्वकृततीयाया-उरुष्टो मनुष्येषु मास्येषु मास्युपितयग्योनिधेव क्षययो
 नास्येषु ज्ञेयाणा मध्यम मवेति तत्कथयित् सर्वत्रघन्य उक्त ? उच्यते-सौचमोद्दववाभा पारजायिकोप्युपपातकाले ऽर्थाथः सप्तवति स्य
 कदाचि स्वधनघनयोपि उपपातानतर तु तद्गज स्ततो न काश्चि द्वापः २ आह-दु समाचकारनिमनाजनप्रवधनप्रटीयो जिननद्रापित्तमा
 ग्रमण-वमाणियाणमगुल ज्ञानमसराहृणुहोइ । उववागपरिजविउ तद्गजोहोइतापच्छा ॥ उहु जावसगाइ विमाराइति ॥ ऊर्द्ध याव रत्य
 कीयानि विमानानि स्वकीयविमानस्तूप्यत्रादिक यावदित्यर्थं ॥ परिपूणवतुदंशरउगालिका लोकनालीमिति सत्या

जाव पचमाए धूमप्यजाए पुठवीए हेठिल्ले चरिमते । हेठिममज्जिमगेवेज्जागदेवा अहे जाव लठीए तमाए
 पुठवीए हेठिल्ले चरिमते । उवरिमगेविज्जागदेवाण जते ! कंवतिय खेत्त उहिणा जाणति पासति ? गो

देवा अथो यावत्यन्वमायाधूमप्रजाया पृथिव्या अचक्षुन चरमान्त । अथस्तनमध्यमैवेयकदेवा अथो यावत्पह्लास्तमाया पृथिव्या अप्यस्त
 न परमान्त । उपरिमगेवैयकदवा जदन्त । कियन्त चामवचिना जानन्ति पश्यन्ति ? गीतम । सप्येनादुलासखेयजागमुरक्यन्तोऽथ सु
 पद्मपमापृथिव्या त छेइडे देखे यान्त प्राणत चारण गच्छइदवता । अहे जाव पचमाए धूमप्यभाए पुठवीए डेइसुत्तरमाते हेइम नांइग गोवज्जगट
 वा अहे जाव छठीए तमाए पुठवीए हिंइल्ल चरमाते उवरिम गविज्जागदेवाण भते कं० । गोचे जालिगे पचमो नरकनेहेइदवता ॥ अत्रवि देखे हेठवा न

१०५ ।

१०६ ।

१०७ ।

१०८ ।

णति पासति ? गोयमा । जहन्तेण अंगुलस्स अस्खेज्जज्जाणं उक्खो० अहे जाव इमीसे रयणप्पत्ताए
 पुढवीए हेठिह्से चरिमते तिरिय जाव अस्खेजे ढीवसमुहे उहु जाव सयाड विमाणाड उहिणा जाणति
 पासति । एव इंत्ताणगंढवावि । सणकुमारदेवावि एवचेव नवर अहे जाव दोच्चाए सक्खरप्पत्ताए पुढवीए
 हिठिह्से चरिमते । एव माहिदगंढवावि । वन्नलोगउतगदेवा तच्चाए पुढवीए हिठिह्से चरिमते । महासु
 क्खसहरारदेवा चउत्थीए प्पकप्पत्ताए पुढवीए हिठिह्से चरिमते । अणयपाणयच्चारणअच्चुयदेवा अहे

विपन्त द्रवमधयिना जानन्ति पश्यन्ति ? गौतम । जघयेनाइलत्यासस्येय प्रागसुररूपतोपो यावदस्या रत्नप्रज्ञाया पृथिव्या अथस्तन चर
 मात्त । तिरिय्यावदसस्येयान् हीपसमुद्रान्, कहे यावत्सखीयानि विमानानि अवयिना जानन्ति पश्यन्ति । स्वसीजानदेवा अपि । सन
 रकुमारदेवा अप्येवपेव नगर मघो यावद्धितोयाया शर्करामज्ञाया पृथिव्या अथस्तन चरमात्त । एव सान्हेन्द्रदेवा अपि । त्रल्लोनीदेवारत्त
 तीयाया पृथिव्या अथस्तन चरमात्त । महाशुकसस्सरदेवा सतृथ्यो पट्टप्रज्ञाया पृथिवया अथस्तन चरमात्त । आनत्तमायत्तारणाच्चुन

समुद्र जाणे दखे सीधर्मकल्ल हेमगवन् केतसा देखे । गायमा जहं अगुलस्य असं० छं अहे जाव इमो से रयणप्पत्ताए हिठिह्से चरमते तिरिय जाव
 अथविज्जे समुहे उहुट जाव मयाइ विमाणाइ सोत्थिपाण जाणइ पासइ । हेगौतम जघय अगुलनी असख्यात्तसंभाग छं हेठे काली तिरिछां जा
 नी अरुक्खाता हीपममद्र जघो जाननी पाताना विमानघरी अवधि जाणे देखे । एव इथाण्टेवावि सयक्कनार देवाणवि एवचेव एवर जाव नहेदे
 याए संत्तरप्पत्ताएपुढवीए हेठिह्से चरमते एव माण्डेग देवाटि वभलोव नत्तकटवा तच्चाए पुढवीए हेठिह्से चरमाते । इम इमानदेवताने पिय हीमह
 ज पयिंयप जाननी नीचे दूवी शर्करप्रभा ठठनी छेइलो जाणे देखे इम माहिन्द्रेवना पिय त्तमनीक नान्त्तकना देवता बीजानरत्त ते हेठने छेइउ
 ताइ । महासुखसहसा सादेवा चउत्थीए पक्कप्पत्ताए पुढवीए हेठिह्से चरमते थाण्ट पापय चारण अणयदेया । महाशुक सहस्सरदेवता बीवीनरत्त

येषा सर्वत्रपत्न्यं दशवपसद्वलप्रनाशमाशु स्तोत्रां द्रष्टव्याणि । न श्रेयाणां माहं च सार्थकृते-पखवीसजीयणाद् दत्तवाससहस्त्रियातिङ्जेविमिति ॥

णति पासति । तमापुढाविपुच्छा, गीयसा ! जहसेण गाडयं उक्कोसेणं टिवहु गाउधं उहिणा जाणति पासति । अहे सत्तसाए पुच्छा, गीयसा ! जहस्य अरुगाउय उक्कोनेणं गाउय उहिणा जाणति पासति । असुरकुमारार्णं जते । उहिणा केशतिय खेत्तं जाणति पासति ? गीयसा ! जहन्नेण पणत्रीस जीयणाडं उक्कोस अस्खिजे दीवसमुहे उहिणा जाणति पासति । नागकुमाराण जहन्नेण पणत्रीस जीयणाइ उक्कोसेण अस्खंजे दीवसमुहे उहिणा जाणति पासति । एव जाव थोणयकुमारा । पचिदियतिरिक्कजाणि

त वररुपंत खाडं प्रवचिना जानन्ति पश्यन्ति । अथ सत्तसाया. पुच्छा, गीतम । अथन्वमदु गय्यतमुररुपतो गच्छुतमवधिना जानन्ति पश्यन्ति । असुरकुमारा जदन्त । अवधिना क्रियन्त क्षेत्र जानन्ति पश्यन्ति ? गीतम । अथन्वत पन्थायश्रितियोजनानि वररुपंतोऽसस्व्येयदीपस मुद्रानयिना जानन्ति पश्यन्ति । नागकुमारा अथन्वत पन्थायश्रितियोजनानि वररुपंतोऽसस्व्येयद्रोपसमुद्रानयिना जानन्ति पश्यन्ति । एव यावस्तानितकुमारा । पद्येन्त्रियतिर्ययोगिनिका प्रदन्त । क्रियत वररुपंतियता ज्ञानन्ति पश्यन्ति ? गीतम । अथन्वमदुरासस्व्येयत्रागनु

क ४०. गाउय श्राद्धिणाण जा० पा० । हेगीतम अथन्व श्राधागाज ४०. उक्काकं जाणे दखे । असुरकुमाराण भते केवययत्त श्राद्धिणा ण जाणद पा सः । असुरकुमारने हेमगवन् प्रवधिसेव जाणे दखे । गोवसा जह०. पणवोसजायण ४०. अन्तिउजे दीवसमद श्राद्धिणा ण जाणद पाणद । हेगीतम ज वन् २५ याजन व०. असत्थाना दीपसमुद्र प्रवधि जाणे दखे । नागकुमाराण जह०. पणवोस जीयण ३०. सर्पुजे दीवसमुहे श्राद्धिणा ण जाणद पास द । नागकुमार प्रमगवन्त अथन्व २५ गीजन व०. तस्वाता दीपसमुद्र प्रवधि जाणे दखे । एव जाव थिविकुमारा पासदिय तिरिक्कजोणियाण भत केवय खत श्राद्धिणा ण जाणद पासद । इमं जालग खनितकुमार पचिन्त्रियतिर्ययोगिना प्रमगवन् केतखेवेन प्रवाव जाणे देखे । गोयसा जह०

स्वपदीरुष्टपदविषयसंग्रहिके इमे गाये-अद्वैतसिद्धिप्रबन्धः इया इदोन्नियदिवद्वैतसंग्रहमेव । अन्वयगतसंग्रहस्य ॥ १ ॥ पत्तारि
गाउयाइ अद्वैताइतिगाउयच । अद्वैताइत्यादोन्निय दिवकमेवचनिरपसु ॥ २ ॥ प्रथमपर्वतव्यक्ताराणा जपव्यपदे यानि पर्वतव्यक्तियोजनानि तानि

सक्तरप्यन्नापुढविणेरडया जहन्तेण तित्ति गाउयाड उक्कोमण अरुठ्ठाड उहिहा जाणति पासति । बालु
यप्यन्नापुढविणेरडया जहन्तेण अह्हाइज्जाइ गाउयाड उक्कोसे० तित्ति गाउयाइ उहिहा जाणति पासति
परुप्यन्नापुढविणेरडया जहन्त टोसिह गाउयाइ उक्को० अह्हाइज्जाइ गाउयाइ उहिहा जाणति पासति ।
धूमप्यन्नापुढविणेरडयाण पुच्छा , गोयमा । जहन्तेण दिवद्वैत गाऊय उक्कोसण टो गाउयाइ उहिहा जा

गळूतानि अवधिना जानति पश्यन्ति । बालुकाप्रज्ञापुषिचीनेरपिका जपव्येन साद्वानि गळूतानि उरुपंतलीणि गळूतानि अवधिना जा
नन्ति पश्यन्ति । पद्मप्रज्ञापुषिचीनेरपिका जपव्येन उरुपंत साद्वानि गळूतानि जानन्ति पश्यन्ति । धूमप्रज्ञापुषिचीनेरपिका
या पुच्छा , गौतम । जपव्येन साद्व गळूत , उरुपंतते अवधिना जानन्ति पश्यन्ति । तमाया पुच्छा , गौतम । जपव्येन गळू

स । यकरप्रभप्रथिवीना नारकी कतला अत्रधि इभगवनु जाये देखे । गोयमा जह । तिणियाऊय आदिवा य जाणइ पासइ । इगोतम जवन्त इ गा
ज अत्रविधान जाये देखे । उक्कोमण अद्वैत गाउय आदिवा य जाणइ पासइ । उरुकट साठगोन गाऊ अत्रधि जाये देखे । बालुगळूतमपटवी येर
इया जह० अद्वैताइत्याइ गाउयाइ अत्रधि य जाणइ पासइ । बालुप्रभाप्रथिवीना नारकी जम जवन्त अद्वैतगाऊ जाये देखे । उक्को० तिणि
गाऊ पक्षमपुढविणेरडयाय चइ० टोसिहगाऊ । उ० ३ गाऊ पद्मप्रभाप्रथिवी नारकीनी जवन्त दोयगाऊ । उ० अद्वैताइत्याइ गाउया० धूमप्यमपु
टवी येरडयाय जह० दिवद्वैत गा० उ० टोसिहगाऊ । उ० अद्वैताइत्याइ धूमप्रभप्रथिवीना नारकोने जवन्त दोयगाऊ उ० टोसिहगाऊ । तमपटवी येरडयाय
जह० गाउय उ० दिवद्वैतगाऊ० अद्वैतमाए पुच्छा । तमप्रभाप्रथिवीने जवन्त एकगाऊ उ० टोसिहगाऊ इठनी वातमीनी प्र० । गोयमा जह० अद्वैत

दीवा ॥

१२

१२

१२

तथा न आनुगामिकी ऽनानुगामिकी श्रुत्याप्रतिबद्धप्रतीतिः षड्य योगच्छत पुरुष आनुगच्छभीतिप्रावः, तदेव अधिकारप्रतिपादनाय द्वारगायोप
 ल्यस्ता' सम्प्रति ययोद्देश निर्देश इति त्यायात् प्रथमतो भेदप्रतिपादनार्थमाह-कह्वविष्ठाक प्रत । इत्यादि ॥ कतिविधो भेदत्वावधि प्रज्ञप्त "
 सूत्रे स्त्रीत्वनिर्देश प्राक्तत्वात्, प्रगवानाह-नौतम । द्विविधो वधि प्रज्ञप्त स्वद्याया-प्रवप्रत्ययिक स्वयोपशान्तिक य, तत्र प्रवन्ति कर्मयज्ञवर्ति
 न प्राणिनो ऽस्मिन्निति प्रवो नारकादिकल्प "पुत्रास्त्रीति श्वेधिकरणं घञ् प्रत्यय " प्रव सध प्रत्यय कारण यस्य स प्रवप्रत्यय प्रत्ययगच्छेत्
 कारणपर्याया वसन्ते, प्रवप्रत्ययशङ्कारणत्वे प्रत्ययः शपथज्ञानहेतुविद्यासन्निधये इति सएव स्वार्थिक कप्रत्ययविधानात् प्रवप्रत्ययिक, तथा ॥
 पित्रानाग्रणीपस्य कर्मण उभ्याश्लिकाप्रविष्टस्याज्ञस्य वेदेनेन यो ऽपगम स चयानुदयावस्यस्य विवाकोट्याविक्रमशमुपज्ञप्त स्वयापज्ञानय ज्ञ
 योपज्ञप्तौ ताज्या नित्यत स्वयोपज्ञामिक "वशाद्री स्वगतानेकजदसूचकी, तत्र तु यो येया प्रवति तत्तयामुपदशयति-दागदमित्यादि ॥ द्रया जी
 वसूचयो जैवप्रत्ययिक, तथा देयाना य नारकाणा च देया प्रवनपतिव्यतरज्यासिद्धिर्भासिकमेदा सुतुयिधा नारका रत्नप्रजादिपुष्यिजदा रस
 सविधा ' वशाद्री प्रत्यय स्वगतानेकजदसूचकी " तेषानकजेदाविपयस्यस्थानचिन्ताया मग्रे स्वयमेव सूत्ररुतैर्वापदशयिष्यत व्या-नन्वयधिज्ञान
 ज्ञायोपज्ञामिके प्रावे वसन्ते नारकादिजव स्त्रीदयिके तरकय देवादीना मवधिज्ञान प्रवप्रत्ययमिति व्यपदिश्यते, नैप दीयो यत सादपि परमा
 यत ज्ञायोपज्ञामिकमेव क्वेवल स ज्ञायोपज्ञप्तो देवतारकजवेसु वश्यन्नावी पक्षिणा गगनगमनलधिश्चिरव ततो प्रवप्रत्ययचिति व्यपदिश्यते " आह
 च-नद्यध्ययनचूणिकृत्-ननु-उही खनुवसमिठं चैव नारगादिप्रवो, से उददय प्रावे तठे कह प्रवपषडइ, प्रलइ उच्यत-सोवि, स्वउवसमिठं चैव

तजहा-देवाणय णैरइयाणय । दोरह खनुवसमिया तजहा-मणुसाणं पचिदियतिरिक्तजोणियाणय । णैर

विधा प्रज्ञप्ता तद्यथा-प्रवप्रत्यया च ज्ञायोपज्ञामिका च । द्वयो णं प्रत्ययिका तद्यथा-देवाणा च नैरयिकाणा च । द्वयो ज्ञायोपज्ञामिका तद्य

म वेगति ते भवप्रत्यय नवधि ते कहे । देवाणय णैरइयाणय दाणइ खयोवसमिठ त । देवतान नारकांने वेगतिने ज्ञायोपज्ञप्तम ज्ञुग जपवे ते कहे । म

तावति क्षेत्रे काले च यानि द्रव्याणि तानि जानातीति ज्ञावतो उनत्तान् पर्यायान् पर्यायान् प्रतिद्रव्य जघन्यपदेपि चतुर्णां रूपरसताम्यस्पर्शरूपा
 णा पर्यायाणां सवगमात्, टीपल्लवे दुर्गुणिय सद्ब्रजद्वयपिच्छय तेउअन्याइयाचउरो इतिवचनानात्, द्रव्याणां घानन्तत्यात् । अत ऊर्द्धतु प्रदशवृ
 द्धा समयवृद्ध्या च प्रवर्द्धमानो ऽवधि मध्यमो वेदितव्य स च तावत् यावत् सर्वोत्कृष्टपरमावधि न ज्ञवति सर्वोत्कृष्टपरमावधि द्रव्यत सर्वाण
 रूपद्रव्याणि जानाति क्षेत्रतो लोकोलोकमात्राणि खडानि कालतो ऽनीतानागताद्यासरयेया उत्सर्पण्यवसर्पिणी ज्ञावतो उनत्तान् पर्यायान् प्र
 तिद्रव्य स्वययानामसस्येयाना च पर्यायाणां सवगमात् " उगदद्य पेच्छ स्वयमशुभापज्जप्रसस । उक्तोसमससज्जे सरुक्केपेच्छपक्कोइ । इति वचना
 त्, तत्र स्वत्रयस्यो मध्यमद्य देशावधि सर्वोत्कृष्टस्तु परमावधि सर्वाधि तथावपे त्रयवृद्धी वक्तव्ये किमुक्त भवति होयमानत प्रवृद्धमानक
 थावधि वक्तव्य इति, तत्र तथाविधसामग्रजावत् पूर्वोक्तस्थातो हानिमुपगच्छन् हीयमानक " उक्तस्व-हीयमाणय पुद्धानवत्यातो अहोहोइसस सा
 थति, प्रवृद्धमानको बहुतरन्त्यनप्रक्षेमादिनि वर्द्धमानउवालाकलाप इव पूर्वोक्तस्थातो ययायोग प्रज्ञान्त २ तराध्यवसायवक्तव्य, तत्र प्रतिपत्तनसो
 रा प्रतिपाती य उत्पन्न सन् छयोपज्ञानानुरूप किपटकाल स्थित्वा प्रटापःइव सामस्येन विदुस मुपयाति, अथ हीयमानकप्रतिपातिनो क इ
 ति विशेषेण उच्यते-हीयमानक-पूर्वोक्तस्थातो योधो हानि मुपगच्छ तन्निधीयते प्रतिपाती तु निर्मूलमेककाल विदुसमुपगच्छाकिति, तथा न प्रति
 पाती अप्रतिपाती य न कवलक्षानाहातमरशातरतोवा त्रजामुपयातीत्यर्थ, तथा गच्छत पुरुपभासमता दनुगच्छतोत्येव शील मानुगामि आनु
 गामोगा गुगामिनः "स्वार्थक प्रत्यय, अथवा अनुगाम-प्रयोजन यस्य स आनुगामिक-लोचनवत् आगच्छत मनुगच्छति सोवधि रानुगामिक,

उहो पश्यता ? गोयमा । दुविहा पश्यता, तजहा-त्रवपञ्चडयाय खनुवसमियाय । दोरह भवपञ्चडया

नेदोविषय सस्यान मयन्तरवाद्यदेशया-वधे इयवृद्धी प्रतिपात चेवाप्रतिपाती ॥ १ ॥ कतिविधा अदन्त ऽश्रवधि प्रच्छसा ? गीतस । हि

गत इत्यभिधीयते तथा सुगम एतयो यथा पृथगो इस्तेन प्रियमाकाशा दीपिमया पृष्टत मय पश्यत्येव येनावधिना पृष्टत मय सन्नेप्यान्वसरयेषा
 नि वा योजनानि पश्यति स पृष्टतोवगतो येन तु पाद्यन गमतो द्वान्या वा सस्येयानि या योजनानि पश्यति स पार्श्वोर्गत इति उक्तम्,
 नन्वध्ययो-पुरतोत्तरगतमथ पुरतोचय सख्यार्ण वा असख्यार्ण वा जोषणाश् जाण्ड पासः मगतीर्तगमथ उत्तिनाकोण मगगुत्तम
 इत्यादि ॥ मध्यगत इत्यत्रापि त्रिधा व्याख्यान इह मध्य प्रसिद्ध दन्तिवत् तत्राल्प्रदशाना मध्ये मध्यवर्तिद्यात्मप्रदशानु गत स्थितो मध्यगत
 अथ च स्पष्टं कुरुपस्यटिगुपलभकारण मध्यवर्तिना मात्मप्रदेशाना मध्यवर्तिना सर्वेयामप्यात्मप्रदशाना जायोपक्षमत्रार्थेव श्रीटारि
 यदारीरमध्यमार्गेणोपलक्ष्य स्तम्भे गता मध्यगत , उक्तम् नन्वध्ययनयुक्तो-वर्णालयसरीरमज्जे फलङ्गुविसुद्री वा सद्य
 विषोवस्तनगतं मज्जगतोति प्रकः इति, अथवा तना धिना यदुद्योतित क्षेत्र सर्वांशु दिशु तस्य मध्य मध्यजाने स्थितो मध्यगत अवधिज्ञा

निनस्तदुद्योतित क्षेत्र मध्यवर्तित्वात्, आश्च पूर्णिकदेव-अथवा उवलद्विरसो मज्जमगतोति अतोवा मज्जगती उद्गी प्रकः इति,
 इह व्याख्यानत्रयेपि यदा अवधिनाद्योतित क्षेत्र मध्यमता सम्बद्ध प्रतीति तदा सोऽन्यन्तरावधि र्गत सर्वदिगुपलचक्षेत्रमध्यवर्तित्वात्, यद्यत्
 न ग्राह्योऽन्यन्तरावधावस्यान्तर्भावात्, यदा तु तदुद्योतित क्षेत्र मपान्तराले व्यवच्छिन्नत्वा दवधिमता सम्बद्ध न प्रतीति तदा वाऽन्योऽवधिरेपे
 इ ग्राह्य प्रस्ततस्यात् ॥ तथा दसोद्गी इति ॥ देशावधि वंक्तव्य उपलक्षणमेतत् प्रतिपत्तन्नुत्सर्वावधिश्च अथ किस्वरूपो देशावधि कि स्वरूपो
 वा सर्वावधि रिति, उच्यते-इहावधि स्थावधौ प्रवर्तति तद्यथा-सर्वत्रयस्यो मध्यम सर्वांशुत्वात्, तत्र य सर्वजन्य स द्रव्यतोऽनन्तानि तेजस
 प्रापणातरालवर्तिनि द्रव्याण्य क्षेत्रतोऽङ्गुलस्येयजग क्षेत्र कालतोऽतोतममागत चावलिकाया सख्य जग, इहावधि क्षेत्र काले च स्वरूपत
 साक्षात् ज्ञानाति तयो रमूर्तित्वा दवधिश्च रूपिष्वधि रिति वचनात्, इह क्षेत्रकालदर्शनमुपधारसो यदितथ्य किमुक्त प्रवत्ये

चे दुच्यते-ःप्रावाचिरुत्तद्यमानं, कोपि स्पष्टंरूपतयोत्पद्यते स्पष्टंके च नामावधिज्ञानप्रज्ञाया गवाक्षिज्ञानादिद्वारविनिर्गतप्रदीपप्रज्ञाया इव प्रति
 नियतो विच्छेदविशेष स्तथावाह-जिनद्रुगणित्तमानमन स्योपज्ञादीकाया स्पष्टकनधधिक्षेदावज्ञाप इति ॥ तानि च एकज्ञीयस्यास्ययानि न
 यन्ति मत्त चक्त-“मूलावज्ञप्रथमपीठिकाया पंक्त्यायज्ञसूत्रा विद्युग्रीवस्मृतिः” तानि च त्राचत्ररूपाण्य कानिचि स्पर्यवर्तिष्यात्मप्रदेशेषु रप
 द्यन्ते तत्रापि कानिचित् पुरत कानिचित् पृष्ठतः कानिचि तथा ज्ञाने कामान् दुपारतनजाग कार्निचि भ्रम्यवर्तिष्यात्मप्रदेश इवचि उपजाय
 ते स प्रात्मन पर्यन्ते स्थित इति कत्वा अन्तर्गत इत्यभिधीयते तैरव पर्यन्तवर्तिज्ञ रात्मप्रदेशे साक्षा दवर्षोपात्, अथवा श्रीदारिकशरीरस्या
 ते गत स्थितोत्तर्गत श्रीदारिकशरीरमपिकृत्य कटाचि दक्या दिशोपलम्भात्, इदमपि स्पष्टंरूपमवधिज्ञान, अथवा सर्वेषा मप्यात्मप्रदेशा
 ना क्षयोपज्ञानावेपि श्रीदारिकशरीरस्याते कयाचि देक्या दिशा यदज्ञा दुपलभ्यते सोप्यन्तगत आह-यदि सर्वेषामप्यात्मप्रदेशाना क्षयोपज्ञान

स्तत सर्वत कि न पश्यति ? वच्यते-यर्कादिज्ञेव क्षयोपज्ञानसम्भवात्, विविश्रोष्ट देशाद्यपेक्षया देशाना क्षयोपज्ञान तत सर्वेषामप्यात्मप्रदेशा
 ना नित्यनूतनव स्वसामग्रीयज्ञात् क्षयोपज्ञान सर्वतो यदीदारिकशरीर मपेक्ष्य कयाचि द्विवक्षितया एकया दिशा पश्यतीति' तथाचोक्त नन्द्य
 प्यनपूर्णा-उरालियशरीर तदियनयतिगृहत्वा ॥ अप्यप्यग्राह्युगा वदियगदिसोवत्तज्जु ॥ अयतनयमोहितान् जनइ अस्वास्वद्वप्यसेत्तु
 विशुद्धेसुवि उरालियशरीरगतेण एगर्तासिपासगवति अतगयति ज्ञानइ इति ॥ एष द्वितीय स्तृतीय पुनरय एकादिगुणादिना तेनावधिना यदुद्यो
 तित क्षेय तस्यान्त वर्तते ऽयधिज्ञानगत सूदन्ते वक्षमानत्वात्' ततो ऽत एकादिगणस्यावधिचिपयस्य पर्यन्ते गत' स्थितो त्तर्गत इति अन्तर्गत
 द्यावधिः त्रिधा तद्यथा-पुरतोत्तर्गत पृष्ठतोत्तर्गत, तत्र यथा काश्च त्पुरुषो हस्तागृहीतया दीपिकया पुरुत प्रेर्यमाणया पुरतए
 व पश्यति नात्यत्र एव यनावधिना तथाविधक्षयोपज्ञानप्रज्ञाः पुरत एव मध्येयानामनेपानि वा तेषामनेपानि वा तेषामनेपानि वा तेषामनेपानि वा

सृष्टित्वचित्तमशिक्षणं संन्युज्ज्वल एव यदि परं कर्मसंयोगशमाद्भवति नान्यथा अतएवाय मतिदुर्लभो गीयते प्रगल्भः । अय कथमवसीयते न तिरश्च ॥ तथाचेष्टमानानामप्यातर चारित्रपरिणाम उच्यते-केवलज्ञानाद्यश्रवणात् यांदि हि तिरिद्यामपि चरणपरिणाम सम्भवेत् क्षिप्रत् कदाचित् कस्याचिदुत्कपेता भावतो मन प्रयायज्ञान केवलज्ञान वा श्रूयते तयो चारित्रपरिणामनिश्चयनत्वात् न च श्रूयते तस्मा देवसीयते न तेषा चारि त्रपरिणाम उक्तञ्च-नमहद्वैयसङ्गावे विचरणपरिणामसप्ततोत्तसि । नचदुग्गशाणपिजले केवलसंप्रयपरिणामो ॥ तद्भावो समयतपदरहिता ज्ञेया स चारत्या असयता असयतपदसहिता जयति नञोपसङ्गिता ॥ इतिश्री मलयगिरिवरिषिताया० द्वात्रिंशत्तम पद समाप्तम् ॥ ३२ ॥ तदेव मुक्त द्वारिंत्रगतम पद सम्प्रति त्रयच्छिञ्जतममारब्धते, अस्यायमभिस्वय च इदमन्तरपद चारित्रपरिणामविज्ञेय समय प्रतिपादित इहतु ज्ञानपरिणामविज्ञेय खलवपि प्रतिपाद्यत इत्यनेन सयचेनायातस्या स्याद्विषयमधिकारमाह-अयविसयेत्यादि ॥ अयचि रवचिज्ञानस्य प्रागुनिरूपितशब्दायस्य प्रथम जदतो धकत्र्य स्ततो विषय स्तनतर सस्थान अयचिना द्योतितस्य ज्ञेयस्य यस्तत्रादिरूप आकारविज्ञेय सोऽव चिनियचन इत्यवर्षे सस्थानत्वेन व्यपटिश्यते, तथा द्विविधो ऽवचि वृक्तस्य सद्यथा-अल्पन्तरो बाध्यत त यो ऽवचि सर्वासु दिक्षु स्वद्यात्यङ्गे न प्रकाशयति अवचिमता च स च सातत्वेन तत स्वद्योत्पञ्चेन सयद् सोऽन्यन्तरावचि रंतद्विपरीतो यास्यावचि स च हिवा तद्यथा-अन्तर्गतो नप्यगत य, अथातर्गत इति क शब्दाद्य उच्यते-एह पूर्वाचार्येप्रदक्षित मयंत्रय अन्ते आत्मप्रदेशाना पर्येतं गत स्थितोक्तर्गतः, कात्र जावनेति

नेद्विसयसठाणे अस्मितवाहिरैयदेसोही । उहिस्सयखत्रयुही पछिवायचेत्रपछिवादी ॥ कइविहाण जते !

शियनानकचद्रुते प्रज्ञापनानुवादे द्वात्रिंशत्तम पद समाप्तम् ॥ ३२ ॥ * ॥

भेटविसयसठाणे अस्मितवाहिरैयदेसोही । आहिवखत्रयवट्टा पाठवादेवअपठिवाइ । १ । भेट पूर्वे कडा तेषिय १ सस्थान २ अभि तर ३ दाद्य ४ देयअवधि ५ प्रवधिसय जाय ते ६ वार्त्तिक ७ प्रतिपावो न अप्रतिपावो ८ । १ । अद्विविहाण भते श्रीही प० । केतलभटे हेभगवन् भवविकेष्टो । को

काश्च संवताजीवां स्तथैव मनुष्याय किमुक्तं प्रवर्ति शीघ्रपदे मनुष्यपटे च यतानि त्रीण्यपि पदानि घटते न घटते इत्येव परमेतत् सूत्र म
 न्यथा शीघ्रपदे त्रितयप्रतिषेधरूप-धतुर्गमपि पद घटते, एव यथोक्तं प्राक् तथा स्यतरहिता उपलक्षणमेतत् त्रितयप्रतिषेधरहिता च त्रिषेच
 स्तिषेण्वेषेद्रिया आह-कश्च स्यनपदेरहिता स्तिषेण्वेषेद्रिया यावता तेषामपि स्यतत्त्व सुपपद्यते एव तथाहि स्यतत्त्व नाम निरवद्यतरयोग
 प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकं तच्च निरवद्येतरयोगेषु प्रवृत्तिनिवृत्ती तिरयामपि सन्नवतो यत् शरमकालेपि धतुर्बिंधस्याप्याहारस्य प्रत्याख्यानं कृत्वा शु
 नेषु योगेषु वर्त्तमानं दृश्यते अथ च सिद्धागते तत्र २ देशे महाब्रतान्त्व्यात्मन्यारोपयत श्रूयत, उक्तञ्च-तिरियाण्वारितं निवारिततत्त्वमद्यहपुणो
 तसि । सुषुप्त्युपयाण्विषये महद्यारोवकसमम् ॥ तदेतदयुक्तं सम्यग्भक्तत्वापरिमानात्, स्यतत्त्वमिह निरवद्येतरयोगप्रवृत्तिरूपं मातरश्चारितं
 परिणामानुपमवगतव्यं नक्षीप तत्र तेषां कृतवतुविधाशरप्रत्याख्यानानामपि, महाब्रतान्त्व्यारोपयता प्रवणपरिणाम उपपायते । स

सिद्धा नोसर्जया नोऽसृजया नोसर्जया २ ॥ गाहा ॥ सजयञ्चसजयमीस गायजीवातहेवमणुयाय । संज
 यरहियातिरिया संसाञ्चसजयाहोति ॥ इति, पञ्चवणापु, वक्षीसतिम पदं सम्प्रत ॥ ३२ ॥

अस्यपता नोसबतास्यपता । वानव्यन्तरज्योतिकविमानिका यथा नेरयिका सिद्धाना पृष्ठा; गीतम । सिद्धा नोसयता नो अस्यपता नोसयता
 सयता । गाथा-सयतासपतमिन्ना यजीवास्तथैव मनुजाश्च । सयतरहिता स्तिषेण्व शोपा अस्यपता सति ॥ इति श्रीमदुपाध्यायारामचन्द्रगण

ना प्र० । गीयमा सिद्धा नोसजया नोऽसृजया नोसजया २ नोसजया अथि असजय मोसाणव जोषा तदेव मणुयाय सजगरहिता तिरि
 गासेवा अस्यपताहोति । हेगीतम सिद्ध सयतनहो अस्यतनहो सयतासवतनहो नहोसवत नहोस्रमयत नहोस्रमयत एवै नित्यहोवे जीव तिमहो
 ज मतथ जाण्विवा सयतरहित तिर्यञ्च ह्वे वाकता अस्यत ह्वे ॥ प्रवणवणपु सजयासजयपव वक्षीसम सयत ॥ इति मन्नापना निधान्तसाहि सयता
 सयत वक्षीससोपदः समाप्त थयो ॥ ३२ ॥

तदेव मत्त मे कत्रिज्ञान पद, अधुना द्वात्रिंशत्तम षट्मारज्यते तस्य धायमन्निर्धय इहानन्तरपदे सञ्चिपरिणाम उक्त इएतु चारित्रपरिणा
सविज्ञाप सयम प्रतिपाद्यते सयमो नाम निरवद्यतरयोगप्रवृत्तिनिवृत्तरूप तत्रचेदमादिमूत्र-जीवाण जने । इत्यादि ॥ सयच्छतिस सवसाव
द्ययाग्रेण्य सय्यगुपरमत्तिस अर्थात् निरवद्ययोगेषु चारित्र्ययोगेषु अग्रयता हिंसादीना देज्ञतो निवृत्ता सयतासयता त्रितयप्रतिषेवाविषया सिद्धा कयामिहिवे
द्विषादिपापस्थाननिवृत्ता इत्यय , तद्विपरीता अग्रयता हिंसादीना देज्ञतो निवृत्ता सयतासयता त्रितयप्रतिषेवाविषया सिद्धा कयामिहिवे
दुष्यते-वक्तनिह सयतोनाम निरवद्यतरयोगप्रवृत्तिनिवृत्तरूप स्तत सयतादिपर्योगो योगाश्रय सिद्दाय जगवक्तो योगतोता शरीरमनसोनावा
इत स्तितपयातपचविषया एवच सामान्यतो जीवपदचतुष्टयमपि घटते तथावाह-गोयमेत्यादि ॥ गौतम । जीवा सयता अपि यावत् नासयता
२ अपि सिद्धाना त्रपस्यापि प्रतिषेधात् , षट्विंशतिदरुक्स्वाणि सुगमानि , अत्रैव सयइच्छिगाया साह-सयतेत्यादि ॥ सयता प्रवयता भिन्न

स्कृजोगियाण पुच्छा, गीयमा । पचिद्वियतिरिस्कृजागिया नोमज्जया अरजतावि सज्जया २ त्रि नो नो
सज्जया नोश्चसजयानीसजया २ । मणुस्साण पुच्छा, गीयमा । मणुसा सज्जयावि अ्सजयानि सज्जयावि २
नोसजया नोश्चसजयानीसजा २ । वाणमतरजोडसियत्रेमाणिगया जहाणरडया । सिद्धान पुच्छा, गीयमा !

असयता नोसयतासयता २ गौतम । नैरयिका नो सयता असयता नोसयतासयता नोसयता नोसयता नोसयतासयता । यत्र वा
वञ्चतुरिद्विया । पञ्चेद्वियात्तयंयोग्योनिकाना पुच्छा, गौतम । पञ्चेद्वियतियग्यानिका नोसयता असयता अपि सयतासयता अपि नोसय
ता ना असयता नोसयतासयता । मनुष्याणा पुच्छा, गौतम । मनुष्या सयता अपि असयता अपि सयतासयता अपि । नोसयता नो
गायमा मणुस्सा सज्जयावि सज्जया २ वि ना सज्जया नाशसज्जयावि वाणमतर जोडसिय वेमाणिगया जहा षेरया सिहाण पुच्छा । हेगो

तम मनुष्य सयत पिण असयत पिणह्वे सयतासयत पिण नोसयत नोसयत नोसयत पिण वातयन्तर व्यातिथी.वेमानिक जिम गारकोनोपरे कइवो सिह

जीवाणं ज्ञते । किं सजयां अ्संजया सजयासजया नोसंजया नोअ्संजया नोसंजयासजया ? गोयमा !
 जीया संजयात्रि अ्सजयात्रि सजया२ वि नोसजया नोअ्सजया नोसजयासजयात्रि । णेरइयाण ज्ञते !
 किं सजता अ्सजया सजया२ नोसजता नोअ्सजता नासजया२ ? गोयमा । णेरइया नोसंजया अ्स
 सजया नोसजया२ नो नोसयता नोअ्सजता नो नोसजया२ एव जाव चउरिदिद्या । पचिदिद्यतिरि

असञ्चिन । ज्योतिर्ष्वैमानिका सञ्चिन ॥ इति श्री मटुपाध्यायारामचन्द्रगण शिष्य नामकचद्र विरचिते प्रज्ञापनानुवादे एकानत्रिंशत्तम
 पदं समाप्तम् ॥ ३१ ॥ * * * ॥ * * * ॥
 जीया जदत्त । किं सयता असपता सयतासयता नो सयता नो असयता नोसयतासयता ? गौतम । जीवा सयता अपि असपता अपि
 सयतासयता अपि नो सयता नो असयता नोसयतासयता अपि । नैरयिका जदत्त । किं सयता असयता सयतासयता नो सयता नो

सदो । पणवथापय समस्त । इतिप्रज्ञापना भगवतोमाह चरमोपट सज्ञापद समाप्त थयो । ३१ * * *
 शिष्ये समयपट कहेछे—जीवेष भते किं सजया असजया नोसजया नोअ्सजया नोसजयासजया । जीवने हेभगवन् समयपायथी निवत्ते तेहथी विप
 रौतेने असयत समवपदे नहोसयत नहोअ्सयत नहोसजयात्रि असजयात्रि नोसजया नोअ्सजयात्रि नोसजयासजयात्रि
 णेरइयाण पुच्छा । हेगौतम जीव सगतहुवे असयत पिण नमयत नअ्सयत नसयतासयत पिणहुवे नारकौनो प्र० । गोयमा नोसजयाअ्सजया नोस
 जया नोअ्सजया नोसजयासजया एव जाव चउरिदिद्या पाचटयतिरिअ्सज्योविद्या नोसजया असजयात्रि सजयासजयात्रि नोसजया नोअ्सज
 यत इम श्रीरिग्नय पचेदियतिवचगोनियाता प्र० । गौतमा पचिदिद्यतिरिअ्सज्योविद्या नोसजया असजयात्रि सजयासजयात्रि नोसजया नोअ्सज
 जयाण तथि मटुसाण पुच्छा । हेगौतम पचेदियतिवचयोनिक्कन नहो सयत असयत पिण सयतासयत-पिण नोसयत नोअ्सयत नहुवे मनुज्जनों प्र० ।

ज्ञावात्, द्वन्द्वियादीनां तु विशिष्टमनोवृत्तौ कोहि द्वीन्द्रियादौ वर्तमानिकभैवाथ शब्दादिर्क्ष कूपतया संविदिति न श्रुत प्रावितश्रुति, केजली
 सिद्धोन्नयप्रतिषेधपदः, केवली हि यद्यपि मनोद्वयसम्यक्ताम् तथापि नतै रसौ श्रुतजवद्भावित्वावस्थावपर्यालोचनं करोति किन्तु हीपस
 कलानदज्ञानावरणत्वात् पर्यालोचनमतरंशैव कवलज्ञानेन च साक्षात्समस्त ज्ञानाति पत्रयति च ततो न सञ्जी नाप्यसञ्जी सकलकालकालाकलाप
 व्यर्थस्वनसस्तद्व्यपर्यापप्रचसाक्षात्करणप्रयच्छानसमन्वितत्वात् सिद्धा अपि न सञ्जीद्वयमसोप्यज्ञावात् नाप्यसञ्जी सर्वश्रुत्वात् तदेव सामान्य
 तो जोषपद साञ्जनोऽसञ्जनश्च तस्यते इति जयति जगवान् तथैव प्रतिशमाचानमाह-गोयमेत्यादि ॥ जीवा सञ्चिनोपि नैरयिकादीना सञ्चिन
 तावा दसञ्चिनोपि पृथिव्यादीना मसञ्चिना ज्ञावात्, नोसञ्चिनो अयञ्चिनोपि सिद्धकवलितानामपि ज्ञावात्, यतानेत्र चतुर्विंशतिर्यत्तदक्रमेण
 चित्तयति-नैरइयाणमित्यादि ॥ इह ये नैरयिका सञ्चिप्य तस्यद्यत्ते ते सञ्चिनो व्यवाप्तये इतरस्वसञ्चिन सच नैरयिकाणा कवलितज्ञावो न च
 दते चारित्रप्रतिपत्त रसम्भावात्, तत उक्त-नैरयिका सञ्चिनोप्यसञ्चिनोपि, नोतोसञ्चिनो असञ्चिन. ॥ मणुसा जहा जीवति ॥ मनुष्या प्राक्

मारा जाव अणिसकुमारा । पुढविकाड्याण पृच्छा ? गोयमा ! सखी इयसखी नोइयसखी एत्रं जाव
 चउरिदिया मणुस्ता जहा जीवा । पचेदियतिरिक्कजोणिया वाणमतरा जहा णेरडया जोइसिय वेमाणिया

काया पृच्छा, गीतम । नैरयिका सञ्चिनोप्यसञ्चिनोपि । नोतोसञ्चिनो नो नोअसञ्चिन । एव अतुरजुमारा यावत्स्तन्निकुमाराः । पृथि
 वीकायिकाना पृच्छा । गीतम । नो सञ्चिना नो असञ्चिनो नो नोसञ्चिनो नो नोअसञ्चिन । एव यावद्द्वन्द्वियवतीन्द्रियचतुरिद्रिया अपि । मनुष्या

सरकुमार जातगे स्तमितकुमारताई पृथिवीजायनां प्र० । गोयमा जोसणो असणो जोसणी नोयत्तपो एव जाय चउरिदिया मणुसा जहा जोया प
 विदितिरिक्कजाणिया वाणमतरा जहा चेरया जोरिषि वेमाणिया सखी नोपसणी सिद्धाण पृच्छा । द्वीपम सञ्चिनो नो असञ्चिनो नो नोसञ्चिन
 हो पसणी रम जानगे पीरिन्द्रिय मनुष्य विम लीव तिम जाणिवो पचेदियतिरिक्कजाणिया वाणमतरा जम नारकी तिम ज्योतिषो वेमाणिक सञ्चिन

सूत्राणि श्रावणीयानि, ननु यदि ज्ञानदर्शनं साकारानाकारतया पृथगेव व्यवस्थापितविषये तत इदं मायात यदा ज्ञानवान् केवली रत्नप्रजाटिक
 साकाराद्यज्ञावेन परिच्छिनत्ति तदा सपश्यतीत्येव वक्तव्यो न जानातीति सत्यमेत तयाचाह-केवलीण जते । इम रयणप्यन्न पुढवी छयागारेरि
 छरेकहिं इत्यादि ॥ मायो भावितव्या स्तुमस ॥ इतिश्री मलयगिरिविचिताया प्रज्ञापनाटीकाया त्रिज्ञातम पद समाप्त ॥ ३० ॥

रयणप्यन्न पुढवि छ्यागारेहिं जात्र पासड न जाणड ? गोयमा ! छ्यागारे से दसणे नत्रड सागारे से
 णाणे नत्रड से तेणठेण ? गोयमा ! एव वुच्चड--केवलीणं इम रयणप्यन्न पुढवि छ्यागारेहिं जात्र पास
 ड न जाणड एव जात्र ईसिप्यन्नारं पुढवि परमाणपुगल छ्यणतपरिसिय खध्र पासड न जाणड ॥ परस

नैवमुच्यते-केवलीमा रत्नप्रज्ञा पृथिवीमनाकारैर्योवत्वयति न जानाति ० गीतम । अनाकार तस्य दर्शनं प्रवर्तित साकार तस्य ज्ञानं प्रवर्तित
 तत्तेनार्थेन गीतम । एवमुच्यते-केवलीमा रत्नप्रज्ञा पृथिवीमनाकारैर्योवत्वयति नो जानाति । एव यावदतीपरप्रमाणज्ञारापृथिवी । परमाणुपुद्ग
 ल यावदनन्तप्रदेशिक स्वरूपं पश्यति नजानाति ॥ इतिश्री मद्रुवाध्यायारामधद्रगणो क्षिप्यनानकचद्विरचिते प्रज्ञापनानुवादे पश्यहापद

वर्षविना असंख्यतम अप्रमाण अप्रत्यक्षतार इत्येकरी देखे न जाणे । इतोगोयमा केवलीण इम रयणप्यन्नपुढवि अणगारेहि जात्र पासड नजाणड ।
 हागीतम केवलप्रज्ञानी ए रत्नप्रमाणप्रथिवी अनाकार जालगे देखे नजाणे । सेकेण्डेण भते ० । रस्थामाटे हेभगवन् इम कहे । अणगारेहि जात्र पा
 सड नजाणड । अनाकारि जालगे ते समय देखे नजाणे । गोयमा अणगारे से दसणे भवड सागारे सेयाण भवड । हेगीतम अनाकार तेदुगंन हुवे सा
 कार ते ज्ञानहुवे । सेतेण्डेण गोयमा ए० । तेमाटे हेगीतम इमकच्छी । केवलीण इम रयणप्यन्न पुढवि अणगारेहि जात्र पासड नजाणड । केवली ते
 इम रत्नप्रमाणप्रथिवी अनाकारि जालगे देखे नजाणे । एव जात्र इसिप्यन्नारा पुढवि परमाणुपुगल अणतपदेसिचं खध्र पासड नजाणड । इम जालगे
 शिगमिजालगे परमाणुपुद्गल अनन्तप्रदेशी खस्वमे समय देखे नजाणे ॥ पणवणए पासवणए पय सस्यत्त ० इति प्रज्ञापना भगवतोनी देपवानो पद

भामहर्षेण दर्शनमेव ज्ञानदेशने च साकारानाकारतया परस्पर विरुद्धे ज्ञायातपयोरिवितरेतराभावात्तरीयकत्वात्, ततो यस्मिन् समये जाना
 तित तस्मिन् समये पश्यति यास्मिन् समये पश्यति तस्मिन् समये जानाति सतदवाह-संश्लेषादिभिरित्यादि ॥ एतेन यदवादी हादी सिद्धयनदिवाक
 री यथा-केवली प्रगवाभ् युत्पत् जानाति पश्यतिचेति तदप्यणस्त सबगत्त्व मनेन सूत्रेण साक्षात् युक्तिपूर्व ज्ञानदर्शनोपयोगस्य क्रमज्ञो व्यव
 स्थापितत्वात्, मय ज्ञाकराप्रजावाःसुक्रामजापकमप्राधूमप्रजातम प्रजा तमस्तमःप्रजासौषमेज्ञानसन्तकुमारमाहिन्द्रप्रस्यलोकलानकशुकसहस्रारानत
 प्राणताराण्युत्कल्या । श्रैवेयकविमानाशुत्तरविमानेयत्प्रान्जारात्रियपृषिबीपरमाशुद्रुलद्विप्रदेशिकरकन्यावावदनत्नप्रदेशिकरकन्यत्रिययाण्यपि

खर्ध जाव अणतपठेसिय खध । केवलीण जतं । इम रयणप्यनापुढवि अगागरेहि अहेजहि अणवमेहि
 अण्डिठतेहि अवनतेहि अणसठाणेहि अणपमाणेहि अणपलोचारेहि पासड न जाणइ ? हता गीयमा । केवलीण
 इम रयणप्यन पुढवि अणगागरेहि जात्र पासड न जाणइ, से केणठेण जतं ! एव बुच्चइ-केवलीण इम

शमये जानाति । एवं यावदथ सप्तमा । मय सौषमेकरूप यावदप्युत्तम् । श्रैवेयकविमानान्यनुत्तरविमानानि यावदीपरप्रान्जारा पृथिवी पर
 माणुपुद्गल द्विप्रदेशिक रकण्य यावदनन्तप्रदेशिक रकण्य । केवली जटन्त । इमा इतप्रजा पृथवी अनाकारैरहेतुत्रिरनोपनेरदृष्टान्ते रवणैर
 संस्थानैरप्रमाशुत्तरप्रत्यवतारैः पश्यति नजानाति ? हन्त गीतम । केवलीमा इतप्रजा पृथिवी अगाकारैर्योत्पद्यति न जानाति । अथ केनाथ

विनाथा अपुत्तरविनाथा । ते स्वानाटि जातगे तेसमय त्वाणे इम जाल्की सातमोताइ कहिवी-स भोधमैकन्य जाल्की अशुत प्रवेवकलगी तथः।
 अपुत्तरविमानलगी कहिवी । इअणभारापृढवी परमाशुपमल दृषसिय खध जाव अणतपणसिसिखध । इधिसि सुद्धसिला पृथवीना परम,शुप्
 इमने द्विप्रदगोक्तन्य जाल्की अन्तप्रदेश रकन्य तालगी कहिवी । केवलीण भत इमरवण्यभ पुढवि अणगागरहि अहेतुहि अणुवमाहि नदिशु तेहि
 दरणोइ अणसठाणेइ अणमायेहि अणठावारेहि पासड नजाणइ । केवलीण रबप्रभा पृथिवीये आकारुविनाहेतुविना सपमाविना दृष्टान्तविना

मा रत्नप्रभा परिशिष्य व्यवस्थिता स्ते ॥ ज समयमिति ॥ कालाध्यनोर्ध्वान्निविष्यधिकरणानावपि द्वितीया ततो यमर्थ-यस्मिन् समये जानाति
 आकारादिविशेषा परिच्छिनत्ति ॥ त समयति ॥ तस्मिन् समये पश्यति केवलदर्शनविषयीकरोति जगवानाह-गीतम । नायमय समयं नाय
 मर्या यत्पुपपन्न इति प्राव । तत्वमजानान-पृच्छति-से केणठण जते । इत्यादि ॥ सद्दति ॥ अथ कनार्थेन केनप्रकारेण प्रदत्त ।
 एव पूर्वोक्ते प्रकाशोच्यते तमेव प्रकार दर्शयति-केश्वलीणमित्यादि ॥ जगवानाह-गोयमेत्यादि ॥ अस्याय प्रावार्थ-इह ज्ञानेन परिच्छिन्दन् जा
 नती त्युच्यते दर्शनेन परिच्छिद न्यवयतीति, ज्ञानस्य से तस्य जगवत साकार मन्वथा ज्ञानत्वायोगात्, विशेषानजिगृक्तानो हि वीथो ज्ञानस्य
 विशेषे पुन ज्ञानमितिबधनात् दर्शनेनसाकार निर्विशेषान्निविशेषेण गृही दर्शनं मुच्यत इतिवचनात् तत्र ज्ञान दर्शनेन च जीवस्य खण्डशो नोप
 जापते यथा कतिपयेषु प्रदेशेषु ज्ञान कतिपयेषु प्रदेशेषु दर्शन तथास्त्राज्जाख्यात् किंतु यदा ज्ञान तदा सामस्येन ज्ञानमव यदा दर्शन तदा

ज समय जाण्डु नो त समय पासड ज समय पासड नो त समय जाण्डु ? गोयमा । सागारे से नाणे
 नवड झुणागारे से दसणे नवड से तेणठेण जाव नो त समय जाण्डु एव जाव झुहे सत्तमं । एव सो
 हम्म कप्प जा झुञ्जुय । गोत्रंजगविमाणा झुणुत्तरविमाणा इंसिष्यप्लारा पुढवी । परमाणुपोग्गल दुपदेसियं

केनार्थेन प्रदत्त । एवमुच्यते-केश्वलीना रत्नप्रभा पृथिवी आकारि यस्मिन्समये जानाति न तस्मिन्समये पश्यति यस्मिन्समये पश्यति न
 तस्मिन्समये जानाति ? गीतम । साकारं तस्य (जगवत) ज्ञान प्रवति अनाकार तस्य दर्शने प्रवति तत्तेनार्थं नैवमुच्यत-यावन्न तस्मि

इम रयण्णम आगारोइ जाव ज समय जाण्डु नो त समय पासड जं समय पासड नो त समय जाण्डु । केश्वलीण रत्नप्रभापृथिवीने प्रति आकार
 करो जाली जेसमय जाणे पिय तेसमय नदखे जेसमये देखे तेसमय नवाणे । गोवना सागारे से जाणे भवद अथागारे से दसणेभवद । इगीतम
 साकार ते ज्ञान पुवे अनाकार दर्शन इवे । सेतेणठेण जाव नो तसमय जाण्डु एव जाव असेसत्तमाए एकं सोहम्मकप्प जाव अञ्जुय गेविलजग

प्रत्यप ताश्चैव रत्नप्रज्ञाया रत्नाटोनि काडानि यणविज्ञानेन कीदृशानि पद्मरीगेन्द्रसदृशानीत्यादि ॥ दिहतेहिइति ॥ दृष्टयत्न परिच्छेदो वि
 वक्षित साध्यसाधनयो सम्यक्स्याविनाशान्नाशरूपस्य प्रमाणेन यत्र त दृष्टाता तौ यथा घट स्वर्गति द्वर्गे पृथुवृषोदराद्याकारादिरूपे रतुगतपरय
 मेभ्यश्च पटादिगत्यो व्यतिरिक्त उपलभ्यत इति पटादित्य पृथक् वस्त्वतर तथैवेयापि रत्नप्रज्ञा स्वर्गतेदे रनुपक्का शर्करप्रज्ञादित्रैदेभ्यश्च
 व्यतिरिक्तेति तास्य पृथग् वस्त्वतर भित्त्यादि ॥ वक्ष्यतेइति ॥ वर्यविज्ञानेन तेषामेव वत्कर्पापरूपस्यया नक्तगुणविज्ञानेन च वणग्रहण सुपले
 क्षण तेन गहरसरवज्ञाविभागन चेति द्रष्टव्य ॥ सटाःकेइति ॥ यानि तस्या रत्नप्रज्ञाया प्रवतनारकाटीनि सस्थानानि तद्यथा-तण प्रवणा यानि च
 हा अतो वडरवा अहे पुक्त्वरकाणियासठाशसठिया तथा तेन नेरइया अतो वहा यानि चडरसा अहे सुरव्यसटाःणसठिया इत्यादि ॥ तथा ॥
 परिनायेइति ॥ प्रमाणाणि ॥ अहेत्यादि ॥ परिमाणाणि यथा असीउत्तरपीयशसयसस्सदाहल्लव्यमाणमेता आयासविक्कन्नैण भित्त्यादि ॥ प
 न्नीधारति ॥ प्रति सर्वत सामस्येन अवतीर्यते ध्याप्यते येस्ते प्रत्नवतारा स्तेषात्र पनीदध्यादिवलयया धेवितथा स्तदि सर्वासु दिक्षु विदिनु चे

वत्तोहि सठाणेहि पमाणेहि पनीयारेहि ज समय जाणड त समय पासड ज समय जाणड त समय पासड त समय
 जाणड १ गीयसा ! णो इणठे समठं । सं केणठेण मते । एव एच्चड-केवलीण डम रणणव्यन्न झ्यागारंहि

एवञ्चया यथा नैरयिका यावदुमानिका । कवली जदत्त । इमा रत्नप्रज्ञा पृथिवी साकारेहेतुजिह्वमाम्निदृष्टान्ते वंशे सस्थाने प्रमाणे प्र
 त्यवतारैर्यास्मिन् समये जानाति तस्मिन् समये पश्यति यस्मिन् समये पश्यति तस्मिन् समये जानाति ? गीतम । नायमर्थ- समयं । अथ

हि दिङ्गतेहि वंशेहि सठाणेहि पमाणेहि पडोयारेहि जसमय जाणर त समय पासड । कवली इभगवन् रत्नप्रभापृथिवीने साकारं करो हेतुदृष्टात वणे
 सस्थान प्रमाण घनाटध्यादिलक्षण एतन्ना बीन निष्काडहत घटादृष्टात २ इत्यादि जसमय जाणै तेसमय देखे । जसमय पासड तसमय जाणर ।
 जसमय देखे ते समय जाणै । गीयसा णोइणठे समठे । हेभीतम एथं समथं नृशे । अतण्णेषु अहे ए० । तेसाटे हेभगवन् इनकळी । केवलीए

सोशुभानाधरणी दशंभाधरणत्वात् यस्मिन्नेव समये रत्नप्रज्ञादिकं क्षामाति तस्मिन्नेव समये धर्ययति उते जीवस्वाप्ताव्यां रज्जुमेणेति, ततः पृच्छति ॥ केवलीण जते । इत्यादि ॥ केवलज्ञान दर्शनं चास्यास्तीति केवली, क्षामितवाक्यालरुनी जटल । परमकल्याणयोगिन्, इय प्रत्यक्षत उपलभ्यमाना रत्नप्रज्ञानिधा पृथिवी ॥ आगारेहेतोरिति ॥ आकारो अदो यथा इय रत्नप्रज्ञा पृथिवी त्रिकाडा ररकांडपकाडापकाडभेदान् ॥ रत्नप्रज्ञा इत्युच्यते तद्यथा-प्रथमं याजनसहस्रमात्रेण रत्नकाण्डं तदनन्तरं योजनसहस्रप्रमाणमेव वज्रकाण्डं तस्याप्यथो योजनसहस्रमात्रेण रत्नप्रज्ञा इत्युच्यते ॥ हेतव इत्युच्यते ॥ इत्येव उपपत्तय तापुसा कस कारणेन रत्नप्रज्ञात्प्रतीयते उच्यते-यसा तस्या रत्नमेव काण्ड तस्या द्रव्यमज्ञा रत्ना इति प्रज्ञा स्वरूपं यस्या सा रत्नप्रज्ञेति व्युत्पत्त रिति ॥ उच्यते-इति ॥ उपमा निमातमाने अस्या दुपपूर्वात् उपमितवपमा उपसर्गादा त अह

युञ्जते ? गो० ! जेण चउरिदिद्या सुयनाणी सुयञ्जनाणी तेण चउरिदिद्या सागारपस्सी, जेण चउरिदिद्या चरकुटसणी तेण चउरिदिद्या ज्ञाणागारपस्सी से तेण छेण ? गो० । एवं बुच्चुत्त-मणुसा जहा जीवा । अत्र संसा जहा णेरइया जात्र बेसाणिया । केवलीण जते ! इम रयणप्पनापुढवि अगारेहि हेतूहि उत्रमाहि ठिष्ठतेहि

चतुरिद्रिया साकारपश्यत्सिमीपि । अथ केनार्थेनैवमुच्यते-गीतम । येन चतुरिद्रिया' श्रुताद्यानि' श्रुताद्यानि स्तेन चतुरिद्रिया साका रपश्यत्सिन, येन चतुरिद्रिया शुद्धदर्शनिन स्तेन चतुरिद्रिया अनाकारपश्यत्सिन स्तत्तार्थेन गीतम । एवमुच्यते । मनुष्या यथा जीवा

यश्नारो पिपक । सेकेण्डेण भते एव वधः । तमाठ हेमगवन् इमकठे । गावमा जेण चउरिदिद्या मुग्घाणो गुग्घणापी तेणं चउरिदिद्या सागारप स्सी । हे गीतम जे चौरिद्रिय यत्तन्ननि युग्घाण ते चउरिद्रियपणी दस्से । जण चउरिदिद्याअणागारपस्सी । ज चउरिद्रिय चउरुदयनी पिप देखे ते चउरिद्रिय अनाकारपणे पिप देखे । सेकण्डेण गोथमा ऐश्वरु । तेनाठ गीतम इमकठो । मणुसा जहा जोवाचदसेया जहा णेरइया जात्र बेसाणिया । मनुष्य जिन वीच तिन ताकता निम नारकी जातगे वैमानिक । केवलीण भत इम रवणप्यम पुढे-न चउरिदि हउ

नते ! एव बुद्धि ? गीयमा ! पुढाविकाइयाण एगा सुयश्चन्नाणसागारपासण्या पणुता, से तेणठेण
 गीयमा ! एव बुद्धि । एव जाव वणस्सडकाइयाण । वेइदियाण पुच्छा, गीयमा ! सागारपस्सी ना
 ष्यणागारपस्सी । से केणठेण नते ! एव बुद्धि-गीयमा ! वेइदियाण दुविहा सागारपासण्या पणुता,
 तजहा-सुयनाणसागारपासण्या य सुयश्चन्नाणसागारपासण्याय । से तेणठेण ? गीयमा ! एव बुद्धि ।
 एव वेइदियावि । चउरिदियाण पुच्छा, गीयमा ! चउरिदिया सागारपस्सीवि । से केणठेण नते ! एव

पृथिवीकायिकाना पुच्छा, गीतम । पृथिवीकायिकानो नो अनाकारपइयत्तिन, अय केनार्थेन प्रदन्त । एवमुच्यते-गी
 तम । पृथिवीकायिकानासेका श्रुताज्ञानसाकारपइयत्ता म० तत्तेनार्थेन गी० । एवमुच्यते, एव यावद्वनरपतिकायिकाना । हीद्वियाणा पुच्छा,
 गीतम । साकारपइयत्तिनो नो अनाकारपइयत्तिन । अय केनार्थेन प्रदत्त । एवमुच्यते ? गीतम । हीन्द्रियाणा हिविवा साकारपइयत्ता म
 च्छा तद्या-श्रुतज्ञानसाकारपइयत्ता चाश्रुताज्ञानसाकारपइयत्ता च तत्तेनार्थेनैवमुच्यते । एव हीन्द्रिता अपि । चतुरिन्द्रियपुच्छा, गीत

हेगीतम पृथिवीने साकारपणे देखे पिय अनाकारपणे न देखे । सकण्डुण मते एव व० । तेमाटे इम कक्षा । गीयमा यदोकाइयाण एगासुयश्चन्नाण
 साकारपासण्या पणुता । हेगीतम पृथिवीकाइयाने एक श्रुतज्ञान साकारपणे कक्षी । सेकेण्डुण गीयमा एव जाव वणस्सडकाइया वे
 इ दियाण पुच्छा । तेमाटे हेगीतम इमकक्षी इम जावगे वनखतोकाइया वेइन्द्रियतो प्रज । गीयमा सागारपस्सी ना ष्यणागारपस्सी सकण्डुण भते
 एववचइ । हेगीतम साकारपणे देखे अनाकारपणे न देखे तेमाटे हेभगवन् इमकक्षी । गीयमा वेइदियाणं सयणाप सयपक्षाणसागारपासण्या
 प० । हेगीतम वेइन्द्रियने श्रुतज्ञान श्रुतज्ञान साबारी देखे कक्षी । सेकेण्डुण गीयमा एव बुद्धि । तेमाटे हेगीतम इमकक्षी । एवं तेइ दियाणवि चउ
 रिदियाण पुच्छा । इम तेइन्द्रियने पिय चौरिन्द्रियनो प्र० । गीयमा चउरिदियासागारपस्सीवि ष्यणागारपस्सीवि । हेगीतम चौरिन्द्रियने साकारी प

नानुसारेण स्वयं परिभाषनीय, तदेवं सामान्यतो विशेषतश्च जीवानां पश्यतोक्ता सम्प्रति जीवनेव पश्यताविज्ञानं विधितयिपुरार-जीवा
 ण जते । किं सागारपस्सी इत्यादि ॥ जीवा जीवनयुक्ता प्राणधारिण इत्यर्थः । अस्मिन्निवाक्यालकारे किंमिति प्रश्ने साकारपश्यता विद्यते ये
 पा ते साकारपश्यन्ति प्रकृतत्वात्साकारपस्सी त्युक्त ॥ मणपञ्जवनाणी केवलनाणी न बुद्धि इत्यादि ॥ नैरयिकारा चारित्रप्रतिपत्ते रना
 वतो मन पर्यवञ्चानकेवलज्ञानकेवलदर्शनानाननावात्, इह किल खट्वस्थाना साकारोनाकारयोपयोग, कर्मोपजायमानो घटते सकर्मकत्वात्
 सकर्मणा स्वभातरस्योपयोगस्य वेलाया मन्यतरस्य कर्मणावृत्तत्वात् घटते एवोपयोग इति । केषुलो तु घातिषतृयस्यया इत्यति तत सञ्चय किं

लदसणी तेण जीवा अणगारपस्सी से तेणठेण ? गोयमा ! एवं बुद्धि-जीवा सागारपस्सीवि अणगागा
 रपस्सीवि । णेरइयाण जते ! किं सागारपस्सी अणगागरपस्सी ? गोयमा ! एवंचत्र नवर सागारपास
 णयाए मणपञ्जवनाणी केवलनाणी न बुद्धि, अणगागरपासणयाए केवलदंसण नलिय एव जाव थणिय
 कुमारा । पुढविकाडयाण पुच्छा, गोयमा ! पुढवीकाडया सागारपस्सी नोअणगागरपस्सी । से केणठेण

न । एवमुच्यते-जीवा साकारपश्यन्तिनोप्यनाकारपश्यन्तिनोऽनाकारपश्यन्तिन ? गीतम ।
 एव चैव नवर साकारपश्यताया मन पर्यवञ्चानी केवलज्ञानी नोच्यते, अनाकारपश्यताया केवलदर्शन नास्ति एव यावरस्मिन्निहकुमारा ।

मा ए० जीवासागारपस्सीवि अथा० । तेमाटे हेगीतम इम कक्षा जाव साकारो पिष अनाकारी । अरइयाण भते किं सागारपस्सी अथा० गोयमा
 तचेव भा० । नारको हेमगवन् साकारपणे देखे अनाकारपणे देखे गीतम इमहेज एवलोपर । अवर सागारपस्सीए मणपञ्जवनाणी जाव केवलना
 णो न व० । एविशेष साकारने देखवो मनपर्यव केवल ए वे नकडिवा । अणगागरपस्सीए केवलदमण नलिय एव जाव थणियकुमारा षडविकारयाण
 पुच्छा ! अनाकार देखवो कवलदर्शन न कडिहो इम जालो स्मिन्निहकुमार एविधीकायानो प्रल । गोयमा पुढवीकारया सागारपस्सी नो अथा० ।

पि ॥ एव पूर्वोक्तेन प्रकारेण जीवानामपि जीवपदविशेषणसहितापि पश्यता वक्तव्या साचैव-जीवाश्च ज्ञते । कतिविहा पासण्या पल्लता ? गोय
मा । दुविहा य० त० सागारपासण्या अभागाारपासण्या य जीवाश्च ज्ञते । सागारपासण्या कतिविहा य० इत्यादि ॥ तदेव जीवानामपि सा
मान्यत उक्ता समप्रति घट्टिवंशतिदणकक्रमेण वदति-नरइयाश्च ज्ञते । इत्यादि ॥ सुगमत्वा दुपयोगपदे प्रायो प्रापितत्वात् घानत्तरोक्तत्वाव

या पश्यता । मणूसाण जहा जीवाण संसा जहा णेरइया जाव वेमाणिया । जीवाण ज्ञते । किं सागारप
स्सीं झुणागारपस्सी ? गोयमा । जीवा सागारपस्सीविं झुणागारपस्सीवि । संकेणठेण ज्ञते । एव वुञ्जइ
जीवा सागारपस्सीं त्रिं झुणागारपस्सीवि ? गोयमा । जेण जीवा सुयनाणीं उहिनाणीं मणपज्जवनाणीं
केवलनाणीं सुयञ्जन्ताणीं विज्जगनाणीं तेण जीवा सागारपस्सी । जेण जीवा चस्कुदसणीं उहिदसणीं केव

इयत्तिनोऽनाकारपइयत्तिन । गीसम । जीवा साकारइयत्तिनो प्यनाकारपइयत्तिनोपि । अथ केनार्थेन जटन्त । एवमुच्यते-जीवा साकार
पइयत्तिनोप्यनाकारपइयत्तिनोपि । गीसम । येन जीवा ज्ञतञ्चानिनोऽपिञ्चानिनो मन पर्ययञ्चानिन केवलञ्चानिन श्रुताञ्चानिनो विजङ्गुञ्चा
नित स्तेन जीवा साकारपइयत्तिन । येन जीवाश्चुट्टंजानिनोविधिदर्शनं केवलदर्शनं स्तेन जीवा अनाकारपइयत्तिन स्तत्तेनार्थेन गीत

रको तिम ज्ञात्तगे वैमानिक । जीवाश्च भत किं सागारपस्सी । जीवने हेमगन्तु साकारपणे हेत्तवो अनाकार पिण टखवा । गोयमा
जीवा सागारपस्सीवि अभागाारपस्सीवि । हेगोतम जीवा साकारी, पिण अनाकारी तेमाटे इमकहे । जीवा सागारपस्सीवि अभागाारपस्सीवि । जी
व साकारी पिण अनाकारी । गोयमा जण जीवा मुयणावो अहिणावो मणपज्जवणावो केवलणावो सुयप्रखावो विभणणावो तण ज्ञावा सागार
स्सीवि । हेगोतम जीवा ज्ञतञ्चानो अयविज्जानो मनपर्यवज्जानो केवलज्जानो श्रुतअज्जानो विभइज्जानो त जीव साकारपणे देख । जेष जीवा चस्कुद
सणीं ओहिदं केवलदसण तेण जीवा अभागाारपस्सी । जे जीव चस्कुदसणीं अविदिदसणीं केवलदसणीं ते जीव अनाकारपणे देखे । सेतेपइण गोय

तत सद्गतावातरज्जैदान् प्रतिपाटयति-गोयमा । दुविहा पं० त० सागारपासण्या असागारपासण्याय । सागारपासण्याणं प्रते । कतिविहा प० इत्यादि ॥ प्रावितायं तदेव सामान्यतो जीवपदविशेषणरहिता पर्यतोक्ता, साप्रत तामव जीवपदविशेषणसहिता मज्जिधित्मु राट-एव जीवाण

पासण्या पखत्ता ? गोयमा ! एगा सागारपासण्या पखत्ता । वेइदियाणं जते ! सागारपासण्या कइ विहा पखत्ता ? गोयमा । दुविहा पखत्ता-सुयानाणसागारपासण्या य सुयञ्जानाणसागारपासण्या य । एवं तेइदियाणवि । चउरिदियाण पुच्छा, गोयमा । दुविहा पखत्ता-सागारपासण्या जहा वेइदियाणं चउरिदियाणं जते ! अणगारपासण्या कतिविहा पखत्ता ? गोयमा ! एगा चक्कुदंसणअणगारपासण

अणुत्तानसाकारपइयत्ताच अणुत्तानसाकारपइयत्ता च । एवं त्तिन्द्रियाणासपि । चउरिन्द्रियाणा पुच्छा, गीतम । द्विविधा प्र०-साकारप इयत्ता चानाकारपइयत्ता च । साकारपइयत्ता यथा हीन्द्रियाणाम् । चउरिन्द्रियाणा जदत्त । अनाकारपइयत्ता कतिविधा प्रश्नमा ? गीतम । एका चक्कुदंसानाकारपइयत्ता प्र० । मनुयाणा यथा जीवानाम्, शोपा यथा नेरयिका यावहुंसानिका । जीवा जदत्त । कि साकारप

पा० । हेगीतम एक साकारनी देखी । वरदियाण भते सागारपासण्या कइविहा प० । वेइयनी हेभगवन् साकारनी देखवी केतलेभदे हुवे । गोय मा दुविहा प० त० । हेगीतम दीयभदे कइया ते कहै । मुयणाण सा० मुयणाणसाकारोपयोग एक तेइदियाणवि चउरिदियाण पुच्छा । अणुत्तान साकार देखवी अणुत्तानसाकार इम तेन्द्रियनी पिण चौरिन्द्रियने पिण प्रश्न । गोयमा दुविहा पासण्या पण्णा तजहा । हेगीतम टायभदे कइया ते कहै । सागारपासण्या अणगारपासण्या सागारपासण्या जहा वेइदिया अणगारपासण्या पुच्छा । साकार देखवी अनाकार देख वी अनाकार देखनी साकारदेखवी जिम वेइन्द्रियने तिमहीव अनाकारदेखवानो प्रश्न । गोयमा एगी चक्कुदसण अणगारपासण्या सणकाण जहा जीयाण सेसाण जहा अेरदया जाव यमाणिया । हेगीतम एक चक्कुदसण अनाकार देखवी मनुयनो देखवा जिम जीवमूने कइया तिम अेप जिम नो

मिह पूर्वमनाकारपश्यतांचिन्ताया प्रकृष्टपरिस्फुटरूप भोक्षममवसेय मिति, तत्राचतुर्दशने परिस्फुटरूपमीक्षण न विद्यते नहि बहुषुपे ऽऽत्रोयेन्द्रि यमनोत्रि परिस्फुट भीवित प्रमाता तता ऽवतुर्दशोनस्या नाकारपश्यताञ्चाब्धवाच्यात्वाजावात् । त्रिविधा नाकारपश्यता तदव साकारजदानाका रभेदे ॥ प्रत्येक मवातरभेदे वैविध्यजावा ल्हानुपयोगपत्तयो प्रतिविशेष्येयं प्रसमेव प्रतिविशेष्येयं प्रतिपिपादयिषु प्रथमतः साकारानाकारजदौ

श्रुणागारपासण्या कडविहा पश्यता ? गोयमा । दुविहा पश्यता, तजहा-चस्कुटनणश्रुणागार० ल्हिड सणश्रुणागारपासण्या य । एव जाव यणियकुमारा । पुढविकाडयाण जते । कतिविहा पानण्या पसत्ता ? गोयमा । एगा सागारपासण्या । पुढविकाडयाणं जते ! सागारपासण्या कतिविहा पश्यता ? गोयमा ! एगा सुयश्रुन्नाणसागारपासण्या पश्यता । एव जाव वणस्सडकाडयाण । वेडडियाण जते ! कतिविहा

एव यावस्तानितकुमारा । पयिबीकायिकाना जदन्त । कतिविधा पश्यता ? गीतम । एका साकारपश्यता । पयिबीकायिकाना जदन्त । साकारपश्यता कतिविधा प्रथमा ? गीतम । एका श्रुताद्यानसाकारपश्यता प्र० । एव यावहनस्पतिकायिकानाम् । द्वीन्द्रियाणा जदन्त । कतिविधा पश्यता प्र० ? गीतम । एका साकारपश्यता प्र० । द्वीन्द्रियाणां जदन्त । साकारपश्यता कतिविधा प्र० ? गीतम । द्विविधा

ना केतसाभेद कक्षा । गोयमा दुविहा तजहा । हेगीतम टायभट ते कश्चिदे । चक्रुदसण अणागारपासण्या कोडिसण अणागारपासण्या एव जाव ययियकमारा । चक्रुदयंत अनाकारोपयोग अविद्ययंतयनाकारोपयोग इम आकरो स्तानतकमार । पुढविकाडयाण भते क-विहा पासण्या पण ता । पयिबीकायना के तीभेद देखवो । गोयमा एगासागारपासण्या । हेगीतम एक साकार देखवो । पुढवोकाडयाण भते सागारपासण्या कड विहा पश्यता । पयिबीकायने नाकारनो देखवो केतसाभेदे दूवे । गोयमा एगासयप्रणाथसागारपासण्या एव वणस्सडकाडया । हेगीतम एक श्रुतज्ञा न साकारनो देखवो इम जावगे वनश्रुतोक्षायने । वेद दियाण भते कडविधा पासण्या । द्विये वेददियाणो केतसाभेद देखवो । गोयमा एगासागार

मिति षतृविधो नाकारोपयोगः, अनाकारपश्यता तु त्रिविधा अचतुर्दशानसानाकारपश्यताशर्द्धमाच्यत्वात्तावात् कस्मादितिषे दुष्यते-उक्त

तंजहा-चक्रदुसगञ्जगारपासणया उहिदसगञ्ज० केवलदशनगञ्जगार० । एव जीवाणपि । णेरडयाणं नते । कतित्रिहा पासणया पखत्ता ? गीयमा । दुविहा पखत्ता, तजहा-सागारपासणया अणगारपासणया । णेरडयाण नते । सागारपासणया कडविहा पखत्ता ? गीयमा ! अउत्रिहा पखत्ता, तजहा-सुयनाणसागारपासणया उहिनाणसागारपास० सुयञ्जनाण० विजगनाणसागारपासणया । णेरडयाणं नते !

नाकारपश्यताषथिदशानानाकारपश्यता केवलदशानानाकारपश्यता । एव जीवानामपि । नैरपिज्ञाणां नदत्त । कतिविधा पश्यता प्र० । गीतम । द्विविधा प्रज्ञप्ता तद्यथा-साकारपश्यतानाकारपश्यता । नैरपिकाणां नदत्त । साकारपश्यता कतिविधा प्रज्ञप्ता ? गीतम । एतु विधा प्रज्ञप्ता तद्यथा-श्रुतज्ञानसाकारपश्यता श्रुतज्ञानसाकारपश्यता विभक्तज्ञानसाकारपश्यता । नैरपिकाणां नदत्त । अनाकारपश्यता कतिविधा प्रज्ञप्ता ? गीतम । द्विविधा प्रज्ञप्ता तद्यथा-चतुर्दशानानाकारपश्यतायथिदशानानाकारपश्यता प्र० ।

तोनमंटे कक्षा ते कहैहै । षषुदसण अणागार पा० अहिदसण अ० केवलदसण अ० एव जावाण भा० । षषुदगंन अनाकार देखवो अवधिदगंन देखवो कवनदगंन देखवो इम जीवने कक्षा द्विवे २४ दख्खे कहैहै । एरऱयाण भते कडविहा पासणयाप० । नारकीने हेभगवन् कोतबेभटे देखवो कह्यो । गीतमा दुविहा प० त० । इगीतम दोउभट तें कहैहै । सागार पा० अणगार पा० । साकारोपयोग देखवो अनाकारोपयोग देखवो । एरऱयाण भते सागारपासणया कःविहा पखत्ता । नारकीने साकारोपयोगना केतनमंटे कक्षा । गीयमा अउत्रिहा तजहा । हेगीतम चारमंटे ते कहैहै । सुवथाण सागारपासणया ओइणसागारपासणया अयअसाणसागारपासणया विभगअणसागारपासणया । अउत्रान साकारोपयोग देखवो अवधिज्ञान देखवो, अउत्रज्ञान देखवो । नारकीने अनाकार देखवो

द्ववाच्य नशेष मतिज्ञानमत्पञ्चानेन सु सत्यत्वाविनष्टार्थग्राहके साप्रतिकालविषये तथाच-भतिज्ञानमधिकृत्यान्वयोक्त-जमवगगहादिरुय पशुप्यन्तु
 भाङ्गलोग । इदियमर्थोन्तमित्त तत्रात्रिनिधोधिगधेति ॥ तत् हे अपि साकारपश्यतांशब्दवाच्य न प्रवत श्रुतज्ञानादीनितु त्रिकालविषयाणि
 तथाहि-युतज्ञानेन अतीता अपि प्रावा ह्यायते अनागतता अपि उक्तच-जपुणतिकालविषय आगमगयाद्युसारिविक्ताथ । इदियमर्थोन्तमित्त सुय
 नाशतत्रिणाविति ॥ १ ॥ अर्थाधिज्ञानमपि सत्यातीता वरसुपणीश्ववर्षिणी अतीता परित्खनति प्रावर्षिण मन पर्यापञ्चानमपि प्रत्योपमासस्ये
 यत्रागमतीत जानातीति ज्ञासित ॥ कश्च सकलकालविषय सुप्रतीत श्रुतज्ञानविभगज्ञाने ऽपि त्रिकालविषये ताभ्यामपि तथायोगमतीतानागत
 प्रावपरिच्छेदाम्, ततो ज्ञानानि साकारपश्यतांशब्दवाच्यानि य उपयोग स्तु यत्राकारो यथोदितस्वरूप परिस्फुरति स योधो वतमानकालवि
 पयो वा यदि जवति त्रिकालिको वा तत्र सर्वत्रापि प्रवर्तते इति साकारोपयोगो ऽष्टविध, तथा चतुर्दशानसचतुर्दशंनस्यधिदर्शनेन केवलदर्शने

य अणुगारपासणया य । सागारपासणयाण जते ! कतिविहा पखत्ता ? गोयमा ! त्रिहहा पखत्ता,
 तजहा-सुयनाणपासणया उहिनानपासणया मडनाणपासणया सुयञ्चन्नाणसा० चिन्न
 गनाणसागारपासणया । अणुगारपासणयाण जते ! कडविहे पखत्ते ? गोयमा ! त्रिविहा पखत्ता ,

न्त । कतिविधा प्रज्ञप्ता ? गीतम । पड्विधा प्रज्ञप्तातद्यथा-श्रुतज्ञानपश्यताविक्षानपश्यता मन पर्यञ्चानपश्यता केवलज्ञानपश्यता श्रु
 ताज्ञानपश्यता विन्नङ्गज्ञानसाकारपश्यता । अनाकारपश्यता अदन्त । कतिविधा प्रज्ञप्ता ? गीतम । त्रिविधा प्रज्ञप्ता तद्यथा-चतुर्दशंना
 र पा० अनाकार पा० । साकारतो देखवो अनाकार देखवो । साकार पासण्याण भते कडविहा पं० । द्विवे साकारता देखवो तेहना केतलाभेद
 कडा । गोयमा क्वि० त० । हेगोतम ६ भेदे कडुके । सुयथाण ओदियाण मचप० केउसण्याण सुयथस्याण विभगण्या पासण्या । युतज्ञाने देखवाने
 विभङ्गतो देखती । अणुगार पासण्याण भते कडविहा पं० । अनाकार-पासण्या केतलेभेदे विभगवन् कही । गोयमा त्रिविहा पं० तं० । हेगोतम

तदेवमुक्तं एकोनत्रिंशत्तम पदं संप्रति त्रिंशत्तमोऽप्यनेन विज्ञानमविज्ञेयं इहानन्तरपदे ज्ञानपरिणामविज्ञेय उपयोगो त्रिंशत्तम इहापि स
 मवा ज्ञानपरिणामविज्ञेय उपयोगे पश्यतीति सति वान्तितावितिशब्दप्रत्यय , कर्तयन्दादे शप् पात्राध्मास्याप्पादाण्डसूक्तेश्रोतिकट्टुधिवृत्त
 सदे पिबलिप्रमतिप्रयच्चपश्यकृच्छिमीयसीदिति दृशे पश्चादेव , पश्यतो ज्ञाव पश्यता ज्ञावे तत्वलाविति तत्प्रत्यय , आदापसवपास
 शयंत्युच्यते, एय च पासणयाज्ञेयो कूटिब्रह्मात् । साकारोनाकारबोधप्रतिपादक उपयोगशब्दवत् तथाचोपयोगविषये प्रज्ञोत्तरमूत्रे इमे-कडवि
 हाण ज्ञते । पासणया पञ्जता ? गोयमा ! दुविहा प० त० सागारपासणया अणानारपासणया इति ॥ ननु तुल्ये साकारानाकारज्जेदत्वे को नयो-
 प्रतिविज्ञेयो येन पृथगुच्यते ? उच्यते-साकारानाकारज्जेदगताऽवातरज्जेदसत्त्वरूप स्यादिति-पञ्चज्ञानानि त्रीयज्ञानानि त्वष्टविच साकार उपयो
 ने साकारपश्यतात्तु यद्विधा सतिज्ञानमत्यज्ञानयो पश्यतयो अनन्यपगमात् कस्मा दितिचेत् ? उच्यते-इह पश्यतानाम पश्यतो ज्ञाव उच्यते
 पश्यतो ज्ञाव च दर्शान्प्रसङ्गे इतिवचनात् प्रेक्षणमिह कूटिब्रह्मात् साकारपश्यताया चित्त्यमानाया प्रतीर्यकालमनाकारपश्यताया चित्त्यमानाया प्र
 कृत परिस्तुटरूपमीक्षणमवसेय' तथाच सति येन ज्ञानन त्रैकालिक परिच्छेदो भवति तदेव ज्ञान प्रदीयकालवियपत्वात्, साकारपश्यता ज्ञा

पदं सम्मत्त ॥ २९ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 कडविहाण ज्ञते ! पासणया पश्यता ? गोयमा ! दुविहा पासणया पश्यता , तजहा-सागारपासणया

शियमानकवद्रविरचिते प्रज्ञापनानुवादे एकोनत्रिंशत्तम पदं समाप्तम् ॥ ३० ॥ ॥ ॥ ॥
 कतिविधा जदन्त । पश्यता प्रज्ञसा ? गीतम । द्विवाचा पश्यता प्रज्ञसा तथासाकारपश्यता चानाकारपश्यता च साकारपश्यता जद

याए उवशंगपय सम्मत्त ॥ इति प्रज्ञापनानुवादि २८ मी पद उपयोगाधिकार समाप्तं यवो २८ ॥ ॥ ॥ ॥
 कडविहाण ज्ञते पासणया प० । केननभेदे हेमगवन् पासणता जीतो कश्चो । गोयमा दुविहा पा० तं० । हेमीतम द्वेभेद पासणतारा तेकहेहे । साका

वात् मनुष्याणा यथा सामयमष्टावपि साकारोपयोगा यत्यारी प्यनाकारोपयोगा मनुष्येषु सर्वज्ञानदर्शनलब्धिसम्भवात् । स्वतरस्योतिःप्रथमानि
 का यथा नैरयिका स्तदेव सामान्यत इतुर्विंशति दशकक्रमेण ॥ जीवाना मुपयोग चिन्तित सम्प्रति मन्दमतिस्पष्टावधोधाय जीवा एव तत्तद
 पयोगोपयुक्ता सामान्यत इतुर्विंशतिदशकक्रमेण चिन्त्यन्ते ॥ जीवाश्च जत । इत्यादि ॥ सुगम ॥ इतिश्री मलयगिरिविचितायाः मेकोनविंश
 त्तममुपयोगाल्य पद समाप्त ॥ २८ ॥

अथरुद्रसंगोवत्ता तेण वेद्दिद्या अणगारोवत्ता से तेणठेण ? गोयमा । एव वुच्चड एव जाव चउ
 रिदिमा णवर चरुडमणअण्णहिय चउरिदिथाणति । पचेदियतिरिस्कजोणिया जहा णेरइया । मणसा
 जहा जीवा । वाणमतरजोडिसियवेमाणिया जहा णेरइया ॥ इति पन्त्रवणाए ऋगवतीए एगुणतीसडम

नश्रुतज्ञानमत्यज्ञानश्रुताज्ञानापयुक्तास्तेन द्वीन्द्रिया साकारोपयोगोपयुक्ता , येन द्वीन्द्रिया अचतुर्दशोपयोगयुक्तास्तेन द्वीन्द्रिया अनाका
 रोपयोगयुक्ता स्तान्तार्थेन गौतम । एतमुच्यते , एव यावच्चतुरिन्द्रिया । नवर षड्दर्शनमध्यचिक चतुरिन्द्रियाशास्त्रमिति । पञ्चद्विपति
 यंयोगिका यथा नैरयिका । मनुष्या यथा जीवा । वानव्यस्तरत्यातिर्कषैमानिका यथा नैरयिका ॥ इतिश्रीमदुपाध्यायपरामचद्वगण्य
 पण्णाणवत्तजा नेप वेद दिय सागारीवत्ता । तिमहीज हेगौतम ज सगे जे वेन्द्रिय नतिज्ञानी श्रुतज्ञानो मतिप्रज्ञानो श्रुतप्रज्ञानी ऐकेरो सदित
 छे ते वेद द्विय साकारो । जप वेद दिया अचखुटमणोवत्ता तेण वेद दिया अणागारावत्ता । ज वेन्द्रिय अषषदर्शने सदितछे ते वेन्द्रिय अनाका
 रापयागौ । सतेणठेण गौतमा एव जाव चउरिदिया णवर षसखुटमथ अण्णदिय चउरिदिटयाथ भा० । तमाटे हेगौतम इमकहे इम ज्ञानने चौरिन्द्रिय
 णविशेष षषदर्शने अधिक कइवो चौरिन्द्रियने कइया । पाचदिय तिरिक्खलोणिया जहा णेरइया मणुक्खा जहा जीवा वाणमतर जोडिसिय वेमाणिया
 जहा णेरइया । पचेदिय तिवंस्योनियान तिम नारकीणीपरे मनुष्यने जिन प्राधम्यत्तम वानव्यन्तर ज्योतिषी वेमानिक जिन नारकी तिम । पण



णागारोवउत्ता सेतेणठेण गोयमा । एवं जाव थणियकुमारा । पुढाविकाड
याण पुच्छा, गोयमा ? तहेव जाव जेण पुढाविकाडया मतिअन्ता० सुयअन्ताणोवउत्ता तेण पुढाविका०
सागारोवउत्ता । जेण पुढावि० अचकुदसणोवउत्ता तेण पुढावि० अणगारोवउत्ता से तेणठेण ? गोयमा !
एव बुच्चइ जाव वणस्सइकाडया । वंडइयाण अठसहिया तहेव पुच्छा जाव जेण वंडइदिया अण्णिनि
वोहियनाण सुयना० मतिअन्ताण सुयअन्ताणोवउत्ता तेण वंडइदिया सागारोवउत्ता । जेण वंडइदिया

येन नेरयिकाइलुंशंनचतुदंशानावचिदशोनीपयोगयुक्ता स्तेन नेरयिका अनाकारोपयोगयुक्ता स्ततेनार्थेन गीतम । एवमुच्यते-यावदनाका
रोपयोगयुक्ता अपि । एव यावत्स्तानितकुमाराः । पृथिवीकायिकाना पृच्छा, गीतम । तथेव यावद्येन पृथिवीकायिका मत्पुत्रानश्रुताज्ञानोपयो
गयुक्ता स्तेन पृथिवीकायिका साकारोपयोगयुक्ता, येन पृथिवीकायिका अचतुदंशोनीपयागयुक्ता स्तेन पृथिवीकायिका अनाकारोपयोगयु
क्ता स्ततेनार्थेन गीतम । एवमुच्यते-यावद्वनस्पतिकायिका । द्वीन्द्रियाणामर्थसंहिता तथैव पृच्छा, यावद्येन द्वीन्द्रिया अर्थाजिनियोधिकड्डा

ता । जे नारकी चतुदशंन अनाकारोपयोगे सहितके अचतुदशंन अना० अर्थाजिन अना० ते नारको अनाकारोपयोगो इवे । सेतेणठेण गोयमा
एवं जाव अणगारोवउत्ता एव जाव थणियकुमारा पढवोकाइयाण पुच्छा । तेमाट हेगीतम इम कण्णो जालते अनाकारोपयोगो इवे इम जालते
स्तानितकुमार पृथिवीकायनां प्र० । गोयमा तहेव जाव जण पढवोकाइया मत्पुत्राणोवउत्ता मुत्त० । हेगीतम तिमहोव जालते पृथिवीके संतअत्रा
नयुत्त मुत्तअत्रान । तेण पढवोकाइया सागारोवउत्ता । ते पृथिवीकाय साकारोपयोगो । जेण पढवोकाइया अचतुदशोवउत्ता तेण पढवोकाइया
अणगारोवउत्ता । जे पृथिवीकाय अचतुदशंनोपयोगीकेते पृथिवीकाय अनाकारोपयोगो । सेतेणठेण गो० एव जाव वणस्सइकाइया वेऽदियाय परका ।
तेमाट हेगीतम इम कण्णो इम जालते वनस्पतीकाय वेऽन्द्रियनी प्र० । तट्टेव गो० जाव जेण वेऽदिया अर्थाजिनियोधिकड्डा सुयथाय मतिपर्णाय सुय

वउत्ता । जेण जीवा चरकुदसण अचरकु० उहि० केवलटमणोवउत्ता तेण जीवा अणुणागारीवउत्ता ने
 तेणठेण ? गोयमा । एव वुच्चइ-जीवा सागारीवउत्तावि अणुणागारीवउत्तावि । नरडयाण जते ? कि सा
 गारीवउत्ता अणुणागारीवउत्ता ? गोयमा । नरडया सागारीवउत्तावि अणुणागारीवउत्तावि, संकेणठेण जते !
 एववु० ? गोयमा । जेण नरइ० आनिनिवोहि० सुयना० उहिनाण मडअन्नाण सुयअ० विजगनाणोवउ
 त्ता तेण नरडया सागारीवउत्ता जेण नरडया चरकुदसण अचरकुदस० उहिदसणोवउत्ता तेण नरडया अ

नोपयुक्ता स्तन जीवा साकारोपयोगयुक्ता । येन जीवा दृष्टुदशंनचतुदशंनकेजलदशानोपयोगयुक्ता स्तन जीवा अनाकारोपयोग
 युक्ता स्तनतार्थेन गीतम । एवमुच्यते-जीवा साकारोपयोगयुक्ता अप्यनाकारोपयोगयुक्ता अपि । नरयिका जदत्त । कि साकारोपयोगयु
 क्ता अनाकारोपयोगयुक्ता ? गीतम । नरयिका साकारोपयोगयुक्ता अप्यनाकारोपयोगयुक्ता अपि । अथ केनार्थेन जदत्त । एवमुच्यते-
 गीतम । येन नरयिका आनिनिवोपिमुत्तानश्रुतज्ञानावधिज्ञानमत्यज्ञानश्रुतानविज्ज्ञानोपयुक्ता स्तन नरयिका. साकारोपयोगयुक्ता. ।

साकारोपयोग हुव । जण जीवा चरकुदसण अचरकुदसण अहिदसण कवलटमणोवउत्ता तेण जीवा अणुणागारीवउत्ता । जे जीव चतुदशंनो अचरकुदस
 न प्रवधिदशन कवलदशनवत्त हुवे ते जीव अनाकारोपयोगसहित कहिये । सर्वेण्डुण गोयमा मत व० । तेमाट हेगीतम इमक झो । जीवसागारीवउत्ता
 वि अण० । नारकी हेमगवन् स्यू साकारोपयोग अनाकारोपयोग । गोयमा अेरइया सागारीवउत्तावि अण० । हेगीतम नारकी साकारोपयोगो पि
 ण अनाकारोपयोगो पिण । सेकेण्डुण भते एव वुच्चइ । तेमाटे हेमगवन् प्रश्न । गोयमा जेण अेरइया आभिषिवाडियथाण सुवथाण योडिथाण
 मरअथाण सग० विभणणाणोवउत्ता तेण अेरइया सागारीवउत्ता । हेगीतम जे नारकी मतिज्ञान श्रुतज्ञान अविज्ञान अतिप्रज्ञान श्रुतप्रज्ञान विभद
 प्रान सहितथे ते नारकी साकारोपयोगी । जेण अेरइया अरकुदसण अणुणागारीवउत्ता अचरकुदसण अ० अोहिदसण अ० तेण अेरइया अणुणागारीवउ

१२५ ।

१२६ ।

१२७ ।

ता मतिज्ञानश्रुतज्ञाने ज्ञेयाणां तु मत्प्रज्ञानश्रुताज्ञाने, अनाकारोपयोग स्वेकी ऽवस्तुदर्शनरूप ज्ञेयोपर्योगानां, एवं श्रीन्द्रियाणामपि, वस्तु-
न्द्रियाणामप्येव नवर मनाकारोपयोगो द्विविधः षड्दर्शनमषड्दर्शनं च । पञ्चेन्द्रियतिरिथा साकारोपयोग षड्विध स्तद्यथा-मतिज्ञान श्रुत

याण । वेद्दिद्याणं पुच्छा, गीयमा ! दुविहे पश्यते, तजहा-सागारो ज्ञणागारो । वेद्दिद्याणं सागारोव
लेगे कडविहे पश्यते ? गीयमा ! चउविहे पश्यते, तजहा-ज्ञानिनिवोहियनाण सुयनाण मतिश्चन्नाण
सुयश्चन्नाण० । वेद्दिद्याण मते । ज्ञणागारोवलेगे कडविहे पश्यते ? गीयमा ! एगे ज्ञचरकुदंसणश्चणागा
रोवलेगे । एव तेद्दिद्याण । चउरिदिद्याणवि एवचेव नवरं ज्ञणागारोवलेगे दुविहे पश्यते चरकुदंसण०

गीतम । वस्तुविध मष्टस्तद्यथा-ज्ञानिनियोपकज्ञानश्रुतज्ञानमत्प्रज्ञानश्रुताज्ञानसाकारोपयोगः । द्वीन्द्रियाणां षडत्त । अनाकारोपयोगः
कतिविध मष्टम ? गीतम । सकाकारो षट्दर्शनानाकारोपयोगः । मव श्रीन्द्रियाणाम् । वस्तुरिद्रियाणामप्येव चैव नवरमनाकारोपयोगो द्वि
विध मष्टमयत्तुदर्शनानाकारोपयोगो ऽवस्तुदर्शनानाकारोपयोगश्च । पञ्चेन्द्रियतियंयोगो निकाणा यथा नैरविकाणाम् । मनुयासां यथोपिक

कश्चो तेकश्चै । सागारोवभागे षण्णगारोवभागे । साकारोपयोग अनाकारोपयोग । वेद्दिद्याण भते सागारोवभागे कडविहे प० । वेद्दिद्य साका
रापयोगना कंतसाभद क्क्षा । गीयमा षरवि० त० । हेगौतम ऽ भद ते कश्चै । आभिविवोहियथाण सुयथाण सा० मतिषथाण सा० सुयषथाण
सा० । मतिज्ञान साकारोपयोग श्रुतज्ञान साकारोपयोग नतिषज्ञान सा० श्रुतषज्ञान सा० । वेद्दिद्याण भते षण्णगारोवभागे कडविहे प०
वेद्दिद्यने जेमगवन् अनाकारोपयोगने केतलेभदे हुवे । गीयमा एगे अषस्तुदषण षण्णगारोवभागे प० । हेगौतम एव षषस्तुदंन अनाकारोपयोगे
एव तेद्दिद्याणवि षरदिद्याणवि एवचेव । इम तेऽन्दी चौरिन्द्रीने पिथ इमहोल । षरं षण्णगारोवभागे दुविहे प० त० । एविमंय अनाका
रोपयोगना दीयभदे ते कश्चै । षस्तुदषण य० अषस्तुदषण षण्ण० । षस्तुदंन अना० षषस्तुदंन अना० पचिदिद्य तिरिखजोपियाण लहा चेर

कारीपयोग एकौ ऽचवृद्धंज्ञानरूपः शोयोपयोगाना तेषां ससम्भवात् सम्यग्दंज्ञानादिलब्धिर्विकलत्वात्, एव मपूतेजोवायुवनस्पतीनामपि योदित
 व्य हीन्द्रियाणा साकारोपयोग द्युतियेष स्तद्यथा-मतिज्ञान श्रुतज्ञान मत्यज्ञान तनापर्याप्तावस्थाया केपाचि त्सासादनज्ञावमासादपि

उहिदंसणञ्चणागारोवर्तुगे। एव जाव थणियकुमाराणं। पुढविकाडयाणं पुच्छा, गोयमा ! दुविहे उवर्तुगे-
 पखत्ते, तंजहा-सागारोवर्तुगेय च्चणागारोवर्तुगे य। पुढविकाडयाण जते ! च्चणागारोवर्तुगे कतिविहे
 पखत्ते ? गोयमा ! दुविहे पखत्ते, तजहा-मतिच्यन्ताण सुयच्यन्ताण। पुढविकाडयाणं जते ! च्चणागा
 रोवर्तुगे कइविहे पखत्ते ? गोयमा ! एगे च्चखकुटसणञ्चणागारोवर्तुगे पखत्ते, एव जाव वणरसइकाइ

एव पावरस्तान्तिकुमाराणाम् । पृथिवीकायिकाना पुच्छा, गौतम । द्विविध मज्जस्तद्यथा-मत्यज्ञानसाकारोपयोगः श्रुताज्ञानसाकारोपयो
 ग । पृथिवीकायिकाना जदत्त । अनाकारोपयोगः कतिविध मज्जस ? गौतम । एकोऽचवृद्धंज्ञानाकारोपयोग मज्जस । एव यावद्वनस्प
 तिकायिकानाम् । हीन्द्रियाणा पुच्छा, गौतम। द्विविध मज्जस्तद्यथा-साकारोऽनाकारय । हीन्द्रियाणा साकारोपयोगः कतिविध मज्जस ?

अथा० एव जाव थणियकुमाराण पुढवोकारायाण पुच्छा । चवृद्धंज्ञान अना० अचवृद्धंज्ञान अना० अवधितर्क्यंन इम जालरी स्तान्तकुमार पृथिवीकाइ
 यानो म० । गोयमा दुविहे उवर्तुगे प० त० । हेगौतम दीयभद उपयोग कक्षा ते कइहे । सागारोवर्तुगेय अथागारोव० । साकारोपयोग अना
 कारोपयोग । पुढविकाडयाण भते सागारोवर्तुगे कइविहे प० । पृथिवीकायिकाना साकारोपयोग हेमगवन् केतलेभेदे दुवे । गोयमा दुविहे प० तं ।
 हेगौतम दीयभेदे कक्षा ते कइहे । मरुअण्णणे सुअण्णणे । मतिअज्ञान युतअज्ञान । पुढवोकारायाण भते अथागारोवर्तुगे कइविहे प० । पृथिवीका
 यिक हेमगवन् अनाकारोपयोग केतलेभेदे कथो । गोयमा एगे अचखुदसण अथागारोवर्तुगे प० एवं जाव वणअइकाइयाण वेइदिवाण पुच्छा
 हेगौतम अचवृद्धंज्ञान अनाकारोपयोग इत जालगे वनअतोकायिक वेइन्द्रिययो म० । गोयमा दुविहे उवर्तुगे प० तजइ । हेगौतम दीयभेदे उपयोग



। ही
 । म्
 । अ
 । मा

रुमेण नैरयिकादीना चिन्नायगाह-नैरडयाण ऋते । इत्यादि ॥ नैरयिका हि द्विविधा प्रवति सम्यग्दृष्टयो गिथ्यादृष्टय यावधि रपि तेषा ऋव प्रत्ययो वक्ष्य सुप्रज्ञायते प्रप्रत्ययो नारकदेवानामिति वचनात्, तत्र सम्यग्दृष्टीना मतिज्ञानश्रुतगानावधिज्ञानानि गिथ्यादृष्टीना मत्यज्ञानश्रुता ज्ञानविप्रगज्ञानानोति सामान्यतो नैरयिकाया पशुविध साकारोपयोगो नाकारोपयोग इतिविध साद्यथा-चतुर्दशान अचतुर्दशानमवधिदशान च, यय इतिविधो व्यनाकारोपयोग सम्यग्ज्ञा मिथ्यादृष्टा वा विशेषेण प्रतिपत्तव्य प्रतियोग्यम व्यवचिदर्शनस्य सूत्रे प्रतिपादितत्वात्, स्पमसुरकु मारादीना स्तानितकुमारपर्यवसानाना प्रवतपतीना मप्यवसप, पृथिवीकायिकाना साकारोपयोगो द्विविध साद्यथा-मत्यज्ञान श्रुताज्ञान या ऽना


सागारोवर्तगे य ज्युणागारोव० । णेरडयाण ऋते । सागारोवर्तगे कडविहे पखत्ते ? गीयमा । बहिहे प० , तजहा-मतिनाण० सुयनाण० लीहनाण० मतिञ्चन्नाण० सुयञ्चन्नाण० विन्नगनाणसागारोवर्तगे । णेरड याण ज्युणागारोवर्तगे कडविहे पखत्ते ? गीयमा । तिविहे पखत्ते, तजहा-चरुदसण० ज्युचरुदसण

ज्ञानसाकारोपयोग श्रुतज्ञानसाकारोपयोगो मत्यज्ञानसाकारोपयोगो मत्यज्ञानसाकारोपयोगो विमंगज्ञानसाकारो पयोग । नैरयिकाणामनाकारोपयोग कतिविध प्रणर ० गीतम । त्रिविध प्रहसस्तद्यथा-चतुर्दशानावचिदर्शानासाकारोपयोगो गीयमा इतिवहा प० त० । हेगीतम दीयभट ते कहे । सागारोवर्तगे य ज्युणागारोवर्तगे । साकारोपयोग यनाकारोपयोग । णेरडयाण भते सागा रोवर्तगे क विहे प० । नारकोने हेमगवन साकारोवर्तगेना केतवाभेट कक्षा । गीयमा कविहे प० त० । हेगीतम ६ भेट कक्षा ते कहे । मति थापसागारोवर्तगे सुशयाण सा० ओडिणाण सा० मरुथणाण सा० सुयथणाण सा० विमगथाण सा० । नतिज्ञान साकारोपयोग श्रुतज्ञान सा० प्रवधिण न सा० मतिप्रज्ञान सा० श्राप्रज्ञान सा० विमङ्गज्ञान सा० । णेरडयाण भते यणागारोवर्तगे कडविहे प० । नारकोने हेमगवन प्रनाकारो पयोगना केतवाभेट कक्षा । गीयमा तिविहे प० तजहा । हेगीतम तीनेभेटे कक्षा ते कहे । चरुदसण यणागारो वचरुदसण प्रथा० ओडिदसण

अनाकारोपयोगेदाननिश्चितसु राह-अथागारोवर्तुगेण ज्ञेते इत्यादि ॥ तत्र बहुधा बहुरिन्द्रियेण दर्शनं रूपसामान्यग्रहणं च बहुदर्शनं तत्र तत्
 अनाकारोपयोगे अथबुधा बहुवर्जज्ञेपेद्रियमनोनि दर्शनं ह्य २ विषये सामान्यग्रहणं मधुबुदर्शनं ततो अनाकारोपयोगेऽद्वेन विज्ञेयणसमाप्तः ।
 यच्च मुत्तरत्रापि अर्वाचरेव रूपदर्शनं सामान्यग्रहणं सर्वविदर्शनं केवलमित्येव सकलजगद्भाविसमस्तवस्तुसामान्यपरिच्छेदरूप दर्शनं केवलदर्शनं ।
 अथ मन पर्यायदर्शनमपि कस्मात् न ज्ञयति येन पक्षो नाकारोपयोगो न प्रवर्तते चे दुष्यते-मन पर्यायविषय एषु ज्ञान मनसा पर्यायानेव वि
 विक्तान् गृह्णन् विदुश्चायते पर्यायाद्य विज्ञेया विज्ञेयालम्बनच ज्ञान ज्ञानमेव न दर्शनमिति मन पर्यायदर्शनाप्राव स्तदनावाञ्च पञ्चमानाकारी
 पर्यायासम्पत् इति ॥ यच्च जीवाणामित्यादि ॥ यच्च निर्विक्रमेणोपयोगवत् जीवाणामनुपयोगो द्विविध प्रज्ञो प्रणित्यत्वात् साकारोपयोगो
 ऽद्विविधो अनाकारोपयोग इत्युच्यते इति ॥ यच्च जीवपरिचित एतदुक्तं प्रवर्तते-यथा प्राक् जीवपरिचित सुपयोगसूत्रं सामान्यत उक्तं तथा जीवपदसहितमपि प्रणित्यत्वं त
 दया-जीवाण ज्ञेते । कतिविहे उवर्तुगे पञ्चते ? गोपमा । दुविहे उवर्तुगे पञ्चते त-सागारोवर्तुगेय अथागारोवर्तुगेय । जीवाण ज्ञेते । कतिविहे
 उवर्तुगे पञ्चते ? गोपमा । दुविहे उ० अर्वाचरे पञ्चते उज्जहा-इत्यादि ॥ तदेय सामान्यतो जीवाना सुपयोग इति कति उवर्तुगेय इति दृष्टक

१ गोपमा । चउविहे पञ्चते , तजहा-चक्रुदंसणञ्जणागारोवर्तुगे अचक्रुदंसण० उहिदंसण० केवलदंसण
 अणागारोवर्तुगे । णेरुदयाण ज्ञेते ! कइविहे उवर्तुगे पञ्चते ? गोपमा ! दुविहे उवर्तुगे पञ्चते , तजहा

दर्शनानाकारोपयोगः केवलदर्शनानाकारोपयोग । नैरयिकाणा प्रदत्त । कतिविध उपयोग प्रज्ञप्त ? गीतम । द्विविध उपयोग प्रज्ञप्त
 दया-साकारोपयोग्यानाकारोपयोग्य । नैरयिकाणा प्रदत्त । साकारोपयोग- कतिविध- प्रज्ञप्त- ? गीतम । यद्विधः प्रज्ञप्तस्तद्यथा-मति
 गीतमे ४ भट्ट ते कइ । चक्रुदंसण अथागारोवर्तुगे अचक्रुदंसण अथा० श्रीहिदंसण अथा० केवलदंसण अथा० । चक्रुदंसण अनाकारोपयोग अचक्रुद
 र्शनं अनाकारोपयोग अचक्रुदंसण अथा० केवलदर्शनं अथा० । णेरुदयाण ज्ञेते कइविहे उवर्तुगे पञ्चते । नारकोने हेममन्त्र केतकेभेदे उपयोग ज्ञेती ।



ऽन् कृषित्यधिकारे अकितौषे त्याकार प्रत्याय , अहन गमनमिति पर्याय , परिश्रव पर्येव मनसो वा पर्येको मन पर्येव सर्वत स्तत्त्व रिष्यद् इत्यर्थे , पाठास्तर पर्येय इति तत्र पर्येयज्ञ पर्येय मनसि मनसो वा पर्येय मन पर्येय सर्वत स्तत्त्वरिष्यद् इत्यर्थे , स पाठो ज्ञान म १ पर्येयज्ञान मन पर्येयज्ञान वा अथवा मन पर्यायति पाठातर तत्र मनासि पर्येयति सर्वोत्तना परिश्रितमिति मन पर्याय कर्मणोऽण् मन पर्याय ए तत् ज्ञान मन पर्यायज्ञान , यदि वा मनस पर्याया मन पर्याया धर्मो यास्यवस्त्वालोचनप्रकारा इत्यनर्थान्तर तेषु तेषा वा अत्रचि ज्ञान मन पर्यायज्ञान निदशाद्धृत्तौपेयसमुद्राक्तवर्षिसिद्धिमनोगतद्रव्यालम्बन , तथा क्वचल मेक मत्यादिज्ञाननिरपक्षत्वात् " नचमिद खानमत्यन्त नागो इतिवचनात् , शुद्ध वा केवल तदावरण मलकलकविगमात् सकल वा केवल प्रथमत एवाज्ञोपतदावरणविगमत् सपूर्णत्वसे , असाधारण वा केवलमन्यत् सद्रुडात्वात् , अन्त वा केवल श्रेयान्तत्वात् , केवलं च तत् ज्ञान तथा मतिश्रुतावपय एव यदा निध्यात्वकलु प्यता जयति तदा यथाकम मत्त्वज्ञानश्रुताज्ञानविप्रदूषणानल्पपदेशा अजगते , उक्तत्वं-आद्य प्रथमज्ञानमपि अथवि निध्यात्वस्ययुक्तमिति " विप्रदूषणमिति ॥ विपरीतो जग परिच्छिन्नप्रकारो यस्य तद्विजग हस्य तत् ज्ञानस्य विजगज्ञान सर्वज्ञापि च साकारीपयोगज्ञानदेन विज्ञोपणसमास

बोहियनाणसागारोवर्जगे सुयनाणसागारोवर्जगे उहिनाणमणपञ्जवसा० केवलनाणसागारोवर्जगेय । मति
 ध्वनाणसागारोवर्जगे सुयध्वत्ताणसा० विजगनाणसागारोवर्जगेय । ध्वनागारोवर्जगेण जते ! कइविहे प०

योगो मन पर्येयज्ञानसाकारीपयोग केवलज्ञानसाकारीपयोग मत्त्वज्ञानसाकारीपयोग श्रुताज्ञानसाकारीपयोग विजगज्ञानसाकारीपयोगय
 धनाकारीपयोगो प्रदत्त । कतिविध प्रश्न ? गीतम् । धतुर्विध प्रश्नसदृश्या-पबुद्धज्ञानाकारीपयोगोऽचबुद्धज्ञानाकारीपयोगो वधि,
 णाप सा० सुयपथाय सा० विभगपथाय सा० । मतिज्ञानना साकारीपयोग श्रुतज्ञान साकारीपयोग अथविज्ञान सा० अनपर्येयज्ञान सा० केवलज्ञान
 न सा० श्रुतज्ञान सा० विभगज्ञान सा० । एथागारोवर्जगेण मति कइविहे प० । धनागारोपयोगना केतवाभेद कथा । गोयसा वचवि० त० । हे

कार सगवा वृपयोगद्या नाकारीपयोग, यत्ते वस्तुन सीमान्तरूपतया परिच्छेदो ऽनाकारीपयोग 'स्कन्धावारीपयोगव' दित्यर्थः, एषा षपि ब्रह्मस्थानामात्मसौदृष्टिक परमनाकारीपयोगकाला रसाकारीपयोगकाल सत्येयायुश्च प्रतिपत्तव्य पर्यायपरिच्छेदकतया चिरकाललगनात् ब्रह्मस्थाना तथास्थानाख्यात्, केवलिनो त्वनाकारीपयोग एकसामयिक षण्ण्यी स्वगतानेकजेटसूचकी तत्र साकारीपयोगभेदानिज्जिधित्तुदिसिद्धान्त-सागारीपयोगं जते । इति ॥ अर्थाज्जिमुखो नियात् प्रतिस्वरूपकोषीषो ऽज्जिनियोषो ऽतिनियोष एव आज्जिनियोषिक षणिनियोषिगण्डस्य विनयादिपाठान्नुपगमात्, विनेयादित्य इत्यनेन स्वार्थेइकण् प्रत्यय, अनिवसंते स्वार्थे प्रत्ययका प्रकृतीलिङ्गवचनानीति षचना तत्र नपुसुक्ताः पया विनय एव वैनयिक सित्यत्र अथवा आज्जिनियुच्यते अस्मा दस्मिन्व्यति आज्जिनियोष स्तदावरणकर्मक्षयोपशम स्तोन नियुत आज्जिनियोषिक, तच्च तत् ज्ञान आज्जिनियोषिकज्ञान इन्द्रियमनोनिमित्तो योग्यप्रदेशार्थस्थितवस्तुविषय स्फुट प्रतिज्ञानो षोषविशेष इत्यर्थे, सघासी साकारापयोगश्च आज्जिनियोषिकज्ञानसाकारीपयोग एव सयत्रापि समास कर्तव्य, तथा अथ श्रुत वाच्यवाचकज्ञावपुरस्च रीकरणशब्दसस्पृष्टाचग्रहणहेतु रुपलब्धिविशेष गवमाकार वस्तु पटशब्दवाच्य अलधारणाद्यर्थक्रियासमर्थ सित्यादिरूपतया प्रघानीकृत समा परिणामगुण्द्वार्यपर्यालोचनानुसारी इन्द्रियमनोनिमित्तो ऽगमविशेष इत्यथ, श्रुत च तत् ज्ञान च श्रुतज्ञान ततो ज्ञय. साकारीपयोगज्ञानेन षेपणसमाच, तथा ऽगशब्दो ऽथ शब्दाय, अथ अथो वित्तुत वस्तु षीयते परिच्छिद्यत ऽनेनेत्यवधि, यद्वा ऽवधि' समोदाकरूपिषेव द्रु पु परिच्छेदकतया प्रवृत्तिरूपा तदुपलक्षित ज्ञानमप्यवधि अथविद्यासौ ज्ञान वाविधिज्ञान, तथा परिसवतो ज्ञावे अवन अथ, तुदादिन्यो

रोवन्ति व । सागारीवन्तेण सते ! कतिविहे पस्यते ? गीयमा ! अथविहे पस्यते, तज्जहा-अ्याज्जिनि

त्त । कतिविष मज्जस' २ गीतम । अथविधः प्रप्रसन्नद्यया-आज्जिनियोषिकज्ञानसाकारीपयोग श्रुतज्ञानसाकारीपयोगोवाविधिज्ञानसाकारोप

इगौतम् पाठेभदे बद्धा ते कहेहे-आभिषिने-दिवयाण सागारीवन्तेण सागारीवन्तेण सा. अथपञ्चदश्याण सा. केवलियाण सा. सतिग

स्य त त्रष्टव्य न तद्विषय तस्य सूत्र वक्तव्य मिति प्रायः, किंहरू यदेव कर्तव्य मिति ज्ञाकाया परमदरऽकृच्छ्र्यता मपदिशति ॥ भावप्राप्त्यात्म
 णपञ्जतीएतु इत्यादि ॥ प्रावितायं इहाधिकृतार्थभावनायमिमा पूर्वाचार्यप्रतिपादिता गाथा -सिद्धेनिदियसहिद्या जहिदुजीवाश्रमगतत्य ।
 सिद्धेनिदियवज्जे हिहीइवीवेदितियजगो ॥ १ ॥ अस्त्रीसुयनेरइ य देवमणुएसुहोतिवज्जगा । पुढविदगतरुगणेसुय वज्जगतेतलेसाए ॥ २ ॥ कीहे
 माकेमाया वज्जगासुरगणेसुवेषु । माणेमायालोत्रे नेरइएहिपिवज्जगा ॥ ३ ॥ आत्रिणिवोहियमाणे सुयनाणेखलुतहेवसम्मते । वज्जगाखलुनियमा
 वियतियधरिदिसुजवे ॥ ४ ॥ उवरिल्लउपज्जती सुधवसुनेरइयदेवमणुएसु । वज्जगाखलुनियमा वज्जपढमाउपज्जती ॥ ५ ॥ सन्नोविदुहलेसा स
 जयहिउल्लितिसुयनाणेसु । सीपुनिसाणयवेदेवि वज्जगाखलुतियजगो ॥ ६ ॥ सम्मानिच्छमणवइ मणनाणेवालपणियवेउवो । आहारशरीरनिय निय
 माआहारयाहेति ॥ ७ ॥ उहनिविमगमि नियमाआहारयाउनायवो । पचिन्दियातिरिच्छा मणुयापुणशोतिवज्जगा ॥ ८ ॥ उरालसरीरमिय प
 ज्जतीणचपसुतहेव । तियजगोजियमणुए सुहोतिआहारगा संसा ॥ ९ ॥ जोत्रवअरुवलेसा अजोगिणोतएहोतिअसरीरी । पढमाएअपज्ज
 तीए तेउनियमाअणाहारा ॥ सत्तासलवितप्ता वेयकसाइणोयकेवलियो । तियजगयकवयण सिद्धाआहारयाहेति ॥ एताश्च सर्वा अपि गाथा उक्ता
 यंप्रतिपादकत्वा ज्ञावितायां इति न नूयो प्राप्यते ग्रथगीरवज्जयात्, नवर ॥ एकवयणे सिद्धा आहारया होति इति ॥ एकवयणे इत्यत्र तृतीया
 ये सप्तमी एकवचनेन एकार्थनेति ज्ञाव, सर्वत्र सिद्धा अनाहारका प्रयतीति विज्ञेय ॥ इतिश्री मलयगिरिविरचिताया आहारपदस्य द्वितीयो

एसु अाप ज्ञत्तएसु णेरइयदेवमणुसएसु वज्जगा , सेसेसु य तियजंगगा ॥ बीज उहेसो सम्मतो ॥ सम्मतं

सिधु अपयार्थकेषु नेरयिकदेवमनुष्येषु पङ्कज्जा ज्ञेषु ध जगत्रयम् ॥ द्वितीयोद्देश समाप्त ॥ इति श्री रामचन्द्रगणेशिष्य नानकधरद्विरचिते
 सप्तम चेरऽय देश मणुएमु क्तभगा संयसु तियभगो । यावत् भाया मतपर्याप्तये उपर्याप्ताने नारकी देव मन्थने ई भागा थाकता सर्वने भांवा २ । दो
 तिश्रीउहेसो सम्मतो । बीजो उहेसो समाप्त ययो २८ ॥ २ ॥ यण्यथाए आहारपय सम्मत ॥ इति प्रज्ञापना भगवतीनां २८ अष्टावीचमी

१. पर्याप्त्यपराप्तकारिणोऽपि यद्विचलद्रिया न भवति किन्तु पचेद्रिया एव येषा हि प्राणासन पर्याप्तिसञ्चयो स्ति तस्य तस्य पर्याप्ता प्रोच्यते न शोपा इति तस सास्युत् । बहुत्रयने जीवपदे पि पचेद्रियातिर्यग्योनिकपदे च अत्रिक, पचेद्रियातिर्यग्योति समुच्छिमा सदेव यद्वयो तस्यन्ते ततो यात्र दद्याप्यस्यो विग्रहगत्यापने लभ्यमाने द्वितीयो ब्रह्म, आहारका या नाहारकश्च इति । यदा तु विग्रहात्यापना अपि महवो लभ्य ते तदा तृतीयो जग आहारकाया नाहारकाश्चोति जीवपदेपि जगत्रिकमेतदपेक्षया ॥ अतएव ॥ नैरयिकदेवमनुष्येषु प्रत्येक पङ्कग तेष प्रागेवोक्ता । इह, प्रथमपदादारत्य प्राय एकत्वेन बहुत्वस्य च विवेकितानि सूत्राणि जीवादिदृष्टकर्मणो नोक्तानि ततो माम् लम्ब्यमतीना समोए इति तद्विषय मसिदेशमाए-नसवपयसु सगते इत्यादि ॥ अते जीवादयो दृष्टका सर्वपदेषु सर्वेषु पदेषु एकत्वेन बहुत्वया लपतकृण्वेत किर्पवने च प्रकृतित्वा कि सर्वत्राप्यविशेषेण कतथा नेत्याह-जस्येत्यादि ॥ यस्य यदस्ति तस्य त स्पृच्छते तद्विषय सूत्र प्रणते यस्य पुन यन्नास्ति न त

इयदेवमणसेसु ब्रह्मगा अयसंसाण जीवेगिदिवज्जी तियन्नगो । आसामणपज्जतीए जीवेसु पचिदियति
रिक्कजोणिणिसु य तियन्नगो । णेरइयत्ते देवमणसेसु ब्रह्मगा सव्वपदंसु एते एगत्तपुहत्तेण जीवादिञ्च दळ्ळगो
पुच्छाए भाणियद्यो जस्स ज अय्यि तस्स त पुच्छिज्जइ ज नय्यि त न पुच्छिज्जइ जाव आसामणपज्जती

अवशेषाणा जीवेकंद्वियवज्जी ब्रह्मत्रयम् । प्रायामन पर्याप्तिसीगेषु पचेन्द्रियतियग्योनिकेषु च ब्रह्मत्रयम् । नैरयिकत्वे देवमनुष्येषु पङ्कग सर्वपदेषु एत एकत्वपपञ्जेन जीवादयोदाहका स्पृच्छया प्रकृतित्वा यस्य यदस्ति तस्य तस्पृच्छते यन्नास्ति तस्य तस्पृच्छते यावद्ब्रह्मप्रायामन पर्याप्तौ जीवेस पचिदिय तिरिक्कजोणिणिसु तियमगां चेरइय देव मपुरसेसु छमगा । भायामनपर्याप्ताने जीवने पचन्द्रो तिर्यवयोनिकत्वे २ भागा नारकी देव मनुष्यने ६ भागा । सर्वसु पदंसु एगत्तपङ्कण जीवादिया दळ्ळगा पुच्छाए भा० । सर्वपदेकरो एकत्व प्रथकत्वेकरो जीवादिकना प्रजन कच्चिे । जस्य तपयि तस्य त स्पृच्छज्जति ज नय्यि त नपुच्छिज्जति । जेइने हुन तेइने तिमहीव पूच्छिमां जेइने नयो तेइने नपूच्छी । जाव भासामणपज्जती अपक्का

र्थात्सा पर्याप्तिसूत्रे एकवचने सर्वत्र स्या दाहारक इति । तत्र विग्रहगताना वनाहारक उपपातदेवप्रामासुत् शरीरपर्याप्तिसमाप्ति याय दाहारक इति । एवं सिद्धिपर्याप्त्या पर्याप्तिसूत्रे-प्राणापानपर्याप्त्या पर्याप्तिसूत्रे च प्रत्येक एकवचने स्या दाहारक स्या दनाहारक इति वक्तव्य । बहुवचने ॥ चरित्तिया इत्यादि ॥ उपरितर्तुषु शरीरपर्याप्तिसूत्रेषु वतन्तुषु उपर्याप्तिसूत्रे चिंत्यमानासु प्रत्येकं नैरयिक देवमनुष्येषु पटनङ्गा वक्तव्या स्तथा-कदाचि तस्यै म्याहारका एव १ । कदाचि तस्यै प्यनाहारका एव २ । कदाचि देक आहारक एको ऽनाहारक ३ । कदाचि देक आहारको बहुवो ऽनाहारका ४ । कदाचि द्वहव आहारका एकस्या नाहारक ५ । कदाचि द्वहव आहारका बहुवया नाहारका ६ । अवशोपाया नैरयिकदेवमनुष्यव्यतिरिक्ताना जीविकेन्द्रियवशंनगतिक यस्तव्य तथ्या-सर्वेवि ताय ऊवेयु दाहारका १ । अथ वा आहारकाद्या नाहारकाद्या २ । अथवा आहारकाद्या नाहारकाद्या ३ । जीवपदे एकेन्द्रियपदेषु च पुन शरीरपर्याप्त्या पर्याप्तिसूत्रे वल्लियपर्याप्त्या पर्याप्तिसूत्रे प्राणापानपर्याप्तिसूत्रे च प्रत्येक मनङ्गक आहारका अपि अनाहारका अथ वभयेयामपि च सदा वगुत्वेन लक्ष्यमानत्वात् । ज्ञापान

पज्जतीपचिदियाणं अथसेसाणं नत्थि अ्याहारपज्जतीअपज्जत्तए नोअ्याहारए अ्याणाहारए एगत्तेणवि पुहत्ते णवि । शरीरपज्जतीअपज्जत्तए सिय अ्याहारए । वउरिस्सियासु चउसु अ्यपज्जतीसु णेर

था आहारका नोऽनाहारका । प्रापानन पर्याप्तिसूत्रेन्द्रियाशामवशोपाया नास्ति । आहारपर्याप्त्यपर्याप्तको नो आहारकोनाहारक एकत्वेनापि पचकंतापि । शरीरपर्याप्त्यपर्याप्तक स्यादाहारक स्यादनाहारक उपरितर्तुषु चतसृषुवपर्याप्तिसु नैरयिकदेवमनुष्येषु पटनङ्गा ।

पर्याप्ताने पर्याप्तो नहो आहारक अनाहारक एकत्वं पचकं हवे शरीर अपज्जती अपज्जत्तए सियअ्याहारए अियअ्याहारए अशरीर अपर्याप्ताने अपर्याप्तो किवारे आहारक इवे किवारे अनाहारक । चरित्तियास चतसु अपज्जत्ताएसु क्वरथ देव मनुष्येषु ऊभया अवसेसाप जीविनिद्रियवज्जा तियभगो । अपरित्तो ४ पर्याप्तये नारको देव मनुष्यना भागा ६ ज्ञानिया वाकता जीवादिक एकेन्द्रियवर्त्तने ३ भागा । आशामपचकतो अपचकतो

जातिर्येकपच द्विपयनव्यथनरज्योतिकविमानिकेषु आहारक मनुष्येय, सूत्रोद्धेयार्थं-वेत्तव्येशरीरिण प्रते । कीं कि आहार्य अणाहार्य ? गो यमा । आहार्ये नो अणाहार्य ॥ वेत्तव्येशरीरेण प्रते नैरइस कि आहार्य अणाहार्य , गोयमा । आहार्य नोअणाहार्य इत्यादि ॥ तेज समानंशरीरसूत्र चैक्यवने सर्वत्र स्या दाहारक स्या दनाहारक इति, बहुवचन जीविकेन्द्रियवर्ज्ये स्वानेषु प्रकृतिक जीवपदे एकैन्द्रियेषु पुनर जद्रुक' अत्ररीरिण सिद्धा स्तेन तत्र हे तत्र पदे तद्यथा-जीवा सिद्धाथ । तत्रैकवचन बहुवचनेषा जयगोप्यनाहारक एत्र । गत शरीरद्वार । स एतति पर्याप्तद्वार तत्रागम पर्याप्तय पच्य आयागन पर्याप्तोरैकत्वेन विवक्षणात्, सया दारपयास्य पयासे शरीरपर्याप्त्यापर्याप्तं द्रवियवयां स्या पर्याप्त प्राणापानपर्याप्त्या पर्याप्तं तापायन पर्याप्त्या पर्याप्तं चित्तभाने क्रेश्च सयसकलामाह-एतासु पचस्यापि पर्याप्तिसु समचित्तसु चित्त्य मानास्त्विति शेष , प्रत्येकमेकवचने जीवपदे मनुष्यपदे च स्या दाहारक स्या दनाहारक इति, जेषु तु स्वानेषु आहारका इति बहुवचने ॥ जीवेषु मनुष्वेषु च तियजगोति ॥ जीवपदे मनुष्यपदेच जद्रुविक च वक्तव्य तर्षोदारिकशरीरसूत्रमिव ज्ञावनीय अवशेषा. सर्वे प्याहारका वक्तव्या नवर ज्ञापयान पर्याप्तपचैत्रिपाणाःमेवेति तस्मूत्रे एकेन्द्रियविकर्षोन्द्रिया न वक्तव्या किन्तु ज्ञेया तदेयाह-ज्ञासामण्यज्जतीपिचिद्वियाश नित्य इति ॥ आहारपर्याप्त्यऽपर्याप्तसूत्रे एकवचने सर्वत्रा प्यनाहारको वक्तव्यो नो आहारक आहारपर्याप्त्या सपर्याप्तो विपद्गताथेव लज्यते सपवा तक्षेत्रमाप्तस्य प्रथमसमपसवा दारकपर्याप्त्या पर्याप्तत्वज्ञाया दन्वया तस्मिन् समये आहारकत्वाऽनुपपत्ते वेत्तव्यपरे त्वनाहारका इति, शरीरप

एतासु चतसुवि पञ्जातीसु जीवेषु मणसेसुय तियजगो श्ववसेसा श्याहारगा नोद्युगाहारगा । ज्ञासामण

क शरीरपर्याप्तिसपर्याप्तक इन्द्रियपर्याप्तिसपर्याप्तक ज्ञानप्राणपर्याप्तिसपर्याप्तक एतासु चतसुर्वेपि पर्याप्तिसु जीवेषु मनुष्येषु च प्रकृत्यपम् । अथज्ञो र्वाप्ति पर्याप्तो पचवी पाच पर्याप्ति पर्याप्तं कीच मनयना भागा ३ अग्निवा थाकता आहारकना धषी कश्चिदे पिच चनाहारी न कश्चिदे । भासानपय जती पचिद्वियाच वेद्याथ नस्यि आहारपण्यतो भ्रषण्यसए नो आहारए सथाः एगसपुष्टुत्तेपविधा० । सापामनपर्याप्ति पचेदो थाकताने नही पद्वार

गरीबजुगोवउतेण प्रते । जीवे किं आहारए अणहारए ० गोयमा । विद्य आहारए विद्य अणहारए इति ॥ गतं उपयोगद्वार । वेदद्वारे-सा
 मास्यत संवेदसूत्रमेकवचने स्यादहारक स्यादानाहारक इति बहुवचने जीवपदे एकैन्द्रियाय वजयित्वा शोषेषु स्थानेषु प्रद्वित्रिक जीवपदे एकै
 न्द्रियेषु च पुन प्रत्येक मज्जूक आहारका अनाहारका अपीति । स्थीवेदसूत्र पुनपवेदसूत्र च एकवचने तस्यैव नवर मत्र नैरपिकेन्द्रियविकले
 द्विया न वक्तव्या स्तोया नपुंसकत्वात् । बहुवचने जीवादिषु प्रत्येक मज्जूक नपुंसकवेदेषु सूत्र मेकवचने तस्यैव नवर मत्र अवनपतिव्यत्तरज्यो
 तिक्रमेमात्मिका न वक्तव्या तथा न नपुंसकत्वाद् बहुवचने जीवैकेन्द्रियवर्जेषु प्रद्वित्रिक जीवपदे एकैन्द्रियपदेषु च पृथिव्यादिषु पुन रज्जुक प्रागुक्त
 स्वरूपमिति । अत्रेदो यथा कंबली तथा एकवचने बहुवचने च वक्तव्या । जीवपदे मनुष्यवदे च एकवचने स्या दाहारक स्या दनाहारक इति ।
 बहुवचने जीवपदे आहारका अपि अनाहारका अपि मनुष्यजु मज्जूक सिद्धेत्व नाहारका इति यत्तत्र्यविति ज्ञाय । गत वेदद्वार । शरीरद्वार
 शरीरद्वारे सामान्यत शरीरमूत्रे सर्वत्रैकवचन स्या दाहारक स्या दनाहारक इति । यदुवचने जीवैकेन्द्रियवर्जेषु शोषेषु स्थानेषु प्रत्येक मज्जूक
 जीवपदे पृथिव्यादिपदेषु च प्रत्येक मज्जूक प्रागुक्तमिति ॥ श्रीदारिकसूत्र मेकवचने तस्यैव नवर मत्र नैरपिकजवनपतिव्यत्तरज्योतिकवैमानिका

तियजगो । इत्यिवेयपुरिसवेणसु जीवाइउ तियजगो । नपुसगवेदए जीवेगिदियवज्जो तियजगो । अवेयए
 जहा केवलनाणी ससरीरे जीवेगिदियवज्जो तियजगो । उरालियसरीरीसु जीवमणसेसु तियजगो अवेयसेसा

सकवेदे जीवेकेन्द्रियवर्जा जगमयम् । अवेदको यथा केवलछानी । ससरीरे जीवैकेन्द्रियवर्जा जगमयम् । श्रीदारिकसरीरिषु जीवमनुष्येषु जग

पुबववेदने जीवादिषु ३ भागा । नपुंसकवेदए जीवेगिदियवज्जो तियमगो । नपुंसकवेदने जावादिषु एकैन्द्रिय वर्जानि ३ भागा जाणिया । अवेदए ज
 हा केवलसपायो ससरीरे जीवेगिदियवज्जो तियमगो । अवेदो विम केवलो तिम जाणिवो ससरीरोजीवने एकैन्द्रियवर्जानि २ भागा । उरालियसरीरे
 सु जीव मणुससेसु तियमयां अवेदसा आहारगा नो यथा० । श्रीदारिकसरीरे षड् जीव मनुष्यता भागा ३ इवे यावता आहारक मनाहारक मद्यो ।

मा । आहारण नो अनाहारण, स्वमेगिन्द्रियवज्ज जाव वेमाणिए ॥ एवं पुहुत्तेणवि ॥ काययोगिसूत्र मय्येकवचने बहुवचने च सामान्यत सयोगिसूत्र
 मिय ॥ अजोगीण नते । जीवे कि आहारण ॥ तेनात्र वीणि पदानि तथ्या-जीवपद मनुयपद सिट्टपद च त्रिषपि स्थाने वेकवचने यहुवचने ना
 दारकत्त मेव, अधुनोपयोगद्वार-तत्र साकारोपयोगसूत्रे च प्रत्येकमेकवचने सर्वत्र स्या दनाहारण इति वक्तव्य, सिट्टपदे त्यनाहारण इति ।
 ययुवचने जीवपदे पुय्यिख्यादिपदेषु वाहारका अपि अनाहारका अपीति जग, शेषेषु जङ्गनिक सिट्टा रत्ननाहारका इति सूत्रोक्तेर रत्नय-सा

सजोगीसु जीवेगिन्द्रियवज्जो तियजगो । मणजोगी वइजोगी य जहा सम्मामिच्छादिठी नवर वडजोगी
 विगलिदियाणत्रि कायजोगीसु जीवेगिन्द्रियवज्जो तियजगो । अजोगी जीवमणससिद्धा अणुणाहारगा ।
 सागाराणागारोवउत्तेसु जीवेगिन्द्रियवज्जो तियजगो । सिद्धा अणुणाहारगा ॥ दार ॥ सवेदजीवेगिन्द्रियवज्जो

गोविकत्तेन्द्रियाणामपि । काययोगिणु जीवेकेन्द्रियवर्जा जङ्गत्रयम् । अयोगिजीवमनुयसिद्धा अनाहारका । साकारानाकारोपयुक्तेषु जीवे
 केन्द्रियवर्जा जगत्रयम् । सिद्धा अनाहारका । दार । सवेदके जीवेकेन्द्रियवर्जा जगत्रयम् । खीवेदपुरुषवेदेषु जीवादिषु जगत्रय । नपु

विभङ्गानो पुचेन्द्रिय तियेच्चयानिदा मनव्य आहारी पिण अनाहारी नशीदुवं धाकता लोधादिकाना २ भागा जाणिवा दार ८ । अथागोएम् लोवेनि
 दिववज्जो तियभगो । सयोगी जीवने एकन्द्रियवर्जने ३ भागा जाणिवा । मणजोगी वयजोगी कडा सय्यामिच्छादिठो पवर वयजोगे विगलिदियाण
 वि माणि । मनवोगी वचनयोगे लिस सय्यारमयादृष्टो तिस जाणिवा एविग्रय वचनयोगीने विकलेन्द्रियने जाणिवा । कायजोगीसु लोवेगिन्द्रियव
 लो तियभगो । काययोगीने जीवने एकन्द्रियवर्जने ३ भागा । धजोगी जीवे मणुसे विहे अणुणाहारण सागाराणागारोवउत्तेसु लोवेगिन्द्रियव
 भगो विवा अणुणाहारगा । अयोगी जीव मनुय सिद्ध अनाहारी श्वे साकारोपयोग लोवादिक्ते एकन्द्रियवर्जने ३ भागा जाणिवा सिद्ध अनाहारी
 श्वे । सवेदए लोवेगिन्द्रियवज्जो तियभगो । सवेदो जीवने एकन्द्रियवर्जने ३ भागा जाणिवा । इत्येव परिसवेदएम् लोवादिषो तियभगो । खीवेद

का अपि, मनुष्यपदे प्रकृतिक तत्र प्राग्बोधोपदेशित, सिद्धपदे-त्वमाहारका अपि । अष्टानिसूत्र मत्यज्ञानिसूत्र श्रुताज्ञानिसूत्र ॥ एकवचने प्राग्बोधवचनविज्ञाया जीवपद एकैन्द्रियपु पृथिव्यादियु मत्येकमाहारका अनाहारका अपि इति वक्तव्य बोधेषु जगत्त्रिक विजज्ञानिसूत्र नयेकवचने तथैव बहुवचनविज्ञाया पचेन्द्रियतियकणोनिका मनुष्या आहारका मत्र वक्तव्या, नत्वनोहारका विजज्ञानसहितस्य विग्रहगत्या तियकृपचेन्द्रियपु मनुष्येषु चोत्पत्त्यसम्भवात्, अयत्रोपेपु स्थानेषु एकैन्द्रियविकलेन्द्रियवर्जेषु मत्येक जगत्त्रिक । गत ज्ञानद्वार । सम्प्रति योगहार-तत्र यामान्यत सयोगिसूत्र मेकवचने तथैव बहुवचने जीवैकैन्द्रियपदानि वर्जयित्वा बोधेषु स्थानेषु प्रकृतिक, जीवपद पृथिव्यादिपदेषु च पुन मत्येक माहारका अपि अनाहारका अपीति जग उन्नयेपामपि सदैव तेषु स्थानेषु बहुवचने लभ्यमानत्वात् ॥ मणजोगो वडजोगी जरा सत्तामिच्छ दिहीय त्ति ॥ मनोयोगिनो यागयोगिनश्च यथा प्रक् सम्यग्भित्थादृष्टय उक्ता तथा वक्तव्या, एकवचने बहुवचने वा द्वारका मय वक्तव्या न त्वनाहारका इति ज्ञाव, नउर वडजोगिगल्लिदियाणविति ॥ नवरमिति ॥ सम्यग्भित्थादृष्टिमप्रादश्राय विज्ञेय -सम्यग्भित्थादृष्टित्व विकलेन्द्रियाणा नास्तीति तत्सूत्र-तत्रोक्त वाग्योऽ पुन विंक्ललेन्द्रियाणा मप्यस्ति तत्सूत्रमपि वाग्येण वक्तव्य तथैव-मणजोगीण जते । जीवै कि आहारय अनाहारय ? गोय

नोसन्ती नोश्चसन्ती श्यन्ताणी मतिश्चन्ताणी सुयश्चन्ताणी जीवेगदियवज्जो तियन्नगो । विजगनाणी पचिदियतिरिक्जोणिया मणसाय श्याहारगा नाश्चणाहारगा श्यवसेसंसु जीवादिनु तियन्नगो ॥ द्वार ॥

यशो । अष्टानी मत्यानी श्रुताज्ञानियु नीविकेन्द्रियजर्जा प्रकृतयम् । विजज्ञानोपल्वन्द्रियतियग्योनिका मनुष्याद्याहारका नोद्यनाहारका अयत्रोपेपु जीवादिक्तो प्रकृतयम् । द्वारम् । स्यागिणु कीविकेन्द्रियजर्जा प्रकृतयम् । मनोयोगी वाग्योगी यथा सम्यग्भित्थादृष्टिर्नवर वाग्यो धो केनलज्ञानो लिम तिम सिक् काण्विधो द्वारम् । अष्टाणो मत्रश्रणाणो सुयश्रणाणो जीवैगदियवज्जो तियन्नगो । मतिज्ञानोने श्रुतज्ञानो जीवने एकैन्द्रियजर्जाणि ३ भागा जाण्विग । विभगषाणो पचिदिय तिरिक्जोणिया मणुसाव आहारगा नो अष्टा० अयसेसेसु जीवादिवो तियन्नगो द्वार ।

मा । आहारए नो अनाहारए, एवमेगिदियवजा जाव वेमाणि ॥ एवं पुहुत्तेणवि ॥ काययोगिसूत्र मय्येकवचने बहुवचने च सामान्यत सयोगिसूत्र
 मिव ॥ अजोगीक जते । जीवे कि आहारए ॥ तेनात्र त्रीणि पदानि तथ्या-जीवपद मनुष्यपद सिद्धपद च त्रिष्वपि स्थाने प्रेकवचने बहुवचने ना
 धारकत्व मेव, अयुनोपयोगद्वार-तत्र साकारोपयोगसूत्रे च प्रत्येकमेकवचने सर्वत्र स्या दनाहारक इति वक्तव्य, सिद्धपदे त्वनाहारक इति ।
 बहुवचने जीवपदे पृथिव्यादिपदेषु धारका अपि अनाहारका अपीति जग, दोषेषु जङ्गविक सिद्धा स्वनाहारका इति सूत्रोक्तस स्वल्प-सा

सजोगीसु जीवेगिदियवज्जो तियज्जगो । मणजोगी वइजोगी य जहा सम्मामिच्छादिठी नवर वडजोगी
 विगलिदियाणवि कायजोगीसु जीवेगिदियवज्जो तियज्जगो । अजोगी जीवमणससिद्धा अणुणाहारगा ।
 सागाराणागारोवउत्तेसु जीवेगिदियवज्जो तियज्जगो । सिद्धा अणुणाहारगा ॥ दार ॥ सर्वदजीवेगिदियवज्जो

गोविकलेन्द्रियाणामपि । काययोगिषु जीवेकेन्द्रियवर्त्तौ जङ्गत्रयम् । अयोगिजोवमनुष्यसिद्धा अनाहारका । साकारानाकारोपयुक्तेषु जीवे
 केन्द्रियवर्त्तौ जगत्रयम् । सिद्धा अनाहारका । दार । सर्वदके जीवेकेन्द्रियवर्त्तौ जगत्रयम् । स्त्रीवेदपुरुषवेदेषु जीवादिषु जगत्रय । नपु

विमङ्गानौ पचेद्विद्य तिवंश्यानिद्या मनस्य अनाहारी पिण अनाहारी नशोदुष थाकता जीवादिकाना ३ भागा जाणिया दार ८ । प्रयोगोएस जीवेगि
 दियवज्जो तियभगो । सर्वयोगी जीवने एकैन्द्रियवर्त्तौने ३ भागा जाणिवो । मणजोगी वयजोगी जहा सम्मामिच्छादिठो पयर वयजोगे विगलिदियाणे
 वि माणि । मनयोगी वचनयोगी तिम सम्यग्मथादृष्टो तिम जाणिया एवियप वचनयोगीने विकलोट्टयने जाणिया । कायजोगीसु जीवेगिदियव
 ज्जो तियभगी । काययोगीने जीवने एकैन्द्रियवर्त्तौने ३ भागा । अजोगी जीवे मणुसे सिद्धे अणुणाहारए सागाराणागारोवउत्तेसु जीवेगिदियवज्जो तिय
 भगी सिद्धा पणाधारगा । अयोगी जीव मनस्य सिद्ध अनाहारी एवे साकारोपयोग जीवादिकने एकैन्द्रियवर्त्तौने ३ भागा जाणिया सिद्ध अनाहारी
 हवे । सर्वदए जीवेगिदियवज्जो तियभगो । सर्वदो जीवने-एकैन्द्रियवर्त्तौने ३ भागा जाणिया । दयित्वेव परिष्वेदएस जीवादिषु तियभगो । स्त्रीवेद

नाहारकाया सर्वे बहुत्वेन लभ्यमानत्वात्, मनुष्यपदे भ्रमणिक सर्वेषु तावद्भवेयु राधारका १ । अथवा आहारकाया नाधारक २ । अथ
 यथा आहारकाया नाधारकाश्च ३ । प्रावना प्रागवा नैकश्च कृता सिद्धपदे त्वनाधारक एक मय । सम्प्रति ज्ञानहार-वत् ॥ नानी जडा गुणादि
 षिचि ॥ ज्ञानी यथा प्राक् सम्पद्दष्टि रक्त स्तथा यस्तथ्य स्वध्याया-गणीउ जते । जीवे कि आहारम अणाहारम गो० शिव याधारम शिव अ
 णाहारम । नाणीक जते । नरडय कि आहारम अणाहारम १ गोयमा । शिव आहारम शिव अणाहारम । सर्वमेगिदिययज्ज जाव वमाविठ ।
 नाणीक जते । जीवा कि आहारम अणाहारम २ गो० । आहारमावे अणाहारमावि । नाणीक जते । लेरडया कि आहारम अणाहारम गो० ।
 सर्वेवि तावरीज्जा आहारम १ । अथवा आहारमय अणाहारमय २ । अथवा आहारमय अणाहारमय ३ । अथवा आहारमय अ
 णाहारमय ४ । अथवा आहारमय अणाहारमय ५ । अथवा आहारमय अणाहारमय ६ ॥ एय तेश्चदिययवनि-र्यावि प्राणियद्या अयसेवा जाव वमाविषया अथा नेरडयाण
 रगय अणाहारमय ५ । अथवा आहारमय अणाहारमय ६ ॥ एय तेश्चदिययवनि-र्यावि प्राणियद्या अयसेवा जाव वमाविषया अथा नेरडयाण

वेडादिनतेहदियचउरिदिएषु उ नगा अथसेसेसु जीवादिनु तियजगो । जेसि अथ्लि उहिनाणी पचिदि
 यतिरिक्कजोणया मणूसा य अाहारगा नो अुणाहारगा अुवसेसेसु जीवादिनु तियजगो जेसि उहि

शेषेषु जीवादिक् खिक्तगो येषामस्त्ववधिज्ञानम् । पञ्चेन्द्रियतियग्योनिका मनुष्या याधारका नो अनाधारका अवशेषेषु जीवादिक्को जंग
 वांङ्गियणाषो मुयबाषो वेरदिय तद टिय वरिदिठु अभागा अयससेसु जीवादियो तियभगो सेधि याल्य तेसि भाणियवत्त्वा । प्रागो अिम सम्यग्दटो
 तिम वाणिया मतिप्रानो दुतप्रानो वेदिय तेदिय चोरिदिट्यादि ६ भागा याकता जीवादिक्कना भागा ३ वाणिया । योदिबाषो पचिदिय तिरिक्क
 जोणिया आहारगा नो अणाहारम अयसेसेसु जीवादियो तियभगो जाव याल्य तेसि भाणियवत्त्वा । लेरने अयधिप्रान इवे पंविन्द्रियतियचयोनिक्क
 याहारो इवे अनाहारो नहो याकता जीवादिक्कभागा ३ वाणिया लेरने अयधिप्रान इवे । मयपत्त्वमणाषो लोवा मनुष्या एगसपुइसेषवि प्राडा

सिद्धाणं पुच्छा, गो०। अणाहारग इति ॥ आग्निवीचिकज्ञानसूत्रे वैकवचने प्राक् वदवसेय बहुवचने द्वित्रिषतुरिद्विषेषु जंगा, अथत्रोपेषु जीयादिषु स्थानेषुकेन्द्रियवर्जेषु प्रकृतिक तस्यैव-आग्निनिवीह्य नाशीक प्रते। जी। कि आहारग अणाहारग ? गो०। सर्वे वि ताव होञ्ज आहारग १। अहवा आहारगय अणाहारगय २। अहवा आहारगय अणाहारगय ३। इत्यादि ॥ तथासाह-आग्निनिवीहियनाशी सुयनाशी सुय बद्ददियचर्त्तारिदियेषु ख जगा अवसेसेसु जीवाइतु तियजगो तेषि यतिय इति ॥ सुगम नवर जेषि अतिय ॥ येषा जीवानामाग्निनिवीचिक ज्ञानश्रुतज्ञाने स्त स्तषु जगत्रिक वक्तव्य न ज्ञापयिष्यादिति। अवधिज्ञानसूत्र मेकवचन तयैव बहुवचनचित्ताया पंचेद्वियतियेक्योनिकाआहारका एव न त्वनाहारका कस्तादितिषे दुष्यते-इह पञ्चन्द्रियतिरयामनाहारकस्य चिग्रहगतो न च तदानी तेषा गुणप्रत्ययतो वयिससधो गुणा नामेवसन्नत्रा त्वाप्यप्रतिपतितावचि देवां मनुष्यो वा तियेक त्वद्यते ततो ऽत्रचिज्ञानिन सत पचेद्वियतिरियो ऽनाहारकत्वायोग ज्ञापेषु तु स्थानेषकेन्द्रियविकलोन्यवर्जेषु प्रत्येक प्रकृतिक, एतदेवाह-द्विनाशीक पञ्चिन्दियतिरिक्त्तजीवीया आहारग अवसेसेसु जीवाइतियजगो जेषि अतिय उद्विनाण मिति ॥ मन पयायज्ञान मनुष्याथामेव ततो हे पद तद्यथा-जीवपद उजयवचने य मनु पर्यायज्ञानिन आहारका एव वक्तव्या-नत्वनाहारका विग्रहगत्याद्यवस्थाया मन पर्यायज्ञानासम्भात्, केवलज्ञानो यथा प्राक् नोस्तच्चित्तो ऽस्यो उक्त स्थाया वक्तव्य, किमुक्त जयति केवलज्ञानचित्तापामपि त्रीणि पदानि तद्यथा-सामान्यतो जीवपद मनुष्यपद सिद्धुपद च तत्र सामान्यतो जीवपदे मनुष्यपदे वैकवचने स्या दाहारक-स्या दनाहारक इति वक्तव्य, सिद्धपदेत्यनाहारक इति बहुवचने सामान्यतो जीवपदे आहारका अपि अनाहार

नाणं। मणपज्जवनाण जीवा मणसाय एगत्तेणवि पुहत्तेणवि ध्याहारग नोध्यणाहारग। केवलनाणी जहा

त्रय येषामवधिज्ञानं। मन पर्ययज्ञानिजीवा मनुष्यावैकचेत्तापि पथकेतापि आहारका नो अनाहारका। केवलज्ञानी यथा नो सञ्जी नोअरगा नो अणाहारगा केवलवर्णो बहा नोसधी नोप्रसधी हार। मनपर्ययज्ञान इवे जीवो मनुष्यने एकत्व प्रथमने आहारो इवे पिय अनाहारो न

ग्राह्यकारणा सदैव घटुत्वेन लभ्यमानत्वात्, मनुष्यपदे प्रगल्भिक शब्दपि तावद्भवेयु राधारका १ । अथवा ग्राह्यकारणा नाहारकश्च २ । अथवा आहारकाया नाहारकाश्च ३ । प्रायना प्राग्भावे नैकश्च कृता सिद्धपदे त्यनाहारक एक एव । सम्प्रति ज्ञानद्वार-तत्र ॥ नाशी जडा समादि िठिति ॥ घ्राणी यथा प्राक् सम्पगदृषि रक्त स्तथा यत्कथ्य स्तद्यथा-ग्राहीय ज्ञते । जीवि कि आहारय अथाहारय गो० सिय आहारय सिय अ आहारय । नाशीय ज्ञते । नरडय कि आहारय अथाहारय ? गोयमा । सिय आहारय सिय अथाहारय । नाशीय ज्ञते । नाशीय ज्ञते । जीवा कि आहारना अथाहारग ? गो० । आहारगावि अथाहारगावि । नाशीय ज्ञते । शेरडया ति आहारगा अथाहारगा गो० । सर्वेयि तावदोज्जा आहारगा १ । अथवा आहारगाय अथाहारगेय २ । अथवा आहारगाय अथाहारगाय अथाहारगा गो० । अथवा आहारगाय अथाहारगेय ३ । अथवा आहारगाय अथाहारगाय अथाहारगाय अथाहारगाय अथाहारगेय ४ । अथवा आहारगाय अथाहारगाय अथाहारगेय ५ । अथवा आहारगाय अथाहारगाय अथाहारगेय ६ ॥ एय तेषदियवत्ति-दयावि प्राणियद्या अवसेसा जाव वेसाणिया जहा नेरइयाव

वेद्वादिपतेडदियचउरिदिपुसु ठ जगा अथसेसेसु जीवादिसे तियजगो । जसि अथल्यि उहिनाणी पचिदि यतिरिक्कजोणिया मणसा य अथाहारगा अथसेसेसु जीवादिसे तियजगो जसि उहि

जीवेषु जीवादिक खिक्तजगो येषामस्यवधिज्ञानम् । पण्डेन्द्रियतियगोविका मनुष्या आहारका नो अनाहारका अवशेषेषु जीवादिको जग वांछियणाषो सुयणाषो वेददिय तर दिय चरिदि०सु क्कभागा अवसेसेसु जीवादियो तियभगो जसि अथल्यि तेसि भाणियत्वा । ज्ञानो जसि सम्पगदृष्टो तिस जाणिया मतिज्ञानो दुतज्ञानो वेदिय तेदिय चोरिन्द्रियादि ३ भागा याकता जीवादिकना भागा ३ जाणिया । जीवियाषो पचिदिय तिरिल्ल जीविया आहारगा नो अथाहारगा अवसेसेसु जीवादियो तियभगो जसि अथल्यि तेसि भाणियत्वा । जेहने अवधिज्ञान इवे पंचिन्द्रियतियचयोविक आधारी इवे पनाहारी नदो याकता जीवादिकभागा ३ जाणिया जेहने अवधिज्ञान इवे । मणपक्कवणाषो जीवा मनुष्या एगत्तपुसुसेषधि आहा

मानेषु देवेषु नैरयिकेषुच प्रत्येक पञ्चमूर्त्तौ, नैरयिकाहि प्रथमभावतः कीचयुहुला देवास्तु तीर्थधुलास्ततो देवाना नैरयिकाणां च मानकया यो मायाकपायश्च प्रविरत इति प्रागुक्तप्रकारेण यद् जङ्ग। जीवपदे पृथिव्यादिपदेषु च प्रत्येकमनङ्गक माहारकाणामनाहारकाणां च मानक पायिणा मायाकपायिणा च प्रत्येक सर्वैव तेषुस्थानेषु बहुत्वेन लभ्यमानत्वात्, शेषेषु तु स्थानेषु अङ्गगन्धित, लोभकपायसूत्र मय्येक्यवचने तस्यैव यदुच्यते विशेषमात्र-लोभकसाईसु इत्यादि ॥ लोभकपायिणेषु नैरयिकेषु पदं जगा केषा लोभयदुलतया पदमन्यसत्रवात्, लोभयैकेन्द्रियेषु च प्रा ग्व देय एव जग, आहारकाश्रयानाहारका अपीति ॥ अकसाई जहा नोसती नोचसतीति ॥ अकसायिणो नोचसन्निनोऽस्यञ्चिन उता। स्याया वक्तव्या किमुक्त प्रवर्तते अकपायिणोपि मनुष्या सिद्धाश्च, मनुष्या उपज्ञातकपायादयो वेदितव्या अन्वेषा सकपायित्वात्, तत पतेपामपि श्री णि पदानि तद्यथा-सामान्यतो जीवपद मनुष्यपद सिद्धयश्च । तत्र सामान्यतो जीवपदे मनुष्यपदे च प्रत्येकमेकवचन स्या दाहारक. स्या. वना हारक इति वक्तव्य, सिद्धपदे धनाहारक एवेति । यदुच्यते जीवपदे आहारका अपीति, केयलिना माहारकाणा सिद्धाना म

साण जीवेगिदियवज्जो तियजगा । लोभकसाईसु णेरडएसु त जगा अत्रसेसेसु जीवेगिदियवज्जो तियज गी । अकसाई जहा नोसन्ती नोचसन्ती । नानी जहा सम्रादिठी । अ्यान्निणिवोहियनाणी सुयनाणीसु

नैरयिकेषु पञ्चमूर्त्ता अत्रोपाया जीवेकेन्द्रियवर्जो जङ्गत्रिकम् । लोभकपायिणु नैरयिकेषु पञ्चमूर्त्ता अत्रोपायेषु जीवेकेन्द्रियवर्जो जगत्रिक । अकपायी यथा नोसन्ती नोचसन्ती । ज्ञानो यथा सम्यग्दृष्टि । अ्यान्निथोपिज्ञानानी श्रुतज्ञानी द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियधतुरिन्द्रियेषु पञ्चमूर्त्ता अत्र

देव षेरडएसु क्व भागा । मानकपाय मायाकपाय देव नारकोने ६ भागा । अत्रसेसाण जीवेगीव्यवज्जो तियभगी । पाकता जीवने एकैन्द्रिय वर्जिनि ३ भागा कश्चिवा । लोभकसाईसु षेरडएसुच क्वभागा अत्रसेसे जीवेगिदियवज्जो तियनगी । लोभकपायना नारकोने ६ भागा जाणिववा थाकता जीवने एकैन्द्रिय वर्जिनि ३ भागा । अकसाई जगा नो सन्ती नो चसन्ती णेर ७ । अकपाय सिद्धनीपरे जाणिववा । णाषी जहा सकदिठी अभिन्वि

त्यादि ॥ एकवचनविषय सूत्र सुगम, बहुवचने ॥ जीविगिदियवज्जी तियत्रंगोत्ति ॥ जीवपदे प्रथिग्यादियु अ पशुपदे तु प्रत्येक आहारका य
 पि अनाहारका अपि अक्षय उनेयेयामपि सकयायाया सदेव ते तु स्थानेषु बहुत्वेन लभ्यमानत्वात् । शोयेषु तु स्थानेषु त्रगत्रिक ॥ कोषकसाए
 एवषेधति ॥ कोषकपाय्यपि यवमेव सोमान्यत सकयायव द्वसय, तत्रापि जीवपदे प्रथिग्यादियुषाजगक शयेषु तु स्थानेषु प्रकृत्रिकमिति
 प्राव, कि सर्वेषुपि शोयेषु स्थानेषु अकृत्रिक नैत्याह नवर देवेषु क्तमगा ॥ देवादि स्वभावत एव लोत्रबहुला जवति न कोषादिवहुला अत
 कोषकपायिण एकादयोपि लभ्यन्ते इति-पठ्नङ्गा साद्यथा-कदाचि रसर्वे व्याहारका एव, कोषकपायिण एकस्यापि विग्रहगत्यापन्नस्यालान्यमा
 नत्वात् । कदाचि त्सर्वेव्यानाहारका संकस्यापि कोषकपायिण तत आहारकस्याप्यमाश्रयत्वात्, कोषादयोर्दि मानाद्युदयविवक्त एवंइ विवक्त्य
 न्तै नमानाद्युदयसंश्लोमि तेन कोषकपायिण तत कदाचि दाहारकस्य सर्वथा व्यभाव श्याकदाचिदेक आहारक एको नाहारक ३ । कदाचि
 देक आहारको यस्यो अनाहारका ४ । कदाचि द्वहव आहारका यको अनाहारक ५ । कदाचि द्वहव आहारका यस्य अनाहारका ६ । इति
 मानकपायसूत्र मायाकपायसूत्र वैकवचने प्राग्धत्, बहुवचन विज्ञेयमाह-माणकसाईसु इत्यादि ॥ मानकपायिषु मायाकपायिषु बहुवचने चिगत्य

श्रुणा० सिय श्याहा० सिय श्रुणा० एव जाव वेमाणिए पुहत्तेण जीविगिदियवज्जी तियत्रंगो । कोहक
 साईसु जीवाईसु एवचंच नवर देवेषु ठ नगा माणकसाईसु मायाकसाईसु देवणेरइएसु ठ नगा श्रुवसे

निक । पृथक्तेन जीविकेन्द्रियवर्जं प्रकृत्रिकम् । कोषकपायिषु जीवादिर्देवैव चैव नवर देवेषु पठ्नङ्गा । मानकपायिषु मायाकपायिषु देवः

कि नाहारए श्रुणा० । सकयाइ जीव आहारो कै अनाहारो । गोंयसा सिय आहारो सिय अणाहारो एव जाव वेमाणिए पुहत्तेण जीविगिदिय व
 ल्जी तियत्रंगो । इतोतम किंवारे आहारो किंवारे अनाहारो इम आत्तने वेमानिक एकल प्रथको जीव एकेंद्रियवर्जने ३ भगा । कोहकसाइसु जी
 वादोएसु एवचंच पवर देवेषु क्तमगा । कोषि कपायादिक्तेन इमहीज जापिचो एविजेप देवना ६ भागा जापिवा । माणकसाईसु मायाकसाइसु

यदुवचने जीवपदे पृथिव्यादिषु च पदेषु प्रत्येकसाधारका अनाहारका अपि, इत्येषां प्रत्येक तु नैरयिकादिषु स्थानेषु प्रत्येक मर्गादिके, सयता २ देशविरता स्तौ च तिर्यक्पक्षेन्द्रिया मनुष्या वा न तेषां. तेषाणां स्वजायत एव देशविरतिपरिणामाभावा देव चेतेषां श्रित्तिपदानि च श्या-मानान्यतो जीवपदे तिर्यक्पक्षेन्द्रियपदे मनुष्यपदे चैतेषु त्रिष्वपि स्थानेषु एकवचने च आहारका प्रवति प्रवान्तरगत केवलिसन्तु हाताद्यवस्थसु च देशविरतिपरिणामाभावात् ॥ नोसयतो नोऽसयतो नोसयतासंयतो ॥ गत सयतद्वार ॥ तच्चैताया हेपटे तद्यथा-जीवपदे चि हृपदे च, उभयत्राप्येकवचने यदुवचने धानाहारकत्वमेव वक्तव्य नत्याहारकत्वं सिद्धात् मनारारकत्वात्, कथापहार। कसाईण जते । जीवे च

सिधे श्रुणाहा० । पुहसेणं जीविगिदियवज्जो तियजगो । सजतासजते जीवि पंचिदियतिरिक्कजोणिणु मणसे एते एगसेणवि पुहसेणवि श्याहारगा नो श्रुणाहारगा । नोसजते नोश्रुसजणु नोसजयासजणु जीवे सिद्धेय एते एगत्तपुहसेणवि नोश्याहा० श्रुणाहारगा ॥ द्वारं ॥ सकसाईण जते ! जीवि कि श्याहा०

तपुष्ठा, गीतम । स्वादाहारक स्वादानाहारक । एषकेन जीविकेन्द्रियवर्णा प्रकृषिकम् । सयतासयतो जीव पचेन्द्रियतयग्योत्तिका मनु य एत एकत्वेनापि पयक्केनापि आहारका नो अनाहारका । नोसयतनो सयत नोसयतासयतो जीव-सिद्धयेते एकत्वपयक्केनापि नो आ शारका अनाहारका । द्वार ॥ सकयायी जरत्त । जीव. किमाहारकोनाहारक ? गीतम । स्वादाहारक स्वादानाहारक । एवं यावद्वैना

समा सिधे आहारण सिधे अथाहारण एव पुहसे जीविगिदियवज्जो तियजगो । गीतम कोइ आहारो कोइ अनाहारो इम पुदक्का वर्जनि २ आणि वा । संजयासजण जीवे पंचिदिय तिरिक्कजोणिवि मणुसे ३ । सयतासयतो जीवमे पचिन्द्रिय तयचयोनिकने मणुने एकत्वपणे पुदक्कपणे । एगत्तए वि पुहसेणवि आहारगा नो मणा नोसजण नोअसजण नोसजयासजण । आहारोपुवे के अनाहारो नोसयत नोसयतासयत । जीवे सि धेय एण एगत्तपुहसेणवि नोआहारण अथाहारगा द्वार ६ । जीवने सिधने एकत्व पुयक्केकरो आहारो नश्चे अनाहारी भवे । सकसाईण भते जीवे

हारया ० गीयमा । आहारमा नो अन्नाहारया । एवमेतित्यविविगलितिविषयवणा जाय चेत्तागिया प्रति ॥ गत दृष्टिहार ॥ सम्प्रति उपसहार ॥ य
 यतल्य मनुयाया मनुयायासक तत्र द्वेपदे तदुपया-जीवपदे मनुयपदे च तत्र जीवपदे सूत्रमाह-खण्डेण जत । जीवि इत्यादि ॥ सुगम । नवर
 मनाहारकल्य केवलिसमुद्गातावस्थाया मयोगित्यावस्थाया वेदितव्य औपकासनाहारकत्व ॥ एव मनुयाविति ॥ एव मनुयाविति मनुयपदे
 तद्यथा-सजयण जत । मनुसे कि आहारए अन्नाहारए ० गीयमा । मिय आहारए सिय अन्नाहारए ॥ पुहुतए तियजगो
 ति ॥ एवमेत न बहुपवनेन जीवपदे मनुयपदे च मरयेक जगत्रिक तस्यैव सर्वाय ताव द्रुवेदु राहारका एव जगो यदा न कोपि केवलीसमुद्गा
 तमयोगित्य या प्रतिपत्तो प्रवृत्तिवेदितव्य अथवा आहारकाया नाहारकय एव एकस्मिन् क्षेत्रीयति उगवहते जैतेजीगते मा प्राप्यते, अथवा
 आहारकाय अनाहारकाय एव बहुदु केवलियु समवहतेयु जैलेजीगतेयु या लभ्यते, अथपतपत्रे एकवचने स्वयन् स्वादाहारक इति वक्तव्य,

विविगलितियजल जाव वेमाणिए एव पुहुतैवि । सजएण जते । किं आहारए अणुहारए ० गीयमा ! सिय
 आहारए सिय अणुहारए । एव मणुरसवि । पुहुतेण तियजगो । अणुहारए पुहुत्ता, गीयमा ! सिय अणुहारए ०

न । जीवः किमाहारकानाहारक ० गीतम । आहारको नो अनाहारक । एव मेकेन्द्रियविकलन्द्रियवर्जा यावद्वैमातिक । एव पुयर्जो ना
 पि । सयती जटत्त । जीव किमाहारकोनाहारक ० गीतम । स्वादाहारक स्वादनाहारक । एव मनुयोपि । एवमेत न मनुयपम् । एवमे
 नुयाहारए । सव्यमित्यादौ जीव आहारक अनाहारक । मावमा आहारया नोयथाहारया एव र्मानिटय विगमितिय वल्ल जाय वेमापिए एव
 पदम यत्रि हार । इगीतम आहारो नही अनाहारो इम एकैन्द्रिय विकलेन्द्रिय बर्जित स्वासरो मेमानिकसरो कश्चिदो इम प्रथको करो हार । सजएण
 अते जीवे कि आहारए अनाहारए । सवत हेमयवन् जीव सु आहारो अनाहारो । गावमा विव आहारए विव अनाहारए एव मणुरसेदि पुहुत
 च तियमो अणुहारए पुहुत्ता । इगीतम कोद आहारि कोद न आहारि इम मनुयने पिण प्रयक्तित्तिहार यरो भाया २ कश्चिदा अणुहारको य० । गो

यसूत्रमिव प्रायणीय, अत्रापि सिद्धसूत्रं न वक्तव्यं सिद्धानां सलेख्यत्वात्, बहुवचनचित्वाया जीवपदै एकैन्द्रियेषु च पूर्णत्वादियु मर्त्यजनकएव प्रज्ञं स्वध्याया-आहारका अपि अनाहारका अपि उन्नयेषामपि सदा बहुवचनं लज्यमानत्वात्, त्रायेषु तु नैरयिकादियु मर्त्यक प्रज्ञादिकं स्वध्याया-सर्वेषु तावद्भवेयु राहारका १। अथवा हारकाद्या आहारकाद्य अनाहारकाद्य ३। अमीषा च प्रायवना प्राग्वत् तथा आह-जीवेन्द्रियवज्जी तियजगो इति ॥ एवमित्यादि ॥ एव यथा सामान्यतः सलहयसूत्रमुक्तं तथा रुणलेइयावियमपि नीलेलेइयावियमपि

असन्ती जीवा आहारगावि अणहारगावि । मणुसंसु तियजगो । सिद्धा अणहारगा । सलेखेणं नते ! जीवे किं अणहारणु अणहारणु ? गोयमा ! निय अणहारणु सिय अणहारणु एव जाय केमाणिणु । सलेखेणं नते ! जीवा किं अणहारगा अणहारगा ? गो० ! जीवेन्द्रियवज्जी तियजगो । एव करहलेस्सा

नाहारका अपि । मनुष्येषु प्रज्ञादिकम् । सिद्धा अनाहारका । सलेखयो प्रदत्त । जीय किमाहारकोनाहारक ? गौतम ! स्यादाहारक स्यादनाहारक एव पावट्टैमानिक । सलेखया प्रदत्त । जीजा किमाहारका अनाहारका ? गौतम ! जीवेन्द्रियवज्जी प्रज्ञावयम् । एव कृत्त नासन्नो पसशो जीव तन्न हेमगवन् एव आहारो अनाहारो सन्हातावस्थाने विरहि आहारकसन्हाता वेला अचोगोपणे अनाहारक तेमाटे ।

गोयमा सिय आहारणय सिय यणा० सिय अणहारणय एव मनुष्यावि सिहे । ऐगौतम किवारे आहारो किवारे अनाहारो इम मनुष्येने सिद्धने । अणहारणु एव मनुष्यो जीवसखो जीवसखो अणहारगावि मणुसु तियजगो सिद्धा अणहारगा । आहारो अणहारो एकवचन बहुवचने केवज्जी गो सशो गोमसशो जीव आहारो इवे इम मनुष्येने पिण भागा २ बहुवचने सिद्धाना अणहारोदुवे १ वचने । सलेखीण मते जीवे किं आहारणु अणहारणु एव । सलेखो हेमगवन् जीव आहारो के अनाहारो । गोयमा सिय आहारणु सिय यणा० एव जीव केमाणिणु । ऐगौतम किवारे आहारो किवारे अणहारो इम जःसने नैनादिक । सलेखीच मते जीवा किं आहारगा अणहारगा । सलेखो हेमगवन् एकवचने आहारो किं अणहारो । गोयमा जी

यमाना स्तु विप्रश्रयत्यापत्रो वप्रधो लस्यते तदा विद्येय । तृतीय आहारकं च अनाहारकं च द्वित्वेपि प्राहते यदुववाधिताया नेपोचि न्न च
 मीचीन इत्युपव्यस्त तत्र यदा चिरकालोत्पन्न रको सञ्जी नारको विद्यते त्रधुनोत्वद्यमानोपि विग्रहात्पापत्र एक स्वदाय न्नं चतुष , प्राण
 रकयानाहारका य य चिरकालोत्पत्ते रकास्य न खञ्जिनि नारके विद्यमाने बहुधुगोत्वद्यमानेषु अखिप्रिपु विग्रहात्पापत्रप इष्टय , पञ्चम
 आहारका य अनाहारकं य य चिरकालोत्पत्तेषु बहुषु अखिप्रिपु नारकेषु अपुनोत्वद्यमान विग्रहगत्यापत्ते रकास्य न खञ्जिनि विद्यय , षट्
 प्राहारकाद्यानाहारकाद्येषु येषु चिरकालोत्पन्नपुस्यद्यमानेषु चाखिप्रिपु वेदितव्य , स्वर्भते पदन्नम्ना गत्र सुपटाज्ञतेन प्रकारेण स्व पदन्नम्ना स्ते
 द्याया-आहारकपदस्य कैयलस्य बहुधयचनेकं १ । अनाहारकपदस्य कवलस्य बहुधयचनेन द्वितीय २ । आहारकपदस्य नाएारकपदस्य ष युगपत्
 प्रत्येकमकपत्तेन तृतीय ३ । आहारकपदस्यैकवचनेन अनाहारकपदस्य बहुधयचनेन चतुर्थं ४ । आहारकपदस्य यदुवचनेन अनाहारकपदस्यैकव
 चनेन पचम ५ । तत्रयत्रापि बहुधयचनेन षट् ६ । जेषा स्तु न्नम्ना न सम्भवन्ति , यदुवचनेन चतुर्थं ४ । आहारकपदस्य नाएारकपदस्य ष युगपत्
 दियपि स्तानितकुमारपर्यवसानपु वेदितव्या स्तयापाए-गय जाव अखियकुमारा एगिदियसु अलग्निति ॥ एकान्द्रियेषु प्रयिष्यपतेजोवायुवनस्पति
 रूपे यन्नन्नक न्नकाजाव , एक एव न्नं इत्यथ , सवाय आहारका अपि अनाहारका अपि तत्राहारका षडव सुप्रसिद्धा अनाहारका अपि
 प्रतिसमय प्रयिष्यपतेजोवायव प्रत्येक मस्यस्येया प्रतिसमय वनस्पतयो नक्ता सकाल लज्यन्ते इति तेषि सहय विदुः । द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियेषु
 रिन्द्रियतियक्ष्णान्द्रियेषु प्रत्येक न्नम्निक तद्यथा-आहारका , अथवा आहारका या नाहारकाया नाहारकाय । तत्र ही

एते च नगा , एव जाव यणियकुमारा । एगिदिपुसु अन्नगक वेडटिच जाव पचिदियतिरिक्कजोणिपुसु

(मन्त्रति) यावत्पन्वेन्द्रियतियग्योनिकेषु वृद्धत्रिकम् । मनुष्यवानव्यतरेषु पदन्नम्ना । नोसञ्जीनोचसञ्जी प्रदत्त । जीव किमाहारकोनार,र

५६ भांग्ना रम जासने स्तानितकुमार एकैन्द्रियनेविये भाङ्गा नहो । नरदिन जाक् पाचदियतिरिक्कजोणिपुसु तियर्थगे मनुष्य थापसतरेषु लक्षणा ।

न्द्रियान् प्रति प्रावना यदा हीन्द्रिय शक्तोपि विग्रहस्यापको सप्रते तदा पूर्वोत्पन्ना सर्वेष्वप्यारका इति पक्षः संगः, यदा पुन रेकी-धिग्र
 णत्वापत्त सादा पूर्वं प्यारका उत्पद्यमान स्वेकोऽनाहारक इति । यदा तस्यद्यत्ता अपि नान्ये नदा तृतीयः, गव त्रीन्द्रिय
 धतुरिन्द्रियतियेकपधेन्द्रियेपि प्रावना कार्यो, मनुष्यव्यन्तरेषु यथभगा तत्र नैरयिकेषु च प्रावनीयाः तथाचार-वेदादय जाव पचिदियतिरि
 ष्टओणियसु तियत्रगो मनुषवाकमतरसु ख जगा इति । नो सञ्जी नो शसञ्जी य केवली सिद्धश्च, ततो नो सञ्चिनो शसञ्चित्वायिहाया नीणि प
 दानि तथा-जीवपद् मनुष्यपदे सिद्धपद् च । तत्र जीवपदे सूत्रमाह-नोसञ्जी नोशसञ्जीण जते । जीवे इत्यादि ॥ स्यात् ददाचि दारारकः केव
 लिन समुदाताद्यवस्थाविरहे आहारकः, स्या एकदाचि दनाहारक समुदातावस्थाया सिद्धत्वावस्थाया वा प्रावनीय ॥ सिद्धे अपाहारए इति ॥
 सिद्धे सिद्धविषये सूत्रे ॥ अनाहारए इति ॥ यत्कथ्य ॥ पुष्टुसञ्चति ॥ पृथक्तेन यरुत्थेन स्थिताया मिति प्ररुम ॥ आहारनाधि प्रशाहारगावि इ
 ति ॥ तत्राहारका अपि बहुनां केवलीना समुदाताद्यवस्थारहिताना सन्ति लज्यमानत्वात्, अनारका अपि सिद्धाना सदैव प्रावा सेपावा ना
 हारकत्वादिति ॥ मनुष्येषु तियत्रगो इति ॥ मनुष्यविषयं त्रयथा-आहारका यथ जगो यदा न कोपि केवली समुदाताद्यवस्थागतो न
 इति अपवा आहारकाद्यानाहारकश्च एष जग एकस्मिन् केवलिन समुदाताद्यवस्थागते सति लज्यते, प्रथवा आहारकाद्यानाहारकाश्च सप्तुः बहु
 सु केवलिषु समुदाताद्यवस्थागतेषु सप्तु वेदितव्य । सामान्यत सनेयमवत्रमाह-सल्लसेण भते । जीवे इत्यादि ॥ इद सामान्यतो जी

तियत्रंगो । मणुस्सवाणमंतरसु च त्रंग । नो सञ्जी नो अ्यसञ्जीणं जते ! जीवे कि आहारए अ्युणाहारए
 ? गोयमा ! सिय अ्युणाहारए सिय अ्युणाहारए । एव मणुस्सेवि । सिद्धे अ्युणाहारए । पुहस्तेणं नोसञ्जी ला

क ? गौतम । स्यादाहारक स्यादनाहारक । गव मनुष्योपि । सिद्धानाहारकः । पृथक्तेन नोसञ्चिनो नोअसञ्चिनो जीवा आहारका अ
 नेरञ्जे वाकने पवेन्द्रिय तियैरयानियाने ३ भागा जाणिया मनुष्य वानव्यतरना ६ भागा । नोसञ्जी नोअसञ्जी भते जीवे कि आहारए अयाहारए ।

वि असन्निभ शोत्पलला अशुचि इति व्यवह्रियन्ते, सच्चिन्म तस्यद्यमाना सच्चिन ततो सच्चिमूर्त्रेपि ते उक्तप्रकारेण पश्यते, त्वीतिफवेमानि कास्तु सच्चिन्म एवीत्यद्यते नासंचिन्म. असञ्जीस्वय्यः शरानाया दिह ते न पत्नान्ते तवाधाह-शोडसियवेमाणिया न पुच्छिज्जति ॥ किमुक्त प्र वाति तद्वियसूत्र न यक्तव्य तेषा मसच्चित्वाज्ञायाः दति. यहुवचनधित्वाया सामान्यतो जीवपद एकएव श्रंग स्तद्यथा-आहारका अपि अनाहार का अपि प्रतिसमय मेकेन्द्रियाणा मनलाना दिग्रहगत्यापन्नाना मतपथा नाहारकाणा सदेव सन्न्यमानतया हारकपदे पि सर्वदा बहुवचनज्ञावा त्, नैरयिरुपदे पङ्क्तुना तत्र प्रथमो जगु आहारका इति, अय च जङ्को यदा त्वो सञ्जी नारक उत्पद्यमानो विग्रहगत्यापनो न लज्जते पूर्वा त्वा सत्यसच्चिन. सर्वे व्याहारका जाता सादा सज्जते, द्वितीयोः जनाहारक इति एष यदा पूर्वात्करो ऽसञ्जी नारक एकोपि न विद्यते तस्य

अुणाहारगा ? गीयमा ! अुणाहारगावि एगो जगो । अुतत्वीणं जते ! णेरइया कि अुाहा रगा अुणाहारगा ? गीयमा ! अुाहारगावा अुणाहारएय अुणाहारएय । अुहवा अुाहारगाय अुणाहारगाय । एवं अुाहारएय अुणाहारगाय । अुहवा अुाहारगाय अुणाहारगाय । अुहवा अुाहारगाय । एवं

रयिका किमाहारका अनाहारका ? गीतम । आहारका वा अनाहारका वा । अथवाहारकथानाहारकथ १ । अथवाएारकथानाहारकाय २ । अथवाहारकथानाहारकथ ३ । अथवाएारकथानाहारकथैवमेते पङ्क्तुना , एक थावरस्तनितकुमारा । एकेन्द्रियेव नङ्कतम् । द्वीन्द्रिय

नाहारो विष अनाहारी विष एकभाक्ते । असखीय भत खेरया कि आहारगा अणा० असत्ता नारको आहारो के अनाहारी । गीयमा आ हारगावा अणाहारगावा अरथा आहारण्य अणाहारण्य अथवा आहारएय अणाहारनात आहारगेय अणाहारनेय अहवा आहारगाय अणाहा रगाय एष पते खभगा एव अण्य वणियकुमारा एमिटियत अभगय । हेगौतम आहारो अडयपने अनाहारी बहुवचने एतवपते आहारी पनाहा रो अथवा एकवचने आहारी बहुवचने अनाहारी हुने अथवा बहुवचने आहारी हुने अथवा बहुवचने अनाहारी एकवचने अनाहारी इम

तदुत्पत्तयवसानेषु हीन्द्रियादिषु च वैमानिकपथेषु मत्स्येकं त्रीत्रिकं प्रावर्तय उपपत्तिविरहभावात्, प्रथमप्रगस्य एकादिसस्यतयोत्पत्ते शोष
स्य च तद्गृह्यस्य स्ववर्गापि तस्यमानत्वात्, एकेन्द्रियेषु पुन प्रथित्यपत्तेजोवायुवनरपरितरूपेषु प्रत्येकमेकत्रय एवैको जग, आहारका अपि अना
हारका अपि प्रथित्यपत्तेजोवायुषु प्रत्येक जायमाना अनाहारका श्रेयकाल त्याहारका एव चतुर्विंशतिदशकेपि प्रत्येक वाच्य तथाचतु-एव
जाय वेमाणिए ॥ अत्रच सिद्धिधियस सूत्र न चत्तस्य भोक्षपदप्रामथया तस्य प्रवसिद्धिकत्वायोगात्, अत्रैव यदुपवनेनाहारकानाहारकत्वापि ता चि
कीपुराह-प्रवसिद्धियाण नते । इत्यादि ॥ अत्राप्याहारद्वार इव जीवपदे एकेन्द्रियेषु च प्रत्येकमुज्जयत्र यदुपवनेनैकएव जगो यथा आहारका च
पि अनाहारका अपि, शेषेषु नैरपिकादिषु स्थानेषु जगत्रिक कदापि त्कंवलता आहारका नत्स्येकोप्यनाहारक, अथवा कदाहारका एको ऽना
हारक, अथवा आहारका अपि अथवानाहारका अपि उप्रयत्रापि यदुपवचन, तथाचाह-जीवेगिदियवज्जो तियजगो इति ॥ यथाच प्रवसिद्धिके
एकस्मिन् यदुषु चाहारकानाहारकत्वापि कर्तव्या उप्रय थाय्येकवचनन जगसङ्ख्याया, सर्वत्रापि समानत्वात्, तथा

ण नते । जीवा किं व्याहारगा व्युणाहारगा । जीवेगिदियवज्जो तियजगो । अन्नवसिद्धिएचि एवचेव ।
नोन्नवसिद्धिए नोअन्नवसिद्धिएण नते ! जीने किं व्याहारए व्युणाहारए ? गीयमा ! नोअ्याहारए व्युणा
हारए । एव सिद्धेचि । नोअन्नवसिद्धियम नोअन्नवसिद्धियाण नते ! जीवा किं व्याहारगा व्युणाहारगा ?

वसिद्धिकोप्येवचैव । नोअन्नवसिद्धिक नो अन्नवसिद्धिको प्रदन्त । जीव किमाहारकोनाहारक ? गीतम । नो आहारकोनाहारक । एव सिद्धे
पि । नोअन्नवसिद्धिदा नोअन्नवसिद्धिका प्रदन्त । जीवा किमाहारका अनाहारका ? गीतम । नो आहारका अनाहारका । एव सिद्धा अपि
च । नोअन्नव सिद्धिण्य भते जीवे किं आहारए अयाहारण । ती अन्नवसिद्धि कश्चि एवने एकवचने आहारो किं अनाहारो । गीयमा नो आहार
अयाहारए एव सिद्धेचि नो भवसिद्धिर । हेगीतम नश्चो अनाहारो यमाहारोके इम सिद्ध पिथ नो भवसिद्ध । नो भववसिद्धियाण भते जीवम किं

तकुमारपर्यवसानेषु हीन्द्रियादियु च यैर्मानिकपर्यवर्तेषु प्रत्येकं जैत्रिकं प्रावर्धयित्वा, प्रथमप्रगस्य एकादिसंख्यतयोत्पत्ते शोषस्य च प्रकृतद्वयस्य सवर्त्रापि लभ्यमानत्वात्, एकेन्द्रियेषु पुन पृथिव्यपृत्तलोकायुक्तरूपेषु प्रत्येकमेकशोषस्यैको जगत्, आहारका अपि अनाहारका अपि पृथिव्यपृत्तलोकायुक्तप्रत्येकं जायमाना अनाहारका इत्येकालं स्वार्थकारका एव चतुर्विधोत्पत्तिदण्डकेषु प्रत्येकं वाच्यं तथाचाह-एव जातं वेनाणिए ॥ अत्रच सिद्धिविषय सूत्रं न वक्तव्यं शोषपदमाप्ततया तस्य प्रवृत्तिसिद्धिकत्वायोगात्, यत्रैव यदुधवर्धनाहारकानाहारकत्वविषया चि कीर्पुराह-नवसिद्धिप्राणं जते । इत्यादि ॥ अत्राव्याहारहार इव जीवपदं एकैन्द्रियेषु च प्रत्येकमुत्पन्नं यदुधवर्धनैकस्य जगो यथा आहारका अपि अनाहारका अपि, शोषेषु नैरायिकादिषु स्थानेषु प्रगतिक कदापि त्केवला आहारका नत्वेकोप्यनाहारक, अथवा कदाहारका एको एनाहारक, अथवा आहारका अपि अथवानाहारका अपि लभ्यन्तामि यदुधवर्धन, तथाचाह-जीवेगिदियवज्जी तियजगो इति ॥ यथाच प्रवृत्तिसिद्धिके एकस्मिन् यदुधु आहारकानाहारकत्वविषया कृता तथा अनवसिद्धिके कर्तव्या उन्नय त्राप्येकवर्धनं प्रगसद्गुणा सर्वत्रापि समानत्वात्, तथा

ण जते । जीवा किं व्याहारगा व्युणाहारगा । जीवेगिदियवज्जी तियजगो । अत्रवसिद्धिगुवि एवचेव । नोन्नवसिद्धिए नोअत्रवसिद्धिएण जते ! जीत्रे किं व्याहारए व्युणाहारए ? गोयमा ! नोव्याहारए व्युणाहारए । एव सिद्धेवि । नोन्नवसिद्धिया नोअत्रवसिद्धियाणं जते ! जीवा किं व्याहारगा व्युणाहारगा ?

वसिद्धिकोप्यवचेव । नोप्रवसिद्धिक नो अत्रवसिद्धिको जदन्त । जीव किमाहारकोनाहारक ? गौतम । नो आहारकोनाहारक । एव सिद्धोपि । नोअत्रवसिद्धिका नोअप्रवसिद्धिका जदन्त । जीवाः किमाहारका अनाहारका ? गौतम । नो आहारका अनाहारका । एव सिद्धा अपि

४ । नोअत्रवसिद्धिष्व भते जीवे किं आहारए अनाहारए । नो अत्रवसिद्धि कश्चि एतुने एकवचने आहारो किं अनाहारो । गोयमा नो आहारए अनाहारए एव सिद्धेवि नो भवसिद्धिर । हेगौतम तद्दो अनाहारो अनाहारोके इम सिद्धिपिण नो भवसिद्धि । नो अत्रवसिद्धिष्व भते जीव किं

कदाचि चय श्रुत्यासी माय स्वस्याता असस्याता वा, तत्र यदा एक उत्पद्यते सोपि विश्रहगत्यापन्न' प्रतिसमयमसख्याताना वनस्पतिषु प्रतिच
मयनताना विश्रहगत्योत्याद्यमानाना लज्यमानतया अनाहारकपदेपि सदेय तेषु बहुवचनस्य सम्भवात्, तथाचाह-एव जाय वेमाणिया नवर
एगिदिया अदा जीवा इति ॥ एव नैरयिकोत्सभगप्रकारेण क्षया अय्यसुरकुमारादय स्तावहुक्त्या याव द्वैमानिका नवरभेकेन्द्रिया' पृथिव्यपृथेजो
यायुवनस्पतिरूपा प्रत्येक यथा उजयत्रापि बहुवचनेन जीवा सक्ता स्थाया वक्तव्या, सिद्धेयक एव जगो नाट्यारका इति संकलशरीरप्रहाणित
क्षेपो मारारासन्नवात्, बहूना च सदाभावादिति ॥ गत प्रथमद्वार द्वितीय प्रत्यद्वारनिधिषु राह-नवसिद्धिगण भते । इत्यादि ॥ प्रबै, सत्या
ते रन्ते वा, सिद्धि येस्याथी प्रवसिद्धिको प्रत्य स कदाचि दनाहारक, विश्रहगत्या छवस्याया जवति अन्येष पूर्वोत्पन्नतया आहारका अन्नबन् ।
तदा एष अङ्गीलज्यते, तृतीयभगमाह-अहवा आहारगाय अशाहारगाय ॥ अत उजयत्रापि बहुवचन' सपच जगो यदा बहवो विश्रहगत्योत्वद्यते
तदा द्रष्टव्या, शेषजगकास्तु न सम्भवति आहारकपदस्य नैरयिकाया सर्वदेव बहुवचनविषयतया लज्यमानत्वात्, एवमसुरकुमारादिषु स्तानि

जहा जीवा । सिद्धाणं पुच्छा, गोयमा ! नो श्याहारगा श्याहारगा । नवसिद्धिगणं भते ! जीवे कि
श्याहारए श्याहारए ? गोयमा । सिय श्याहारए सिय श्याहारए । एव जाव वेमाणिए । नवसिद्धिया

दाहारक । एव योवहुँमानिक । प्रवसिद्धिका प्रदत्त । जीवा किमाहारका अनाहारका । जीविकैन्द्रियवच्छे स्त्रिकनग (अङ्गत्रयम्) अज

प्रताशरी । भवसिद्धीएय भते जीवे कि आहारए अशाहारण । नवसिद्धो शोन इममवन् आहारो के अनाहारो । गोयमा सिय आहारए
सिय अशाहारए एव जाय वेमाणिय । हेनैतम किवारे आहारो किवारे अशाहारो विश्रहगत क्कन्न ममुद्गत वस्याथे अनाहारो तेमाटे
इम वेमानिक जानने । भवसिद्धियाय भते जीवा किं आहारगा अशाहारगा । बहुवचने भवसिद्धि अहारोके अनाहारो । गोयमा लोविगिटि
वदल्ली तिवभगी अमवसिद्धिएव एवचेव नो भवसिद्धिए । हेनैतम जीव एकैन्द्रियवर्जिते भागा ३ जाणिवो अभावधिधने पिण भवसिद्धिनीपरे नो भवसि

इत्यादि ॥ प्रथमं सुगम प्रवचानात्-गीतम् । आहारका अपि अनाहारका उभयेपि लभ्यते इति ज्ञाव , तथाहि-
 विद्ययातिव्यतिरेकेण ज्ञेयकाल सर्वेपि ससारिणो जीवा आहारका विग्रहगतित्तु क्षिपि रकदाच त्कस्यापिच प्रवतीति सर्वकालमापि लभ्यमाना
 सञ्जाति नियथानामव लभ्यते, तत आहारकषु बहुवचन अनाहारकाश्चपि सिद्धा सर्वेपि लभ्यत तेषां ज्ञेयस्यो जन्तुणा , अन्यथ सर्वकालमेक
 कस्य तिगोदस्य प्रतिवसय सख्येयजागो विद्यरगत्यापको लभ्यते तता नाहारकेषुपि बहुवचन नैरयिकसुत्र सर्वेपि तां इद्वेषु राधारका , किमु
 ॥ नवति कदाचि नैरयिका सर्वेव्याहारका मव जयति नत्येको प्यनाहारक , कथमितिचे दुष्यते-उपपातविरहा स्यादि-नैरयिकाणा सुपपा
 तविरक्तो द्वादशसूक्तो मतावतिघातरे पूर्वोत्पन्नविग्रहस्यापका अपि आहारका जाता अन्य स्वनुत्वद्यमानत्वात् , अथवा आहारका अनारा
 दकपद बहुवचन सनाहारकपद एकवचनमिति भावः , कथमेय प्रगो घटामियतीतिचे दुष्यते-इह नरकेषु जतु कदाचिदेक वत्पद्यत कटाचिद्वी

हारमात्रिं शृणाहारयावि । नैरुयाण पुच्छा , गीयमा ! सर्वेपि ताव होजा शृणारगा १ । अहवा शृाहा
 रगाय शृणाहारगेय २ । अहवा शृणारगाय शृणाहारगाय ३ । एव जाव वेमाणिया नवर एगिदिया

गीतम् । सर्वेपि तावद्बुधैरुआरका १ अथवाहारकायानाहारकश्च २ एव यादृतेमामिका नवरमेकेन्द्रिया
 यथा जीया । सिटाना पुच्छा , गीतम् । नो आहारका अनाहारका । प्रवतिट्टिको प्रदत्त । जीव किमाहारकानाचारक / गीतम् । स्या

बहुवचनं जीव हेमगवत् प्राहारी कै शृणाहारी । गीयमा आहारयावि अनाहारयावि अरयाण पुच्छा । इमेतस प्राहारी पिथ गगानारी न
 हो पिथ नारकीनो म० । गीयमा सध्ववि ताचहोच्चा आहारया अहवा उरगाव अगहारणय अहवा आहारगाय एव जाव येमादिगा ।
 इ गीतम् सर्वं पिथद्द्वे आहारी इवे अथवा अनाहारारोद्द्वे एकवचने यनाहारी बहुवचने आहारी इम नारकीनो वैमानकागी कटवो । नवर
 एगिदिम जीया सित्राय पुच्छा । एवियद एकैष्टिय जीयनो यालावो तिम । गीयमा गो आहारगा यथाहारगा । हेगीतस नदी प्राहारी

कादशो वेदाधिकारी द्वादश शरीराधिकार त्रयोदश पयोःस्वधिकार । इह प्रथादियङ्गणेन तत्प्रतिपत्तञ्जुता अन्नव्यादयोपि गृहिता द्रष्टव्याः तथैवाग्ने वक्षसाणत्वात् । तत्र प्रथम सामान्यत आशाराधिकार विघ्नाविषु रिदमाह-जीवेद्य भते । इत्यादि ॥ प्रथमत्र सुगमं प्रगधानाह-गो यमेत्यादि ॥ गीतम् । स्या त्कदाचि दाष्टारक कटाचि दनाहारक , कथामतिचे दुष्यते-विग्रहगती केवलसमुद्र्याते शैलेइयवस्याया सिद्धत्वेषा नाशारक शेषास्ववस्या स्वाहारक उत्कष-विमर्गगडमवत्वा केवलिकोसमोसयाञ्जोनीय । सिद्धाययत्ताहारा , सेवाश्राष्टारगोष्ठीवा ॥ १ ॥ तदेव सामान्यतो जीवचित्ता कृत्वे दानी नैरयिकादिषुतुंशितिएडककमेणा शाराऽनाशारकचित्तां करोति-नेरइयञ्जु नते । किं आहारए इत्यादि ॥ सु गम' तदेव सामान्यतो जीवपदे नैरयिकादिषुचैकवचनेन आशारकानाशारकत्वचित्ता कृता सम्प्रति यदुषवचनेन ता चिकीर्षुरा-जीवासु नते ।

आहारए अणहारए गोयमा ! सिय आहारए सिय अणहारए एव नेरडए जाव असुरकुमारि जाव वेमा णिए । सिद्धेण नते ! किं आहारए अणहारए ? गोयमा ! नो आहारए अणहारए । जीवाण नते ! किं आहारया अणहारया ? गोयमा ! आहारयावि अणहारयावि । नेरडयाणं पुच्छा , गोयमा ! आ

तम् । स्वादाशारक स्वादानाशारक । एव नैरयिको यावत्सुरकुमारो यावद्वैमानिक । सिद्धो नदन्त । किमाशरकोनाशारक ? गीतम् । नो आशारकोनाशारक ? जीवा नदन्त । किमाहारका अनाशारका ? गीतम् । आशारका अय्यनाशारका अयि । नैरयिकाणा पुच्छा ।

विहार २ सत्रधिकार २ नेत्या ४ दृष्टि ५ सयत ६ कपाय ७ ज्ञान ८ याग ९ धपयाग १० वद ११ गरीर १२ पर्वोसि १३ १ ॥ जीवेण भते किं प्राणा रण अथाहारए । एकवचने जीव आगरी के अथाहारो । गोयमा सिय आशारए सिय अथाहारए एव अरदया जाव असुर जाय वेमाणिए । हे भोत न किं वरे अथाहारो कियारे अठारो उहो इम नारको जान्ते यसरकुमार जाल्मे वैमानिक । सिधेण भते किं आशारए अथाहारए । सिद्धेण भवत्सु आदारीसु अथाहारो ॥ गोयमा नो आशारए अथाहारम् । हे गीतम् नहो अठारो पनाशारो । जीवेण भते किं आशारया अथाहारया ।

दा । पञ्जसगायलीमे पक्त्वेवेहीतिजइयथा ॥ २ ॥ एनिदियदेवाण नेरउयाणचनतिपक्वो । सेसाणजीवाण ससारत्याणपक्वेवा ॥ ३ ॥ सोमाडा
रएगि दिपाउनेरइयसुरगणापध । सेसाणआहारो लोमपक्खेवउंचव ॥ ४ ॥ उयापारामकज विलयोयसुठेविसुरगणाइमि । ससाइयसिजीवा लो
मेपक्खेवउंचव ॥ ५ ॥ अण क आहार अनोगनिवर्त्तित को वा नाओगनिवर्त्तित इतिचे दुय्यते-देवाना माओगनियत्तित उन आहार सवाप
योसावस्थाया लोम आहारोपि अनानोगनिवर्त्तित सच पर्यासावस्थाया प्राओगनिवर्त्तितो मनोजसकलइण सच पर्यासावस्थाया आओगनिवर्त्तितो
मनोजसकलबलनिवर्त्तित आहारो पर्यासावस्थाया लोमाहार पर्यासावस्थाया नेरयिकवज्जोना लोमाहारो रेरियकाणा लोमाहार आओगनिवर्त्तित
तोपि हीदियादीना मनुयपयवसानाना य प्रइवाहार ॥ अनोगनिवर्त्तिते ववर्त्त ॥ इति श्री मलयगिरिविरचिताया० आचारपदस्य प्रथमोद्देशे
शक परिसमाप्त ॥ १ ॥ व्याख्यात आचारपदस्य प्रथमोद्देशक सम्प्रति द्वितीयो व्याख्येय तत्रचदा विषयधिकारसंग्रहाया-
आचारेत्यादि ॥ प्रथम सामान्यत आचाराधिकारो द्वितीयो ज्ञानविज्ञापताहाराधिकारः, एय तृतीयसुगार्धिकार चतुर्थो लेख्या
धिकार पचमो दृष्यधिकार यइ सयताधिकार सप्तम कवायाधिकारो ऽष्टमो ज्ञानाधिकारो नवमो योगाधिकारो दशम उपयोगाधिकार स

मणे खिप्यामेव अुवर्त्त ॥ इति पञ्चवणाए आहार पढमो उहंसनु सम्प्रत्तो ॥ १ ॥ आहार
त्रवियसन्ती लेस्सादिठीयसजयकसाए । नाणाजोगुवनगे वेदेयसरीरपज्जती ॥ १ ॥ जीवेण जते ! किं
पैति ॥ इतिश्रीमदुपाध्याय रामचन्द्रगणि त्रिय नानकचन्द्रविरचित प्रज्ञापनानुयादे आचारपदस्य प्रथमोद्देशः ॥

आहारभाधिकसल्लि लेखपादुंशसयतकवाया । ज्ञान योगोपयोगो वेदोदेरयपर्योसि ॥ १ ॥ जीवो प्रदन्त ! किमाहारजो नाहारक १ गी
ताये मनबरो भयण कीधेशके इच्छासमय मनमाहि मनतसथाय । पण्डना० आचारपए पढमोदेसणो । इति प्रज्ञापनाये आहारपट २८ मे प्रथमो
इयक २८ ॥ १ ॥ आहारभविषको सेवादिहोयसङ्गकथाए । पापुंजोगुवपोगे नेरयसरोरपज्जती ॥ १ ॥ सामान्याहाराधिकार १ भव्या

स्तोत्रा व्याख्यान प्राग्गत, तेषां देवानां मनोज्ञहृतया परिशयोति कथमित्यत्रैव दृष्टातमाह-से जहानामयं ॥ से शब्दो यशोव्याघं, सधात्र वाच्यो
 पन्थासे यथा नामेति विद्योक्षिता. शीता पुद्गला इति शीतयोनिक प्राणिने प्राप्यते शीतत्वमेवातिप्रव्यातिशयंन गत्वा तिष्ठति किमुक्तं प्रवति
 त्रिजोषत शीतनीचूय शीतयोनिकस्य प्राणिन सुखित्वायोपकल्पन्त इति, उष्णावा पुद्गला तेषां तपयोनिक प्राप्य तपयमेव उजत्वमेवातिप्रव्या ति
 शयंन गत्वा तिष्ठति, यिजोषतः स्वरूपलाजशपत्या तस्य सुखित्वायोपतिष्ठते इति ज्ञाव, एवमेव प्रनेनेव प्रकारेण तै देवे प्रागुत्तरीत्या मनोम
 त्पणा कृते सति स तेषां देवानां मिच्छा मनोआहारविषयच्छा प्रधापयन्त. शिपमेवापैति तसिज्ञावा त्विवर्तत इति ज्ञाव, इयमेव ज्ञावा यथा
 शीतपद्गलाः शीतयोनिकस्य प्राणिन सुखित्वायो पकल्पन्ते उष्णपुद्गला वा तपयोनिकस्य तथा देवेरपि मनसा त्र्यवष्टियमाणा पुद्गला तेषां वृ
 त्तये परमसतोपाय योपकल्पते, तान आहारी विषयाजलापनिवृत्तं प्रवतीति अत्र उज आहारादिविज्ञागप्रतिपादिका इमा. सूत्रहटागनिमु
 किंताया-सरीरेणोसपाहारी तयादिफासेण लोमत्राहारी । एकोवाहारीपुण कावलिउरीइतायधो ॥ १ ॥ उयाधारातीया सधुंमपज्जतागामुण्ये

ए परिणमति, से जहानामए सीता पोगला सीत पप्य सीत चेत्र अतिवडत्ताणं चिठति उचिणा वा
 पोगला उचिण पप्य उचिणचेत्र अतिवडत्ताण चिठति एवामेव तेहि मणचरुणे कए समाणे से डच्छा

ते सति क्षिप्रमेव ये पुद्गला इष्टा. कान्ता यावन्मोक्षा अन आपा स्ते तेषा मनोज्ञकृतया परिणमन्ति-अथ यथा नाम शीता पुद्गला शीत
 प्राप्य शीतमेवातिप्रव्य तिष्ठन्ति तेषा पुद्गला तेषां प्राप्योत्तं येशतित्रज्य तिष्ठन्ति एवमेव तैर्मनोज्ञशरी कृते सति तदिच्छामन क्षिप्रमेवा

यो कृतशूनजर्मने वसकरी । से जहानामए गिया पोगलासीय पप्यसीयच च तत्ररत्ताच विवृति । ते जिन इष्टाते यीतयोनिया जोषने यीतपुद्गल
 पामोने यो तौत्र यीतपथी देवे यीतयागारीने ररे । उचिणावा पुणला उचिण पाप उचिणच च तत्ररत्ताण चिठति । उच्योतिनया जोषने उच्यपत्र
 नपामोने उच्यपुद्गलनी तीवयापारीने पुद्गल ररे । एतत्ते तदि देवेदि नपनत्थीण कएतमापे से इच्छामपे-श्रिय.मेव उवसमेर । इमदीज देव

स्याया भोजस एवा शरस्य सुभवात्, मनोज्ञस्त्रिण इत्येते न भवति, मनोज्ञघनत्वबोधोत्साहारः ख इत्येते ये तथाविधपत्रात्किवशा गगनया एवञ्च रीरपुष्टिजनका पुद्गला अत्यर्थाद्भूयते यदप्यवहरपानत्कर ॥ दृष्टपूर्वं परमशरीय उपजायते, नयेत त्रैरपिकाथाभस्ति प्रतिकूलकर्मदयवशत त यारूपशक्त्यन्नाभात् ॥ एव सहे उरालियशरीराधि इति ॥ एव त्रैरपिकोत्तेन प्रकारेण श्रीदारिकशरीरिणीपि सर्वे पृथिवीकाविकादयो मनुष्यप येवसाना वक्तव्या साद्यथा-पुढविकाइयाण इति । किं उवाहारा मणजकली ? गोयना । उवाहारा नो मणजकली त्यादि ॥ देवा- सर्वे याव द्वैमानिका उज आहारा अपि मनोज्ञस्त्रिणीय वक्तव्याः । तद्यथा-उत्तरकुमाराराण इति । किं उवाहारा मणोजकली ? गोपमा ! उवाहा रावि मणजकलीवि जाय येभाणियाण पुष्पाः गोयसा । उवाहारावि मणजकलीयि ॥ सम्प्रति मनोज्ञस्त्रिण देवाना यथाभवति तथोपदययति, तत्र तेपु सधारिपु जीधुपु मध्ये ऋजितिविवाक्पालङ्कारे ये मनोज्ञस्त्रिणी देवा स्तोपा, क्वमिति प्राण्यत्, मन प्रसाया दाकारविषय समुत्पद्यते, केनोक्तेख नैत्यत आह-इच्छामो ॥ ऋजिलपाभो क्वमिति पूर्ववत्, मनोज्ञस्त्रिण मिति मनसा मण्ण मनोज्ञस्त्रिण कर्तुं भिति' तत्र एव ते मनसि क ते व्यवस्थापिते मनोज्ञस्त्रिणे इति तथाविधकुलकर्तृदयवशात् त्रिप्रभवं तत्कालमेवेति प्राव, ये इहा काता प्रिया मनोश्चा मन आपा पुद्गला

वि । तत्र एव जे ते मणजकली देवा तेषिण इच्छामणे समुत्पज्जइ इच्छामोणं मणजस्त्रकण करिस्सिण, तएण तेहि देवैहि एव मणसी कए समणे खिप्पामेव जे पोगला इहा कता जाव मणामा तेषि मणजस्त्रकत्ता

जाहारा अपि मनोज्ञस्त्रिणीपि । तत्र ये मनोज्ञस्त्रिणी देवा स्तोपा इच्छामन समुत्पद्यते-इच्छामो मनोज्ञस्त्रिण कर्तुं तत्सोर्दधे रय मनसि क

वैमानिकली क्वचित्पि देवतासर्वं श्रीजाहारी पिण मनसाहारी । तत्र एव जे ये मणजकली देवा तेषिण इच्छामणे मणजकलीय करिस्सिण तएण तेहि देवै हि एव मणसीकए समणे त्रिपमेव जे पोगला इहा कता जाव मणामा पमिं मणजकली यसाए परिष्मति । तिहा मनसाहारी देवता ते देवता नी इच्छा मनमादि कपने तिवारे त्रिण देवताये मनइच्छा कौधेयके उतायथा जे पुइस्स इटकात्प पुइस्स ते मनोज्ञस्त्रिणे तेषा परिष्मते इम नारकोति न

ति वैश्वेश्वरीराजा तथास्त्रगायत्यात्, लोमाहारीपि प पर्याप्ताना भवत्येवो नापर्याप्तानामिति ॥ एव एगिदिया इत्यादि ॥ एव नैरयिकोक्तं
 प्रकारेण एकैदिया पृथिव्यपतीश्रीवायुत्रनस्पतयः सर्वे देवा आसुरकुमारदयो यावद्वैमानिका जगितव्या स्तत्रैकेन्द्रियाणा प्रक्षेपादाराजावो सुखा
 प्रायात्, असुरकुमारादीना वैश्वेश्वरीरितया तथास्त्रगावात्, द्वित्रिचतुरिन्द्रिया स्तियगर्षोन्द्रिया मनुष्या य लोमाहारा अपि वक्ष्या, प्रक्षे
 पादारा अपि उन्नयरूपस्थाय्याहारस्य हेपा सप्तघात्, धरम नर्थाधिकार मन्त्रिचित्तुराह-नरइयाण जत । इत्यादि ॥ उन्न उत्वत्तिदेजो आरार
 योव्यपुह्लसमूह उन्न आरारो येपाते उन्न आहारा, मनसा प्रक्षयतीत्येव शीला मनोमन्त्रिण, तन नैरयिना उन्न आहारा भवति अपर्याप्तव

मा ! लोमाहारा नोपस्क्रेत्राहारा । एवं एगिदिया सहे देवा य ज्ञाणियञ्च जाव वेमाणिया । वेइडिया
 जात्र मणुस्मा लोमाहारावि पस्क्रेत्राहारावि । नैरडयाण जते । कि उयाहारा मणजस्त्री ? गोयसा । उ
 याहारा नो मणजस्त्री । एव सहे उरालियसरीरावि देवा सहे जाव वेमाणिया उयाहारावि मणजस्त्री

हारपत्तीति, शेष यथा नैरयिका यावद्वैमानिका । नैरयिना प्रदत्त । कि लोमाहाराः प्रक्षेपादारा । गीतम । लोमाहारा नो प्रक्षेपाशा
 रा, एवमैकेन्द्रिया सर्वे देवाद्य जगितव्या यावद्वैमानिका । द्वीन्द्रिया यावद्वैमानिया लोमाहारा अपि प्रक्षेपादारा अपि । नैरयिका उट
 त । किमोलाहारा मनोमन्त्रिण ? गीतम । ओलाहारा नैव मनोमन्त्रिण । एव सर्वे औदारिकशरीरा अपि देवा. एवे यावद्वैमानिका शो

क्षेत्राहारा एव एगिदिया सबदेवा भा० जाय वेमाणिया । हेगीतम लोमाहारी पुत्रे पिण प्रक्षेपादारा नशो इम एकैन्द्रियने सदेवताते कहिया जा
 क्षी वेमाणिक । वेरुदिय जाव मणुष्मा लोमाहारावि पक्षेपादारावि । वेद्विय जाकरी मनुष्यो प्रक्षेपादारा पिण पुत्रे । षेरइयाण भते किं योजाणा
 रा मणमस्त्री । नारको हेमगवन्स्य शोलाहारा यो मणमस्त्री एव सर्वत्रि उरान्वितसरीरायं भागिदव्या ।
 हेगीतम नारको शोलाहारी नशो मणमस्त्री इम सर्व औदारिकशरीर कहिया । देवास्ये जाव देसाणिया शोलाहारापि मणमस्त्रीति । देवता सर्वे

तथा तच्छरीराणां संकोट्रियज्ञरीरत्वात् । एष हीन्द्रियसूत्रे नियमात् हीन्द्रियज्ञरीरा स्यादाहरयतीति यत्कथं । हीन्द्रियसूत्रे नियमात् हीन्द्रियज्ञरीराणि चतुरिन्द्रियसूत्रे नियमात् चतुरिन्द्रियज्ञरीराणीति । तिसृषूपर्षेन्द्रिया मनुष्या व्यतरज्योतिषकैर्गानिका य तैरियकम् यत्कथ्या तथाचाए-पुटयिका इयाण पृच्छा इत्यादि ॥ अथुना लोमाहाराधिकार विनावायियु रिदमाह-नेरइयाणमित्यादि ॥ सुगन नभर नेरयिकाणा प्रक्षेपाहारी न जवती

पशुप्यन्तजावपन्तवण पशुञ्च नियमा वेइदियसरीराइं आहारति । एव जाव चउरिटिया जाव पुशुञ्चात्र वन्तयण पशुञ्च एव, पशुपन्तजावपन्तयण पशुञ्च नियमा जस्स जइ इटिया तस्स इदियनरीराइ त्ते ज्ञा हारति, सेस जहा नेरइया जाव वेमाणिया । नेरइयाण जते ! कि लोमाहारा पस्केवाहारा ? गोय

कायिकाना पृच्छा, गौतम । पूयन्तावप्रपणन प्रतीत्य नियमात्पस्केन्द्रियज्ञरीरास्यादाहरयन्ति । एव याथ इत्तानितकुमारः । पृथिवीकायिकाना पृच्छा, गौतम । पूयन्तावप्रपणन प्रतीत्येव चैव, प्रपुत्पन्तजावप्रपणन प्रतीत्य नियमादेकन्द्रियज्ञरी राण्यप्यादाहरयन्ति । हीन्द्रिया पूयन्तावप्रपणन प्रतीत्येव चैव, प्रपुत्पन्तजावप्रपणन प्रतीत्य नियमाद्हीन्द्रियज्ञरीरास्यादाहरयन्ति एव यावश्च तुरिन्द्रिया यावत्पूयन्तावप्रपणन प्रतीत्येव चैव, प्रपुत्पन्तजावप्रपणन प्रतीत्य नियमाद्यस्य यावतीन्द्रियाणि तस्य तावतीन्द्रियज्ञरीराणया

वाग्द्वयना शरीर साहारे । व-दिया दुन्वभाव पणवण पटस एवचैव पशुपण्यभाव पणवण पशुञ्च नियमा वेइदियसरीर साहारे । येद्वि पशुञ्चो भवती प्रयापनाश्री ती समद्वौक नियम वेद्वियना शरीर विण साहारे । एव ज्ञान चउरिटिय एव संक्षेण पुशुभय पणवण पणवण पशुपण्यभाव व पणवण पशुञ्च नियमा जस्य जइ इटिया तस्य तददिवसरीर साहारे । सम ज्ञाच्छी वेमानिक चौरिद्विय सम सर्वं पूर्वभाव प्रत्य । ताश्री प्रयापनाश्री समद्वौक प्रत्यपन्तभाव प्रयापनाश्री नियम जेहने जे.न्द्रिय तदने तदन्द्रियज्ञरीर साहारे । सेवा जहा केरइया जाव वेमाणिया । यावता पित १.१ को जालती वेमानिक । केरइयाण भंते कि लोमाहारा पस्केवाहारा । नारको इभगवन् लोमाहारी इवे कि प्रक्षेपाहारी । गोयमा लोमाहार तो प

गकेन्द्रियशरीराण्यपि याव त्पंचेन्द्रियशरीराख्य व्याहारयतीति श्रवति ॥ पशुष्वन्नजावपन्त्ववण पशुञ्चै त्यादि ॥ प्रत्युत्पन्नी वार्त्तमानिक' सषासी प्रा
वथ प्रत्युत्पन्नजाव स्तस्य प्रज्ञापना ता प्रतीत्यनियमा दयश्यतया पचेन्द्रियशरीराख्या हारयति, कथामितिचे दुष्यते-इह प्रत्युत्पन्नजावप्रज्ञापना
करोति नयन्यनुसूत्रो न शोषा नैगसादय', ऋजुसूत्रश्च क्रियमाणे कृत श्रान्यवर्द्धयमाणे श्रान्यवर्द्धत परिणत मन्त्युपगच्छति श्रान्यवर्द्ध
यमाणा थ पुद्गला स्ते उच्यते ये स्वशरीरतया परिणम्यमाना वर्द्धते श्रान्यवर्द्धयमाणे श्रान्यवर्द्धत परिणतमिषि तन्नतेन शरीरमे
याज्यवर्द्धयति स्वशरीर च तेषा पचेन्द्रियशरीरा तेषा मत उक्त-नियमा त्पचेन्द्रियशरीरा ख्याहारयतीति, एव मसुरकुमारवादप स्तनितकुमारपपे
वसाना जननपतयो वक्तव्याः, पृथिवीक्रियाविकसूत्रे-प्रत्युत्पन्नजावप्रकृपणाचिताया नियमा दकेन्द्रियशरीरा ख्याहारयतीति वक्तव्य तेषा नैकेन्द्रिय

राइ श्याहारति जाव पचिदियसरीराइं श्याहारति ? गोयमा ! पुष्टन्नावपन्त्ववणं पशुञ्च एगिदियसरीराइंपि
हारति जाव पचिदियसरीराइंपि श्याहारति । पशुष्वन्नजावपन्त्ववणं पशुञ्च नियमा पचिदियसरीराइंपि
एव जात्र थगियकुमारा । पृढविकाइयाण पुच्छा, गोयमा ! पुष्टन्नावपन्त्ववणं पशुञ्च एवंचेव । पशुष्वन्न
जावपन्त्ववण पशुञ्च नियमा एगिदियसरीराइ श्याहारति । बंइदिया पुष्टन्नावपन्त्ववणं पशुञ्च एवंचेव ।

केन्द्रियशरीराख्याहारयति यावत्पञ्चेन्द्रियशरीराख्याहारयति ? गीतम । एवन्नाथप्रज्ञपन प्रतीत्यैकेन्द्रियशरीराथयपि आहारयति यावत्प
ञ्चेन्द्रियशरीराथयव्याहारयति । प्रत्युत्पन्नजावप्रज्ञपन प्रतीत्य नियमात्पञ्चेन्द्रियशरीराथययाहारयति । एव यावत्प्रतिनितकुमारा' । पृथिवी

रभृष्ट इर सइसू वर्यं आहारती इषका कपञ्चे खानगे एकेन्द्रिय पचेन्द्रिय पर्यंत पूर्वभाव प्रज्ञापनाथी । षियमा पचिदिय सरीराइ आहारैर एव जा
त्र थगियकुमारा पुढवीकाइयाण इरका । निखय पचेन्द्रियशरीर आहारैर इम आलगे स्तनितकुमार पृथिवीकायनो प्रदत्त । गोयमा पुब्लभाय पशुवर्णं प
शुच एवंचेव पशुपणभाव पशुवर्णं पशुवर्णं निवसा एगिदियसरीराइ आहारैर । हेगौतम पूर्वभावलेखवते षके इमश्रील जाणिवो प्रत्युत्पन्नभाषायो निव

एषापि यावत्करणात् द्वित्रिषतु र्निद्रियशरीरपरिग्रहः पञ्चेन्द्रियशरीररूपव्या शारयति इयमत्र ज्ञावना-यदा तेषा माश्रयमाणाना मुदलाना न
 तीतो ज्ञावः परिजायते तदा ते किञ्चि र्कदाचित् एकैन्द्रियशरीरतया परिजाता आसीरन् कदापित् द्वीन्द्रियशरीरतया परिणता आसीरन् कदा
 पि श्रीन्द्रियशरीरतया कदापि घतु र्द्विन्द्रियशरीरतया कदाचित् पञ्चेन्द्रियशरीरतया ततो यदि पूर्वज्ञाव इदानीमप्यारोप्य विवक्ष्यते तदा नैरयिक

रिममज्जिमाण पुच्छा, गीयमा । जहस्य एगूणतीसाए उक्कोसेण तीसाए । उवरिमरु गेविज्जाण, पुच्छा,
 गीयमा । जहन्तेण तीसाए उक्कोसेण एकूतीसाए वाससहरसाण । विजयवेजयतजयतञ्चपराजियाण पुच्छा,
 गीयमा । जहन्तेण एकूतीसाए उक्कोसेण तेत्तीसाए वाससहस्साण । सद्य्ठसिद्धदेवाण पुच्छा, गीयमा !
 च्छ्यजहन्तमणुक्कोसेण तेत्तीसाए वाससहस्साण आहारठे समुप्यज्जड । नंरडयाण जंत ! कि एगिदियसरी

ज्ञहर्षसहस्त्राणि । उपरिममध्यमपूच्छा, गीतम । जयत्यमेकोमत्रिज्ञात् उरकपतस्त्रिज्ञहर्षसहस्त्राणि । उपरिमोपरिमगैवेयकपूच्छा, गीतम ।
 जयत्यतस्त्रिज्ञादुरकपत एकत्रिज्ञहर्षसहस्त्राणि । विजयवेजयतजयतजयसापरजिताना पुच्छा, गीतम । जयत्यत एकत्रिज्ञादुरकपतस्यस्त्रिज्ञहर्षस
 हस्त्राणि । सर्वायसिद्धदेवाना पुच्छा, गीतम । अत्रययागुरकर्षण त्रयस्त्रिज्ञहर्षसहस्त्राण्याश्चारांषं, समुत्पद्यते । नैरयिका जदत्त । किमे

२८ हजार वर्षे च० २८ हजारवर्षे चाकारनो इत्या अपत्रे अपरि मध्यमनो प्रश्न । गीयमा जहस्येण एगूणतीसाए उक्कोसेण तीसाए उवरिम गेवि
 ज्ञागाण पुच्छा । इगीतम जघम्य २८ हजार वर्षे चाकारले इत्कठ तीसहजारवर्षे वीजा बीजनो गैवेयकनो प्रश्न । गीयमा जहस्येण तीसाए उक्को
 एकतीसाए विजय वेजयत जयत च्छपराजिताना पुच्छा । इगीतम जघम्य तीसहजार उरकट २१ हजार वर्षे चाकारनो इत्या जयजे विजय वेजयन्त जयत
 अपराजितनो प्रश्न । गीयमा जहस्येण इक्कोसाए उक्कोसेण तेत्तीसाए सद्य्ठसिद्धदेवाण पुच्छा । इगीतम जपम्य २१ सहस्रवर्षे उरकट २३ सहस्रवर्षे चा
 हार सर्वायसिद्ध देवनो प्रश्न । गीयमा एजहस्यमणुक्कोसेण तेत्तीसाए वायसहस्त्राण गाथ पचिदिग्गप कुवथभाष पखवथ पठुप । इगीतम पलघम्य यन्

द्यापुपा मवसेय ॥ उक्तीसेण तेतीयाथ धासईहस श्रुति ॥ यथ दनुत्तरसुराणां मयसेयं इह यथा यार्धति सागरोपमाणि स्थिति तद्धा लाव
 रसु वपंतश्च स्थितिपरिमाण परिजात्य वैमानिकसूत्र सकलमपि स्वय विज्ञेयमिति । सरयेकोन्द्रियज्ञरीरादौना मधिकार मनिधितसुराट-नेरइया
 णा तते । इत्यादि ॥ प्रश्नमूत्र सुगम, निर्वचनसूत्रमाट-गोयमेत्यादि ॥ पूर्वो हीतो ज्ञाय तस्य मज्ञापना प्ररूपया सा प्रतीत्य एकोन्द्रियज्ञरीरा

तेवीसाए उक्तीस चउत्रीसाए । हेठिमउवरिमाण पुच्छा, गो० ! जहन्नं चउत्रीसाए उक्तीसेणं पणवीसा
 मज्जिमहेठिमाणं पुच्छा, जहन्नं पणवीसाए उक्तीसेण उक्तीसाए । मज्जिमसज्जिमाण पुच्छा, गोयमा !
 जहन्न उक्तीसाए उक्तीसेण सत्तावीसाए । मज्जिमउवरिमाणं पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेण सत्तावीसाए उक्ती
 सेण च्छाठीवीसाए । उवरिमहेठिमाणं पुच्छा, गोयमा ! जहन्न च्छाठीवीसाए उक्तीसेण एगूणतीसाए । उव

मयो पुच्छा । गीतम । जघन्य त्रयोविशतिर्वपंसहस्राणि उरकपंतसुतुद्विशतिर्वयसुरस्राणि । यथस्तनोपरिनपूच्छा, गीतम ! जघन्य सतु
 विंगतिवपंसहस्राणि उरकपंत पच्यविशतिवपसहस्राणि । मथ्यमाथस्तपूच्छा, गीतम । जघन्यं पच्यविशतिवयंसहस्राणि उरकपंत यद्वि
 शतिवपसहस्राणि । मथ्यममथ्यमपूच्छा, गीतम । जघन्य पच्यविशतिवयंसहस्राणि उरकपंत यमविशतिउपसहस्राणि । मथ्यमोपरिनपूच्छा,
 गीतम । जघन्य सप्तविशतिर्वपंसहस्राणि उरकपंतोष्टाविशतिसहस्राणि । उपरिमाथस्तनयेवैयकपूच्छा, जघन्यमष्टाविशतिसहस्रपंत स्कोनपि

साण व० छबोनाए मज्जि २ माण । हेगीतम जघन्य २५००० वर्षे व० २६००० वर्षे वीजाविक्रमो प्र० बीजा गेवैयकनो । गोयमा जह० छकीसाए
 व० मसवीमाए मज्जिम उवरिमाण पुच्छा । हेगीतम जघन्य २६ हजारवयं आहारवयं आहारवयं आहारवयं बीजाविक्रमो बीजा
 गेवैयकनो प्रश्नकोधो । गोयमा सत्तावीसाए व० च्छाठीवीसाए उवरिम उष्टिमाय पुच्छा । हेगीतम सप्त २७ हजारवयं आहारवयं आहारवयं इपले व०
 २८ हजारवयं बीजाविक्रमो परिलो गेवैयकनो प्र० । गोयमा जह० च्छाठीवीसाए उवरिम नाश्रमाण पुच्छा । हेगीतम जघ य

साए वाससहस्साणं । पाणएणं पुच्छा, गोयमा ! जहन्तं एगूणवासाए वाससहस्साणं उक्कोसेणं वीसा
ए वाससहस्साण । आरणेण पुच्छा, गोयमा ! जहन्तेण वीसाए वाससहस्साण उक्कोसेणं एक्कीवीसाए
वाससहस्साण । अञ्चुएण पुच्छा, गोयमा ! जहन्तेण उक्कीवीसाए वाससहस्साणं उक्कोसेण वावीसाए वा
ससहस्साण । हेठिम २ गेविज्जाण पुच्छा, गोयमा ! जहन्तेण वावीसाए वाससहस्साण उक्कोसेण ते
वीसाए वाससहस्साण । एव सव्वल्य सहस्साणि ज्ञाणियञ्जाणि । हेठिममज्जिमाण पुच्छा, गोयमा ! जहन्त

गौतम । जपत्यमेकोनविंशतिव्यंघसहस्साणि उरकपंतो रिवशतिव्यंघसहस्साणि । आरणपुच्छा, गौतम । जपत्य विंशतिव्यंघसहस्साणि उरकपंत
सकविंशतिव्यंघसहस्साणि । अञ्चुतपुच्छा, गौतम । जपत्यमेकविंशतिव्यंघसहस्साणि उरकपंतो द्वायिंशतिव्यंघसहस्साणि । अचस्तनापस्तनये
यकपुच्छा, गौतम । जपत्य द्वाविंशतिव्यंघसहस्साणि उरकपंतस्रयोविंशतिव्यंघसहस्साणि । यय सयंत्र सहस्साणि ज्ञणितथ्यानि । अचस्तनमप्य

नो इच्छा उपलै द्विये आरणनी प्रश्न । गोयमा जइत्थ वीसाए वाससहस्साण उक्कोसेण एकवोसाए वाससहस्साण अथएण पुच्छा । हेगौतम जइत्थ
वीसहजारवयं आहारनी इच्छा उपलै ७० २१ हजारवयं आहारनी इच्छा उपलै द्विये अञ्चुततो प्र० । गोयमा जइ० एगवोसाए वाससहस्साणं ७०
वावीसाएवाससहस्साण द्विंशिम २ गेविल्लमाण पुच्छा । ७० २२ हजार वयं आहारनी इच्छा प्रथम त्रिकना त्रैवेयकनो प्र० । गोयमा जइ० वावीसा
ए वाससहस्साण ७० वीसाएवातसहस्साण ७० सव्वल्य सहस्साणि भणित्तर्वाणि जाव सव्वाइ द्विंशिमज्जिमाण पुच्छा । हेगौतम जइत्थ २२००० वयं
इच्छा उपलै ७० २३ हजारवयं आहारनी इच्छा उपलै इम सव्वले सहस्रं वयं कडिवा जइत्तनी सर्वायसिद्धि नगी द्विंटे मज्जमनो प्र० । गोयमा जइ० ते
वीसाए ७० वीवीसाए द्विंशिम उधरिमाण पुच्छा । हेगौतम जइत्थ २२००० वयं ७० २४००० हेठला वीजा त्रिकनो प्र० । गोयमा जइ० वीवीसाए
७० पयवोसाए मज्जिमा द्विंशिमण पुच्छा । हेगौतम जइत्थ २४००० वयं ७० २५००० वयं वीसा त्रिकनी प्रथम त्रैवेयकनो प्र० । गोयमा जइ० पयवी

गाण । वंजलोए पुच्छा ; गीयमा ! जहन्नेणं सत्तरहं वाससहस्साणं उक्कोसेणं दसरहं वाससहस्साण । लं
 तए पुच्छा ; गीयमा ! जहणं दसरह वाससहस्साणं उक्कोसेणं चोदसरह वाससहरसाणं । महासुक्केण
 पुच्छा, गीयमा ! जहन्तं चोदसरह वाससहस्साणं उक्कोसेणं सत्तरसरहं वाससहस्साणं उक्कोसेणं सत्तद
 सरह वाससहस्साण । सहस्सारे पुच्छा, गीयमा ! जहन्तं सत्तरसरहं वाससहस्साणं उक्कोसेणं च्छठारस
 रहं वाससहस्साण । च्छाणतेणं पुच्छा, गीयमा ! जहन्त च्छठारसरहं वाससहस्साण उक्कोसेणं एगुणवी

न्नेन सप्तयंपसहस्साणि उत्कर्षतो दशवंपसहस्साणि उत्कर्षतनुत्तुदशवयंपसहस्साणि । म
 हाशुक्कपूच्छा, गीतम । जपन्नेन चतुदशवंपसहस्साणि उत्कर्षत सप्तदशवंपसहस्साणि, गीतम । जघन्य सप्तदशवंपसहस्सा
 णि उत्कर्षतोऽष्टादशवंपसहस्साणि । आनतपूच्छा, गीतम । जघन्यमष्टादशवंपसहस्साण्युत्कर्षत एकीनविंशतिवंपसहस्साणि । प्राणतपूच्छा ;

इका उपले तल्लोकिनी प्र० । गीयमा जह० सत्तवाससहस्साइ ए० दसवाससहस्साण नतएण पुच्छा । हेगीतम जघन्य ७००० वयं आहारले इत्कट ट
 यंसहस्सयं आहारले लान्तकनी प्र० । गीयमा जह० दसवाससहस्साण ए० चददसवाससहस्साण महासंखण पुच्छा । हेगीतम जघन्य दससहस्सयं
 आहारले इत्कट १४००० वयं आहारले महाशुक्कां प्र० । गीयमा जह० चददसवाससहस्साइ ए० सत्तरसवाससहस्सरिण पुच्छा । हेगीतम जघन्य
 १४सहस्सयं इत्कट १० हजारवयं आहारले सहशरनी प्र० । गीयमा जह० सत्तरसरह वाससहस्साण ए० अठारसरह वाससहस्साइ प्राणएण पु
 च्छा । हेगीतम जघन्य १७००० वयंले ए० १८००० वयं आहारनी इत्का उपले इवे पानतनी प्र० । गीयमा जह० अठारसरह वाससहस्सा ए० एगू
 णवाससहस्सावं प्राणएणं पुच्छा । हेगीतम जघन्य १८००० वयं आहारनी इत्का उपले ए० १८००० सहस्सवयं आहारनी इत्का उपले । गीयमा ज०
 ए० एवीसाए वाससहस्साइ ए० वीसाएवाससहस्साण आरणं पुच्छा । हेगीतम जघन्य १८००० वयं आहारनी इत्का ए० २३ हजार वयं आहार

पत एव दिवसपृथक्कृतिक्रमे नूय आहारार्थं समुत्पद्यते । वैमानिकमूत्रे-गयर आत्रोगनिवृत्तिरु जहन्नेण दिवसपृथक्कृतस् इति ॥ गत स्वलोपमा

ण आहारठे समुप्यज्जड । सेस जहा अयुसुकुमाराण जाव तेसि नुज्जो परिणमंति । सोहम्मे ज्या
त्रोगनिवृत्तिरु जहन्नेण दिवसपृथक्कृतस्स उक्कोसिण दीरह वाससहस्साण आहारठे समुप्यज्जड । इंसाने
पुच्छा, गोयमा ! जहन्तो दिवसपृथक्कृतस्स सातिरेगस्स उक्कोसिणं नातिरेगाण दीरह वाससहस्सा । सण
कुमाराण पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेण दीरह वाससहस्साण उक्कोसिण सत्तरहं चाससहस्साण । माहिठे
पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेण दीरह वाससहस्साण सातिरेगाण उक्कोसिण सत्तरह वाससहस्साण सातिरे

सोधर्म आत्रोगनिर्वर्त्ततो जघन्नेन दिवसपृथक्के वरकपंतो द्वयोपंसहस्सयोरआहारार्थं समुत्पद्यते । ईशाने पृच्छा, गौतम ! जघन्त्य दिवस
पृथक्के सातिरेके वरकपत सातिरेकयो द्वयोपंसहस्सयो । सनरकुमारपृच्छा । गौतम ! जघन्त्य द्वयोपंसहस्सयो वरकपंण सप्तवर्षसहस्से ।
माहनद्रपृच्छा, गौतम ! जघन्नेन द्वयोपंसहस्सयो सातिरेकयो वरकपंत सप्तवर्षसहस्सालि सातिरेकालि । ब्रह्मलोकपृच्छा, गौतम ! जघ

परे जाविषी वार २ परिषमे । सोठन्ने आत्रोगनिवृत्तिरु जहं दिवसपृथक्कृत उक्कोसिणं सत्तरहं वाससहस्साण आहारठे समुत्पद्यते । सोठ
ने दिवलोक जापीन आहारले ते जघन्त्य दिवसपृथक्कृत आहार पन्थोपमना स्थितिमाटे वरकट वेसहस्सवर्षे आहारतो इरुका उपले वसागरतो वपेया
ये दिव ईयानदेवलोकतो प्र० । गोयमा जहं दिवसपृथक्कृत आरंगाण उक्कोसिणं वाससहस्साण सातिरेगाड सत्तरहं वाससहस्साण पुच्छा । इभौतम जघन्त्य
दिवसपृथक्कृत अधिक आहारतो इरुका उपले वरकट कादक अधिक वसहस्सवर्षे आहारतो इरुका उपले इम सनतकुमारतो प्र० । गोयमा जहं दीरह
वाससहस्साण उक्कोसिणं वाससहस्साण नाहिठिण पुच्छा । इभौतम जघन्त्य दीयसहस्सवर्ष वरकट ७००० वय माहेद्रतो प्र० । गोयमा जहं दीयास
इरुका सातिरेगाड उक्कोसिणं वाससहस्साण सातिरेगाड वमलोएण पुच्छा । इभौतम जघन्त्य २००० वयं माहेद्रो वरकट ७००० वयं अधिके आहारतो इ

पुत्रे उक्तौसेण अष्टमजन्तस्यति ॥ उत्कर्षनीष्टमजन्तके तिक्रान्ते एतच्च तास्वैवदेवकुरुतरकुलपु द्रष्टव्यं' व्यन्तरमूत्रे नागकुमारसूत्रवत्, ज्योतिष्कसूत्र
मपि तथैव, यस्तु विशेषेण सप्तपदशोयति-नवर णरुषेणैवि दिवसपुङ्गवस्स उक्तौसेणवि दिवसपुङ्गवस्स उक्तौसेणवि जपन्त्यतोपि पत्न्योपमा
ष्टमजागममाणायुष स्तत स्तेषा जपन्त्यपदे प्युत्कष्टपदेपि दिवसपृथक्के तिक्रान्ते ज्ञेय आहारायं. समुत्पद्यते, पत्न्योपमासह्येयनागायुषा च स्वक

जहन्त अतोमुज्जत्तस्स उक्तौ० अष्टमजन्तस्स आहारठे समुप्यज्जड । वाणमतरा जहा नागकुमारा । एवं
जोडसियावि नवर आत्तोगनिवृत्तिए जहन्त दिवस प० उक्तौसेणवि दिवसपज्जत्तस्स आहारठे समुप्य
ज्जड । एवं वेमाणियावि नवर आत्तोगनिवृत्तिए जह्सेणं दिवसपज्जत्तस्स उक्तौ० तेत्तीसाए वाससहस्सा

गनिर्वत्तिती जपन्त्येनान्तमुहूत्तं उत्कर्षं पष्टज्जके आहारायं. समुत्पद्यते । धानव्यन्तरा यथा नागकुमारा । एवं ज्योतिष्का अपि नवर
आत्तोगनिर्वत्तिती जपन्त्यतो दिवसपृथक्के उत्कर्षेणापि दिवसपृथक्के आहारायं समुत्पद्यते । एवं वेमानिका अपि नवरमात्तोगनिर्वत्तिती
जपन्त्येन दिवसपृथक्के उत्कर्षंतत्त्रयांखशहृषंसहस्राण्यतिकांते आहाराय. समुत्पद्यते ओप यथाऽसुरकुमाराणा यावत्ते ज्ञेयोज्ञेयः परिणमन्ते ।

शौच कर्हिवां षड्विंशत्त आभोगनिर्वत्तित जघन्यतो अन्तमुहूत्तं उत्कष्ट पष्टमभक्त आहारतोथर्थे कपत्ते । वाणभतरा जहा नागकुमारा एवं जोडसिया
पथर आभोगनिवृत्तिए जह० दिवसपुङ्गवस्स उ० दिवसपुङ्गवस्स आहारउ समुप्यज्जड । धानव्यन्तरा लिम नागकुमार लिम इम ज्योतिषीने पिप जा
पिवां षड्विंशत्त आभोगनिर्वत्तित जघन्य दिवस पृथक्के एक पत्न्योपमने मने उत्कष्ट दिवसपृथक्के प्रातसनय पत्न्योपमनो स्थितिमाटे आहारतो थर्थे ऊप
जे । एवं वेमाणियावि पथर आभोगनिवृत्तिए जह० दिवसपुङ्गवस्स उ० तेत्तीसाण वाससहस्राण आहारउ समुप्यज्जड । इम वेमानिकने जाणिवो ए
विंशत्त जाणो ते नीपजाच्यो आहार जघन्य एक पत्न्योपमनो अपेसाये दिवसपृथक्के उत्कष्ट आत्तरवासोनां जाता इ३ सहस्रवर्षे गणथके जेतत्ता साम
रोपम तेतत्ता सहस्रवर्षे गणथके आहारतो इरुक्का कपत्ते । सेस जहा असुरकुमाराण जावत्तेसि भुज्जी २ परिणमति । गणथाकतो लिम असुरकुमारनो

प्रवति तस्याप्यनन्तमीशान आश्रायमाणयोग्यं ततो यथोक्तमल्पबहुत्व प्रवति शेष सर्वे सुगमं, यथाद्रियमूत्रे-अहोरेण अतीमुदुत्तरस्येति ॥ यस्या
सप्तम्यर्थत्वा दन्तमूर्तगतं सति नूय आहारार्थं समुत्पद्यते उत्कथंयत यद्यत्क तिकाते एतच्च देवमुक्तसुकुलित्यर्कपंचेद्रियपेक्षया रूढव्य, ननु

वेमायत्ताए तसि नुज्जो परिणमति सेस जहा तेइदियाण । पचिदियतिरिक्कजोगिया जहा तेड
दिया नवर तलयण जेसे आओगनिवृत्तिए से जहसुण अतोमुक्तस्स उद्धोचणं लठजत्तस्स आहारठे
समुप्यज्जड । पचिदियतिरिक्कजोगियाण अते ! जे पोगलाण पुच्छा, गोयमा । सोइदियचरिक्कटियद्याणि
दिय जिप्पिदिय फासिदियवेमायत्ताए नुज्जो परिणमति । मणूसा एवचेव नवर आओगनिवृत्तिए

जिद्धेन्द्रियप्राणेन्द्रियरपज्ञानेन्द्रियवमात्रतया त नूयोज्ञय परिणमन्त । शेष यथा श्रीन्द्रियाणाम् । पण्यन्त्रियतिययोग्योनिक्का यथा श्रीन्द्रिया
नवर तत्र य आओगनिवृत्तित्त स जपयन्यनागतमूर्तमूर्त उत्कथंयत पद्यप्रत्ते (अतिक्रान्ते) आहारार्थं समुत्पद्यते । पण्येन्द्रियतिययोग्योनिक्काया
जदत्त । पुच्छा, गोयमा । श्रीत्रेन्द्रियवस्थित्त्रियप्राणेन्द्रियविमात्रतया नूयोज्ञय परिणमन्ते । मनुष्या एवचेव नवरमानो

यत्ताए भळो २ परिणमति सेस जहा तेदियाण पचिदियतिरिक्कजोगिया जहा तेदिया । शेरिन्द्रियने पांशप्रिय प्राणेन्द्रिय जिधेन्द्रिय अओन्द्रियने वे
मापारि करी बारवार परिणमे । याकता सर्वे तेरिन्द्रियनोपदे पचेन्द्रिय तियचयोगिया यिम तेदिय तिम । एवरं तलय जे आओगनिवृत्तिए से ज
इक्षेण एतीमुदुत्त उ० अहमत्तस्य आहारउ समुत्पद्यन्त । पविशेप तिहा ते जाणेने आहारस्ये ते जपय एतन्मूर्तसं ल्ये उरत्तस्य अहमत्त आहारली इच्छा
जपन्ते । पचिदिय तिरिक्कजोगियाण भते पग्गसा आहारताए पुच्छा । पचेदो तियचयोगियाणे इममवन पटुगल आहारपणे ऊरेके प्रत्य । गोयमा
सीतेदिय चळेदिय चाकेदिय किन्धिदिय फासिदिय वेमावभाए भळो २ परिणमति । इभीतम अओन्द्रियने चारिन्द्रिय प्राणेन्द्रिय अओन्द्रि
य वेमावापणे बारवार परिणमे । मणुस्यावि एवचेव एवर आओगनिवृत्तिए जह० पत्तो० उ० अहमत्तस्य आहारउ समुत्पद्यन्त । मनुष्यने पिप इम

सत्यातीता अश्वयेजनाग इत्यर्थः । अनाप्रायमाणानि अनास्थाद्यमानानि विध्वंसमागच्छति, तानि च यथायोग भवित्येतेषु
 तो तिमूस्ततश्च वेदितव्यानि । अत्रैवा ह्यबहुत्वमाह-एषसिण भते । इत्यादि ॥ इह एकैकस्मिन् प्रागे स्वर्गोपोग्मे नन्ततमोनाग आस्थादयोग्यो

एतेसिण ज्ञते ! पोग्गलाणं अणुग्घाडज्जमाणाण अणुसाडज्जमाणाण अणुसाडज्जमाणाणय कयरे कयरे
 हितो अणुप्यावा ? गोयमा ! सधुत्थोवा पोग्गला अणुग्घाडज्जमाणा अणुसाडज्जमाणा अणुतगुणा अणु
 साडज्जमाणा अणुतगुणा । तेडटियाण ज्ञते ! जे पोग्गले पुच्छा, गोयमा ! घाणिटियजिअणुदियफासि
 दियवेमायत्ताए तेसि ज्ञुज्जो परिणमंति । चउरिडियाणं चरिअणुदियघाणिटियफासिदिय

णानि अरुपुइयमानानि विध्वंसमागच्छन्ति । एतेषा प्रदन्त । पुद्गलानामनाप्रायमाणानामनास्वाद्यमानानामरुपुइयमानानां च कतरे कतरे
 त्योऽस्त्याया ४ ? गौतम ! सर्वसोका पुद्गला अनाप्रायमाणा, अनास्थाद्यमाना अनन्तगुणा, अरुपुइयमाना अनन्तगुणा । त्रीन्द्रिया जद
 न्त । यान्पुद्गलान्पुच्छा : गौतम । प्राणेन्द्रियजिह्वेन्द्रियश्चक्षुर्नेन्द्रियविसात्रतया ते त्रयोत्रय परिणमन्ते । चतुरिन्द्रियाणां पुच्छा, चल्लिन्द्रिय

अपासाडज्जमाणाए अफासाडज्जमाणाए विउसमागच्छेइ । एविशेष अनेकभागनासहस्र अनाप्रायमान गन्थना पुद्गल अनास्थादमानयकै अफासमा
 नयका विउसपानंति । एषसिण भत पुग्गलाए अणावारज्जमाणाए अफासाडज्जमाणाए अफासाडज्जमाणाए अणुतगुणा ४ । एहवा
 हेमगवन् पुद्गल अनाप्रायमान अनास्व, टमान अफासमान किहा २ धो थोडाहवे । गोयमा सव्वधीवा पुग्गला अणाघाडज्जमाणा अणासाडज्जमा
 णा अणुतगुणा अफासाडज्जमाणा । हेगौतम सर्वसोका पुद्गल अनाप्रायमानना तेहयो अनास्थादमान अनन्तगुणा अफासाडज्जमानपद्गल अनन्तगुणा ।
 तेडटियाण भते पुग्गला पुच्छा । तेन्द्रियना हेमगवन् पुद्गलना प्रस्त । गोवसा वाण्हिय किअणुदिय अणुदिय फासिदिय वेमायत्ताए तेसि मुज्जो २ परिणमन्ति
 ताचेन्द्रियने जिह्वेन्द्रिय फरसेन्द्रियने वमानादेकरो अव्ययपेकरो वारवार परिणमंते । चउरिडियाणं चत्तुडिय वाण्हिय जिअणुदिय फासिदिय वम

किमुक्त भवति यद्भूति द्रव्याद्या तद्यद्दृश्य आस्पृष्टाद्येवा तास्वादितान्येव विध्यसमायाति नवरं यथायोग केचिदतिस्थौल्यता केचिदतिसूक्ष्मता इति सम्प्रत्यस्पृश्यमानाना मात्याद्यमानाना च परस्परभक्त्यवयुष्व नञिचिरसुराष्ट-यस्यिण प्रते । पुगलाद्य अणसाइज्जमाणाया मित्यादि ॥ इ ए ऐकस्मिन् स्पर्शयोग्यं प्राणे अनन्ततमो प्राग आस्थाद्यो भवति ततो येना स्वाद्यमाना पुद्गला स्ते लोकाएया उपस्पृश्यमानपुद्गलापेक्षया तेषा मतस्तन्नागवत्तित्वात्, अस्पृश्यमानास्तु पुद्गला अनतगुणा ॥ जिष्यिदियफासिदियवमायसाएडति ॥ वेभावा अपि प्राग्बद् ज्ञावतीया ॥ यय जा ॥ चर्दिदिया ॥ एव ह्रीन्द्रियोक्तप्रकारेण सूत्र ताव हृक्तव्य याव चतुरिन्द्रिया चतुरिन्द्रियगत सूत्र प्राय समानवक्तव्यत्वात्, यस्तु विशेष स उ पदस्येते नवरमित्यादि यान् पुद्गलान् । प्रह्वेवाह्वारतया गृह्णति तेषा पुद्गलानामेकमसरेयेयतम प्राग माहारयति अनेकानि पुन प्रांगवहस्त्राणि

त्योवा पोगला अणसाइज्जमाणा अफासाइज्जमाणा पोगला अणतगुणा । वेइदियाण नते ! जे पुगले अ्याहारताए पु० ? गोयमा ! जिष्णिदियफासिदियवेमायताए तेसि नुज्जो नुज्जो पु०, एव जाव चउ रिदिया नवर अणेगाइचण नागसहस्साइ अणुगथाइज्जमाणाइ अफासाइज्जमाणाइ विद्दुसमागच्छति ।

ज्योऽलयावा ४ ? गौतम । सर्वलोकान् पुद्गला अनारजाद्यमाना अस्पृश्यमाना पुद्गला अनत्तगुणा । द्वीन्द्रिया नदन्त ! यान्पुद्गलानानारत या पुच्छा, जिष्टेन्द्रियसर्पकान्द्रियविभावतया भूमीभूय परिणमन्ते, यय यावच्चतुरिन्द्रिया नवर अनेकानि च प्रागसत्स्वाप्पनाप्रायमा

प्राप्त्वाद्यकी अफपरत्यामान यका माधीमादि लीताद्यका किडा २ दोडा २ उरे । गोयमा सर्वल्योवापुगला यथासाहाय्यमाथा प्रफामारक्कनाथा अण० । देगौतम सर्वदोडा पुद्गलन हवे अनसाट्मान पुद्गल तेषयो अफपरत्या पुद्गल अतत्तगुणा । वेइदियाणभते जे पुगला आहारताए पुच्छा । वेदियने हेमगवत् जे आहारपण्णे तेहनो प्राग । गोयमा लिभेदिय फासिदिय वेभावताए तेसि मुळी २ परिणमति एव जाव चर्दिदिए । देगौत म जिष्टेन्द्रिय फरसेन्द्रिय वेमाथाये तेहनो आरथार परिणमेरस जासगे चर्दिन्द्रियने कडिवा । एवर प्रथेगाइ एण भागसहस्कार अणुवाअलसाथाइ

जीप्राप्तावात् ॥ वैश्वदियाण प्रते । इत्यादि ॥ सुगम नवर ॥ लोमाहारं पक्षेवाहारयति ॥ लोमाप्रिहारो लोमाहार प्रक्षिप्यते ऽर्थां स्मूलो इति प्र
 छेप सचासा वाहारश्च प्रक्षेपाहार , तत्र य खल्वोपतौ वर्षादिषु पुद्गलप्रवेशो मूत्रादिगम्य स लोमाहार कावलिकमुसप्रक्षेपाहार तत्र यान्
 पुद्गलान् लोमाहारतया गृह्णाति तान् सर्वान् परिशेषा नाहारयति तेषा तथा २ खल्ववत्वात्, यान् पुद्गलान् प्रक्षेपाहारतया गृह्णाति तेषा सप
 रयेयतम ज्ञाग मारारयति छान्नेकानि पुन भांगसहस्राणि बहवो सस्येया ज्ञाग इति, अस्पृश्यमानाना मनास्वाद्यामानाना विष्वख भागच्छन्ति

दुविहे ज्ञाहारे पखत्ते, तजहा-लोमञ्छाहारंय परक्रेवाहारंय जे पोगले लोमञ्छाहारत्ताए गिरहति ते
 सखे ज्ञपरिसने ज्ञाहारति जे पोगले परक्रेवाहारत्ताए गेरहति तेसि ज्ञसखेज्जज्जाग साहारति ज्ञणे
 गाइ च ण ज्ञागसहस्राइ ज्ञफासाइज्जमाणाण ज्ञणास्साइज्जमाणाण विद्धसमागच्छति । एतंसिण जते !
 पोगगलाण ज्ञणासाइज्जमाणाण ज्ञफासाइज्जमाणाणय कयरे कयरेहितो ज्ञप्यावा ४ ? गोथमा ! सख

नाहारयन्ति नोसर्वानाहारयन्ति २ गोथम । द्वीन्द्रियाणा द्विविध आहार प्रक्षतद्यथा-लोमाहारश्च । यास्युद्गलान् रोमासा
 रतया गृह्णाति तासर्वानपरिशेषानाहारयन्ति, यास्युद्गलान्प्रक्षेपाहारतया गृह्णाति तेषामसख्येय ज्ञाग साहारयन्ति, अनेलानि च ज्ञाग
 सरक्षाणि अस्पृष्टमानानान्स्वाद्यामानानि विष्वखमागच्छन्ति । एतेषा जदन्त । पुद्गलानोमस्पृश्यमानानास्वाद्यामानानाञ्च कतरे कतरे

दृष्टे-लोमाहारंय परक्रेवाहारंय जे पोगला लोमाहारत्ताण गिरहति ते सखे अपरिसस आहारं । लोमाहारो प्रक्षेपाहारो जे पुद्गल लोमाहार
 पणे यहे ते सर्व अपरिजेषपणे आहारं । जे पुग्गला परक्रेवाहारत्ताए गिरहात तेसि प्रसाखिज्जज्जानी आहारं यथेगाइ वण भागसहस्राइ प्रफासा
 इज्जमाणाण यथासाइज्जमाणाण विद्धसमागच्छं । जे पुद्गल प्रक्षेपाहार पणे यहे ते चसख्यातमेभाग प्रमाणे आहारं अनेकसहस्र । मन्नेभाग अयत्तरे
 यको विद्धसपषो पाने । एणसिध भते पुग्गलाण यथासाइज्जमाणाण यथासाइज्जमाणाणय कयरे कयरेहितो ज्ञप्यावा ४ । एहं विभगवत् पुद्गलना

प दिशी दक्षिणापस्वरूपे अलोकेन व्याहृते इति सधत्तुर्देगागतान् पुराता नाहारयति यथा पुन क्वद्वै द्वितीयादिप्रतरगतपश्चिमदिगलंभ
 तिष्ठति तदा अथस्यापि दिगन्वयिका सन्नते क्वेवसद्विषेका पर्यतवर्तिनी श्लोकेन व्याहृति पश्चदिगागतात् पुद्गलाना हारयतीति, शेष सू
 त्र समस्तमाप पूयवद्गुणनीय यस्तु विशेप स्त मुपदर्शयति-नवर सुखकारण न दृषद् इत्यादि ॥ सुगम ॥ कासिदियवनायहाय इति ॥ विपम
 माथा विमात्रा सस्यात्रावो विमात्रा तथा इशानेशानानाम्नेटतयेति प्रावो ननु यथा नारकाणा नेर्कताकुत्रतया सुराणा च श्रुततयेवति ॥ ए
 य जाय यत्परशुकाश्रयाति ॥ यथा पृथिवीकायिकाना सूक्ष्मस्त्वेष मर्त्तेशोवायुवमरुपभीनामपि प्रक्रीय सर्वेषामपि सकललोकव्यापितया वि

प्यज्जह जहा णेरइयाण नवर तत्यण जेसे आनोगनिष्ठितिए संण असखेज्जसमए अत्तोमुज्जतिए आहारठे
 समुप्यज्जह सेस जहा पुढविकाइयाण जाव आहच्च नीससति नवर नियमा ठादिसि । वेइदियाण पुच्छा, जे
 पोग्गले परेअहाहारत्ताए गेरहति तेण तेसि पोग्गलाण कइजाग आहारति कइजाग आसायति एव
 जहा नेरइयाण वेइदियाण जते । जे पोग्गले आहारत्ताए गिरहति तेसि कि सहे आहारति ? वेइदियाण

कायिकानाम् यावदाश्च नि यसन्ति । नगर नियमात्पर्यटिक्कम् । हीन्द्रियाया पृच्छा, यान्द्रुतान्प्रक्षेपाहारतया तूलन्ति सेया पुत्ता । ए
 प्यारत्ताते कतिनागमात्परयन्ति कतिनागमास्त्रादयन्ति एव यथा रैरयिब्बाणा । इन्द्रिया प्रदन्त । यान्द्रुतानागारतया तूलन्ति तास्वर्वा

परे जाननी वार २ वरसासे नि खासे पविशिये नियज क्खियिनो ग्राहारे । वे. विवाय भते से पुगल अहारत्ताण गिरहति । वेन्द्रिनो इभगवन् प्रयज
 ने पद्मवाहार मई । तेण तमि पुगलाण भियालमि कतिभाभ आहारिद कतिभाभ आभटति एव जहा अरवाण । ते पुद्गले सत्ताते प्रादा
 रे कतमभागे आसाटै इम भजम नारकीने कपी तिन कहवी । वे. दिगाय भते यगले आहारत्ताण गिरहति तेकि सखे आहारिद । वेन्द्रिय हेमग
 वा ज पुद्गम आहारपणे ग्रहे ते स्यु सर्वं ग्राहारे । गवमा वेइदियाच दुविहे ग्राहार प० त० । इगौतम वेन्द्रियने आहारता दाचभेट कल्ला ते क

दिग्य आतानि कटाचि वतुदिग्य कदाचि त्वचदिग्य काऽऽत्रनावनेति चे दुच्यते-इह लोकनिफुटे पर्येताघस्यप्रतरागिनिकोणावस्त्वितो य दा प्राय्वीकायिको वर्धते तदा तस्याघसादलोकेन व्यासत्यात् शयोदिक् पुद्गलाज्ञाय , छाग्नेयकोणावस्थित्यात् पूर्वदिक् पुद्गलाज्ञावो , दक्षि णदिक्पुद्गलाज्ञावय । एवमथ पूयदक्षिणरूपाणा तिसृणा दिशा मलोकेन व्यापन्नता श्पास्य या परिशिष्टा कट्टो अपरा उत्तराच दिग्ब्याद् ता वर्धते तत प्रागतान् पुद्गलान् आहारयति, यदा पुन सग्य प्राय्वीकायिक पाश्चिमा दिशमसुच वर्धते तदा पूर्वा दिग व्यधिका जाता हे

पुढविक्राडयाण नते ! जे पोगले आहारसाए गेरहंति तेण तेसि पोगलाण कीसत्ताए नुज्जो नुज्जो परिणमति ? गीयमा ! फासिदिवेमायसाए तेसि नुज्जो नुज्जो परिणमति । एव जाव वणस्सडकाइया वेइटियाण नते ! आहारठी ? हता गीयमा ! आहारठी । वेइटियाण नते ! केवडकालरस आहारठे समु

यापुद्गलानाहारतया गृह्णन्ति ते पुद्गला कीटूकनया नूयोज्य परिणमन्ते ? गीतम । स्पशंनेन्द्रिययिमात्रतया ते सूयोमूयः परिणमन्ते , एव यावह्नस्पतिकायिका । द्वीन्द्रिया प्रदन्त । आहारार्थिनः । द्वीन्द्रियाणा प्रदन्त । क्रियता कालेनाहारायं समुत्पद्यते यथा नैरयिकाणा, नवर तत्र य प्राप्नोतीनिर्वर्तित सौऽवस्थातसामयिकोक्तमुत्पत्तिक आहारायः समुत्पद्यते तेष यया पृथिवी

हेम पेरश्या तद्वन भा० । हेगीतम-किम नारको तिम । यदशोकादयाण भते ज पुण्यउ आहारसाए गिरडइ । पृथिवीकादया हेभगवन् जेपुद्गल प्राडा रूपे श्रे । तेण तेसि पगलाण कोसत्ताए भुज्जो २ परिणमति । ते पद्दल कदवे २ भावयइ वारवार परिणमे । गीयमा फासिदिवेमायसाए भुज्जो २ परिणमति एव जाव वणसादकादयाण । हेगीतम स्पशंन्द्रियनो मात्राचे वारवार परिणमे इन जाकगे वनस्पतीकादयाने कश्चिद्वो । वेइ टियाण भते आ शारठो । वेन्द्रिये हेभगवन् आहारनो अर्थ उपजे । गीयमा आहारठो वेइ टियाण भते फवदकाणस आहारठ समुत्पद्य सस जहा पुढवीकाइयाण जाव प्राडस गीसकति षियमा खदिशि था० । हेगीतम आहारोक्तानि केर द्वियेने केसलेकानि आहारती अर्थ कपजे थाकतो सने पृथिवीकादयनो

ये पूर्ववद् द्वारतीय नन्द ॥ निहाषाएण बह्विधिसिन्धुत्वादि ॥ व्याघातो नाम कृतोऽपक्राजेन प्रविररण व्याघातस्याघातो निर्वाधात् शब्दे यथा
 पदस्यार्थपूर्वपदार्थान्तरस्यार्थान्तरात् इत्यध्ययान्नाथ स्तौनवा इति विकल्पेन अन्वयान्नाथ त्वधेऽन्नाथ , नियमादवश्यं तथा पदद्विधौ
 ध्वसिस्तानि यन्त्रयो दिव्य आगतानि द्व्यार्या हारयतीति ज्ञाव , व्याघात पुन प्रतीत्य लोकनिष्कृतादी स्यात्कदाचित् त्रिद्विधे तिमृष्या

लज्जयतीति तसिनिष्ठलुक्काइ तेसि पौराणा वक्त्रगुणा वेस जहा नैरडयाण जाव आहच नीससति । पुढविका
 डयाण जते । जे पोगले आहारत्ताए गेहति तेसिण जते । पोगलेण तेथालसि कतिजाग आहारति
 कतिजाग आसायति ? गोयमा । असखेज्जडाग आहारति अणतजाग आसायति । पुढविक्काइयाण
 जते । जे पुगले आहारत्ताए गेहति ते कि सवे आहारति नो मखे आहारति जहेच णेरडया तहेच

यान् जप यथा नैरयिकाणा यावदाहच नि घसन्ति । पृथिवीकायिजा जदन्त । यान् पुद्गलानाहारतया गृह्णन्ति तथा जदन्त । पुद्गलाना
 संयत्काले कातभागमाहारयन्ति कतिभागमास्याटयन्ति ? गीतस । असख्येय जासाहारयन्ति जन्तत प्रागमास्याटयन्ति । पृथिवीकायिक्का
 जदन्त । यान्पुद्गलानाहारतया गृह्णन्ति तान्कि सयान् आहारयन्ति नो सर्वानाहारयन्ति यथैव नैरयिकास्तथेच । पृथिवीकायिका जदन्त ।

सुद शीत वण क्लिष रुच आहारै । तास पाराये वणगुके वेस कडा नैरवाण वाव आहच नोससति । तेइने पुराण वणगुण विषमाही इम नार
 कोनोपरं जाननी नीलसिं । पुढवीकाइयाण भते जी पोलस आहारताण गिरइति । पृथिवीकायिक उभयवत् जे पुद्गल आहारवणे यहे । तेचि पोग
 लाय भियान् चकडभाग आहारैर कडभाग आसावति । तेपुद्गलने समुदाय मटाकाल कितरमेमाण आहारै कितरमेभाग आसावै । गोयमा अकलि
 लभाग आहारैर अणतभाग आसावति । तेगीतस अखलान्तमेभाग आहारै अन्तमेभाग आसावै । पुढवीकाइयाण भतेच पणले आहारताण गि
 यइति ते कि सचे आहारति नो सचे पा० । पृथिवीकायनी देसतवन् जे पुद्गल आहारवणे यहे ते सवना आहारै ते सवना न आहारै । गोयमा ज.

ये गधगुणे फासगुणे ताव इच्छिष्यताथ अत्रिष्यिपताथ उदृताथ नो अहसाथ सुहृताथ नो दुहृताथ तेतेसि मुञ्जी २ परिणमति । यथावासुरजु
 मारणा सूत्रमुक्त तथा नागकुमारादीनामपि स्तनिकुमारपयवखानामा वक्ष्य्य नवर नाम्नोगनिवतिताहारार्थं चिताया मृत्कपांनिधातोनुसरे
 सक्रोसेण दिवसपुस्तस आहारुते समुपप्लाड, इति वक्ष्य्य एतच्च पत्न्योपमासख्ययन्नागायुषा तदचिकायुषा चात्रसेय शेष तच्चैव तथावाह-एवं
 जाव थण्यिकुमाराण मित्यादि ॥ सम्प्रति पृथिवीकायिकानामतान् समाधिकाराम् चितपितु काम आर-पुढविकाइयाण भ्रते । इत्यादि ॥ स

रति । एव जहा णेरडयाण जाय ताह भ्रते । कडडिसि आहारंड निघ्नाघाएण वडिसि वाधाय पठुच्च सि
 य तिडिसि सिय चउडिसि सिय पच० नवर उसन्नकारण न चणड । वन्नच कालनीललोहियहालिदसु
 क्लिप्ताइ, गधच सुप्लिगधुप्लिगधाड, रसच तित्तसन्नहुयकसायअविलमज्जराइ, फासच कक्कफासगरुय

का प्रदत्त । किमाहारमाहदयति एव यथा नैरपिकाणा यावत्तानि प्रदत्त । अतिदिग्म्य पाहारयन्ति २ गीतम् । निर्वाघातेन पद्व्यो
 दिग्म्यो व्याघात प्रतीत्य स्यात्त्रिदिग्म्य स्याच्चतुर्दिग्म्य स्यात्पञ्चदिग्म्यो नवर वापुत्यकारण नत्रपयते । वणत कालनीललोहितहरिद्रजुता
 नि । गन्धत सुरनिदुरत्तिगत्थीनि, रसवत्तिक्तकटुकपायास्तमधुराणि, स्वशंत. कर्कशगुरुकलपुक्रुशीतोत्पल्लिगधरूपाणि । तान्पुराणान्वयेणु

ते तितिसि नाहारंड । इम जिन नारकोत जानगे तिम कहवो हेमगवन् केतनो टिगि आहारने । गोयमा णिव्वाग्घाएण छदिसि वाघाएण पउच
 सियतिटिमि सिय चउडिसि नवर चसन्नकारण पठुच्च । हेभीतन व्याघात त्रिना अतनाठामाडि कडिमिनो आहारने व्याघात जाबोने कोरटिमि
 २, आहारै कोरडिमिनो चार आहारै एविशिय वापुत्थपणानो कारण न कहिनी । वणघा कास नीम, ताटिवि डानिन रुक्मिसार- गवधो न्निगध व
 भिगधाइ रसभो कहुरस तित्त कसाय अविस्त मज्जराइ फानओ क्लत्तफाम मस्य गचय लउउ सोत वसिण निउलुंम्वार । यण्ठो कांशा नोगा
 राता पोना धवना आहारै गपथी मगय हनीम् आहारै रसनी कटुकमस तित्तसे जघायरस पाटारस मोठारस उपयथो कांशगयर्ग मारी केव

अणतप्यसियाइ येसउ असखेज्जणएधीगाढाइ कालउ अकथरुधियाइ प्रावउ वत्रमनाइ गधमताइ रसमताइ फासमताइ जाव नियमा छदिसे
आहारति उंसक कारण पडुध वलउ हालिदुसुक्खिाइ गधउ सुरजिगथाइ रघउ अयिलमधुराइ फासउ मउपलखुण्णुपुहाइ सेधि पोराउमउगु

उदुत्ताए नो अहत्ताए सुहत्ताए तेसि नुज्जो नुज्जो परिणमति । सेस जहा णेरइयाण एव
जाव थणियकुमाराण नवर अन्नोगनिवृत्तिए उक्कोसेण दिवसपज्जत्तस्स आहारठे समुपज्जइ । पुढाव
काइयाण जते ! आहारठी ? हता आहारठी । पुढाविकाइयाण जते ! केवइकालस्स आहारठे समुप्य
ज्जइ ? गोयमा ! अणुसमय अघिरहिए आहारठे समुपज्जइ । पुढाविकाइयाण जते ! किमाहारभाहा

उत्तिष्ठातया ऊदुतया नोऽपत्तया सुखतया नोदुःखतया ते नूयोज्ञूय परिणमन्ते । अथ यथा नेरयिकाणा । एय यावदस्सनिक्खुमारणा
नवर 'त्रान्नोगनिवृत्ति उरुकेपेत्तो दिवसपयत्त आहारायं समुत्थत । पृथिवीकार्यिका नदत्त । आहारार्यितं ? हन्त गीतम । आरारा
र्यितं । पृथिवीकार्यिकाना नदत्त । कियता कालेनाहाराय' समुत्थत ? गीतम । अनुसमयमघिरहित आहारार्यं समुत्थते । पृथिवीकार्यि

वेन्द्रियपे जा मतवत्तपे ईक्षितपे यमिध्याम यमिध्यामपे ऊर्ध्वपे गडो यधपे यधपे नधी दुखपे पडने यार २ परिणमे । सेस जहा येरइया
ए एव जाय थणियकुमाराण एवर आभोगनिवृत्तिए उक्कोसेण दिवस पुइत्तख आहारठे समुपज्जइ । याकतो सर्वं नारकोतोपरे इम जालगे वृत्ति
तकुमारलगे कडिवा एवियेय नारळीयो वियेय चित्तयो आहार उरुत्त नवदिवस करे आहारतो इक्का लपके । पुढोकाइयाण भते प्रहारठो । ए
थिवीकाइयाने हेमगवन् अहारतो अर्यहवे । इता गोयमा आहारठे पुढोकाइयाण भते केवइकालत्तख आहारठे समुपज्जइ । हागीतम पाहारतो
अर्थे इये पृथिवीकाइयाने हेमगवन् केतलेकसे आहार लपके । गोयमा अणसमय अघिरहित आहारठे समुपज्जइ । हेगीतम समयप्रति पत्तरविना
आहारतो अर्थे लपके । पुढोकाइयाण भते चिमाहार सादरे । प्रथिवीकाइया हेमगवन् खू आहार आदरे । एव जहा येरइयाण जाव ताइ भ

। टीका ।

। धृष ।

। ७० ।

। भाषा ।

केवङ्कालस आहारठे समुप्यज्जइ "अत्र सप्तम्यर्थे षष्ठी क्विपति काले अतिक्रान्ते सति त्रय आहारार्थं समुत्पद्यत इत्यर्थे ॥ असुरकुमारानं दुवि
 हे आहारं प त आत्मीगनिवृत्तियुगं । तत्रयं जसे अणजोगनिवृत्तिए संण असुसमयसंविरोहिण आहारठे समुप्यज्जइ, तत्रय
 जसे आत्मीगनिवृत्तिए संख जइल्लख चउत्त्यजत्तस्व उक्कोसंख साइरेगस्व वाससहस्सस्स आहारठे समुप्यज्जइ । अत्र तु ॥ चउत्त्यजत्तस्सेति ॥ सतम्यर्थे
 षष्ठी चउत्त्यजत्त आगन्तिकीय सज्जा एकस्मिन् दिवसे तिकाते इत्यर्थं, मूयो जस्येनाहारार्थं समुत्पद्यते एतच्च दशवर्षसहस्रायुषा प्रतिपत्तव्य मु
 त्कपंत सातिरेक अल्पार्थिके वर्षसहस्रे ऽतिकाते एतच्च सागरोपमायुषा भवसेय ॥ असुरकुमारानं प्रते । किमाहारमाहारयति ? गोयमा । दत्तउ

जेसे आत्मीगनिवृत्तिए संण जहन्नेण चउत्त्यजत्तस्स उक्कोनंणं सातिरेगस्स वाससहस्सस्स आहारठे समु
 प्यज्जइ उंसन्नकारण पफुच्च वन्नउ हगलिदसुक्कित्ताइं गधउ सुप्पिगधाइ रसउ अचिलमज्जाराइ फासउ मउ
 लज्जयणिधुरहाइ तेसि पौराणे वन्नगुणे जाव फासिदियत्ताए इच्छियत्ताए निज्जियत्ताए

यंनके चउत्त्यजत्त सातिरेके वर्षसहस्रे (अतिक्रान्ते) आहारार्थं समुत्पद्यते । बाहुल्यकारण प्रतीत्य वर्धते वास्त्रिगुक्तानि, गन्धत-सुरजि
 गन्धीनि । रसत आसप्तमपुराणि, स्पज्ञतो मृदुलपुत्तिप्रबोधमानि तथा पुराणान्वग्गुणान्यावटस्पज्ञतेन्द्रियतया यावदसनसापतया इंसिततया

ए संण जइल्लेण चउत्त्य भतल्लु उ० सादेग वाससहस्रे आहारं समुप्यज्जइ । छिडे ताहा के ताथी ते आहार करे ते जपन्व चीयभक्त दयप्रदसूनो आ
 त्र पपत्ताये वरकठ काइकपेविक सहस्रवर्षे आहारनी इच्छा जपले पत्तिथी नरक पुंथिवो भांभरो सागरोपमनो अपेचाये कइये जपले । पीपणका
 रेण पइस वसथां इतिद सुक्कित्ताइ गधभरे सुप्पिगधाइ रसयो अचिल महराइ फासयो मध्य सडुय निडुसाइ । बाहुल्यपणानो कारण प्रतीत्य
 वर्धथो पीला धग्गो पइलने गन्धयो सुगन्धे रसयो खट्टा सोठाले फरमथी मृदु लभु च्चिन्ध वण आहारै । तेनि पौराणे वणगुणे जाव फासिदियत्ताए
 जाव मणगत्ताए इच्छियत्ताए अभिक्कियत्ताए उट्टत्ताए नीअहत्ताए सुइत्ताए एतिसं भुज्जीर परिणमंति । तेहना-पूर्वं लावण्यगुण कर

॥ टीका

। इ

। ५

। भाषा

पुनरन्वितपरीयत्वेन परिणयते तथा ॥ अक्षय्याइति ॥ अक्षय्या लघुपरिणामतया अक्षय्ये इत्यस्य इत्यस्य तु
रुपरिणामपरिणयत्वात् न सुखतया लघुपरिणामपरिणयत्वात्, ते सुखला स्तेया नैरयिकाणा ज्ञूय, परिणमते मतान्येव आहाराद्यंन इ
त्यादीनि सप्तद्वाराणि असुरकुमारदिपु प्रथमपत्तिषु विचिंतयिष्युरित्साह-जहा नरइयार्थान्त्यादि ॥ यथा नैरयिकाणा तथा असुरकुमाराराणामपि
प्राणितव्य यावत् तेषि नृजो २ परिणमनीति पर्थतपद, तत्र नैरयिकसूत्रस्य त्रिकोपमुपदर्शयत-तत्यथ जने इत्यादि ॥ स्वचोपदर्शितसूत्रे न सद्
सतीना यथास्थित मतीसिमागच्छति तत सादनुग्रहाय सूत्र मुपदर्शयते-असुरकुमाराण जने । आहारठी ? इता आहारठी, असुरकुमाराण मते ।

कीसहाए नृजो नृजो परिणमति ? गोयसा । सोइटियहाए जाव फासिदियहाए अणिठहाए अ्यकंत
हाए अ्यपियहाए अ्यमनुनाए अ्यमणामहाए अ्यणिच्छियहाए अ्यहहाए नोउहहाए दुक्क
हाए नोसुहहाए एतेसि नृजो परिणमति । असुरकुमाराण जने । आहारठी ? इता अ्यहारठी ।
एव जहा णेरइयाण तहा अ्यसुरकुमाराणवि ज्ञाणियसु जाव तंसि नृजो परिणमति । तत्यणं

ततयाऽथस्तया नो ऊद्धंतया दु सतया नोसुखतया ते ज्ञोयज्ञूय परिणमन्ते । असुरकुमारा नदन्त । आहाराद्यंन ? इत्ता गीतम । आहारा
द्यंन । एव यथा नैरयिकाणा तथासुरकुमाराराणामपि ज्ञणितव्य यावत्ते ज्ञोयज्ञूय परिणमन्ते । तत्र य आनोगनिर्वर्तित ए अयग्येन चतु

भसाए चमणुत्ताए अमणामकार अणिच्छियहाए चभिक्रियहाए अहताए नो उहटताए दुक्कताए नो सुखताए एतेसि चत्र भुजो २ परिणमति ।
तहो इट अकान्त अकामना अप्रिय असुभयणे चमनोत्र चमनाइतया विनारत्थावे अभावनाये अभावणणे अथपणे नहो ऊद्धणणे दुक्कपणे नहो सुख
ये ए नारकोने वार २ परिणमे । असुरकुमाराण मते आहारठी एव लहा चेर-वाण तडा असुराणवि भा० जाव तेषि भुजो २ परिणमर । अन्न
कुमारने इभगवन् आहारनी अर्थ लपजे इम जिम नारकोने कणी तिम असुरकुमारने कहिवो जावये वार २ परिणमे । तत्यथ लेसे यामोगनिर्वर्तित

केवधकालसु आहारठे समुप्यज्जइ "अत्र समस्यर्थे षष्ठी कियति काते अतिक्रान्ते कति नूथ आहारार्थे. समुत्पद्यत इत्यर्थे. असुरकुमारान् दुर्वि
 हे आहारं प त आत्मीगनिवृत्तिग्य । तत्यथ जसे अणान्नीगनिवृत्तिग्य सेस अणुसमयमविरहिते आहारठे समुप्यज्जइ, तत्यथ
 जसे आत्मीगनिवृत्तिग्य सेस जहल्लस वतत्यजत्तस्स उक्कोसेण सादरेगस्स वाससहरस्स आहारठे समुप्यज्जइ । अत्र तु ॥ चउत्यजत्तस्सेति ॥ समस्यर्थे
 षष्ठी वतुपंचल आगन्तिकीय सज्जा एकस्मिन् दिवसे तिकाते इत्यर्थे, मूयो जघन्येनाहारार्थं समुत्पद्यते एतच्च दशवर्षसहस्रायुषा प्रतिपत्तव्यं मु
 त्कपंत सातिरेक अत्र्यधिके वर्षसहस्रे ऽतिक्रान्ते एतच्च सागरोपमायुषा मवसेय ॥ असुरकुमाराण प्रते । किमाहारमारारयति ? गोपमा । दधुले

जेसे आत्मीगनिवृत्तिग्य सेण जहन्नेणं चउत्यजत्तस्स उक्कोमंणं सातिरेगस्स वाससहरस्सस आहारठे समु
 प्यज्जइ उंसन्नकारण पफुच्च वन्नले हालिदसुक्किहाइं गधले सुभिगधाइ रसले अ्विलमज्जाराइ फासले मउ
 लज्जायणिधुरहाइं तिसिं पोराने वन्नगुणे जात्र फासिदियत्ताए जात्र मगामत्ताए इच्छियत्ताए त्रिज्जियत्ताए

यन्नले वरकपंत सातिरेके वर्षसहस्रे (अतिक्रान्ते) आहारार्थं समुत्पद्यते । बाहुल्यकारण प्रतीत्य वर्धतेो हारिद्रिगुक्तानि, गन्धत सुरनि
 गन्धीनि । रसत आसन्नमयुराणि, स्पशंतेो मृदुलपुच्छिगोष्मानि तथा पुराणान्वयंगुणान्यावदस्पशंतेन्द्रियतया यावदसनन्नापतया ह्यप्युत्ततया

ए सेण जइयेण चउत्य मत्तस्स, उ० सादरेग वाससहरसे भाङ्गारे समुप्यज्जइ । इद्वे तादा के जाणो ते आहार करे ते जवन्य बीधभक्त दयधइस्सुनी आ
 व अपत्ताये वरकठ आदकचधिक सहस्रवर्षे आहारनी इच्छा कापले पडिली तरक पुथिवो कांतेरो सागरापमनी अपेचार्ये कइये कपजे । ओसयका
 रणं पइस वस्यो इालिद सक्किहाइं गधको सुभिगधाइं रसको अ्विल मइराइ फासको मउथ सइय जिइसाइं । बाहुल्यपणानो कारण प्रतीत्य
 वर्धतेो पौरा धवनो पइलले गन्धयो सुगन्धे रसको खडा सोठाले फरसवी मृदु ससु खिग्ध वण्य आहार । तिसि पोराने वण्णुणे जात्र फासिदियत्ताए
 जात्र मगामत्ताए इच्छियत्ताए अभिज्जियत्ताए उउत्ताए नी प्रइत्ताए एतेसिं मुच्छीर परिचमति । तेइना पुवं सावण्यगुण फर

विरोधसमावना प्यस्ति तत्र इदमेव व्याख्यानं सत्यम् अत्र एवविषयपूर्वोपरं विरोधावाङ्मूल्यादुसायै पूर्वसूरिभिः कातिकसूत्रस्यानुयोगं कृतं उक्तञ्च-अत्रहसुतेनयिष्य तदेवतजइविद्यालक्षणानि । किकालियागुजोगो दिठोदिठिष्यहाणेहि ॥ १ ॥ तान् किं सर्वान् आहारयति तत्र नो सर्वान् सर्वकदेशज्ञानं प्रगवानाह-तान् सर्वान् अविशेषनाहारयति , उक्तितत्रोपाणामेव केवलानां साहारपरिणामयोग्यानां गृहीतत्वात् ॥ ने रथ्याणमित्यादि ॥ नैरयिका एमितिपूर्वेवत् , यान् पुद्गलान् आहारतया गृह्णन्ति त पुद्गला एमिति पूर्ववदेव , नैरयिकायां कीदृकतया किं स्वरूपतया रूपं २ परिणमते प्रगवानाह-गोतम । श्रोत्रेन्द्रियतया यावत्करणात् चक्षुरिन्द्रियतया घ्राणेन्द्रियतया जिह्वेन्द्रियतयेति परिग्रह , रपज्ञानेन्द्रियतया इन्द्रियरूपतयापि परिणमणाः शुभ्ररूपा किलेकाताज्ञरूपा यत आह-अणित्वात् इत्यादि ॥ इष्टा मनसा इच्छाविययो कृता यथा शोभनमिदं जातं यदित्यमिमे परिणता इति , तद्विपरीता अनेष्टा साहाय्यं सत्ता तथा इह शिषित्परसायंतं श्रुतमपि केषापि दिनि

ए नवति यथा मर्दिकाणां चदनकपूर्णादि सत्ता आह-अकतताए ॥ काता कमनीया अकातारयताशुभ्रवर्णोपेतत्वात् , अतएवाऽप्रियतया नप्रिया धर्मिया दर्शनापातकालेपि तदिप्रयवृट्टिभालन्यु त्पादयतीतिभाव , तद्भावो ऽप्रियता तथा ॥ असुभ्रत्ताएइति ॥ न शुभा छद्मज्ञा असुभ्रगन्धरसस्प शोभकत्वात्-तद्भाव सत्ता तथा ॥ असुभ्रत्ताए इति ॥ न मनोछा अमनोछा विपाककाले दु एवमकतया न मन प्रह्लादहेतय इतिभाव , तद्भाव सत्ता तथा ॥ अमणामत्ताए ॥ प्रोज्यतया मन आप्रुवतीति मनश्चापा प्राकृतत्वाच्च प्रकारस्य मकारत्वे मणाम-इति सूत्रानदेश , न मन आपा अ मनश्चापा नचातृषिदपि प्रोज्यतया जतुना मनान्या-कुर्वतीति प्राव-तद्भाव सत्ता तथा अतएव ॥ अणित्वाच्चियताएइति ॥ अनीप्यिततया प्रोज्यतया स्वादितु मिष्टा ईप्सिता न ईप्सिता अनीप्सिता साहाय्यं सत्ता तथा ॥ अणित्वाच्चियताए ॥ अणित्वाच्चियताए इत्यर्थ , अणित्वाच्च जाता येति अणित्वाच्च साकारदिदर्शनादिप्रत्यय-तद्भाव सत्ता तथा किमुक्तमवति-ये गृहीताहारतया पुद्गला नते इतिहेतवो नूक्तमिति न

विरोधसुभावना प्यस्ति तत इदमेव व्याख्यान सम्यक् प्रत एवविषयपूर्वापरं विरोधात्काल्पित्वासायं पूर्वधुरिभिः कालिकसूत्रस्यानुयोनं कृत
उक्तञ्च-अजसुत्तत्राण्ये तद्वदतजइवियालणानत्य । किं कालियाणुजीगो दिठोदोदोठिप्यहोणेहि ॥ १ ॥ तान् किं सर्वान् बाह्यारयति च न गो च
वान् सर्वकदेशजान् प्रगधानाह-तान् सर्वान् श्रवित्रोपनाहारयति, उज्जितोपाणामेव केवलाना माहारपरिणामयोग्याना गृहीतव्यात् ॥ ने
रश्यागानित्यादि ॥ नैरयिका शमितिपूर्ववत्, यान् पुद्गलान् आहारतया गृह्णन्ति त पुद्गला शमिति पूर्ववदेव, नैरयिकाणा कीदृकृतया कि
स्वरूपतया रूप २ परिणमते सगधानाह-गौतम । श्रोत्रेन्द्रियतया यावत्करणात् षधुरिन्द्रियतया प्राणोन्द्रियतया जिह्वेन्द्रियतयेति परिग्रह ,
रपशनेन्द्रियतया शिन्द्रियरूपतयापि परिणमसाणा शुभ्ररूपा किंत्वेकाताशुभ्ररूपा यत आह-अथिचताए इत्यादि ॥ इष्टा मनसा इच्छाविषयो
कृता यथा शीघ्रनिमिद जातः यदित्यभिमे परिणता इति, तद्विपरीता अनिष्टा कदाप्य सता तथा इह किंचित्परमार्थत श्रुतमपि केषांश्चि दनि

ए प्रवति यथा नदिकाणा षद्वनकपूर्वादि सत आह-श्रकतताए ॥ काता कमनीया अकातारयताशुभ्रवर्षेपितव्यात्, अतएवाऽप्रियतया नप्रिया
श्रप्रिया दर्शनापातकालेपि तदिप्रययुटिमालग्यु त्यादयतीतिजाव, तद्भावो ऽप्रियता तथा ॥ अशुभ्रजातएइति ॥ न शुना अशुना अशुभ्रगन्धरस्य
शौलकत्वान् तद्भाव सता तथा ॥ अशुभ्रजातए इति ॥ न मनोघ्ना अमनोघ्ना विपाककाले दु खजनकतया न मन प्रकृतादहेतव इतिजाव, तद्भाव
सता तथा ॥ अनजामताए ॥ नील्यतया मन आप्रुवतीति मनआया प्राक्तत्वाच्च प्रकारस्य मकारत्वे मलाम इति सूत्रनिर्देश, न मन आया अ
मनआया नजातुषिदति नील्यतया जतूना मनाप्या कुर्वतीति जाव-तद्भाव सता तथा अतएव ॥ अथिच्छियताएइति ॥ अनीप्यिततया नील्यतया
स्वादितु मिष्टा इत्सिता न इत्सिता अनोत्सिता कदाप्य सता तथा ॥ अत्रिच्छियसाग ॥ अत्रिच्यान मत्रिष्या अत्रिलाप इत्यर्थ, अत्रिष्या स
जातः पौर्धति अत्रिष्यता स्मारकादिदर्शना दिप्रत्यय तद्भाव सता तथा किमुक्तवति-ये गृहीताहारतया पुद्गला नते यतिहेतवो प्रुक्निति न-

शुभाय नते ! शस्यति ॥ नैरयिका अनित्यपूर्ववत् यान् पुद्गलान् आहारतया गृह्णाति, इह गृह्य विज्ञिहसवसेय ततो ये उज्जितज्ञेयाः केवला
 एतपरिणामोपमा सम्यक्प्रतिष्ठन्ति ते त्राहारतया गृह्यमाणा यथा द्रष्टव्या अथवा निर्वचनसूत्रसमस्य पूर्वोपरविरोधप्रसंगो न च जगद्वचने

नीससति । षेरडयाण नते । जे पोगले आहारत्ताए गेरहति तेषं पोगलाणं सेयालसि कतिनाग आ
 हारति कडनाग आसायति ? गोयमा ! असखेज्जडनाग आहारति अणतनाग आस्साएत्ति । षेरड
 याण नते ! जे पोगले आहारत्ताए गिरहति ते कि सवे आहारति नो सवे आहारति ? गोयमा !
 ते सवे अपरिसेसिए आहारति । षेरडयाण नते । जे पोगले आहारत्ताए गेरहति तेष तेसि पोगला

य जागमाहारयन्ति अनन्तप्राग सास्वादयन्ति । नैरयिका नदन् । यान् पुद्गलानाहारतया गृह्णाति तान् कि सर्वानाहारयन्ति नो सर्वानाहा
 रयन्ति ? गीतम । तान् सर्वानपरिजोयानाहारयन्ति । नैरयिका नदन् । यान् पुद्गलानाहारतया गृह्णाति ते पुद्गला कीदृक्तया नूयोनूय प
 रिणमन्ते ? गीतम । श्रीत्रेन्द्रियतया यावत्स्पन्दनेन्द्रियतयाऽनिष्टतयाऽकास्ततयाऽप्रियतयाऽमनोप्रतयाऽमनधापतयाऽनीप्सिततयाऽन्निध्या

भाग आहारि केतवीभाग आस्वासे । गोयमा असखिखडभाग आहार गयत्तभाग आसाएत्ति । हेगौतम असख्यातमेभागे आहारि अनन्तमोभाग
 आस्वादे । षेरडयाण भते जे पोगले आहारत्ताए गिरहति तेसि सवे आहारि । नारकी हेमगवन् जे पुद्गल आहारपणे शहे ते संबंधी आहारि । गोय
 मा सखए अपरिसेसिय आहारि । हेगौतम तेसवं चाकतापद्वने आहारि । षेरडयाण भते पकले आहारत्ताए गिरहति तेसि सवे आहारि । नार
 की हेमगवन् जे पुद्गल आहारपणे गृहे तेसवंयो आहारि । गोयमा सखए अपरिसेसिय आहारि । हेगौतम तेसवं चाकतापुद्गलने आहारि । षेरडयाण
 भते पुद्गले आहारत्ताए गिरहति तेसं तेसि पुग्गला कोसत्ताए मुज्जां परिणमती । नारकी हेमगवन् जे पुद्गलाहार पणे शहे तेहना पुद्गल किहापणे
 परिणामे । गोयमा सोतिदियत्ताए जाव फासिदियत्ताए । हेगौतम योगेन्द्रियपणे परिणमे जावने फरसी । प्रणिहत्ताए प्रकातत्ताए अणियत्ताए अण्

नदत्त । यान् पुद्गलात् आहारतया गृह्णति नीरयिका स्त्रीषा गृहीताना पुद्गलाना ॥ ऐकालसि ऐयत्काले गरुणकालोत्तरकालग्रहणकालानित्यर्थ ॥ कः प्रागति ॥ कतिथ प्रागमाहारयति आहारतयो पनुजते , तथा ॥ कतिप्राग ॥ कतिथ प्रागमाहार्यमाखपुद्गलाना मास्वाद गृह्णति , नहि सर्वे पुद्गला आहार्यमाखा न्यास्वाद मायातीति पृथक् प्रश्न , प्रगधानाह-गीतम । असख्येय प्राग माहारयति । अन्येतु गवादिप्रथमवृहद्ग्रास प्रदणव परिसटति आहायमाखाना य पुद्गलाना मनन्तप्राग मास्वादयति घोषा स्वनास्वादिता एव शरीरपरिणाम मापद्यते इति ॥ नेर

इयाण ऋते ! सद्येन आहारति सद्येन परिणामति सद्येन ऊससति सद्येन नीससति अन्निक्रण २ आहारति
 अन्निक्रण २ परिणामति अन्निक्रण ऊससति आहच्च आहारति आहच्च परिणामति
 आहच्च ऊससति आहच्च नीससति ? हता गांयसा ! जेरडया सद्येन आहारति एवचेव जाव आहच्च

ऊससति सर्वतो निश्च सन्ति अनीह्लमाहारयन्ति अनीह्ल निश्च सन्ति आहच्च आहारयन्ति आ
 हच्च परिवचमन्त आहच्च उच्छसन्ति आहच्च निश्चसन्ति ? हत्त गीतम । नीरयिका सर्वत आहारयन्ति एव चैव यावदाहच्च निश्चसन्ति । नी
 रयिका नदत्त । यान्पुद्गलानाहारतया गृह्णति तेषा पुद्गलाना एयत्काले कतिप्रागमाहारयन्ति कतिप्रागमाहारयन्ति ? गीतम । असख्ये

ने हेभगवन् संबंधी प्राणारे नारकीने सर्वथो पारणामे सर्वथो उच्छासे सर्वथो निस्वासे । अभिक्खण आहाररेद अभिक्खण परिणामेद अभिक्खण ऊससति
 अभिक्खण नोससति । वार २ आहाररे वार २ परिचमे वार २ उच्छासे वार २ निस्वासे । आहच्च आहाररेद आहच्च परिणामेद आहच्च ऊससति आ
 हच्च नोससति । किवाररे आहाररे किवाररे परिणामे किवाररे उच्छास आहारोने निस्वासे । हता गांयसा वेरडया सबधी आहाररेद एवचेव जाव आह
 च नोससात । हागीतम नारकी सर्व आहाररे इमहोल जातगे आहारोने निस्वासे । वेरडयाच अंत के पुग्गले आहारसाए गिणहद । नारकी हेभगव
 न् ने पुद्गलप्राधार पणे ग्रहे । तेष तेभि पुग्गलघाव संवासीभि अरभाग आहाररेद अरभाग आहारणे अरभाग आहारने अरभाग

तेषां सादायमाणाणां पुद्गलाणां पुराणान् श्रुतेतनान् वंशगुणान् स्वर्गगुणान् ॥ विपरिणामदत्ता परिपीडयता परिचाडयता परिधि
 द्वसइता ॥ यतानि सत्यार्थं पदानि एकार्थिकानि विनाशार्थप्रतिपादकानि नानादयजविनयानुग्रहार्थमुपात्तानि विनाशय किमितिशाए अ
 न्यान् श्रुयुवान् वणगुणान् रसगुणान् स्वर्गगुणान् उत्पाद्य आत्मशरीरक्षेत्रावगाहान् पुद्गलान् ॥ सद्यप्यथयाए ॥ सर्वात्मना सर्वैरेवात्मप्रदेशे रा
 हारमाधाररूपान् आहारयति ॥ नेरइयाण भवे ॥ इत्यादि । प्रथमत्र-सुगम ॥ नेरइयाण भवे । जे योगता इत्यादि ॥ नेरयिका कृमिति पूर्वगत

कालनीलाइ गधउं दुष्प्रिगथाइ रसउं तित्तरसरुद्रुयाइं फासउं कककगगरुयसीतलुक्राइ तेसि पोराना वन्न
 गुणे गधगुणे रसगुणे फासगुणे विपरिणामदत्ता परिपीडयता परिबिद्धसइता अन्ने अपुष्टे
 वन्तगुणे गधगुणे फासगुणे उप्याकृता अ्यायसरीरखित्तोगाडे पोगले सद्यप्यथायाए अ्याहारसाहरिइ । नेर

त कालनीलानि । गन्धतो दुरनिगन्धोनि । रसत स्त्रिकरसरुद्रुकानि । स्वर्गत कर्कशगुणकक्षीतरुक्रायि तेषां पुराणान् वंशगुणान् गन्धगु
 णान् रसगुणान् स्वर्गगुणान् विपरिणामस्य परिपीडय " मपीत्य धा " परिशात्य परिबिध्यसयित्वा न्यानपूर्वाव्यगुणानाम्बुगुणान् रसगु
 णान् स्वर्गगुणानुत्पाद्यात्माशरीरक्षेत्रावगाहान्पुद्गलान् सर्वात्मना आहारयति । नेरयिका प्रदन्त । सर्वत आहारयन्ति सर्वतः परिणामन्ते सर्वत स

वी नीनो गन्धथी दुर्भगन्धथी रसथी तित्तरस कटकरस स्वर्गथी कर्कश भारी शीत रुच एववा आहारना यइत । तेसि पोरानेष्वगुणेषु गधगुणे
 रसगुणे फारगणे पीराके वंशगुण गन्धगुण रसगुण स्वर्गगुण । विपरिणामदत्ता परिपीनदत्ता परिचाडयता परिबिध्यइता । पाखटीने कंरवे
 परावर्चकरीने परिचाटीने विहकी विषासीने ४ पदनी एक पद । अपुष्टे वणगुणे गधगुणे रसगुणे फासगुणे उपाइता । चनेराहो नपुष्टे वणगुण गन्ध
 गुण रसगुण स्वर्गगुण उपाइने । आयसरीर खित्तोगाडे पुकले सव्यथायाए आहारः । आत्मशरीररूप क्षेत्रावगाहानो यवगाटपुद्गल सर्वहीन आ
 त्मप्रदेशे सधना आत्माना प्रदेशे आत्मरूप आहारं । नेरइयाण भवे स्वर्गथी आहारैर सव्यथी परिणमइ स्वधथी उचसति सव्यथी नोससति । नारकी

जुद्धांधित्वायकं यावति क्षेत्रे नैरयिको वगाढ स्तावत्येव क्षेत्रे तदपेक्षया परिज्ञावतीय प्रगवानाह-जुद्धमप्याहारयति, जुद्धमदेवावगाढान्यप्याहारयति गव मधीपि तियंगपि यानि जदन्त । जुद्धमप्याहारयति अघोप्याहारयति तियंगप्याहारयति तानिकिमादा वाहारयति मध्ये आहुरयति पर्यवसाने आहारयति अयमगान्निप्रायो नैरयिका ह्यनन्तप्रदेशिकानि द्रव्याण्यतर्मुहूर्ते आश यावत् उपज्ञोगोचिहानि गृह्णाति तत सयय, किमुपज्ञोगोचितस्य कालस्यान्तर्मुहूर्तप्रमाणस्यादौ प्रथमसमये आहारयति उत मध्ये मध्येपु समयेपु अज्ञोस्थि त्यर्थवसाने पर्यवसानसमये ? प्रगवानाह-गीतम । आदावपि मध्येपि पर्यवसाने प्याहारयन्ति किमुक्त जवति उपज्ञोगोचितस्य कालस्यान्तर्मुहूर्तप्रमाणस्यादिमध्यावसानेपु समयेपु आहारयति उत अविषयाणि स्तोचिताहारायोग्या न्याहारयति प्रगवानाह-गीतम । स्वविषयानाहारयति नो अविषयान् । यानि जदन्त । स्वविषयानाहारयति तानि जदन्त । किमानुपूर्व्यां आहारयति अननुपूर्व्यां, आनुपूर्वी नाम यथासत् तद्विपरीता अनानुपूर्वी प्रगवाना

ह-गीतम । आनुपूर्व्यां सूत्रे द्वितीया तृतीयार्थे वेदितव्या प्राकृतत्वात् । यथा आचारगे, अगणिपुष्ठा इत्यत्र आहारयति नो अनानुपूर्व्यां जुद्धे मधसिपर्यग्या यथासत् नानि क्रम्या हारयतीति प्रावनीयानि, जदन्त । आनुपूर्व्यां आहारयति तानि कि ॥ तिदिंसति ॥ तिस्रो दिशः सनाहता त्वादिकं तस्मिन् व्यवस्थिता न्याहारयति-चतुर्दिशि पश्चदिशि पट्दिशि वा इह लोकनिफुटपर्यन्ते जघन्यपदे त्रिदिग्ध्ववस्थित नेकादिगुणवस्थित मा अत एदिश आरभ्य प्रप्त' क्त. प्रगवानाह-गीतम । नियमात् पट्दिशि व्यवस्थिता न्याहारयति नैरयिकादि प्रसनाह्या मध्ये व्यवस्थिता स्त्रय पाथस्य पट्दिग् सन्व इति ॥ उषत्रकारणपञ्चेत्यादि ॥ उषत्रज्ञान्त्वो वातुल्यवाची यथा उक्तव देवा साय वेण वेयतीत्यत्र तत उषत्रकारण बाहुल्यकारण प्रतीत्य कि तद्वातुल्यकारणमिति चे दुच्यते अज्ञानानुभाव एव तथापि प्रायो सिध्यादृश्य कृत्वादी न्याहारयति ननु नविषयतीयेकरादय तव उषत्रेत्युक्त, वर्णत कालनीलादि गणतो दुरन्निगथादि रसत स्त्रिककटुकानि रपञ्चैव ककंभगुरुशीतलूसाणि इत्यादि

रसतीवि । जाइ चावनु फासमताइ ताइ नो एगफासाइ आहारति नो दुफासाइ आहारति नो तिफा साइ आहारति घउफासाइपि आहारति जाव अठफासाइपि आहारति । विहाणमगण पडुअ कस्कका इपि आहारति जाव लुस्काइपि आहारति । जाइ फासनु कस्ककाइ आहारति ताइ कि एगगुणकस्ककाइ आहारति जाव अणतगुणकस्ककाइपि आहारति ? गोयमा ! एगगुणकस्ककाइपि आहारति जाव अणतगु

आणि आहारयन्ति नो द्विस्पज्ञाणि आहारयन्ति नो त्रिस्पज्ञाण्याहारयन्ति चतु स्पज्ञाण्याहारयन्ति यावदष्टस्पज्ञाण्यपि आहारयन्ति । विधानमार्गण प्रतीत्य कर्कशान्यप्याहारयन्ति यावद्वृक्षारण्यप्याहारयन्ति । याणि स्पज्ञांत कर्कशान्यप्याहारयन्ति तानि किमेकगुणककशानि आरा रयन्ति यावदनन्तगुणककर्कशान्यप्याहारयन्ति ? गीतम । एकगुणकर्कशान्यप्याहारयति यावदा तगुणककशान्यपि आहारयन्ति । एवमष्टी

जानती द्यगुण कालावर्णने आहारै तावत् अनन्तगुण कालावर्णन आहारै । गोयमा एगगुणकालादपि आहारै एव जाव मुक्तिताद एव गधनीवि रसघाति भा० । इंगीतम एकगुण कालने आहारै आलगी अनसगुण कालने एण आहारै इस धवलावर्णने पि ए कश्चिरी इम गधयो रसयो कश्चिवा । जाइ भावयो फासमताद आहारैद ताद कि एगफासाइ आहारैद जाव अडुफासाः । जी भावयो फासमन्त आहारै ती स्तू एक सयने आहारै किं यावत् न सयने आहारै । गोयमा इणमन्तण पडुअ नो एगफासाः आ० नो दुफासाः आहारै नो तिफासा २ आहारैद चउफासाः आ० जाव अडुफासाः इ पि भा० । इंगीतम स्थाननो मार्गणयो रजायवा एक सयं ते न आहारै गेप सयं ते पि ए न आहारै ३ सयं ते न आहारै ४ सयं ते आहारै यावत् न सयं ते पि ए आहारै । विहाणमगण पडुअ कस्तडाः पि आ० जाव लुस्काः पि आ० । विधानमार्गना पीपणसकप कर्कशयने आहारै आलगे कस्तयने आहारै । उर फासयो कस्तडाः आहारैद ताद कि एगगुण कस्तडाः आ० जाव अणतगुण क कस्तडाः आ० । जी सयथी कर्कशयने आहारै ती स्तू एगगुण आहारै विवाले यमन्तगुण कर्कशने आहारै । गोयमा एगगुण कस्तडाः पि आ० ।

नया त्वन्तप्रादेशकस्फुटी यानपि पचवर्षेणव प्रतिपत्तव्यः ॥ विदुःशोमगण पङ्कधेत्यादि ॥ विव्यक्त मितरव्यवच्छिन्नं घान पोषण खरूपस्य यत्तिष्ठे
 धान विज्ञेय कर्मो नील इत्यादिविज्ञाप इति याव तस्य मार्गण तरप्रतीत्य त्यक्त्वा सर्वार्थं य प्याधारयतीत्यादि सुगम नवर मेतदपि व्यवहारत
 प्रतिपत्तव्य, निश्चयत पुन रवश्य तानि पञ्चवर्षान्वेव ॥ जाइ वगुं कालवन्नाइ वीत्यादि ॥ सुगम, याव दननगुणसुक्लिनाइपि आहारति ॥ एव

ठाणमगण पङ्कच एगुत्रन्नाइपि आहारति जाव पचवर्षान्नाइपि आहारति, विहाणमगणं पङ्कच कालव
 न्नाइपि आहारति जाव सुक्लिनाइपि आहारति । जाड वन्तनु कालवन्नाइ आहारति ताइ किं एगुगुण
 कालाइ आहारति जाव टसगुणकालाइ आहारति सखिज्जअसखिज्जअणतगुणकालाइ आहारति ? गो० !
 एगुगुणकालाइपि आहारति जाव अणतगुणकालाइपि आहारति एव जाव सुक्लिनाइ । एव गंधतोवि

विधानमार्गण प्रतीत्य कालवर्षान्वपि आहारयन्ति यावच्छुक्तगुणान्वप्यारयन्ति । यानि यन्त कालवर्षान्वारयन्ति तानि छिमेकगुणका
 लानि आहारयन्ति यावद्दुग्गुणकालान्वारयन्ति सखेयासखेयानन्तगुणकालान्वपि आहारयन्ति ? गीतम । एकगुणकालान्वपि आहारय
 न्ति यावदन्तगुणकालान्वपि आहारयन्ति । एव यावच्छुक्तान्वपि । एव गन्धतोपि । रसतोपि । यानि प्रावत स्पर्शमन्ति नो तान्येकरप
 मत्त रसमत्त स्पर्शमत्त आहारे । जइ भावार्थो वक्ष्यताइ आहारेइ ताइ किं एगवर्षाइ आहारेइ । जे भावार्थो वर्षमत्त आहारे तोकिम एकवर्षं आ
 हारे । जान कि पचवर्षाइ आहारेइ । जाली ५ वर्षपणे आहारे । गोममा ठाणमगण पङ्कच एगवर्षाइपि आहारिइ ।
 छेतीतम स्थाननोमार्गे रक्षात्ते ते ठामागो एकवर्षे आहारे जाली ५ वर्षे पिण आहारे । विहाणमगण पङ्कच कालवर्षाइ आहारेइ जाव सक्लिनाइ
 पि आहारेइ । विधानमार्गना पापणाल्प कालावकने आहारे आखमं गतवर्षमे पिण आहारे । जइ वक्ष्यो कालवर्षाइ आहारेइ ताइ कि एगगु
 ण कालार आहारेइ । जे वर्षवी कालेणं आहारे तो त्य एगगुण कालावर्षे आहारे । जाव दसगुणकालार जाव अणतगुणकालार आहारेइ ।

शीताहारद्रव्यपरिणामेन यज्जानित मतितीव्रतरदुःखतद्भावा दन्तर्मुद्गुत्तां क्रियन्ति तत आन्तर्मुद्गुत्तिकी नैरयिकाया आशाराचं ॥ नैरशयालमित्यादि ॥ नैरयिका अभिसि पूर्यवत् , किं स्वरूप आहारयति जगवान् द्रव्यादिदेवत काम आह-गोयमेत्यादि ॥ गीतम । द्रव्यतो द्रव्यस्वरूपपर्यलोचनाया अनन्तप्रादेशिकानि द्रव्याणि अथवा ग्रहणावजवात् नहि सख्यातप्रदेशात्मका असंख्यातप्रदेशात्मका वा रूपा जीवस्य ग्रहणयोग्या भवन्ति , चेन्नतो ऽवस्थेयप्रदेशावगाढानि कालतो न्यतरस्थितिकानि अथन्यस्थितिकानि मध्यमस्थितिकानि उररुष्टित्यतिकाभिधेति ज्ञावायः , स्थितिरिति आहारयोग्यस्कन्धपरिणामत्वेना वस्थाम मवसेय ज्ञावतो यथेमतित रसवति रसवति रसवति च प्रतिप रमापवैकैकवर्णपरसद्विस्पर्शनाभात् । जात्र ज्ञावते वल्लमताइ इत्यादि ॥ प्रथमसूत्र सुगम जगवानाह-गोयमा । हाणमगण पडुसेत्यादि ॥ तिष्ठति विज्ञेया आस्तिज्ञितं त्वान , सामान्य मेकवखद्विवर्णेत्रिषोमित्यादिरूप तस्य मार्गण सर्वेषण तदप्रतीत्य सामान्यवितमान्त्रित्येति ज्ञावायं , एकवर्णान्यपि द्विवर्णान्यपीत्यादि सुगम नवर तेया अनन्तप्रादेशिकामा रकन्याना मेकवर्णत्व द्विवर्णत्व मित्यमिद्व्यवहारनयमतामेषुपा निश्चयनयम

सोगाढाहं कालते अन्तरकालठितियावि । ज्ञावतो वन्तमंताइ गधमताइ रसमताइ फासमंताइ । जाइ
ज्ञावते वन्तमताइ आहारति ताइ किं एगवन्ताइ आहारति ? गोयमा !

कालतो न्यतरकालस्थितिकानि ज्ञावतो वर्णमन्ति गन्धमन्ति रसवन्ति रसवन्ति । यानि ज्ञावतो वर्णमन्ति आहारयन्ति तानि किमेकवर्णानि आहारयन्ति यावत्किं पञ्चवर्णानि आहारयन्ति ? गीतम् । त्वानमार्गण प्रतीयेकवर्णान्यपि आहारयन्ति यावत्पञ्चवर्णान्यप्याहारयन्ति स्यात्समये यन्तर्मुद्गुत्त प आहारतो यं उपजे । चेरश्याच मते किमाहार आहरेति । नागको वेमगवन् स्तू प्राहार करे । गोयमा दत्वथो मपत पदेशिवाइ खेतथो प्रसजेत्सपपसोगाढाइ कावथो प्रथरकावद्विहाइ भावथो वखमताइ गधमंताइ रसमताइ प्रायमताइ । देगोतम इत्यथो अनन्तप्रदेशो द्रव्येने आहारे वेवथो असंख्यातप्रदेशावगाढ प्राहारे कालथो अनेरोस्थितिना अथन्य मध्यम उररुष्टितिना मारथो वर्णमन्त गन्ध

श्रीदारिकशरीरिण पुनरीदारिकशरीरपरिपोषणान् पुद्गला नाहारयन्ति तेन पृथिवीकायिकादिपरिगामपरिणता इति सचित्ताहारा मिया
हारा अपि पटते तथाथाट-उरालिपसरीरी जीव मशुखा इत्यादि ॥ श्रीदारिकशरीरिण पृथिवीकायिकन्य आरन्त्य याव ल्नुया किमुक्त प्रवति
पृथिव्यपुतेजोव पु मनस्यतिरूपा सकेन्द्रिया द्विविचतु पचेद्रिया मनुयाद्य एते प्रत्येक सचित्ताहारा अपि सचित्ताहारा अपि मिश्राहारा अपि
यक्त्या उक्त प्रथमाधिकार । सम्प्रति द्वितीया नष्टपर्यंतान् समाधिकारान् पतुर्विद्यतिदयकक्रमेण युगपदन्विष्यन्तु प्रथमतो नैरयिकाणा म
न्निदधाति-नेरइयाणमित्यादि ॥ नैरयिका समित्तिवाक्यालङ्कारे प्रदन्त । आहारार्थिनो नैरयिका इति, यदि आहारार्थिन सततो भगवानाह-
हत्त्यादि ॥ हतेत्यनुमती अनुमतमेतत् गीतम् । आहारार्थिनो नैरयिका इति यदि आहारार्थिन सततो प्रदन्त । नैरयिका समित्तिपूर्वयत् ॥
कैवधकालस्वसिति ॥ प्राकृतत्वात् तृतीयार्थं यष्टी । कियता कालेन आहारार्थं आहारलक्षण प्रयोजन आहारान्निलाप इति याव त्समुत्पद्यते-ज्ञाया

मणसा सचित्ताहारावि अचित्ताहारावि मीसाहारावि । णेरइयाण नते । आहारठी ? हता आहारठी ।
णेरइयाण नते । केवइकालस्स आहारठे समुप्पज्जड ? गोयमा । णेरइयाणं दुविहे आहारि पयात्तं त०-
आणोगनिव्वित्तिएय अणानोगनिव्वित्तिएय । तत्थण जेसे अणानोगनिव्वित्तिए सण अणुसमयं अविहरिहए

नैरयिकाणा प्रदन्त । कियता कालेनाहारार्थं समुत्पद्यते ? गीतम् । नैरयिकाणा द्विविध आहार प्रथमसद्यया-आणोगनिव्वित्तज्ञानानो
गनिव्यत्तित्तथ । तत्र योऽनायागनिव्वित्त आहारार्थं समुत्पद्यते । तत्र ॥ आणोगनिव्वित्तं सो सत्येयसामयिकोन्त

रो जाव मशुखा सचित्ताहारावि मोसाहारावि । श्रीदारिकशरीर आनगे मनुष्यो सचित्ताहारा इवे अचित्ताहारा इवे मियाहारा पिप इवे । षेरइया
ण भते आहारठी । नारकी इभगवन् आहारनो अर्थ इवे । हता गोयमा आहारठो । हागोतन आहारनो अर्थ इवे । षेरइयाण भते केवइयकाज आ
हारठे समुप्पज्जड । नारकीने इभगवन् केतखीकाव आहारनो अर्थ लपनै । गोयमा षेरइयाण दुविहे आहार प० । इगोतन नारकीने दोयभेद आ

वमुपलक्षित सप्तमोचिकार-७। तथा अष्टमोचिकार-परिणामं ॥ परियासमरूपो बोद्धव्य सर्व-नेरइयाणं ज्ञेते । अं षोडशते आशारसाए नि
 रहति तेष तसि पुगला कसिताए जूजो २ परियासतीत्यादि रूप ७। नवमोऽथोचिकार एकेन्द्रियादीनि शरीराणि सर्वव-नेरइयाण ज्ञेते ।
 किं एगिदियसरीराइ आहारति जाव पचिदियसरीराइ आहारति इत्यादि ८। दशमोचिकारो लोमाहारो लोमाहारयत्तव्यत्वात् रूप १०। एजा
 दशो मनोमन्त्रिष्वक्तव्यत्वात् रूप ११। एयसितु इत्यादि ॥ एतेषा सामान्यतो ऽन्तरमुद्दिष्टाना पदाना मर्यापिकाराणा विज्ञायना विस्तारत प्रका
 शाना नाम जयति कार्य्या, सूत्रकारवचनमेतत् प्रतिसातमेव निर्वाहयितुं कामो ययोद्देश इति न्यायात् प्रथमाचिकारं विवाचयति-नेरइ
 याणं ज्ञेते । इत्यादि ॥ नैरयिका जदन्त । किं सचिताहारा सचिसप्तमाहार्यतीति सचिताहारा, एव सचिसप्तमाहारा इत्यादि ज्ञाय
 नीयं जगवानाह-गोयमेत्यादि ॥ इह वैलियसरीरिणो वैलियसरीरपरिपोयोग्यान् पुद्गला नाहारयति तेषाचिस्ता एव सप्तमालि न लीवपरिगृ
 हीता इत्यचिताहारा नायि मित्राहाराः, एव मसुरकुमारदय-कानितकुमारपर्यवधाना जवनपत्तयो व्यन्तरल्योतिष्ठा वैमानिशासु वेदितव्या ।

विज्ञावणाहोडकायञ्च ॥ २ ॥ नेरइयाणं ज्ञेते ! किं सचिताहारा सचिसिताहारा मीसाहारा ? गोयमा !
 नो सचिताहारा सचिसिताहारा नो मीसाहारा एवं ससुरकुमारा जाव वैमागिया । उरालियसरीरा जाव

भावमनुया सचिसिताहारा अपि मित्राहारा अपि । नैरयिका जदन्त । आएरापिंता ? इत गीतम । आशारपिंता ।

८ पुद्गल किंसाशप मुञ्जा २ परिणमद । एकैत्रिय शरीरादि ८ लोमाहार वक्ष्यतात् रूप ११ पदनाविभाषना चिस्तार
 टीबेकरो प्रकाशनाम भवनिक्तव्या तिशा पडिना पचिबानो ए सून । पेरइव पं भते किं सचिसिताहारा पचिसिताहारा मीसाहारा । नारको हे
 भगवन् सून सचिसिताहार करे सून सचिसिताहार करे किंमित्राहारा पचिसिताहारा नो मीसाहारा । इगीतम जहो
 सचिसिताहार वैलियसरीर सचिसिताहार इवे नहो मित्राहार । एव मसुरकुमारा जाव वैमागिया । इम मसुरकुमार जावगे वैमानिक । शीरालियसरी

॥ तदेवमुक्तं वेदवेदास्य अत्रविज्ञातितन पदं समस्तप्राद्विश्रितमनारत्नते-तस्य आयमप्रिच
 म्यस्य इहान्तत्तरपदे नारकादिगतिसमापत्ताना कर्मवेदनापरिणाम उक्तं, इत्युवाहारपरिणामशक्ति ताचेमे सद्गुह्यिगाये-सचित्तहारिद्विद्व्या
 दि ॥ प्रथमोचिकार सचित्तपदोपलक्षित सचेव-नरइयाण ज्ञते । किं सचित्तहार इत्यादि ॥ द्वितीय आहारार्थेन इति ३ ।
 यतीय ॥ कैउइयति ॥ कियता कालेन आहारार्थं समुत्पद्यते इत्यादिरूप ३ । यस्य, किंमाहारमाहारमन्तोति पदोपलक्षित ७ । पचन सर्वत
 इति पदोपलक्षित सचेव-नरइयाण सद्यतो परिणामतीत्यादि ५ । येष शब्द समुत्पद्य ॥ कइजागति ॥ गृहीताना पुद्गलाना कतिनागमाहारय
 न्तीत्येवमादिपद्योधिकार ६ । तथा ॥ यद्य ॥ इति यान् पुद्गलान् आहारतया गृह्णन्ति तान् किं यथान् अपरिज्ञोपान् आहारयते उत यथान् इत्ये

वणाए नगयर्हंपु वेपवेदपदं समस्त ॥ २७ ॥ सचित्तहारठीकेवतिकिंवा विसृष्टोच्चैव
 कतिनाग सर्वेखलु परिणामेचेवबोधे ॥ १ ॥ एगिदियसरीरादि लोमाहारतेहेवमणनस्की एतेसितुपदानं

वादे वेदवेदपदं समाप्तम् ॥

॥ सचित्तहारार्थं-कैवतिकिंवापिसर्वतइयेव । कतिनागसर्वेखलु परिणामवेदयोदु
 धम् ॥ १ ॥ एकैन्त्रियद्वारोरादि लोमाहारस्तथैवमनोज्ञो एतेपाल् पदाना विजावना जयति कस्यथा ॥ २ ॥ नैरयिका प्रदत्त । किं सचित्तार
 रा सचित्तारारा मिश्राहारा ? गीतम । नो सचित्तारारा मिश्राहारा नैव मिश्राहारा । एवमसुरकुमारा यावदुमानिका । श्रीदारिकाररीरा

गति समापन कर्मवेदनीनो परिणाम कञ्चो ॥ पयवर्णाप वषट नञ्चत ॥ इति प्रश्नापना वेदपट समाप्तयो ॥ २७ ॥ ५
 चिचे आहारनी परिणाम कंठे । सचित्तारारो केवसाकवाविसवधपाचि । काभायखेखलु परिणामेचेवकीधवे ॥ १ ॥ एगिदियसरीरादि लोमाहारो
 तइवमणिभस्त्रो । एतेसितुपटाण विभावणादोकायववा ॥ २ ॥ सचित्तार पित्तहार प्रयस्यपधिकार १ आहारनी इच्छारूप कोजी २ केतवाकालयो
 याहारकरे ३ स्त आहारकरे ४ सर्वेने उपपदशयिन ५ दिये यथा पुद्गल केतलेभाने पाचरि ६ सर्वे याहारथयो यपरि शेषाहारे ७ परिणाम कहवा

त्वाद्यधत्वासम्भवात्, तत्रैव वेदनीयसूत्रे बहुवचनचित्ताया जीवपदे मनुष्यपदे च प्रत्येकं जङ्गलिकं तत्राष्टविधवेदका श्रेय्यको प्रह्व, एष सर्वया समविषयवेदकानामन्नावे ततः समविषयवेदकप्रक्षेपे एकवचनबहुवचनान्या ही जङ्गलित, शेषेषु तु त्रैयिकादिषु स्थानेषु जङ्गलिक, अष्टविधवेदका इति । एवमायुर्नामगोत्रसूत्राण्यपि ज्ञावनीयानि माहनीयकर्मवेदयमानो नियमादष्टविधवेदक इति, जीवादिषु पञ्चविंशती पदेषु कवचनचित्ताया बहुवचनचित्ताया च सर्वत्राप्यजङ्गलिक । अष्टौ कर्मप्रकृती वेदयते वा ॥ इति श्री भलयगिरिविरचिताया० वेदवेदाख्य सप्तविंशति

चेव ज्ञाणियह्व । वेदणिज्जायुयनामगोसाइ वेदेमाणे कडकम्मपगळीउ वेदेइ ? गोयमा ! जहा बंधगा वेदगस्स वेयणिज्जा तथा ज्ञाणियह्वणि । जीविण ज्ञते ! मोहणिज्जा कम्म वेदेमाणा कडकम्मपगळीउ वेदेइ ? गोयमा ! नियमा अ्ठ कम्मपगळीउ वेदेइ । एव णेरइए जाव येमाणिए । एव पुहत्तेणवि ॥ इति पन्न

वेदयन्ते ? गीतम् । सर्वेपि तावद्भवेयुरष्टविधवेदकाः । अथवा अष्टविधवेदका वा सप्तविधवेदकश्च । अथवा ऽष्टविधवत्काश्च सप्तविधवेदकाश्च । एव मनुष्या अपि । दशानावरजोयमत्तारायश्चेवैव ज्ञाणियम् । वेदनीयायुर्नामगोत्राणि वेदयन् कति कर्मप्रकृती वेदयते ? गीतम् । यथा वयका वेदकस्य वेदनीय तथा ज्ञाणितव्यानि । जीवो प्रदत्त । मोहनीय कर्म वेदयन्कति कर्मप्रकृती वेदयते ? गीतम् । नियमादष्टौ कर्मप्रकृती वेदयते, एय त्रैयिको यावद्दुमानिक । एय पृथक्को नापि ॥ इति श्री मनुष्याप्याय रामचन्द्रगण शिष्य नानकचन्द्रविरचिते प्रज्ञापनानु

दर्यनावरणीने इम अत्तरायने इम सर्वने । वेयणिज्जावचनमगयाद वेदमाणे कडकम्मपयडोशो वेदेद । वेदनी आठखो नाम गोत्र वेदतोथको केतली कर्मप्रकृति वेदे । गोयमा जहा बंध वेदगस्य वेयणिज्जा तथा भा० । हेगौतम जिम वेदकने वगवकने तिम वेदनीनीपरे कडको । जीवण भते मोहणिज्जा कम्म वेदमाणे कडकम्मपयडोशो वेदेद । जीवने हेमगवन् मोहनीकर्म वेदतेषके केतली कर्मप्रकृति वेदे । गोयमा नियमा अठकम्मपयडोशो वेदेद एव णेरइए जाव वेमाणिए एव पुहत्तेणवि । हेगौतम त्रिये ५ कर्मप्रकृति वेदे इम नारकीने ज्ञावनी वेमानिकने इम पृथक्क सविवा ए पाळने नरकादि

ज्या इति, अष्टविधबंधका इत्येको जग, ततो ऽष्टविधबंधकपदप्रदेषे एकवचनबहुवचनाज्या ह्राविति, पृथिव्यादिषु पचस्थप्यङ्गक सप्तधि
 षवधका शपीति उत्रयेपामपि तेषु सदा बहुत्वेन लक्ष्यमानत्वात् । द्वित्रिचतुरिन्द्रियतियगुपचेद्रियेषु व्यनरल्योतिकवैमानिकेषु च निरयिकवत्
 जगत्प्रिक, मनुष्येषु नव जङ्गा तत्र सप्तविधवधका इत्येको जङ्ग, ततोऽष्टविधवधकपदप्रदेषे एकवचनबहुवचनाज्या ह्री २ पञ्चविधवधकपदप्रदेषे
 एकवचनबहुवचनाभ्या सुत्वार उत्रयपदप्रक्षेप इति तथाचाह-मोहखिण्ण वेसमाणे जहा यधे नाणावरणिज्ज तथा प्राणियव्व मिति ॥ इतिश्री मल
 यगिरिविरचितायाऽष्टविश्रुतिसप्त वेदवधाल्य पद समाप्तम् ॥ २६ ॥ मस्मति सप्तविश्रुतिसप्तमरज्यते-तत्रेदमादिषु
 त्र-कक्षण ज्ञते । इत्यादि ॥ गतार्थे सस्मति कि कर्मवेदयमान कतिकर्मप्रकृती चैदयते इत्युदयस्योदयेन सह सवय चिन्तयति-जीवण ज्ञते । ना
 णावरणिजा क्तम वेसमाणे कङ्ककम्पयणीते वेरुइ इत्यादि ॥ तत्र सप्तविधवेदक उपशान्तमोहबोणोही वा तयो मीत्तनीयोदयासज्जवात् ज्ञेपस्तु

वेदमाणे जहा बंधे । नाणावरणिज्ज तथा प्राणियव्व ॥ तव्वीसडम वेदवधपद समाप्तं ॥ २६ ॥
 कङ्कणं ज्ञते ! कम्मपयणीते पस्सत्ताते ? गोयमा ! अथ पयणीते पस्सत्ताते, तज्जहा-नाणावरणिज्जं जाव
 अंतराइय । एव नेरइयाण जाव वेमाणियाणं । जीवेणं ज्ञते ! नाणावरणिज्जं कम्म वेदमाणे कतिकम्मप

पाण्यायामचद्रगणेशिय अयि नामकचन्द्रविरचिते प्रशापनानुवादे यद्विश्रुतिसप्त वेदवधपद समाप्तम् ॥ २६ ॥
 कति नदन्त । कर्मप्रकृतय प्रकशा ? गीतम । अष्टी प्रकृतय प्रकशास्तद्यथा-ज्ञानावरणीय यावदन्तरायम् । एव निरयिकाणा यावद्वैमानिका

यणइयाए कम्मपयणीपय समाप्त ॥ इति प्रशापना मादि कर्मप्रकृति २६ सो पुरोधवी ॥ २६ ॥ * * * * *
 कथ भेत्ते कम्मप० । केतवो हेमगत्रन् कर्मप्रकृति बन्ही । गीयमा अडुकम्मपयडोत्रोत० णाणार० जाव अराइय एव नेरइयाण जाव वेमाणियाण । हेमो
 तम न कही ते कहेक्के । ज्ञानावरणी जालगे अन्तराय इव नारकोनो जालगे वैमानिका जीवेणभते णाणान्तरिब्ब कम्म वेदमाणे कङ्ककम्मपयणीयो वे

द्विकसयोगे एकैकस्मिन् द्विकसयोगे हादेश, त्रिकसयोगे ऽष्टाविति सर्वसत्त्वपा सप्तविंशति ।
 एव भापुर्नामगोत्रसूत्राण्यपि ज्ञातनीयानि, मोहवेदनीय कर्म वेदयमानो जीवः सप्तविधव्यक्तो ऽष्टविधव्यक्तो वा सूक्ष्मसम्परायाव
 स्थायामपि मोहनीयवेदनसम्भवात्, एव मनुष्यपदेपि वक्तव्य । नारकादिषु तु पदेषु सप्तविधव्यक्तो ऽष्टविधव्यक्तो वेत्येव वक्तव्य, सूक्ष्मसम्प
 रायत्वात्मायत पृष्टविधव्यक्तत्वासम्भवात् । यदुवपनचिन्ताया जीवपदे त्रैगुणिक तत्र सूक्ष्मसम्पराया कादाचित्का इतरं च द्वये सदैव बहुत्वेन ल
 प्यन्ते इति पृष्टविधव्यक्तपदानां सप्तविधव्यक्ता अष्टविधव्यक्ता अपीत्येको जग सप्त पृष्टविधव्यक्तपदमर्थे एव च नयदुवचनान्या द्वावेती
 जगद्विति नैरपिकादिषु क्लान्तकुमारपर्यवसानेषु सप्तविधव्यक्ता सदा बहुत्वेनावस्थिता अष्टविधव्यक्ता स्तु कादाचित्का एकत्वादिना च ना

याण नवर मणूसाण पुच्छा, सद्येवि ताव होजा सप्तविहवधगाय एगविहवधगाय अहवा सत्तविहवधगा
 य एगविहवधगाय छविहवधगाय अष्टविहवधगाय अथधगाय । एव एते सत्तावीस जगा ज्ञाणियत्वा जहा
 क्रिरियासु पाणाडवायविरयस्स । एव जहा वेठणिज्ज तथा अ्याउय नाम गीय च ज्ञाणियत्त मोहणिज्ज

विधव्यक्तार्थैकविधव्यक्तस्य पृष्टविधव्यक्ताष्टविधव्यक्तस्यावक्य । एवमेते सप्तविंशतिर्जङ्गा प्रणितव्या यथा क्रियासु प्राणातिपातविर
 तस्य । एव यथा वेदनीय तथाऽऽयुक्त नाम गीत्रत्वं प्रणितव्यम् । मोहनीय वेदयत्यथाः यथोद्धानावरणीयं तथा प्रणितव्यम् ॥ इति श्री मद्भु

वधगाय अहवा सत्तविह छत्विह अष्टविह अथधगाय एव एते सत्तावीस भगा भाणियत्वा एव सप्तविहवधगा इवे बहुवचने ० विध १ विध अथ
 वा ० विध ६ विध ८ विध ८ विध अथधगाय एव एते सत्तावीस भगा कर्त्विवा । जहा क्रिरियासु पाणातिपात विरयस एव जहा वेयणिज्ज तथा त्राउय ना
 म गीयच भाणियत्त । जिम क्रियापदे कच्चा तिम प्राणातिपातविरतिने जाणिवो इम जिम वेदनीयने कच्चा तिम आयुक्तं नामकं भोगकं सा
 धे कर्त्विवो । मोहणिज्ज वेदमाणे जहा वधे पाणावरणित्य तथा भाणि० । मोहनीकमंते वेदनीयको जिम वय्य ज्ञानावरणेने कच्चा तिम कर्त्विवो ॥

सदेव बहुत्वेन तस्यमानत्वात् । तत पद्विधयस्यकपदप्रक्षेपे एकवचनयदुपचनान्त्वां ही प्रगीं सवमेव ही प्रगावेकविधयस्यकप्रक्षेपेपि उन्नयोरेपि युगपत् प्रक्षेपे पूर्वय चत्वार इति सत्यया नव नैरियिकादिषु तु पदेक्षेकेन्द्रियमनुष्यवर्जेषु बहुउपनिधिनाया जङ्गविक अष्टविधयस्यकाना कादाचि त्कतया एकत्वादिना ज्ञाल्यतया च लज्यमानत्वात् । एकेन्द्रियेषु त्वजगक सप्तविधयस्यकाष्टविधयस्यका अपीति उन्नयेयामपि सदा बहुत्वेन प्राप्य

सप्तविहवधगाय अष्टविहवधगाय एगविहवधगेय ४ । अहवा सप्तविहवधगाय अष्टविहवधगाय एगविहवधगाय ५ । अहवा सप्तविहवधगाय अष्टविहवधगेय षड्विहवधगेय ६ । अहवा सप्त विहवधगाय अष्टविहवधगाय षड्विहवधगाय एगविहवधगाय ७ । अहवा सप्तविहवधगाय अष्टविहवधगाय अष्टविहवधगाय एगविहवधगाय ८ । अहवा सप्तविहवधगाय अष्टविहवधगाय षड्विहवधगाय एगविहवधगाय एवं एते नव जगा । अथसेसाण एगिदियमणुस्सवज्जाण तियजगो जाव वेसाणियाण एगिदियाण सप्तविहवध

विधयपकायाष्टविधयकाइकेविधयपकाइ ५ । अथवा सप्तविधयपकायाष्टविधयपकाइ षड्विधयपकइकेविधयपकइ ६ । अथवा सप्तविधयपकाइष्टविधयपकाइकेविधयपकइ ७ । अथवा सप्तविधयपकायाष्टविधयपकाइ षड्विधयपकाइकेविधयपकइ नय जद्दा सर्वेपि तावज्जवेसु सप्तविधयका । अथवा सप्तविधयपकायाष्टविधयपकाइ ५ । अथवा सप्तविधयपकाइष्टविधयपकाइ ६ । अथवा सप्तविध

विह अष्टविह खल्विह ४० । १ विध अथवा ७ वि० ८ वि० १ वि० वस्यक वरुवचने अथवा ७ वि० ८ वि० ६ वि० । एगविह वधगाय अहवा सप्तविह अष्टविह खल्विह एगविह एव एते षडभागा । अथवा ७ वि० ८ वि० ६ वि० १ वि० १ वि० १ वि० इम ए ८ भागा । यवसेसाण एगिदियमणुस्सवज्जाण तियभगो जाव येसाणियाण । इम याकता एकेन्द्रिय मनुष्यवर्जिने ३ भागा कहिवा जाली वेसानिक । एगिदिया सप्तवि० वधनाय अष्टवि० अहवा सप्तवि० खल्विह

दीर्घा ६

१ ७ १

१ ७ ०

१ भाषा १

घोरेक सयोगिकेवली तस्य घातिकर्मचतुष्टयोदयाभावात् । यदुच्यते सप्तविंशतिका इति ब्रह्मण्य ॥ इति श्री मलयगिरिविरचि
ताया प्रज्ञापनाटीकाया पञ्चविंशतितम कर्मवृत्तस्य पद समाप्तम् ॥ २५ ॥ अष्टौ पञ्चविंशतितम मारज्यते-तत्रपेटना
दिसूत्र-कण्डेण नत । इत्यादि ॥ गतार्थम् । सम्प्रति किं कर्म वदयते का कर्मप्रकृती यन्मती त्युदयेन मरु सम्यचस्य स्वयं चिन्तायिषु रिदमार-
जोदय जते । प्राणावरणिज्ज कस्य वेद्यमाण कश्चिन्मपकीर्णं यवह इत्यादि ॥ सुगम गवर प्राणावरणीयकर्म वदयमान मकविषयश्च उपशान्तनो

गा य एव मणुसात्रि ज्ञाणियहा ॥ इति पन्तवशाए जगद्वर्णुए कर्मवेद पचत्रीसडम पट समस्त ॥ २५ ॥
कडण नते ! कर्मपयकीर्ण पशन्ताउ १ गीयमा । अष्टकर्मपगकीर्ण पशन्ताउ , तजहा-नाणावरणिज्ज
जाव अंतराडय । एव णेरडयाण जाव वेमाणियाण । जीवेण जंते ! नाणावरणिज्ज कम्म वेडेमाणे कडक

काच समविषवदेकाय । एव मनुष्या अपि जलितक्या ॥ इति श्री मनुष्याय रामपन्द्राणि शिष्य नानकचन्द्रविरचिते प्रज्ञापनानुगदे ष
संवद पधविशतम पद समाप्तम् ॥ २५ ॥ कति प्रदत्त । कर्मप्रकृतय मधुता १ गीयम । अष्टौ तद्यथा-ज्ञाणावर
णीय यावदन्तरायम् । एव नैरयिकाणा यावद्वैमानिकानाम् । जीवो प्रदत्त । प्राणावरणीय कर्म वेदयन्कृतिकर्मप्रकृती ज्ञप्ति १ गीयम ।

ना कडिया ॥ वपवथाए कम्मवेद्यपय मज्जत १ इति प्रज्ञापना मन् भावतोमादि २५ मीपद मगास वगी ॥ २५ ॥ १
इति २६ नो पद लट्टकरता वन्व कडक-कण्ठे भते कण्ठव्यटापो प० । कासी इभगवन् कर्मप्रकृत कडा । गीयमा मडुकमपयडोपो त० । इतीतम
न कर्मप्रकृत कडो ते कडक-णाणावरणिज्ज जाव अंतराऽव एव णेरडयाण जाव वेमाणिया । ज्ञाणावरणी ज्ञानेय मधुता १ इम नारकीने जालो वे
मानिन । जीवेण भते णाणावरणिज्ज कर्म वेडेमाणे कडकमपयडोपो नवधति । जीव इ गवधन णानावरणी कर्म वेडेणोयको कित्तो कर्मप्रकृति बाधे ।
गीयमा सत्तामिह वधएया अडुवि० एव जाव वेमाणिए ननुसरे जहा जीवे । इतीतम ० विव वावे न विध इम जालगे वेमाणिक मडुखने जिन वीर

इति चिन्तयति-जीवेण भते । इत्यादि ॥ सुगम वेदनीयसूत्रे ॥ सप्तविधवेदेषुवा अष्टविष्ट इति ॥ सप्तविधवेदक उपशान्तमोए-जीगमोऽः क्षीणमो
 हो वा तयो मीर्दनीयोदयान्नावात्, अष्टविधवेदका मित्यादृष्ट्यादयः सुलसम्परायास्ता स्तेषा भवत्यमष्टानामपि कर्मणा मुदयनावात्, चतुर्वि

कर्मपयस्त्रीनु वेदंड ? गीयमा ! सप्तविहवेयए वा अष्टविहवेयए वा । एव मणसूखि । सेसा णेरइयाइ ए
 गतेणवि पुहत्तेणवि नियमा अष्टकर्मपगस्त्रीनु वेदंड जाव वेमाणिया । जीवाणं नते ! वेदणिज्ज कम्मं
 अथमाणा कतिकम्मपयस्त्रीनु वेदंति ? गीयमा ! सखेवि ताव होज्ज अष्टविहवेदगा य चउच्चिहवेदगा य ।
 अहवा अष्टविहवेदगा य सप्तविहवेदगा य । अहवा अष्टविहवेदगा य चउच्चिहवेदगा य सप्तविहवेद

य कर्म अथभतिकर्मप्रकतीवेदयत् ? गीतम । सप्तविधवेदको वाएविधवेदको वा । एव मनुष्यापि । जेषा नैरयिकादिका सुकत्वेनापि पुप
 क्षेनापि नियमादपी कर्मप्रकतयो वेदयत्ते यावट्टेमानिका । जीवा नदन्त । वेदनीय कर्म अथन्तो कतिकर्मप्रकतीवेदयत्ते ? गीतम । सर्वपि
 तावअथेयुरएविधवेदकाथ चतुर्विधवेदकाथ । अथवा एविधवेदकाथ सप्तविधवेदकाथ । अथवाएविधवेदकाथ चतुर्विधवेद

वेमानिक तालगे कहो इम पुयस्यणे इम वटनोयकर्म वर्ज्जीन जालगे अन्तराय तालगे कहो । जीवेष भते वेदणिल्लं कस्य यथमाणे कइकस्यपयस्त्रीनी
 वेदइ । जीव हेभगवा वेदनीकर्म वाधता कंतकी कर्मपकृति वेदे । गीयमा सप्तविह वे० अष्टवि वे० चउच्चि वे० । एव मणुसेवि ससा णेरइया एगसपुह
 सेयवि णियमा अइकस्यपयस्त्रीनी वेदेर जाव वेमाणिया । इगीतम ० विध वेदे ८ विधवेदे ४ विध इम मनुष्येने श्य नारकीने एकवचने अइवचनेकरो
 ८ कर्मपकृति वेदे । जीवाण भते वेयणिल्ल कस्य यथमाणा कइकस्यपयस्त्रीनी वेदेइ । जीवने हेभगवन् वेदनी वाधताधका केतलीकर्म ८ प्रकृति वेदे । गो
 यमा मरुपि ताव हाळा । हेगीतम सधनी येदे । अष्टविहवे० चउच्चिहवे० । अथवा अष्टविह वे० सप्तविह वे० । सप्तविह वे० चउच्चि
 हवे० सप्तविह वे० ३ एव मणुस्याणवि भा० । अथवा चाठविध ४ विध अथवा ८ विध ४ विध ० विध ० विध इम मनुष्येनेमा

रामप्रानि प्राणावरणीधनुयवत् ॥ इतिश्री मलयगिरिविरोधितापो० कर्मवशास्य त्त्विंजितिस पद समाप्तम् ॥
 सम्प्रति पल्पविशतिसप्त सारस्यते, तत्रचदमादिसूत्र-कडय प्रते । कम्मपयक्रीउ इत्यादि ॥ गतायं, सम्प्रति कि कर्म वस्रग् कतिकर्मप्रकृती र्वदयते

धोवीसडम कम्मवधपट सम्प्रत्त ॥ २४ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 कडण जते ! कम्मपगक्रीउ पणत्ताउ ? गोयमा ! झ्ठ कम्मपगक्रीउ प० तजहा-नाणावरणिज्ज कम्म वं
 धमाणे कड कम्मपयक्रीउ वेदेड ? गोयमा ! नियमा झ्ठ कम्मपगक्रीउ वेदेड । एव नेरडए जाव वेमाणि
 ए । एव पुहत्तेणवि । एव वेठणिज्जवज्ज जाव झ्तराइय । जीवेण जते ! वेदणिज्ज कम्म वधमाणे कड

यिको यावह्मैमानिक । एव पृथक्तेनापि प्रथितय्यम् ॥ इतिश्री मटुपाध्याय रामचन्द्रगणेशिष्यानानकचद्र कृते प्रश्नापनानुवादे चतुर्विंशति
 तम पद समाप्तम् ॥ २५ ॥ कति प्रदत्त ! कर्मप्रकृतय प्रश्ना ? गीतस ! अष्टी कर्मप्रकृतय प्रश्नास्तथा-ज्ञा
 नावरणीय यावदत्तरायम् । एव नैरयिकाणा यावह्मैमानिकाना । जीवो प्रदत्त । ज्ञानावरणीय कर्म वस्र्प्रकृति कर्मप्रकृतीर्वदयते ? गीतस !
 नियमादष्टी कर्मप्रकृतीर्वदयते । एव नैरयिको यावह्मैमानिक । य पृथक्तेनापि । एव वेदनीयवश यावदत्तरायम् । जीवो प्रदत्त । चैवनी

वैमानिकलगे कहवो इम बहुवचने षिण कहवो । पणवणाए कम्मवधपण सम्प्रत्त । इति प्रश्नापनानो कर्मवधपट २४ सो समाप्त यवो . २४
 क. ए भते कम्मपयडोपी प० । केतलो हेभगवन् कम्मप्रकृति कहो । गोयमा अट्टकम्म. त० । हेभोतम द कहो ते कहले-याणावरणिज्ज काव अतराए
 २ एर-याग एव जाव वेमाणियाण । ज्ञानावरणे जावत् प्रत्तराय इम नारखोथीमाडो खाल्गीवेमानिक तालगे कहवो । जीवेण भते याणावरणि
 ज्ज कम्म वधमाणे करकम्मपयडोपी वेदेड । जीवन हेभगवन् एकवचने ज्ञानावरणेकम्म वाधतायका केतलो कर्मप्रकृति वेदे चित्तये ए प्ररत । गोयमा
 षियमा अट्टक० एव एररया लाव वेमाणिया एव पुहत्तेणवि एवं वेदणिल्लवरा लाव प्रत्तराइव । हेभोतस निशे द कर्मप्रकृति वेदे इम नारको जालगे

धनं तु नृक्षुण्डम्परायइति, आधुर्वेषकस्तु नियमा दष्टविषयक इति तं चिन्तयति-तद्विनाथा मेरुवचनदुवचने च चर्चत्राभङ्ग नामोद्भवात्

छुठविहवधगा य छुठिहवधगा य १ । एए नत्र भगा । मोहणिजा वधमाणे जीवे कडकस्त्रव० ? गोयमा !
जीवेगिठियवज्जो तियन्नगो जीवेगिठिया सत्तविहवधगावि छुठविहवधगावि । जीवेण न्नेते ! छुडयं
कम्म वधमाणे कड कम्मपगळीउ ० ? गोयमा ! नियमा छुठ । एवं नेतडए जाव वेसाणिए । एव पुह
सेणधि । नामगोयतराडय वधमाणे जीवे कड कम्म० ? गोयमा । जाहि नाणावरणिजा वधमाणे वधड
ताहि ज्ञाणियछो । एव नेरडए जाव वेसाणिगए । एव पुहत्तेणवि ज्ञाणियछु ॥ इति पसवगाए जगथंडए

नत्र भगा । मोहनीय वधन् जीव कतिकर्मप्रकतीवधाति ० गौतम । जीवेकेन्द्रियवर्जास्त्रकम्म । जीवेकेन्द्रिया सप्तविधयवका यपि अष्टयि
पदयजा यपि । जीवो जदत्त । आयु कर्म वधन् कति कर्म प्रकतीवधाति ० गौतम । नियमादष्टो । एव नेरयिको यावद्धैमानिक । एव पु
यत्तेणपि । नामगोयतराय वयन् जीव कतिकर्मप्रकतीवधाति ० गौतम । यात्रिहर्तागवरणीय वधन्तोयधन्तत्तात्रिहर्तायुतव्य । एव नेर

नत्रभगा । मोहणिज्ज वममाणेण भते जौने क० । नोहनोर वधन्ना हेनमगन् कतलो । गोयमा जावगिठियवजा तियभगा । हेगौतम जीवने एकेन्द्रिय
वर्जति ३ भाग कश्चि । जीवेगिठिया सत्तविहवधगाव न्हदिह । जोय एकेद्रियाठिकने ० विध सदेव हुवे ष विव आयुष्मं याधता हुवे । जोवेग
भते आयु कथ ववमपे क६० । जावने हेनमवन् आयुष्मं वाधता कतलो कर्मपकृति वापे । गोयमा नियमा चरुज० एव येरए जाव वेसाणिए ०
व पडत्तयपि पामगोइययतराडयवधमाणे जंविणं भते क६० । हेगौतम निने ष कर्मकृत वाधे रय नारकोयो माडो वैमानिकलेगे कश्चि इम
एकवचन वधुवचने नाम गीन अत्तराय वाधता जीव हेनमवन् कतणे कर्मपकृत वाधे । गोयमा । जाहितो णागवरणिव्व वधमाणे वपति ताहितो
गो० । हेगौतम जिन प्रागावरणीना कळो जिनहेज्ज सवे कडवो । एव येरएगति जाव वेसाणिया एव पुहुणेयपि ३१० । इम नरककोमंमाडो यावन्

पश्चिन्वित राएय बह्यभाणेषुपि घतुं पदेषु क्विचि लिखित् चिन्त्यते तत्र बतुविंशतिसूत्र-कण्ठे ज्ञते । कम्मपयडो उ पञ्चताउ इत्यादि ॥ प्रागुपन्यस्तस्या प्यस्यैरोपन्यासो विडोयाप्रिधानाय , एकमुत्तरेद्यपि पदेषु प्राथनीय , सम्प्रति कि कर्म यन्नन् का नि कर्माणि वप्रातीति यन्यस्यथ विविधन्मिषु प्रथमतो ज्ञानावरणीयेन सर् सम्यन्ध चितयति-जीवेण ज्ञते । नाणायरणिज्ज कम्म य धमाणे कडकम्मपगणीउ वधइ इत्यादि ॥ सुगम नवर सत्तविहवथक आयुर्वंधात्रावकाले ष्टविधयथक आयुरपि यन्नन् पट्टिपयथको मो हायुर्वंधात्रावे सच सूत्सस्मराय उक्थ-सत्तविहवथगाहंति पाणिणोआयुवज्जभाणतु । सर्सुहुमसपराया क्विदृश्ययाविलिहिटा ॥ मोहा उयवज्जणं पयडोणतेउयपगान्नापिया इति , एकविधयथकस्तु न लप्यते एकविधयथकारि सपयान्तकपायादय स्नायाचोक्त-उयसत रीणो मो हा कंउलिणोएगविश्यथा । सेपुणुदुवमयठिइयस वधगा नउणसपरायस्व ॥ १ ॥ नचोपञ्जात्ककपायादयो ज्ञानावरणीय कर्मयप्रान्त उदूधस्व

म्मपगणीउ वधइ ? गोयमा ! सत्तविहवथए वा लुठविहवथए वा णेरडएणं ज्ञते ! ना णावरणिज्ज कम्म वधमाणे कडकम्मपगणीउ वधइ ? गोयमा ! सत्तविहवथए वा लुठविहवथए वा एव जाव वेमाणिए नवर मणुंसे जहा जीवे । जीवाणं ज्ञते ! नाणावरणिज्जं कम्म वधमाणा कडकम्मपगणीउ

नदत्त । ज्ञानावरणीय कर्म यधनस्कति कर्मप्रकठीवेदयते ? गीतम । सप्तविधयथकोयाष्टविधयथकोया । एवं यावद्वैभानिको नवर मनुयो यया जीव । जीवा नदत्त । ज्ञानावरणीय कर्म यधनन्त कति कर्मप्रकठी यन्मन्ति ? गीतम । सर्वेपि तावद्भवेयु सप्तविधयन्यकाद्याष्टवि

यरणिज्ज कम्म वधमाणे । जीवने हेमगवन् एक टण्डकायी ज्ञानावरणी वाधतेवके । कडकम्म वधमाणे काःकम्म पयडोपो वधति । कतनो कर्मप्रकृति वाधे । गोयमा सत्तविह वधवा एव जाव वेमाणिए नवर मणुंसे जहा जीवे । हेमोतम सातविध याठविध वाधे इम वैमानिक यावत् कइवी परे एविगेप मनुयने आसावे जीवयद्धना आजात्रानोपरे कइयो । जीवाण भते णाणावरणिज्ज कम्म वधमाणा कडकम्मपयडोपो यधति ।

प्रतिनागी व्यपदिश्यते इति उरुष्टस्थितिकार्युवधिन्नाथा नैरथिकतियंगोनिकलीदिवदेवी ॥ प्रतिपेच स्वासा मुरुष्टस्थितिषु नारकादिपूतस्य प्राधात् ॥ मनुष्यसूत्रे सन्निदिष्टोमिच्छादिहीवा इति ॥ इह हे उरुष्ट आयुषी तद्यथा सप्तमनरकपृथिव्यायु वंप्राति तदा मिथ्यादृष्टि यदा पुनरनुत्तरसुरायु स्वादा सम्यग्दृष्टि ॥ फलहेसवा ॥ नारकायुषक ॥ सुकलसायाइति ॥ अनुत्तरसुरायुषक सम्यग्दृष्टिरममत्तयास उरुष्टपरिणा

सुप्तोवउत्तो सम्मदिठी वा मिच्छदिठी वा कणहलेने वा सुकलेसे वा नाणी वा अन्नाणी वा उक्तीसेण सकलिठपरिणामे वा अस्सकलिठपरिणामे वा एरिसएण गोयमा ! मणूसे उक्तीसकालिठिइय अ्याउय कम्म वधति । केरिसियाण जत्ते । मणूस्सीउ उक्तीसकालिठितिय अ्याउय कम्म वधति ? गोयमा । कम्म नूमिण वा कम्मनूमिपलिनागी वा जात्र सुप्तोवउत्ता सम्मदिठी सुकलेसा तप्याउगविसुज्जमाणपरिणामा

णामो वाऽवक्लिष्टपरिणामो वा एव गौतम । मनुष्य उरुष्टकालस्थितिकमायु कमे यस्नाति । कीदृशी जदत्त । मानुषो उरुष्टकालस्थितिक मायु कस यप्नाति ? गौतम । कसन्नूमिगोषा कमेजूमिगप्रतिजागावा यावत् श्रुतोपयुक्ता वा सम्यग्दृष्टि श्रुतरयया तराप्रयोग्यविशुष्यमानपरो षय कस्य वधति । हेगौतम मनस्य उरुष्टकालस्थिति आयुकमने बाधे । केरिसियाण भत मणुक्को उक्तीसकालिठिय आस्य कथा यरति । केहवा हेभ गवन् मनस्यो उरुष्टकालस्थित आयुकमे बाधे । गोयमा कस्यभूमपवा कस्यभूमपलिभागपवा जाव युक्तो वसत्ते मयादिष्टोया मिच्छदिष्टोवा कपहले सेवा सकलेसेवा पाथीवा अशाथीवा उक्तीस सकलिष्टपरिणामेवा तप्यायोगविसुज्जमाणपरिणामेवा परिमिणस्य । हेगौतम कसमभूमिना कमेभूमिना स रीखा जालने सता सम्यग्दृष्टो मिथ्यादृष्टो कण्णनेयावत्त अथवा युक्तनेया प्राप्नो यथवा अत्रागे उरुष्टसक्तिष्टपरिणामे तप्यायोगादि विगुहप रिणामे षड्ढो । गोयमा मणुक्को आस्य कस्य वधति अतरास्य जहा थाणावरणिज । हेगौतम मनुष्यथोनी आयुक्कमे बाधे अन्तरायकमे जिम प्राण वरणी कथा तिम जाणितो ; पण्यथाए कस्य ठिःपय सम्मत ॥ इति प्रप्रापना भगवतीमाह कमेस्थिति २३ नोपट समसत थयो इवे २४ पट कमेव

नेरयिकस्तू-सागारइति ॥ साकारोपयुक्त ॥ आश्रत् नारकाणांमपि कियानपि निद्रानुप्रवोस्ति तत उक्तं जायदिति ॥ सुतो
 वततेइति ॥ श्रुतोपयुक्त सात्रिलापदानोपयुक्त इतिज्ञावः । तियक्योनिकस्तू-कर्मजूमिगपलिजागोष ॥ कर्मजूमिगा-कर्मजूमिजाता स्वेया प्रति
 ज्ञाय सादृश्य तदसास्तीति कर्मजूमिगप्रतिज्ञायः । कर्मजूमिगसदृश इत्यर्थः । कोवावांतचे दुष्यते, या कर्मजूमिजा तियंग् खोगर्मिणी सती केना
 प्यपहत्या कर्मजूमो मुक्ता तस्या जातः कर्मजूमिग सदृशः श्रान्तु व्यापन्नते कर्मजूमिगएव यदा केनाप्यकर्मभूमौ नीतो प्रवति तदा स कर्मजूमिग

सकालठिइयं च्याउय कम्म वधति ? गोयमा ! कम्मजूमिगपलिजागी वा सन्तोपिचिं
 ए सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तए सागारे जागरे सुतोवउत्ते मिच्छदिठी परमकएहलेस्से उक्कोससकिलिठ
 परिणामे एरिसएण गोयमा ! तिरिकजोणिए उक्कोसकालठितिय च्याउय कम्म वधति । केरिसएण ज्ञते !
 णत्ते उक्कोसकालठितियं च्याउयकम्म वधति ? गायमा ! कम्मजूमिए वा कम्मजूमिगपलिजागी वा जाव

वेत्त उदकएकालस्थितिक श्रापु कर्म वधनाति । कोदुशो जदन्न । मनुष्य उदकएकालस्थितिकमायु कर्म वधनाति ? गौतम ! कर्मजूमिगो वा
 कर्मजूमिगप्रतिजागी वा यावत् श्रुतोपयुक्तः सम्यग्दृष्टिर्वा मिथ्यादृष्टिर्वा कल्पनेत्यो वा श्रुतेश्यो वा श्रान्ती वा उच्चान्तीवोदकएकएकपरि

तोपयुक्त मिथ्यात्वो परमकल्पनेत्याना धरो उदकएक सकलठपरिणाम एइने । गोयमा तिरिक्खलोपिण उक्कोसकालठिइय साउय कम्म वधति । इं गौतम
 तियंस्योनिया उदकएक कालस्थितिने आयुष्कर्म वाधे । केरिसिण भते मणकोस्येबालांठं यं साउय कम्म वधति । केइथा हेमगयन् मनुष्य उदकएकका
 मस्थिति आयने वाधे । गोयमा कम्मभूमएवा कम्मभूमिपलिजागीवा जाउ सत्तोवमत्ते सक्काटिठोवा मिच्छाटिठोवा कएहलेसेवा पाणोवा उक्कोस मकि
 निद्वपरिणामेवा तपश्रोण विमुक्कमापपरिणामेवा एमण । इंगौतम कर्मभूमिना सरोखा जालगी मत्ता एइवा सम्यग्दृष्टिं यथवा मिथ्यादृष्टिं कल्पनेत्याव
 त्त वधवा श्रुतेश्येवावत्त श्रान्तो तथा चप्रानो उदकएक सकलठपरिणामे प्रयोगनो विशुद्धमान प्रमाणकरो एइने । गोयमा मणुष्ये उक्कोसकालठिइय या

यादृश तिर्यङ् शरीराण जायस्योने बहुमाणो आश्रयवशगतो न कल्पन् सरालिपाड मिस्रोवा एति ॥ श्रीदारिकलायभोगय विन्निष्टो प्रयति शरीरे
 द्विपयोप्यापयासस्य न कवल शरीरपयोप्या पयोसस्य तत मत्सिद्ध शरीरपयोप्या इद्विपयोप्या न पर्यासस्य मरण नान्यथेति सर्वजय
 त्यामापि स्थिति निवर्तयति शरीरेन्द्रियपयोसिनिर्वृत्तनसमया न ततोपि हीनतरामिति ॥ अथ गीयनेत्याद्युपसर्पदास्य तदेवमुक्तो ॥
 पयस्थितिवशक सम्प्रत्युत्कृष्टस्थितिवशक एष्यति-उक्तोच्येण काराचिदप्य जते । नाशावरणिजा कल्प कि नेरइयाउ वधरत्यादि ॥ सुगम

सीचि । देवोदेवी जहा णेरडए एव च्याउयवज्जाण सत्तरह कस्माण । उक्तोसकालिठिडयण जते । च्याउयक्कम्म
 कि णेरडउ वधति ? गोयमा । नो णेरडउ वधति तिरिस्कजोणिउ वधति नो तिरिस्कजोणिणी वधति
 मणुस्सोवि वधति मणुस्सीचि वधति नो देवी वधति । केरिसएणं जते ! तिरिस्कजोणिए

कीदृशो जदल । तिर्यग्योनिक सरकृष्कालस्थितिकमायु कन यन्नाति ? गीतम । कर्मभूमिगो वा कर्मभूमिगतजानी वा सञ्जिपल्ल्विन्द्र
 य सर्गानि पर्याप्तानि पयासक साकारो जायत् श्रुतोपयुक्तो मिय्यादृष्टि परमद्गुल्लथप सरकृष्कालिठिपरिणाम यप गीतम । तिर्यग्यो
 नारकोनोपर कइथा इम आयुकम वकीनि सातर कमनो विाध जाणवो । उक्तोसकालिठिदएप भते पाठय कथ कि णेरडए वधति काव देवो यध इ
 द्विरे सरकृष्काल स्थितिना इभगवन आयुक्कर्मप्रते स्सू नाको वाधे यावत् देवो वाधे ए प्र० । गायमा णेरडए वधइ तिरिस्कजोणिपो वधति नो तिरि
 स्वजोविषोवधइ मणुस्सीचि व० नोदेवा व० नोदेवो व० । इगीतम नारकोनो वाधे तिर्यग्योनि वाधे पिप तिर्यग्यो नवाधे मनुय पिप वाधे मनुय
 थो पिपव धे पिप देवता नवाधे पिप दनी नवाधे । केरिसएण भते तिरिसवजीणिण उक्तोसकालिठिय पाठयकथ वधइ । केरवो तिर्यग्ये प्रकृष्ट
 कालस्थिति आयुक्कर्म वाधे । गोयमा कथमिपलिभगिना सयोपाचटय सधेहि पल्लसेहि पल्लसोण सागरे जागरे मुत्तोपवत्ते भिरकृदि
 द्वी परमाधिपवत्तसे उक्तोचं किलिउ परिणायं परिशिएण । इगीतम कर्मभूमिना कसथूमिना सरोखा सयोपचेन्द्रिय सर्व पर्याप्ते पर्याप्तासाकार लागता श्रु

अर्थात् आगारिसेरि इति ॥ महेनवा कर्षणायु निर्वर्तयति सर्वजर्षन्यं यत आह-सर्वजल-स्त्रियमिति ॥ सर्वजर्षन्यं सर्वलक्ष्यी स्थितिर्नां तगम्यसं निर्वर्तयति वभ्रतीति ज्ञावः, किञ्चिद्विशेषादित्याह-पर्याप्तपर्याप्तिको ता शरीरेन्द्रियपर्याप्तनिवच्यनोच्चासपर्याप्तस्य निर्वर्तनसमया कथमेतदवसेय तसर्वज्ञपत्यामपि स्थिति निर्वर्तनसमया न ततो हीनतरामिति चत् उच्यत-युक्तिवशा तथाहि-इह सर्वेव देहिन्, परब्रवायु वंघ्या चियते नान्यथा परब्रवायुयश्च यप श्रीदारिकवैक्रियाहारकेवा योग वर्तमानस्य न कामणे श्रीदारिकादिमिश्रेवा तथाबाहू मूलटीकाकार-जणोरालि

णेरुहए उक्षीसकालठितीय नाणावरणिज्ज कम्म बधति । केरिसएणं नंते ! तिरिखजोणिए उक्षीसकाल ठितीयाण नाणावरणिज्ज कम्म बधति ? गोयमा ! कम्मन्नूमिण वा कम्मन्नूमिणपलिजागी वा सन्नीपचिं दिए सखाहि पज्जतीहि पज्जत्तए संस तचेत्र जहा णेरुइयस्स । एव तिरिखजोणिणीवि । मणूसंवि मणू

कर्म वभ्रति । कीदृशी प्रदत्त ! तिर्यग्योनिकं उरुहकालस्थितिकं ज्ञानावरणोय कम्म वभ्रति ? गीतम ! कर्मन्नूमिणो वा कर्ममूमिणमिति ज्ञानी वा सञ्जिपच्चन्द्रिण, सर्वांनि पर्याप्तोन्न पयांस ज्ञेय तत्रेव यथा नैरयिकस्य । एव तिर्यग्योनिक्यपि । मनुय्योपि । मनुय्यपि । देवो देवो च यथा नैरयिक । एवमायुर्वर्जानां सप्ताना कम्मणा । उरुहकालस्थितिकं प्रदत्त ! आयु, कर्म किं नैरयिको वभ्रति ? गीत म । नो नैरयिको वभ्रति तिर्यग्योनिको वभ्रति मनुय्योपि मनुय्यपि वध्नाति नो देवो देवो च वध्नाति ।

ठिःय आणावरणियस्य कम्म वधति । कइवा हेमगणन् तिर्यञ्चयानिया उरुहठ कालस्थिति ज्ञानावरणोयकर्म वधे । गोयमा कम्ममिणएवा कम्ममिणपलि भाणएवा । हेगीतम कर्ममिणना कपणा यथवा कर्ममामना कम्मणाने प्रतिभाभी । सखीपचिटिण सखाहि पज्जतोहि सेसतचव जहा णेरुइयस एव तिरिखजापिकोवि मणूसोवि देव देवोवि जहा णेरुइए एव आरुववज्जाण सखश्च कम्मणा भाणि० । सखीया पचेन्द्रिय एवं पर्याप्ता एववा याकतो पाठ एवं तिसहोत्र नारकांगीपरं नापिबो इम तिर्यग्योनो स्त्री वल्लभतर पिण मनुय्यने पिण मनुय्यो विण देवना दानानावत्तथता एवं



मकालावसरे एकाकर्मप्रमाणा इष्ट वरमसमर्थ कालग्रहणेन परमनिष्ठ समय परिगृह्यते, किंतु यत्कीसकृपा-काल तेन हीनेन कालेनापुर्थय
स्या सनघात्, यत. उक्त प्राक् व्युत्कालपदे-बीबाण भते । ठिइनामनिहिताउय कइएि आगरिसेरि पकरइ २ गोतमा । जटनेण उक्कोसेण

धति तिरिक्जोणिउ बधति तिरिक्जोणिणी बधति मणुस्सो बधति देवो बधति देवो बधति देवी
बधति ? गोयमा ! नेरइजेवि बधति जाव देवीवि बधति । केरिसण भते ! नेरइए उक्कोसकालिठिइय
नाणावरणिज्ज कम्म बधति ? गोयमा ! सब्बीपचिदिए सव्वाहि पज्जतीहि पज्जत्ते सागरे जागरे सुत्तो
वउत्ते मिच्छादिठी कएहलेसे उक्कोससकिलिठपरिणामे इंसिमज्जिमपरिणामे वा एरिसणं ? गोयमा !

यप्रति मनुष्यो मानुषी वा बधति देवो देवो वा बधति ? गोतम । नेरयिकोपि यप्रति यावदेव्यापि यप्रति । कीदृशा नदन्त ।
नेरयिक उरकष्टकालस्थितिक ज्ञानावरणीय कर्म यप्रति ? गातम । सल्लुपप्पसन्धिय सर्वानि पर्याप्तानि पर्याप्तः साकारो जाग्रत् द्युतो
पयुक्तो मियादृष्टि कृप्रलेश्य उरकष्टसक्तिपरिणाम इयन्मथमपरिणामो वा इंदुद्वो गोतम । नेरयिक उरकष्टकालस्थितिक ज्ञानावरणीय

पुष्ठा बधति मणुको बधद देशे बंधति दवीवधद । तिर्यंशो बाधे किम मनुष्यो बाधे किम देवत। बाधे किम दवी बाधे । गोयमा
चेरइजोवि बधति । हेगौतम नारको पिणवावे यावत् दवो पिणबाधे । केरिसण भते चेरइए उक्कोसकालिठि"य थाणावरणिल्ल कम्म बधति । कइवो हे
भगवन् नारको उरकष्ट कालस्थिति ज्ञानावरणीकर्म बाधे । गोयमा सब्बीपचिदिए सव्वाधि पप्पत्तीहिपक्कत्ते सागरे जागरे सुत्तोवधत्ते मिएहादिठो
कएहलेसीए उ० सकलिठपरिणामे इंसमज्जिमपरिणामे वाएरिसणए । हेगौतम सबो पचेदो सबलो पर्याप्ता थाकारोपयुल जानयुक्त निद्रावत्त यप्रा
नो ते निद्रावत्त न कडोले मियादृष्टो कृण्लेगो उरकट्ट सल्लिठपरिणामे विगरेक मध्यमपरिणामेकेरो सइत उइवा । गोयमा चेरइए उक्कोसकाल
हिं, व थाणावरणिल्ल कम्म बधति । हेगौतम नारको उरकट्ट कालस्थिति ज्ञानावरणीयकर्मप्रते बाधे । केरिसिणए भते तिरिक्जोविए उक्कोसकाल

नश्यसोयक्लमावधुरेवा । सीधक्लमनिरुधक्लम प्रेक्षेत्राण्डिसमासेण ॥ १ ॥ तत्र देवा नैरयिका एषस्येयवर्षायुष स्तियंमनुष्या य परमासावशोया
युष पारजत्रविकार्युर्वन्धका ये पुन स्तियंमनुष्या शर्येवर्षायुषोपि निरुधक्लमायुष स्ते नियमात् त्रिजागावशोपायुष परजवायु यध्नन्ति, येतु सोप
क्लमायुष स्तस्य तन्त्रिजागावशोप खिजागावशोपायुषो याव दचक्षेप्याद्वा प्रविष्टा इति । तत आह-जेषजीवेत्यादि ॥ यो श्रमिति वाक्यालकारे
जीवो ऽवक्षेप्याद्वाप्रविष्ट विजागादिना प्रकारेण या खेषेसु न शक्यते सा ऽवक्षेप्या ता प्रविष्ट असक्षेप्याद्वाप्रवि
ष्ट ततश्च आह-क्षे तस्या खेषेप्याद्वाप्रविष्टस्य जीवस्यायु सर्वनिरुध उपकमरेतुत्रि रत्रिसक्षिमीकृत आयुर्वधनिर्वत्तनमात्रएव काल स्तस्यास्ति न प
रती जीवनकाल इतिजाव , एव तदेव स्पष्टतरमाह-सेससम्बन्धतीए आयुष्यघटाए ॥ इह संजमहती आयुर्वघटा आशान्दपमाना तस्य शोप
यकाकर्षमाण साधन्मात्र सर्वनिरुध तस्यायुर्वर्तते इति जाव , ततो ऽवक्षेप्याद्वाप्रविष्ट स इत्यत्र त स्तस्या आयुर्वघटाया श्रमकालसमये च

आए चरिमकालसमयसि सधुजहन्विय अ्यपज्ज्ञत्तापज्ज्ञत्तिय निधुत्तंइ एसण ? गीयमा ! आउयकम्मस्स
जहन्वठितीबधए तवइरिंत्ते अ्यजहने ! उक्कोसठितीयाउएण मत्ते ! नाणावरणिज्जं कम्म किं नेरइउत्त

आयुषि शोये सर्वमहत्या आयुर्वन्धाद्याश्रमकालसमये सर्वजघन्या अर्ष्यांतापर्याप्तिकी निवृत्तपति एष गौतम । आयु कर्मणो जघन्यस्य
तिवन्धक स्तद्धातिरिक्तोऽत्रपण्य । वररुष्टस्थितिक प्रदन्त । ज्ञानावरणीय कर्म किं नैरयिको यध्नति तियंमनिका यध्नति तियंमनिकी

पक्वतो पक्वसिय निवृत्तसि एसक । हेगौतम जेजोव परस्थात प्रविष्ट सर्वं निरुध ते आयुष गेप सर्वं मोटोस्थितिना आयुवावे ते आयुयाना वग्धने
ष्ये केदलोकावने समये सर्वं जघन्यस्थिति प्रति अर्ष्यांता पर्याप्ता निवृत्तं षडने । गोवमा अत्रममल्ल जहन्वठिरेवण तर्श्ववस्ति अलइणे षकोस
कालठिरे । हेगौतम ८ कर्मनी जघन्य स्थितिवध कही तेइथी विपरीत अचघन्यस्थिति कही वरकट कानस्थिति इवे । अइस भते षाणावरणिज्ज क
म किं षेरइए बधति तिरिखिज्जापिभो बधति । अथ हेमगवन् ज्ञानावरणीकर्म स्यु नारको बाधे के तियंमनियया बाधे । तिरिखिज्जापिभो बधति म

• इव ।
• य० ।
• साया ।

उत्तमदूतार्थिपरिमाय उक्तं स कस्मिन् स्वामिनि लभ्यते इति जिज्ञासुः पृच्छति-नागावरणिज्जस्सणं ज्ञते । कम्मसस जहन्वठिईवधए के इत्यादि ॥ सुगम नहरमन्तरसूत्तसम्पराय इति यदुत्तमस्य व्याख्यानं कृपक उपशमको वा सूत्तसम्पराय इह ज्ञानावरणस्य वध दपकस्य उपशमकस्य

नागावरणिज्जस्सणं ज्ञते ! कम्मसस जहन्वठितिवधए के ? गोयमा ! अन्तरं सुत्तसम्पराए उवत्तामए वा खवगए वा एसणं गोयमा ! नागावरणिज्जस्स कम्मसस जहन्वठितिवधए तद्धइरित्ते अजहन्ते एव एतेण अन्निअवेणं मोहाउवयज्जाणं सेसकम्भाणं ज्ञाणियच्च । मोहिणिज्जस्सणं ज्ञते ! कम्मसस जहन्वठिति

ज्ञानावरणीयस्य जदन्त ! कर्मणो जघन्यस्थितिवन्धकं ज्ञ ? गौतम । अन्तरं सूत्तसम्पराय उपशमकोवा इपकोवा एय गौतम । ज्ञानावरणीयस्य कर्मणो जघन्यस्थितिवन्धकत्वात्तिरिक्तोऽजघन्य एवमतनानिलापन मोहायुर्वर्जाना बोधकमणा ज्ञणितव्य । मोहनीयस्यं जदन्त ।

यथा । गन्धनीवपै जघय अन्तःसारोपम कोडाकोडो इरे इत्कृष्ट जेइनी बोधमून् वक्तव्यताकडो तेइज सर्ववन्धनेविवै स्थिति ज्ञाणवी । एवर इमाण एतत्त प्रवाहा अदाह्णियया न बुधति एव आयुपुत्तोए सन्धि जाव अन्तरादवच्छ तव्य भा० । परं एविशेष प्रवावा काळनोपट न कडिवा इम अन्तु क्रम सर्वं यावत् अन्तरायकर्मवनी प्रज्ञोत्तरकरो कडवी । पाणावरणिलक्षणं भते कम्मसस जहन्वठिई किं वधति । ज्ञानावरणीकर्मनी हेभगवन् जघन्य स्थिति किंतरी वाधै । गायमा अन्तरं सुत्तसम्पराय उवत्तामएवा एसण । हेगौतम अन्तेरा सूत्तसम्पराय उवत्तामएवा एइने । गोयमा पाणावरणिज्जस्स कम्मसस जहन्वठिई वधति । हेगौतम ज्ञानावरणीकर्मनी जघयस्थिति वाधै । तन्निवरीणं जहन्वठेण एव एएण यमिअवेणं मोहाउवयज्जाणं भाणि० । तेइथी विपरीत ठामे अलयन्यस्थिति वधाय इम इणे आनिवेकरी ते मोहनो अने आयुकर्मं वज्जिने सर्वं कडिवा । मोहिणिलक्षणस्य भते कम्मसस ठिई व धणने । मोहनीयकर्मनी हेभगवन् जघन्यस्थितिनी प्र० । गोयमा अन्तरं वागसम्परांए उवत्तामएवा खवएवा एअण । हेगौतम अन्तरवाटर सम्य राय उवत्तामकपायना धणो एइने । गोयमा मोहिणिलक्षणं कम्मसस जहन्वठिई वधेण तन्निवरीणं अजहन्ते । हेगौतम मोहनीयकर्मनो जघन्यस्थिति

हिया ठिई नणिजा त बंधति । श्योहारंगसरीरस्स तित्यगरनामाए ये जहन्नेणं श्यतोसागरोफोफाकोलीउ
उक्कोसेणत्रि श्यतोसागरोवमकोफाकोलीए वधति । पुरिसवेदस्स जहण श्यठसंवच्छराडं उक्कोसेण दस
सागरोवमकोफाकोलीउ दसवाससयाइ श्यवाहा । जसोकित्तिनामाए उच्चोगोयस्स एवचेव नवर जहन्नेण
श्यठमुज्जता, श्यतराडयस्स जहा नाणावरणिज्जस्स, संचएसु सहेसु ठाणसु सघयणसु सठाणसु यत्तेसु
गधेसु य जहन्त श्यतोसागरोवमकोफाकोलीउ उक्कोस जा जस्स उहिया ठिई नणिजा त वधति । नवर
इम नाणत्त श्यवाहा२ ऊणिता न बुच्चति । एव श्यणुपुष्पीए सहेसि जाव श्यतराडयस्स ताव न्नाणियहं ।

अप्रति । आहारकक्षरीरस्य तीर्षकरनाच्चथ जघयमन्त सागरोपमकोटीकोत्य वरकपंणाय्वन्त सागरोपमकोटाकोत्यो वप्रन्ति । पुत्तपवेदस्य
जघन्यमष्टी दत्तराग्युरकपंतो दत्त सागरोपमकोटाकोत्यो दत्तजपंणान्ययाथा । यत्र कीर्तिनाश्रोत्रैर्गोत्रस्यैवथैव नवर जघन्येनाष्टी सुसू
ता । अन्तरायस्य यथा ज्ञानावरणीयस्य श्रोत्रेषु स्थानेषु सङ्गनेषु गन्धेषु च जघन्यमन्त सागरोपमकोटाकोत्य वरकपंतो या
यस्योपिका स्थितिर्ज्ञेयता वा यमन्ति नवरमिदं नानात्वं अवाधात्रवाचीना च नोच्यत । आनुपूर्व्यां सर्वाया यावदन्तरायस्य तावद्गणितस्य

अने विधे कडिबी । आहारगसरीरणा तित्यवरनामाए अट्ट० यतो सागरोवम कोडाकोलोसो ८० दससागरोवम काडाकोलोसो दसवाससया२ अ
वाहा । आहारशरीरने तीर्थहरनामकर्मने नघन्य यत्तसागरोपम कोडाकोली वरकट्ट १० सागरोपम कोडाकोलो १० सव वेपंतो यवाधा । जसोकि
त्तिनामाए असागोयस्य एवचेव नवर २ प्रइमइसा अतराडयथा अहा आणावरणिज्जस्य सेसेसु सखेस ठाणेस सघयणसु सठाणसु वखेस । चगको
त्तिनामने अचगोवनेविधे दमधीज पर णविगए अवन्य द मुहत्तंभी स्थित कडवी यत्तरायनी प्र० ज्जिम ज्ञानावरणीको परे कडिबी येप टिकाणे सव
तेहो सघयणनेविधे सस्थाननेविधे वपंनेविधे । गधेसुय एट्ट० यतो सागरोवम कोडाकोलीसो ८० जापस्य पोहियादिं मणिया तथेव वधति भापि

दृष्टे सर्वसंक्रियस्य नवर त्रियंमनुष्यदेवायुषा स्वस्य २ वचके ऽतिशुद्धयेति । इष्टे सद्यिपर्वेद्वियसूत्रे-ज्ञानोर्वरणीयादिकर्मणा जघन्यस्थितिवधो

य च । असातावेदगिज्जास्स जहा निहापचगसरा समत्तवेदगिज्जास्स सम्मामिच्छत्तवेदगिज्जास्स य जा उ
हियाठिडे न्निगिया त वयति । मिच्छत्तवेदगिज्जास्स जहन्ने अर्थोसागरोवमकोठाकोठीए उक्थो० सत्तरि
सागरोवमकोठाकोठीउ सत्तयवाससहस्साइ अवाहा । कसायवारसगस्स जहणे एवचंय उक्थोस चत्तालीस
सागरोवमकोठाकोठीउ चत्तालीसयथाससयाइ अवाहा । कोहमाणमायालोत्तसजलणाए य दो मासा मासो
अच्छमासो अर्थोमुज्जतो एय जहन्ताग उक्थोसग पुण जहा कसायवारसगस्स यउरहवि अ्याउयाण जा उ

प्रथिता ता यप्रान्ति । मिथ्यात्ववेदनीयस्य जघन्यमत्त सागरोपमकोठाकांठ्य उत्कपत्त सप्ततिसागरोपमकोठाकोठी अत्वारिजद्वयगतान्या
था । कपायद्वादशाकस्य जप्यमेवं चैवोत्कपंत यत्वारिशासागरोपमकोठाकोठ्य अत्वारिजद्वयशताम्यवाथा । क्रोधमानमायालोत्तसजलनाया
थ द्वी मासी मासोद्वेमासोऽन्तमुहुत्तं च यत्तज्जघन्यमुत्कपंत पुनर्यया कपायद्वादशकस्य । यत्तुर्गोमप्यायुया या श्रीपिका स्थिति तंरिगता ता

म्यज्ञवेदनीयने मय्यज्जमिथ्यात्ववेदनीयने मय्यज्ञाना प्र० श्रीवसुवनापरे सर्वं कहिवा । मिच्छत्तवेदगिज्जास्स जह० अर्नो सागरोवमकोठाकोठीप्रो उ० स
परिसागरोवमकोठाकोठीप्रो सत्तवाससयार अवाधान । मिथ्यात्ववेदनीतो प्रश्न जवग्द अत्त सागरापम कोडाकोडो उत्कृष्ट ७० सागरोपम कोडा
काढो सातइत्तारवर्पनी अवाधा । कसायवारसगस्स जइसण एवचंय उ० चत्तानोस सागरोवमकोठाकोठीप्रो चत्तालीसवाससयार अवाहा । कपा
यगसन प्रश्न । जमहीज उत्कृष्ट ४० सागरोपम कोडाकाडो ४० वर्षनी अवाधा । कोठ माण माथा लोइसजलणाय दोनासो एगमासो अठमासो
अतीमुहुत्तो एव जइसण भा० । क्रोध मान माया लोभ सत्त्वन्न तेहने दोयमास एकमास अठमास अन्तमुहुत्तं इम जघन्य कइवी । उ० पण जइ
कसायवारसगस्स उत्कृष्टाव चाइया ठिइ म० तदेव वधति मणियवा उत्कृष्ट वधो निज बारइ कपायने चार ग्राकखानेतिपे स्थितिकही तिन व

या सञ्चिपन्वेद्रियवन्त्यकसूत्रं ज्ञानावरणीयादिकर्मणा जपन्त्यत स्थितिवधो ऽन्तर्मुद्गर्त्सादिपरिसाधं रूपकस्य स्यात् यन्मन्त्रमसमये प्रतिपत्तय्य
निद्रापन्वकासातवेदनीयान्य्यात्यक्षयाद्वादकार्दना तु स्रष्टादर्वाक्श्च इति तथा जपन्त्यतोव्यक्त सागरोपमकोटी २ प्रमाणोक्तयो र्मय्या

गोयमा ! जहस्य अतीमुज्जत उक्तीवेष तीस सागरोवमकोठाकोठीतु तिनित्य वाससहस्राड अत्राहा ।
सन्तीण नते ! पचिदिया निद्रापचगसस कि वधति ? गो० ! जहस्य अतोसागरोवमकोठाकोठीए उक्ती०
तीस सागरोवमकोठाकोठीतु तिनित्य वाससहस्राइ अत्राहा । दंसणचउक्तास्स जहा नागावरणिज्जस्स
सातावेदणिज्जस्स जहा उंहिया ठिई जणिया तहेव जणियह्वा । इरियावहियवथय पजुच्च सपराडियवध

पंसहस्रात्यबाधा । दर्शनचतुक्तस्य यथा ज्ञानावरणीयस्य । सातवेदनीयस्य यथोचिज्ञा स्थिति कायिता तर्था ज्ञयितव्या । इंपापयिकव्यथक
प्रतीत्य साम्यरायिकव्यथकम्ब । असातवेदनीयस्य यथा निद्रापचगसस । सम्यक्तवेदनीयस्य यथा कोपिका स्थिति

ज्ञानावरणो बन्धने केतवो स्थितिबाधे । गोयमा जह० अतो सागरोवम कोठाकोठीयो ध० तीससागरोवम कोठाकोठीयो तिरुवयदाससहस्राइ
अवाहा । हेगीतम जवग्य अत सागरोपम कोठाकोठी जाबिवां वरकट २० सागरोवम कोठाकोठी तोनसदृश वयंनो अवाधा । सकोप भते पचि
दिया निद्रापचगस कि वधति । सत्री हेभगवन् पचेद्रे निद्रापचग बन्धने केतवोस्थिति बाधे । गोयमा जह० अतोमु० सागरोवम कोठाकोठीया
स० तीस सागरोवमकोठाकोठीयो तिरुवयदाससहस्राइ अवाहा । हेगीतम जवग्य अत सागरोपम कोठाकोठी २ हलारवयंनो अवाधा । देवचप
सकस जहा णापावरणिल्लस सायावेगिल्लस जहा अयोहियाठिं भविवा तएव भावियव्वा । दयंनचतुक्तनो मरन ज्ञानावरणीयोपरे जाबिवां साता
वेदनीयो प्र० विम अयोसूत्रे बह्यां तिम जाबिवा । इरियावहियववर्गे वटुच सपराडियवथग असायावेगिल्लस जहा निद्रापचगस सम्यक्तवेगिल्ल
स्य सम्यामिच्छतवेगिल्लस जायोहिया ठिंरं भविवा तचेर वधति मा० । इरियावहोना वन्यायो असातावेदनीने भिम निद्रापचगकोपरे अहिरो

। रो० । ४

। द० ।

। व० । ४

। ना० ।

सागरोपमाणा वसन्ति प्रागे त्रियमाणे यं सृज्यते तत्त्रिगुणीकृत्य पत्योपमासख्येपन्नागर्होत क्रियते । एव सर्वत्रापि यथायोग गणितवत्तावता कसे

एव नवर जहस्य सागरोवमसहस्रं एगं सत्तन्नाग पलिउवमस्स अ्सखे० उक्को० तंचेव पङ्क्तिपुसं । वेउ
द्वियसरीरनामाए पुच्छा, गीयमा ! जहण सागरोवमसहस्र दो सत्तन्नागे पलिउवमस्स अ्सखेज्जन्नागे
ज० उक्कोसे० दो पङ्क्तिपुस्ये सम्तत्तसम्मानिच्छत्तञ्चाहारसरीरनामाए तित्यवरनामाए च न किंचि वंधति
अ्वसेस जहा वेइदियाण नवर जस्स जत्तिया ज्ञागा तस्स ते सागरोवमसहस्रेण सह ज्ञाणियद्धा । सद्धेसि
अ्युणपुष्पीए जाव अ्यतराडयस्स । सन्तीण ज्ञते ! जीवा पचिदिया नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं वधति ?

यस्य यावद्भाग सास्य ते सागरोपमसहस्रेण सह ज्ञाणितव्या । सर्वेषामानुषूयार्ण यावदन्तरायस्य । सन्निनी प्रदन्त । जीवा पञ्चेन्द्रिया ध्या
नावरणीयस्य कर्मण किं वधन्ति ? गीतम । जघन्यमन्तर्मदूर्तं मृत्कर्मवर्षाश्चशरसागरोपमकोटीकोट्य स्त्रीणि वर्षसहस्राण्यथाया । सन्निनी
प्रदन्त । पञ्चेन्द्रिया त्तिद्रापन्वकस्य किं वधन्ति ? गीतम । जघन्यमन्त सागरोपमकोटीकोट्य शरकर्मण त्तिशरसागरोपमकोटीकोट्य स्त्रीणि च

माए पुच्छा । शकृष्ट तिमहीज परिपूणं वाधे वैक्रियरीरने प्र० । गीयमा जह० सागरोवमसहस्र दोसत्तन्नागा पलिपोवमस्य अ्सखि० उ० । इगीत
न जघन्य सागरोपमसहस्रना सातीया दीयभाग परयीपमने अ्सरयातेनाग लथा । उ० पलिपुस्य वधति मय्यत्त स्यामिच्छत्त आहारगसरीरनामाए
तित्यवरनामाए न किंचि वधति । शकृष्ट परिपूणं वाधे तिमहीज सय्यक्षनाम स्यामिच्छत्तनाम आहारकयोर तीयंरनाम एतलो प्रकृतिनी कि
वारं वग्धनी कधिबी । अस्सिद्ध जहा वेइदियाण पवर लस्य जग्गभागा तच्छ तत्तिया सागरोवमसहस्रेण सम मा० । याक्कतो सर्व वेदंन्द्रवनी परे
जाणिबी पर एविमेष जेइने जंतलाभाग तेइने तेतला सागरोपमसहस्रमाये कधिवा । सखेसिं आयुषुषीए जाव अतरारयसु । इम सर्व अनुकमे
आनुपूर्वीथो माही यावत् अन्तरायत्तगे जाणिबी । सखोण भते जीवा पचिदिया यापावरणिज्जस्य खयस्य किं वधति । सखी पचेदिय इमगवन् जो

सनीय सुगमत्वात् नवर सागरोवमपण्यवीसाण् तिकिसप्तभागा पलिउवमसस असखेज्जअजागेण जसया इति ॥ अत्रेय गणितज्ञावना पर्यायशक्ति

असखेज्जअजाग पुव्वेकोक्तिञ्चिजागमप्लीहिय वधति । एव तिरिख्खजोणियाउयस्सवि नवर जहस्य अत्तोमुज्जरो
एव मणुस्ताउयस्सवि । देवाउयस्स जहा नेरइयाउयस्स । असन्नीणं अत्तं ! जीवा पचिदिया निरयगति
नामाए कम्मस्स कि वधति ? गोयमा । जहस्य सागरोवमसहस्स दो सत्तन्नागे पलिउवमसस अस्सखेज्जअ
जागे० उक्की० तेचेय पफ्फिपुणे । एव तिरियगतिएवि मणुयगतिएवि एवचेत्त नवर जहसेण सागरोवम
सहस्स दिवहु सत्तन्नाग पलिउवमसस अस्सखेज्ज० ऊ० उक्की तचेत्त पफ्फिपुण वधति । एव देवगतिनामा

ख्येयप्रागोत्तमुत्कंपत्त स्तषेव प्रतिपूणे । वैकिपव्वररिमान पच्छा, गीतम । जघन्येन सागरोपमस्य द्वी सप्तनागी पत्न्योपमस्या सख्येयज्ञागे
ना पुत्कपतो द्वी प्रतिपूणी । सम्यकसम्पक्खिप्यात्वाहाएरकशरोरनामस्तीर्थरनाम च न किचिद्वधन्ति अवशेप यथा द्वीन्द्रियाणा । नवर

इत्थभग पुव्वकोट्टी विभागमभहियाए वधति । इत्कट्ट परपीपमनी असख्यातनोभाग पूर्वकोट्टी वर्धना तोजीयसा अधिक बाधे । एव तिरियजोणि
याउयस्सवि नवर जह० अत्तोम० अत्त मणयाउयस्सवि देवाउय जहा चेरइयाउवस्य । इम तिरियेयोनियाना आउखानो प्र० पिण जाणिवो पर पविशेप
जघन्य अत्तमुत्तमुत्कंपत्त द्वी इम मनुष्यायुपयो प्र० पिण जाणिवो इयायुपे प्र० नारकोपोपरे कट्टिवो । असण्णोण भते जोवा पाचदियचेरइयगतिनामा
प्र कम्मस कि वधए । असन्नी हेमगवन् जोव पचेद्विय नारकोगति नामकम्मं प्रति कितरी स्थिति बाधे । गोयमा जह० सागरोवम सहस्य दीसत्तभागा
पनिश्रीवमसस अस्सखेज्जअजागेण जसया ए० तचेव पाल्लपण वधति । हेगोतम जघन्य सागरोपमसहस्रना सात्तोया टोउभाय पत्न्योपमने असख्यात
मोभाग चणा इत्कट्ट तिमहुेल परिपूणं बाधे । एव देवगतिनामाएवि नवर जह० सागरोवमसस एव सत्तभाग पनिश्रीवम ज्ञाव उणया । इम देवग
तिनामनी प्र० पिण कट्टिवो पर ए त्रिशेप जघन्य सहस्रना सात्तोया एकभाग पथोपमने अयत्थातमेभाग जसया । तचेव पल्लिपुण वधति वेउचियन

वैद्विद्याणं जाय अत्रराडयस्स । अस्सन्तीणं त्रते ! जीवा पांचिदिया नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स किं बंधंति
 ? गोयमा ! जहन्त्वा सागरोवमसहस्स तिव्विय सत्तजागे पलित्तवमस्स अस्सखेज्जत्तजागेणं ऊणए उक्कोसे ०
 तच्चैव पक्कियुत्ते एवं सोच्चैव गमो जहा वैद्विद्याणं नवर सागरोवमसहस्सेण समं ज्ञाणियद्धो जस्स जइ
 ज्ञागत्ति । मिच्छत्तवैयणिज्जस्स जहन्त्वा सागरोवमसहस्सं पलित्तवमस्स अस्सखेज्जत्तजागेणं ऊणयं उक्को ०
 तच्चैव पक्कियुत्तं । नेरइयाउयस्स जहए दसवाससहस्साइ अंतोमुज्जत्तमप्पहियाइ उक्कोसेणं पलित्तवमस्स

विभ्रमगणिक वदन्ति । एव तिर्यग्योनिकायुयोपि नवर जघन्यमन्तमुहूर्तम् । एव मनुष्यायुयोपि । देवायुयो यथा नैरयिकायुप । अराज्जो
 वदन्त । जीवा पञ्चेन्द्रिया निरयगतिनात्र कर्मण किं वदन्ति ? गीतम् । जगन्त्य सागरोपप्रसहस्रस्य द्वी समजागी पत्योपमासल्ययजागी
 नी उरकर्मतस्ती चैव प्रतिपूर्णा । एव तिर्यग्यताकपि । मनुजगतावप्येव चैव नवर जघन्येन सागरोपमसहस्रस्य साइ सप्तभाग पत्योपमास

कहिवा । प्रसणोणं भते जीवा पाचादिया पाणावरणिल्लस्य कम्मस किं वदन्ति । असत्रा इभगवन् पचेन्द्रियजीवने ज्ञानावस्थोक्कमं किम वापि । गोयमा
 जइ ० सागरोवमसहस्स तिरिपि सत्तभाग पलिओवमस्य असखिल्लरभागेण जणया । इगोतम लवन्त्य सागरोपम सहस्रना सत्तोया तोनभाग पश्योप
 मने प्रसख्यातमेभाग जणो । ७० तथैव पडिपुस वदन्ति । उरकण्ट तिमहोल परिपुणं वाधे । एव सांचेव गमो जहा वैद्विद्याणं एव सागरोवम सह
 स्येण सम भा ० । इम सर्वं जान्तावे वैद्वयनीपरे प्रज्ञोत्तरेकरी कहिवी परे ए विशेष सागरोपम सहस्र सांचे जान्तावे कहिवी । कस्य जइ भांगा मिरुक्क
 त वेपणिल्ल जइ ० सागरोवमस्यस्य पलिओवमस्य असखिल्लरभागेण जणया । जइने जंतजाभाग तेहने तेतला सागर सांचे कहिवा मिथ्यात्ववेदनी
 तेदना प्र ० जघय सागरोपमसहस्रं पत्यापमनेपसंख्यातभाग जणया । ७० तच्चैव पडिपुस वदन्ति । उरकण्ट तिमहोल परिपुणं वाधे । नेरइयाउयस्य
 जइ ० दसवाससहस्रार अतोमुं मभदियारं । नारज्जेना पाकअनो प्र ० । जघन्य दसहस्रारुषं अत्तमुहूर्तं अधिक । ७० पलिओवमस्य असखि

सए स्तेण आइय कर्मप्रकृतिसपरिणकारं पण्यगीवापनासा समसहस्रसङ्गुणकारो । कससोविंगलअसलीणमिति ॥ तदेतदनुसारंए तुअ स्वय निग

नागा पलिउवमस्स अस्सखेज्जात्तागेण ऊणए उक्को० तेचेव परिपुण्ये वधति । एव जस्स जइत्तागो ते तस्स सागरोवमसत्तेण सह जाणियध्वां । तिरिस्सजीणियाउयस्स कम्मस्स जहस्य अत्तोमुज्जत्त उक्कोत्तेणं पुष्टकोली दोहि मासेहि अहिय । एव मणुस्साउयस्सवि सेस जहा वेइदियाणं नवर मिच्छत्तेवेदिणज्जास्सण जहन्त सागरोवमसय पलिउवमस्स अस्सखेज्जात्तागेणं ऊणयं उक्को० तेचेव परिपुत्त वधति सेस जहा

वन्थन्ति ? गीतम । जपन्त्य सागरोपमसहस्रं त्रय सप्तत्राणा पत्न्योपमस्यासत्येयत्रागोना उत्कर्षतस्त एव प्रतियूषां । यय स ययगमो यथा हीन्द्रियाणा नवर सागरोपमसहस्रेण त्रणितव्य यस्य यावन्ति प्रागानोति । मिथ्यात्ववेदीयस्य जपन्त्य सागरोपमसपत्न पत्न्योपमस्या सख्ये यभागोमनुदरुर्कर्मत स्तत्रैव प्रतियूषं । नैरपिकायुषो जपन्त्य दशवपसहस्राण्यन्तमुष्टुत्तौस्वपिकानि उत्कर्षत पत्न्योपमासत्यय त्राग पूर्वकोटी

कर्म किम वाधे । गीयसा जइ० सागरोवम सयसव तिण्णिसतभागे पलिउवमससव प्रसखिल्लभागेण अणए । देवीतम जवन्य सो सागरोपमना सा तोया इ भाग पत्न्योपमने असख्यातमेभाग कथा । उ० तचेव परिपुण्य वधति एव जइस सदभागा तस सागरोवमसएण सङ्ग भा० । उत्कृष्टे तिमहो जा परिपुणं वाधे इम जेइने जेतसाभाग तेइने तेतसाभाग सागरोपमसहित कथिवा । तिरिस्सज्जाणियाउय कथ्यस जइ० यतो० उ० पुब्बकोली दोहि मासेहि चहिय । तिरिस्सयीनिक आयुनो प्र० कपन्त्य पत्तुर्मुत्तं उत्कृष्ट पूर्वकासो दोवमास अधिक जाणिवो । एव मणुस्साउयसमसव सेस जहा वेइ दि या । इम मनुष्यायुने विधे पिय जाणिवो गेय सर्वे अधिकार वेदिशनी परं जाणिवो । एवर मिच्छत्तेवेयणिकस्य जइ० सागरोवमसय पलिउवमस्य प्रसखिल्लभागेण कथया । ए विगंथ मिथ्यात्ववेदानो प्र० जवन्य सो सागरोपम पयापमने असख्यातमेभाग कथ कथिवो । उ० तचेव परिपण्य वधति । उत्कृष्ट तिमहीण परिपुणं वाधे । सेस कथा वेइ दियाण जाव अतराइयस्य । गेय सर्वे प्रयोसर वेइदिशनीपरं जाणिवो यावत् अतरायलगे

जस जड जागा ते तस सागरीवमपत्तासाए सह जाणियद्या ! तेइदियाणं जते ! मिच्छतवैदणिजस
 कम्मस कि वधति ? गोयमा ! जहसं सागरीवमपत्तास पलिउवमत्तास अंसयेज्जडजागिणं जणय उक्को
 तचेव पळ्ळिपुणं वंधति । तिरिखजोणियाउयरस जहस अंतोमुजत्त उक्कोचणं पुण्णकोफि सोलसेहिं राइ
 दियत्तिजागिणय अहिहिय वधति । एव मणुस्साउयस्सवि सेस जहा वंइदित्राण जाव अतराइयस्त । चउ
 रिदियाण जते ! जीवा नाणावरणजसस कि वधति ? गोयमा ! जहसं सागरीवमसयस्स तिणिय सत्त

ज्ञानावरणीयस्य कि वधन्ति ? गीतम । अपन्य सागरीवमस्य त्रय गतज्ञागा पत्योपमायत्येवजागोना उरक्यंत स्तत्रैव प्रतिपूणं वधन्ति ।
 सव यस्य यावद्भागस्तस्य तावदप्रमाणसागरापमज्ञातन सर अणितथ्यम् । तिययोत्तिकायुपो जघन्यमन्तुर्त्तमुत्तमपंत पूर्वकोटि द्वान्या मा
 सन्या अचिक । सव मनुष्यायुपोपि । जेप यथा द्वीन्द्रियाणा नवर मिय्यात्येदेनोयस्य जघन्यं सागरीवमज्ञात पत्योपमस्यासत्यंयजागोनमु
 रक्यंतस्तत्रैव प्रतिपूणं वधन्ति जेप यथा द्वीन्द्रियाणा यावदन्तरायस्य । अखञ्जिनो जटन्त । जीवा पञ्चेन्द्रिया ज्ञानावरणीयस्य कर्मण किं

सह भा० । इम जहने जतलेभाग तेहने सागरीवम पचामासहित कडिवा । तेदियाण भते मिच्छतवउणित्थारस कथ कि वधति । तंन्द्रिय हेमगवन्
 मियात्तवेदनीकर्म किम वाधे । गोयमा जहसं पणाम सागरीवम पणियोवमस पसापुल्लाभागेण कथया । हेनोतन जवन् पचाससागरीवम स
 गीवाधे पत्थीपमने अनख्यातेमेभाग कथा । उ० तचेव पळ्ळिपुस वधद । उट्टुत्त तिमज्जेज परिपूणं वाधे । तिरिखजोणियाउयरस जह० अतो० उ०
 पञ्चनीहो सेलसेहि राइ दिय तिभागेणय अहिहिय वधति । तियेवसोनियांन आउये जघन्य यत्तमुत्तमं उट्टुकुट पूर्वकाहो सेत्तिराधि बलो र राधना
 वाजभाग अधिक्त वाधे । एवं मणुस्साउयरसवि सेस जहा वेइदियाण जाव अतराइयस्त । इम ननुयना आजसन्ति म० पिण जाणियो प्रेय सर्वने
 प्र० वेइद्विदनीपरे कडिवा यावत् प्रसरदावदनी । पवरिदियाण भते जीवा पापावरणिनास किं वधति । चौरिन्द्रिय हेमगवन् जीव ज्ञानावरणी

पल्लवाना त्रय सागरोपमस्य सप्तत्राणां पञ्चविंशत्या गृहिता यस्तुवत्या पञ्चविंशते सागरोपमार्थां त्रय-सप्तत्राणां पल्योपमास्येयत्रागर्हीना
 लघन्यस्त्वितिन्यपरिमाणं तस्य परिपूर्णं उत्कृष्टमित्यादि । श्रीद्रियबन्धिताया तदेव ज्ञानलब्धं पञ्चविंशता गुण्यते चतुरिन्द्रियबन्धिताया

पलिउत्रमस्स अ्यसखेज्जइत्तागेणं ऊणा सेस तचेव । जल्य एगिदिया न वधति तल्य एतेवि न वंधति ।
 वेइदियाणं जते ! जीवा मिच्छत्तवेठणिज्जस्स किं वधति ? गोयमा ! जहन्त्वा सागरोवमपणवीसं पलिउत्रं
 वमस्स अ्यसखेज्जइत्तागेण ऊणय उक्कोसेण तचेव पळिपुत्तं वंधति । त्तिरिक्खज्जीणियाउयस्स जहन्त्वं अ्यतो
 मुज्जत्त उक्को० पुट्टकोट्ठि चउहि वासेहि अ्यहियं वधति । एव मणुस्साउयस्सवि सेस जहा एगिदियाणं
 जाव अ्यतराइयस्स । तेइदियाणं जते ! नाणावरणिज्जस्स किं वधति ? गोयमा ! जहन्त्वं सागरोवमप
 न्नासाए त्तिन्ति सत्तत्राणां पलिउत्रमस्स अ्यसखेज्जइत्तागेणं ऊणया उक्को० तचेव पळिपुत्तं वधति । एव

यस्य यथार्थानि ज्ञानानि तस्य सागरोपमपवाशात् सः प्राणिवस्थानि । श्रीन्द्रिया प्रदत्त । निध्यास्ववेदनीयस्य कर्मण किं वध्नन्ति ? गीतन ।
 जपन्य सागरोपमपवाशात् पल्योपमास्येयत्रागो नमुस्कर्म्यतस्तस्मैव प्रतिपूर्णं वध्नन्ति । तियंग्योत्तिकायुपो जपन्यमन्तमुत्तं सुस्कर्म्यत-पूर्वकोटि
 योऽगन्नि रात्रिदिवत्रिजार्गीरधिकं वध्नन्ति । एव मनुष्यायुपोपि । शेषं यथा द्वीन्द्रियाणां यावदन्तरायस्य । चतुरिन्द्रिया प्रदत्त । जीवा

कोटौ २, वरुणं अधिकं वाधे । एव मनुष्यायश्च वि सेस जहा एगिदियाणं जाव अतराइयस्य । इमं मनुष्यं आकलाने पिण जाणिवो थाकता सर्वेने एके
 द्वियनीपरे कडिवो यावत अत्तरायकगे । तेइदियाणं भते जीवा आणावरणियस्य किं वधति । तेन्द्रियं हेमगवन् जीव ज्ञानावरणो कर्म किं वाधे ।
 गोयमा जह० सागरोवमं पणासाए निखिसत्तभागा पविशोवमस्य अस्सखिक्खइत्तागेण ऊणया । हेमोत्तमं जवन्त्यं सागरोपम ५० ना सातीया तीनभा
 गं पल्योपमने पसल्यात्तेभागा जणा । उ० तचेव पळिपुत्तं वधति । उत्कृष्टं तिमहोत्तं परिपूर्णं वाधे । एवं जस्य जइत्ताभागा तस्य सागरोवमं पणासाए

पूर्वमुप्यायुधिताया सुत्रोक्तं परिमाणमिति ; उक्तमेकद्वियथकाधि कृत्य जपन्यत उक्तपरिमाण ; सम्राति द्वीन्द्रियानघिठल्य
 तमभिचित्पुराह-येइदियाण नने । जीवा इत्यादि ॥ अत्रेय परित्रापा यस्य २ कर्मणो या २ स्थिति उत्कृष्टा प्रागजिह्विता तस्याभिव्यात्वस्य
 त्या समतिसागरोपमकोटी २ प्रमाण्या ज्ञाने हृते य ज्ञान्यते तस्यन्वविशत्या गुणिते गुणित च सत् याव इवति तावत्यल्योपमासंख्येयज्ञानीन
 द्वीन्द्रियाणा वयकाना जपन्यस्थितिपरिमाण तदेव परिपूर्णमुत्कृष्टस्थितिपरिमाण तद्यथा-ज्ञानावरणपचकदर्शनावरणवकासातवेदनीयातराय

दियाण नने ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वधति ? गो० ! जहन्त सागरोवमपणवीसाए तित्ति
 सत्तनागा पल्लिवमस्स अ्संखेज्ज० जणता उक्कोसंण तेचेव पळ्ळिपुत्ते वधति । एव निद्दापचगस्सत्ति ।
 एव जहा एगिंदियाणं नणिय तथा वेइदियाणचि न्नाणियह्व । नवर सागरोवमपणवीसाए सह न्नाणियह्व।

गौतम । जपन्य सागरोपमपचविशति पल्योपमासख्येयज्ञानीनमुत्कर्मपतसस्येग प्रतिपूर्णं वधन्ति । तिर्यग्योनिकायुपो जपन्यमन्तमुद्रुत मुत्क
 र्धंत, पूर्वकोटियतुन्निर्वैरचिके वधन्ति । एव मनुष्यायुयोपि जेप यथेकान्द्रियाणा यावदन्तरायस्य । त्रीन्द्रिया प्रदन्त । ज्ञानावराणीयस्य कर्म
 ण कि वधन्ति ? गौतम । जपन्य सागरोपमपचविशत्या खप सत्तनागा पल्योपमासख्येयज्ञानीना उत्कर्मपत स्त एव प्रतिपूर्णो वधन्ति । एव

वमस्य असांखिज्जभागेणं कण्ठया । हेगौतम जघन्य २५ सागरोपमना सातीवा २ भाग ते पिण पल्योपमने अन्वत्तातमेभाग कणा जाणवा । ७० तपे
 व पडिपुण्ण वधति एव निद्दापचगस्सत्ति एव जहा एगिंदियाण भणिय तथा वेदियाणवि भाणियत्वा । उत्कृष्ट तिमहोज परिपूर्णं वाधे इम निद्दापचक
 नो म० इम जिम एकद्वियनोपरे कदिवो तिम वेदियनो पिण तिमहोज खदिवो । एवर सांगरोपम पणवोसाए भा० पल्लिवोवमस्य असांखिज्जभागेण
 कण्ठया । एविजेप सागरोपम २५ आदिदेइ यावत् पल्योपमने असांख्यातमेभाग कणा । सेस तवेव पडिपुण्ण वधति । चाको सर्व तिमहोज पंडलोपरे क
 दिवो । तिरिखजोपियावयस्य जह० अतोम० ७० पुन्वकाडो चउदि वाससएहिं अदिह्य वधति । तिवंशवोनियानो म० जवन्व अन्तमुद्रुत्तं उत्कट पंड

सागरोपमस्य सागरी पत्न्योपमास्येयज्ञागहीनीं उत्कर्षत स्तावथ परिपूर्णोविति, नैरयिकोद्वेकदेवाद्वेकैकियत्तुएयाएरारकचतुष्टयतीर्थकरना
मा त्वेकेन्द्रियाण न वन्त, आयुधितायामपि सकेन्द्रिया देवायु नैरयिकायु वा न वस्तति तथात्रब्रह्मनाख्यात, किंतु तियंतापु मंनुष्यायुर्
तदपि च यज्ञको जयन्त्यतोत्तर्मुहूत्त यन्ति उत्कर्षत पूर्वकोटिप्रमाण नायिक केवलमुख्य चित्यते इत्येकोन्द्रिया हावित्वातिवर्षरत्नाप्रभा
यायुप सायुष्य विभागावशेषपरजबोधु वेदकः परिरहन्ते इति सप्रवषसहस्त्राणि वर्षसहस्त्रानागीतराश्याधिकानि लभ्यन्ते, एतो तियगा

पलिनुवमस्स झुससेज्जइजाग ऊणिय ज्ञाणियञ्च उक्खो० तंचेव पळिपुन्नु वधति । जसोकित्तिउच्चोगोयाण
जहन्नु सागरोवमस्स एग सत्तजाग पलिनुवमस्स झुससेज्जइजागेण ऊणय उक्खो० तेचेव पळिपुन्नु वधति
झुतराइयस्सणं जने ! पुच्छा, गोयमा । जहा नाणावरणिज्ज जाव उक्खो० तंचेव पळिपुन्नु वधति । वेइ

कि यप्रान्ति ? गीत्तम । जयन्त्य सागरोपमस्य पचविज्ञात्काष्टग सप्तभागा पत्न्योपमास्येयज्ञागोना उत्कर्षत स्तग्य प्रतिपूर्णा यप्रान्ति । प्र
व निद्रापचकस्यापि । मय ययैकन्द्रियाणा ज्ञाणित तथा हीन्द्रियाणामपि ज्ञाणितव्यम् । मवर सागरोपमपचयिज्यत्या सर् प्राणितव्या पत्न्यो
पमस्यास्येयज्ञागीना जेय तस्यैव । यत्रैकेन्द्रिया नवप्रान्ति तत्रैतेपि नवप्रान्ति । जीवा मिथ्यात्ववेदनीयस्य कि यप्रान्ति ?

मने असत्त्वातमेभाग जणो कश्चिदो । ए० तंचेव पळिपुण्य वधति । एकट् तिमहोल परिपूर्णं बाधे । जसोकित्ति उच्चोभावाण ज० सागरावमस्य एग
सत्तभाग पलिथोवमस्य प्रसविज्जाभागेण जग्या । यम कोत्तिनेविपे जवगोपनेविपे जवग सागरीपमना सातोया एकभाग पस्वापमने असत्त्वात
नेभाग जथा । ए० तंचेव पळिपुण्य वधति अतरारत्तम्य भते पस्का । उत्कृष्ट तिमहोल परिपूर्णं वा वै अक्षरावकर्मनो प्र० । गीयमा ज० पाणावर
पिञ्ज ए० तंचेव पळिपुण्य वधति । हेगोतम जिन ज्ञानावरणीनां करणं तिम सर्वं कर्हिवावावत् उत्कृष्ट तिमहोज परिपूर्णं बाधे । वेइ दिवाच भते णा
णावरपिण्णस्य कणस्य कि वधति । वेइय हेमगमन्-ज्ञानावरणोक्तम किम बाधे । गायमा ज० सागरोवमस्य पणवीसाए तिथि सप्तभागा पलिथो

माए जहन्नं सागरोवमस्स नत्रपणतीसइन्नागे पलिउंत्रमस्स अ्संखेज्जइन्नागेणं ऊणए उक्को० तेचैव पढि
 पुत्ते बधति । चउरिदियनामाएवि जहन्न सागरोवमस्स नव पणतीसइन्नागे पलिउंत्रमस्स अ्संखेज्जइन्ना
 गेण ऊणए उक्कोसणं तेचैव पढिपुत्ते बधति । एवं जत्य जहन्नग दो सत्तन्नागा तित्ति वा चत्तारिवा
 सत्तन्नागा अ्पुठ्ठावीसइन्नागा भवति तत्थणं जहन्नेणं तेचैव पलिउंत्रमस्स अ्संखेज्जइन्नागेण ऊणगा न्नाणि
 यद्वा उक्को० तेचैव पढिपुत्ता बंधंति, जत्य जहन्नेणं एगीवा दिव्हो वा सत्तन्नागो तत्य जहन्नेणं तेचैव

ही सत्तन्नागे त्रयो वा चत्वारो वा सप्त वाष्टाविंशतिर्वाजागा भवन्ति तत्र जयन्त स्तच्चैव पत्न्योपमासुरेयन्नागोत्त ज्ञानितव्यमुत्कर्षतस्तथैव
 प्रतिपूणो वपन्नन्ति । यत्र जयन्त्य एकोवा सादुरो वा सप्तजागो तत्र जयन्त्य तच्चैव पत्न्योपमस्या सखेयन्नागहीन ज्ञानितव्य उत्कर्षत स्तच्चैव प्र
 तिपूणं वपन्नन्ति । यत्र कीर्त्तुंघैर्गन्नाणा जयन्त्य सागरोपमस्यैक सप्तजाग पत्न्योपमासुरेयन्नागोत्तमुत्कर्षतस्तच्चैव प्रतिपूणं वपन्नन्ति । अन्तराय
 स्य भवन्ति । पूच्छा , गीतसु । यथा ज्ञानावरणोप यद्यदुत्कर्षतस्तच्चैव प्रतिपूणं वपन्नन्ति । हीन्द्रिया भवन्ति । जीवा ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः ।

दिय तेन दिय जातिनामए । एकंन्द्रियजातिनां पचिदिय जातिनो प्र० । त्रिम सर्वं नपुसुखवेदनीपरे कइवो वेदियजातिनो प्र० । गीयमा जइ० साग
 रोवमस्य पणतीसइन्नागे पलिउंत्रमस्य असखिच्छइन्नागेण ऊणया । हेगोत्तम जयन्त्य सागरोपमना पेतीमिया नवभाग पत्न्योपमने असख्यात्तमेभाग ऊ
 णा । तत्रैव पडिपुण वधति सखरिदियनामाए । तिमइल परिपूणं वाधे चौरिन्द्रियनी प्र० । गीयमा जइ० सागरोवमस्यैव पणतीसइन्नागा पत्ति
 शीवमस्य अस खिच्छइन्नागेण ऊणया । हेगोत्तम जयन्त्य सागरोपमना पेतीमिया नवभाग पत्न्योपमना असख्याताभाग ऊणा । उक्कोसेण तेचैव पडिपुसु
 वधति । उट्कट्ट तिमइल परिपूणं वाधे । एव जत्य जइ० टोवत्तभागा तित्ति चत्तारि दोसत्तभागा अद्वीवीमइन्नागा भवति । इम जिइा जयन्त्य सातो
 याभाग २, ३, ४, ७, २८ भाग । तत्थण जइन्नेणं तत्रैव पत्तिश्रीवमस्य असखिच्छइन्नागेण ऊणया भा० । तिइा जयन्त्य तिमइल पाच्छीपरे परयोप

त पट् पञ्चविंशद्भागः पत्न्योपमासख्येयज्ञागोनीः उदकपंत स्तैव परिपूर्णाः त्रय संस्थानर्धन्ननयो लब्धन्त सप्तसगरोपमस्य पञ्चविंशद्भा
 गा पत्न्योपमासख्येयज्ञागोनीः उदकपंत स्तैव परिपूर्णाः हारिद्रवर्णास्त्रस्यो जंघन्यत पञ्चसागरोपमस्याष्टा वंशतित्रागा पत्न्योपमासख्येय
 ज्ञागोनीः उदकपंत स्तैव परिपूर्णाः नीलवर्णकुट्टनस्यो सप्तसागरोपमस्याष्टाविंशतित्रागा पत्न्योपमासख्येयज्ञागोनाः उदकपंत स्तैव परिपू

ऊणए, उक्तीसेण तंचत्र पफ़िपुसु बधंति । एव कोहसजलणाएवि जात्र लोहसजलणाएवि डाल्यिनेदस्स
 जहा सातावेदिणज्जस्स । एगिदिथा पुरिसवेदस्स जहन्त सागरोवमस्स एगं सत्तज्ञागं पलिउवमस्स झुसखे
 ज्ञाडज्ञागेण ऊणय उक्ती० तंचत्र पफ़िपुन्न बधति । एगिदिथा नपुसगवेदस्स जहन्त सागरोवमस्स दो
 सत्तज्ञागे पलिउवमस्स झुसखेज्जाज्ञागेण ऊणए उक्ती० तंचत्र पफ़िपुन्ने बधति । हासरती जहा पुरिसवे

सागरोपमस्यैक सप्तभाग पत्न्योपमासख्येयज्ञागोनमरुकपंतस्तच्चैत्र प्रतिपूर्णे बध्नन्ति । एकैन्द्रिप्रनपुसकपटस्य जघन्यत सागरोपमस्य द्वी स
 सप्तभागी पत्न्यापमासख्येयज्ञागोनी उदकपंतस्तौच्चैव प्रतिपूर्णाः । हासरती यथा पुरुपवेदस्य । अरतिजयञ्जोकञ्जुगुप्सा यथा नपुसकवेदस्य ।
 नैरयिकापुर्देवायुर्निरयगतिनामधीक्रियञ्चरीराएरकयरीरानामनैरधिकानुपूर्विनामदेशानुपूर्विनामतोयंकरनास चेतानि पदानि नययन्ति । ति

इहा सातावेदिणिल्लसु णगिदिथा परिसवेयसु कम्मसु । खीवेटने जिम सातावेदनोपरं कहिवां एकेन्द्रिय पुरुपवेदनी कर्मनां प्र० । गोयभा जह० सा
 गरोवमस्य णग सप्तभाग पलिषांनमस्य बसखिल्लाःभागंण जणया तवव पडिपुण बधति । हेतीतम जवग्य सागरोपमना सातभाग एहवी एकभाग
 पत्न्यापमने बसख्यातेमभाग ऊणयो चाण्ठिबी उदकट्ट तिमहोज परिपूर्णं वाधे । हासरए जहा पुरिसवेयसु अरति भय सीग दुगळाण जहा नपुसगवे
 यन्त पेरदयाठय देवाठय तिरियगतिनाम दुवगतिनाम वैवळ्वियसरीरानां आञ्जारायसरीरानां खेरदयाणुपूर्वीनांन टेवाणुपूर्वीनांन तिल्यारनांन ण
 यार्णि पदाणि च बधति तिरिखञ्जीणियाउसु पुञ्जा । हास्य रतिनेदिधे पंचपवेदनीपरं कहिवां अरति भय सीग दुगळ्ळा (ते नपुं कर्मदोपरं कर्मना

भावात्, यस्तु साक्षाद्गुण सम्यग्मिथ्यात्वयो नं पटव एवंति प्रागेवाजिहित- कथायपीडशकस्य जघन्यत इत्यार सागरोपमस्य सप्तत्रागा पत्योपमाशरयेयत्रागहीना सरकर्मवत् सएव परिपूर्वो एकपदेदशास्यरतिप्रशस्तविशेषोपमस्यानप्रथमसरननशून्यवर्णेशुराजिग न्यगपुररघोषैर्गोत्राणा जघन्यत एक सागरोपमस्य सप्तत्राग पत्योपमाशरयेयत्रागहीन सरकर्मवत् सएव परिपूर्वो द्वितीयस्यानसहननयो जंघन्य

जहन्तेण सागरोवमं पलिनुवमस्स अ्सखेज्जइनागेण जण उक्खो० तचेव पफुपुन्न वधति । एगिदियाणं जत्ते ! जीवा सप्तामिच्छत्तवेयणिज्जस्स किं वधति ? गोयमा ! नत्थि किंचि वधति । एगिदिया कसाय वारसगस्स कि वधति ? गोयमा ! जह० सागरोवमस्स चत्तारि सत्तनागे पलिनुवस्स अ्सखेज्जइनागेण

सखयेपनागोनसुरकर्मवत्तचेव प्रतियुष्णं वधन्ति । एकेंद्रिया ज० । जीवा सम्यक्मिथ्यात्ववेदनीयस्य किं वधन्ति ? गो० । नास्ति किञ्चिदपि वधन्ति । एकेंद्रिया कथायद्वादशकस्य किं वधन्ति ? गौतम । जघन्येन सागरोपमस्य चत्वार सप्तत्रागा पत्योपमस्यासखयेयत्रागोनसुरकर्मवत्तचेव प्रतियुष्णं वधन्ति । एव कोपसखलन (प्रभृति) यावन्नोपसखलनम् । स्त्रीवेदस्य यथा सातवेदनीयस्य । एकेंद्रियपुरुषपदेदस्य जघन्य

कर्म किम वाधे । गोयमा जह० सागरोवम पलिनीवमस्य असखिल्लभागेण कथया । हे गौतम जघन्य सागरंरपम पत्योपमने नसख्यातमेभाग जको । स० तचेन पडिपुण वधति । सरकृट तिमहीज परिपूर्णं वाधे । एगिदियाण भते लीवा सप्तामिच्छत्तवेयणिज्जस्य सखस्य कि वधति । एकेंद्रिय लीवने हे भगवन् सम्यक्मिथ्या वेदनीकर्म किमवाधे । गोयमा नत्थि वधति । हे गौतम एकेंद्रियने सम्यक्मिथ्यानो वन्धनही । एगिदिया कसायवारसगस्य कि व धति । एकेंद्रिय हेभगवन् लीव कथाय वारसखपकर्म किम वाधे । गोयमा जह० सागरोपमस्य चत्तारि सप्तत्रागे पलिनीवमस्य पत्योपुज्जइभागेण ज यथा हे गौतम जघन्य सागरोपमना सातीया चारभाग पत्योपमने नसख्यातमेभाग कथं जायिवा । स० तचेन पडिपुण वधति । सरकृट तिमहीज प रिपूर्णं वाधे । एव कोइसखलनाएवि चाय, सोइसखलनाएवि । इम कोप सनखये पिण जाणिवो यावत् लीभसखलनसुगेपिण कइयिं । इत्थियेवस्य ज

पमस्य सप्तप्राणा सातवेदनीयस्त्रीवेदमनुष्यानुपूर्वो जघन्यत' साद्वंसागरोपमस्य सप्तप्राण पत्योपमासख्येयज्ञागहीन वत्कपंतः सएव साद्वंसप्तप्राण परिपूर्णः मिय्यात्स्यस्य जघन्यत एक सागरोपम पत्योपमासख्येयज्ञागहीन मुत्कर्षत तदेव परिपूर्णं सम्यक्त्वेदनीयस्य सम्यग्मिय्यात्ववेदनीयस्य च नष्टि किंचिदपि यप्रति न किंचिदपि वेदमानतयात्मप्रदेज्ञौ सर वन्धयतीति प्राव' एकेन्द्रियाणा सम्यक्त्वेदनस्य सम्यग्मिय्यात्ववेदनस्यचाच

एगिदियाण जते ! जीवा सयावेयणिज्जस्स कम्मस्स किं वधति ? गोयमा ! जहन्तं सागरोवमस्स दिवहं सत्तनागं पळिउवमस्स झुसखेज्जइजागेणं ऊणय उक्को० तच्चत्र पळिपुणं वंधति । झुसायावेदणिज्जस्स जहा नाणावरणिज्जस्स । एगिदियाण जते ! जीवा समत्तवेयणिज्जस्स कम्मस्स किं वधति ? गोयमा ! णत्स्य किंचि वधति । एगिदियाणं जते ! जीवा मिच्छत्तवेयणिज्जस्स कम्मस्स किं वधति ? गोयमा !

दर्शनं चतुष्कस्यापि । एकेन्द्रिया प्रदन्त । जीवा सातवेदनीयस्य कर्मण किं यप्रति ? गोतम । जघन्य सागरोपमस्य साद्वं सप्तप्राण पत्योप मस्यासख्येयज्ञागोनुत्कर्षणं साधेव प्रतिपूर्णं यप्रति । असातवेदनीयस्य यथा ज्ञानावरणीयस्य । एकेन्द्रिया ज० । जीवा. सम्यक्त्वेदनीयस्य कर्मण किं यप्रति ? गो० । नास्ति किंचिदपि यप्रति । एकेन्द्रिया ज० । मिय्यात्ववेदनीयस्य किं यप्रति ? गो० । जघन्य सागरोपम पत्योपमस्या

तो तिमहोज परिपूर्णं स्थिति जाणिवो इम निद्रापणकने पिय जाणिवो दयंतचतुक्कने पिय इमहोज जाणिवो । एगिदियाण भते जीवा सायावेय पिल्लस्य कम्मस्स किं वधति । एकेन्द्रिय जीवने हेभगवन् सातावेदनोयकर्म किं वधे । गोयमा जह० सागरोवमसादिवडुट सत्तभागं पळिप्रावमस्य स स्वातमेभाग जया । ए० तच्चेइ पुण वधति असायावेयणिल्लस्य जहा णायावरणिल्लस्य । ए० तिमहोज परिपूर्णं वधे असातावेदनीने ज्ञानावरणेने प रे कणिवो । एगिदियाण भते जीवा समत्तवेयणिल्लस्य कम्मस्स किं वधे । एकेन्द्रिय हेभगवन् जीवने सम्यक्त्वेदनीकर्म किं वधे । गोयमानत्स्य वधति । हेगोतम एकेन्द्रियने सम्यक्त्वनो वन्य नथो । एगिदियाण भते जीवा मिच्छत्तवेयणिल्लस्य कम्मस्स किं वधति । एकेन्द्रियने हेभगवन् जीवने मिय्यात्ववेदनी

प्रतीति नवर मतराश्चसकमुल्का इति ॥ पथप्रकारस्थापीति वाक्यशेषः, निर्वचनमपि पथप्रकारस्यापि द्रष्टव्य तदेवमुक्त जपन्यत उरुष्टव
 य सानान्यत सूर्यासा प्रकृतीना स्थितिपरिमाण साम्प्रतमेकेन्द्रियानधिगत्य तासा तदजिघत्सुराह-यगिदियाण जते । जीवाण नाणावरणित्त
 रस कप्तस्स कियपति इत्यादि ॥ अत्रेय प्रापा यस्य कर्मणोपाया उरुष्टस्थिति प्रागजिह्विता सस्या २ तस्यामित्यात्वात्स्थित्या सप्ततिसागरोय
 सकोटी २ प्रमाणया प्रागे हते य ह्यन्यते तत्पत्योपमासख्येयज्ञागहीन जघन्या स्थिति सेव पत्योपमासख्येयज्ञागरहिता उरुष्टेति तदेतत् परित्रा
 म्य समस्तमेकेन्द्रियगत सूत्र स्वय परित्रायनीय । तथापि विवेकज्ञानानुग्रहाय किञ्चि ह्यित्यन्ते-ज्ञानावरणपञ्चकदर्शनावरणवकासातवेदनीयान्त
 रायपञ्चकाण जपन्यत एकेन्द्रियाणा स्थितियथ त्रय सागरोपमस्य सप्तत्रागा पत्योपमासख्येयज्ञागरीना उरुष्टत सप्तय परिपूर्णं त्रय सागरो

अप्यसत्यविहायगतिनामस्स । अतराडण पुच्छा, गोयमा ! जह० अतोमुज्जत उक्को० तीस सागरोत्र
 मकोनाकोनीत तित्ति य वाससहस्साइ अवाहा अत्राह्णिया कम्म० । एगिदियाण जते ! जीवा ना
 णावरणित्तस्स कम्मस्स कि वधइ ? गोयमा जहन्तेण सागरोवमस्स तित्ति सत्तन्नागे पलित्तवमस्स
 अस्सेज्जनागेण ऊणए उक्कोसण तेचव पठ्ठिपुणे वधति । एव निद्दापचगस्सवि । दसगचउक्कास्सवि

रोपगकोटाकोट्य खीणिवपंसरस्ताण्यायाथा उवापोना कर्मस्थिति कमनियेक । एकेन्द्रिया जदन्त । ज्ञानावरणीयस्य कर्मण कि यन्नन्ति ?
 गौतम । जपन्येन सागरोपमस्य त्रय सप्तत्रागा पत्योपमस्यासरयेयज्ञागोना उरुकर्पत सप्तैव प्रतिपूय वधन्ति । एव निद्दापञ्चनस्यापि ।

कदा । एगिदियाण मते जीवा षाणावरणित्तस्य कम्मस नि वधइ । इति एकेन्द्रियादिकनी स्थिति कहेके, एकेन्द्रिय हेभगवन् जीव ज्ञानावरणी कर्मने
 वितरा पापे । गोयमा जह० सागरावमस्य तित्ति यसभाग पनिनीवमस्य असखुत्तरभागऊषया । इगौतम जघन्यतो एकसागरोपमना सातभाग जे
 ने एववा ३ भाग प्रमाण जे पत्योपमने असस्थातेभाग ऊणी जाणियो । उ० तचेव पठ्ठिपुण वधति एव निदापचगस्यवि दसगचउक्कास्यवि । उरुष्ट

गा स्थिति स्नाहिं तावत्या. स्थिते स्त्रियंमन्त्रवचनमन्त्रेण पूरयितुमशक्यत्वात् कियत कात तीर्थकरनामसत्कर्मापि तिर्यग् प्रवेत् अथवा सवा गमे निरपिदु क्षयाचोक्त-तिरिगमुनत्थित्य परनामसतातदेशस्यसमकक्षयतिरिउंनहीरी, अथ सागरोवमकोडीकोडीएडति ॥ तत क्षयमेतदि तिचे दुथ्यते-इह यान्ककाचित तीर्थकरनामकर्म न तिर्यगती सताया निषिद यत्पुन रुद्रसेनापवर्तनासाध्य रुद्रवादिपि तिर्यगती न विरोध मा सन्नति तथाचोक्त-जमिहनिक्काक्षयित्य तिरियजनेनिसोइयसत । इपरमिनित्यिदोचा रुद्रहावाहणासेसे ॥ १ ॥ इति, गोत्रान्तरायसूत्राणि सु

उक्तासेण दससागरोवमकोडाकोडीउ दसयवाससयाइं श्रवाहा जल्य दो सत्तजागा तल्य बीसं उक्तासेण
सागरोवमकोडाकोडीउ वीसयवाससयाइं श्रवाहा । उच्चागोयस्त पुच्छा, गीयमा ! जह० अष्टमुज्जहा
उक्तासेण दससागरोवमकोडाकोडीउ दसवाससयाइं श्रवाहा । नीयागोयस्त पुच्छा, गीयमा ! जहा

टीकोटी विशतिवर्षेनात्यावाया । उच्चैर्गोत्रस्य पूच्छा, गीतम । जयभ्येनापी सुदूर्ता उरकपतो दशसागरीपमकोटाकोटी दशवर्षशतान्य
वाया । नीचैर्गोत्रस्य पूच्छा, गीतम । यथा मन्त्रविहायोगतिनाम् । आन्तरायिकपूच्छा, गीतम । जयन्तेनात्समुद्भूतमुत्कषेतास्त्रिशारसाग
डाकोडी हुक् अने दोससहस्रवर्षनी यवाधा इम सपले जागवां श्वे क्षुण्णोपनो म० । गीयमा जह० अतो०ठ० दससागरीवमकोडाकोडीपो दसवास
सगर यवाधा पीयागोयस्त पुच्छा । हेगीतम जयन्त मुद्भूतं उरकट दशसागरीपम कोडाकोडी उग्रसहस्रवर्षनी यवाधा नोषगोत्रनो म० । गीयमा
जहा उपसल्यविशयोगीतिनामस्त अतरादय्य पुच्छा । हेगीतम जिम अप्रशस्त विहायोगतिनी स्थितिकहो तिम कहवी अन्तरायनी म० । गीयमा
जह० अतो० व० तोससागरीवम कोडाकोडीपो तिखयवाससहस्यार यवाधा यवाहणिया कयाइं कश्चनिसेगो । हेगीतम जयन्त मुद्भूतं उरक
ट तोससागरीपम कोडाकोडी वीससहस्रवर्षनी यवाधा उदगनावे कर्मनीस्थिति रहिषी हुवे कर्मनानिषेक अत्तसमय जी कर्मनो उरकटोस्थिति पूर्वक
दोषे ते मिथ्यात्वनी स्थिति ७ वीडोसागरीपमसु भागदूरो जे तिवारे ज्ञेयव्यंत् नहुवे इतने जयन्त उरकटनो यामान्ये सर्वप्रकृतनो स्थितिप्रमाय

अपन्वता हा सागरोपमस्य सप्तभागा यस्यापमास्ययज्ञानं चरुर्पतो व्यक्त सारोपमकोटी २ ननु यदि जघन्यतोपि तीर्थकरनाम्नोक्त-सागरोपमकोटी २ प्रमा यकरनाम्नो जघन्यतो व्यक्त सागरोपमकोटी २ चरुर्पतो व्यक्त सारोपमकोटी २ ननु यदि जघन्यतोपि तीर्थकरनाम्नोक्त-सागरोपमकोटी २ प्रमा

त्तिनामाए जहन्तेण अठमूज्जा उक्त्तो० दससागरोपमकोटिकोटीइ अथाहा । अजसोच्चिकि
त्तिनामाए जहा अपसत्यविहायगतिनामरस । एव निम्नाणनामाए पुच्छा । तित्यगरनामाए पुच्छा, गोयमा !
जहन्त अतोसागरोपमकोटिकोटीए उक्त्तोसा० कोटिकोटीए । एव जत्य एगो सत्तनागो तत्य

शांकीतिनाम्नो जघयाम्हे सुदत्त चरुर्पतो दशसागरोपमकोटिकोट्यो दशययताग्यावाधा । अय्य कीर्त्तिनाम्नो यथा प्रशस्तविद्यायोग
तिताम्न । यद्य निर्माणान्न । तीर्थकरनाम्न पुच्छा, गीतम । जघन्यमन्तस्सागरोपमकोटिकोट्य चरुर्पतो व्यक्त सागरोपमकोटिकोटी ।
सद्य पर्येक सप्तप्रागस्तत्रोत्कर्षेण दशसागरोपमकोटिकोट्यो दशधपंशतान्यावाधा । यत्र द्वी सप्तभागी तत्र विशति. चरुर्पेण सागरोपमको

पादेयने सातौग दीयभाग यनादियान सातोण एकभाग यशोकीर्त्तिनामनो प्र० । गायमा जह० अट्टमहुत्ता ४० दससागरोवम कोडाकीडोशो द
पवाससयाइ अवाहा यत्रसशोत्तिनामाए पुच्छा । हेगीतम जघत्त ८ मूहत्तं चरुर्कट १० सागरोपम कोडाकोटो दमसयवर्पनो अवाधा यययकीर्त्ति
नो प्र० । गोयमा जहा अपसत्यविहायगतिनामस्य एव निम्नाणनामाएवि तित्यगरनामाए पुच्छा । हेगीतम जिम अग्रस्तविहायगतिने कळो ति
न कर्वा इमहीण निर्माणानने कडिवा तीर्थकरनामनो प्र० । गोयमा जह्णेषवि चकोषेणवि अतोसागरोवमकोडाकोटोशो । हेगीतम जवत्य विष
अकट्ट पिए अत० सागरोपमकोडाकीडोनी स्थिति कही । एव जत्य एगो सप्तभागी तत्य चकोसेण दससागरोवम कोडाकोटोशो दसवाससयाइ अ
वाधा । इम जिहा एकसातीयोभाग जघत्त तिहा चरुर्कट दश सागरोवम कोडाकोटी अने दमसयवर्पनो अवाधा । जत्य दोससप्तभागी तत्य उक्त्तोसेण
वीससागरोपम कोडाकीडीपा वीसवाससयाइ अवाहा अथागोयस्य पुच्छा । अने जिहा दीयभाय सातोया जपय तिहा चरुर्कट २० सागरोपम को

हा- वाटरनामाए जहा अय्यसत्यविहायोर्गतिनामस्स । एव पज्जत्तनामाएवि । अपज्जत्तनामाए जहा सुज्जमनामस्स । पत्तियसरीरनामाएवि दो सत्तनागा । साहारणसरीरनामाए जहा सुज्जमस्स । धिरनामाए एग सत्तनाग अथिरनामाए दो । सुन्ननामाए एगो । सुन्ननामाए दो । सुन्ननामाए एगो । दुन्नगनामा ए दो । सुस्सरनामाए एगो । दुस्सरनामाए दो । अदेज्जनामाए एगो । अनादेज्जनामाए दो । जसोकि

नामन पूच्छा, गीतम् । जपयेन सागरोपमस्य नवपंचात्रिंशद्भाग पत्स्योपमस्यासद्येयत्रागोना चरन्त्यतो एतदशसागरोपमकोटाकोट्यो एतद शत्र्वंशनाम्याथा । वाटरनाम्नो यथा प्रज्ञस्त्रिविहायोगतिनाम्न । गघ पर्याप्तनाम्नोपि । अपर्याप्तनाम्नो यथा सूक्ष्मनाम्न । प्रत्येकशरीरनाम्नोपि द्वी सत्तनागी । साधारणशरीरनाम्नो यथा मूत्सस्य । स्थिरनाम्न एकं सत्तनागम् । अस्थिरनाम्नो द्वी । शुन्ननाम्न एक । न शुन्ननाम्नो द्वी । सुन्नगनाम्न एक । दुर्जगनाम्नो द्वी । सुस्सरनाम्नो द्वी । आदेयनाम्न एक । अनादेयनाम्नो द्वी । य

यस्यथातमेभाग जथा । ४० अक्षरससागरोपम कोटाकोटोचो अक्षरससाससवाः अवाहा वाटरनामाए जहा अपसत्यविहायगतनामस्त्र एव पज्जत्तनाम.एवि । अकष्ट १८ सागरोपम कोटाकोटो अठारसैवर्धनी अवाधा वाटरनामना स्थिति अग्रगस्तत्रिविहायोगतिनोपरि जाणवी इम पर्याप्तकना म विष । अपज्जत्तनामाए जहा सहसनामाए पत्तियसरीरनामार्णव दीससभागं साहारणसरीरनामाए जहा सुद्धमस्स । सुद्धनामनोपरि कट्टवी प्रत्ये अशरीरनाम्न विपे सातीया दीगभाग क्खिहा साधारणशरीरनोस्थिति सुद्धनोपरि कट्टवी । धिरनामाए एग सत्तभाग अथिरनामाए दोसत्तनाग यमुभनामाए दो सुभनामाए एगो दुभगनामाए दो सुभगनामाए दो सत्तनामाए एगो दुमरनामाए दो अटिज्जनामाए एगो अणाइज्जनामाए दो जभीकित्तनामा ए ११ पुच्छा । धिरनामकर्मने सातीयेरे एकभाग कट्टिवो अथिरानने सातीया दोयभाग कट्टिवा अशुभनामे जातीया एकभाग कट्टिवो दीचभाग सातीयो शुभनने कट्टिवा दुभगनाम सातीयेरे एकभाग यमुभगनाम्ने दोनाग सुत्तरने । सातीया दोयभाग इत्थस्से जातीयो एकनाग

धाह-वापरनागए नरा अप्यसत्यविहायगर्हनामाए एव पञ्जाननायागवि इत्यादि ॥ त्विरशुभ्रगणसुरादेयकृपाया पथाना गार्भाना जपन्वत-
स्वित्तिरेक सागरोपमस्य सप्तभाषा पत्योपमासख्येयज्ञागोन । यथा कीर्तिनाम्न सून जपन्वतो ऽष्टौ मुहूर्त्ताः श्रुतमुहुता जसुधगोपामितिवध
नात् ॥ चरकथा पुन पथामपि दशसागरोपमकीर्तीकोटय त्रिराष्ट्रकुरुदेवदुग्दतिवधपनात् ॥ अस्विराजुजदुग्दतिवधपनात् कीर्तिनाम्ना तु

अप्यसत्यविहायगतिनामस्स पुच्छा, गोयमा ! जहन्त सागरोपमस्स दीणि सत्तन्नागा पलिन्तवमस्स स्य
सखेज्जाज्ञागेण ऊणता उक्खो० वीस सागरोवमकोलाकीलीउ वीसयथाससयाइ स्यवाहा । तसनामाए थाव
रनामाएय एवचव । सुजमनामाए पुच्छा, गोयमा ! जह० सागरोवमस्स नवपणतीसइज्ञागा पलिन्तव
मस्स स्यसखेज्जाइज्ञागेण ऊणता उक्खोसंण अठारस सागरोवमकीलाकीलीउ स्यठारस वाससयाइं स्यवा

पनाम्नो प्येव चैव । उद्योतमान्नांपि एय । प्रशस्तविरायोगतिनाम्न पुच्छा, नीतम । जपन्व सागरोपमस्यैक सप्तभाषा चरकथेतो दशभाषा
रोपमकीटाकोत्यो दगवपज्ञताग्याथाथा । अमशस्तविहाययोगतिनाम्न पुच्छा, नीतम । जपन्व सागरोपमस्य ही सप्तजागी पत्योपमस्यास
ख्येयज्ञागोनमुहूर्त्पथो विशसिसागरोपमकीटाकोत्यो विशसितिवपज्ञताग्याथाथा । तसनाम्न स्यावरनाम्न पुच्छा, नीतम । स्यपेव । सुह्म

गरोवम कीलाकीलीया चरवाचसयाइ अवाथा अपसत्त्वविहायोगतिनामस्य पुच्छा । चरकथ १० सागरोपन कीलाकीली दयसइसखर्पनी अवाथा प
प्रमखविहायोगतिनी प्र० । गोयता जह० सागरोवम दीखिसप्तभागे पखिओवमस्य अखखिल्लभागेण ऊणया । हेगीतम जपन्व सागरोपमना वा
तीया टायभाग पत्योपमने अखस्यतामेभाग ऊण । ७० वीससागरोवम कीलाकीली वीससयवाथाइ अवाथा तसनामाए थावरनागाएदि एवरेव
सुपमेनामाएय पुच्छा । चरकथ २० सागरोपन कीलाकीली वीससयवयनी अवाथा तसनाम्ने थावरनाम्ने पिय इमदीज कइवी मूला नामनी प्र० ।
गोयमा जह० सागरोवमस्य पथतोसइभागा पखिओवमस्य अखखिल्लभागेण ऊणया । हेगीतम जपन्व सागरोपमना पैतोसिया नवभाग पत्थीपमने

नुपवीनामोपि जयन्त एतसागरोपमस्य सप्तनागं सप्तगुणितं पत्न्योपमासंख्येयज्ञागर्होना उत्कर्षतोऽस्ति सत् स्थिति दशसागरोपमकोटी २
 प्रमाणत्वात् तथाचोक्त-पुद्गासर्ववच्चै सुत्रस्यशयिराश्चक्रेवदुगे । दससोषाणत्रीसा सवइयावाहावामसया ॥ अथश्यास्य जयन्ततो सञ्चिपचेद्वे
 पु इति , तथा सूक्तनामसूत्रे जयन्ततो नवसागरोपमस्य पञ्चत्रिंशद्भाग पत्न्योपमासंख्येयज्ञागर्होना द्वीन्द्रियजातिनाम् इव ज्ञावनीया , सत्तम
 नाको ह्युत्कर्षतो स्थिते रथादशसागरोपमकोटी २ प्रमाणत्वात् अठारस्य सुहुमविगलतिगइतिवचनात् ॥ एवं सपर्योप्तसाधारणतामोरोरपि ज्ञावनी
 यः वादरपर्योप्तस्येकनाम्ना तु जयन्ततो द्वी सागरोपमस्य सप्तनागी पत्न्योपमासंख्येयज्ञागर्होनी उत्कर्षतो विशतिसागरोपमकोटीकीटय ज्ञाया

उक्तीसेण दससागरोवमकोठाकोठीञ्च दसयवाससयाड् अत्राहा । उत्सासनामाए पुच्छा , गीयसा ! जहा
 तिरियाणुपुड्डीए । अ्यायवनामाएवि एवचेत्र । उज्जीयनामाएत्रि । पसत्यविहायोगतिनामाए पुच्छा , गो
 यसा ! जहन्त सागरोवमस्त एगं सप्तनाग उक्ती० दससागरोवमकोठाकोठीञ्च दसयवाससयाड् अत्राहा ।

पमासंख्येयज्ञागोमनुत्कर्षतो दशसागरोपमकोटाकोठ्यो दसवर्षज्ञातान्यावाधा । उत्सासनाम्न पुच्छा , गीतम । यथा तियंगानुपुल्यां । अत्रात

ग जपो । ७० पठरससागरीम कोठाकोठीचो पठरसवाससयाड् अत्राहा देवाणुपुठ्योएण पुच्छा । उरहण्ट १५ सागरोपमनो कोठाकोठी १५०० व
 र्पेको अत्राधा देवतानुर्धनी प्र० । गीयसा जह० सागरोवमस्त दोससभाग पवित्रोवमस्त अर्वाखिल्लरभागेष जणया । हेगीतम जयन्त सागरोपम सप्तस्र
 ना सातीया दोयभाग पत्न्योपमने असख्यातेभाग जणा । ७० दससागरावम कीडाओडोचो दसवाससयाड् अत्राहा जसासनामाए पुच्छा । उरह
 ण्ट दससागरोपम कोठाकोठी दयवज्जारसववर्पेनो अत्राधा जसासनामनो प्र० । गीयसा जहा तिरियाणुपुठ्योए अ्यायवनामाएदि एवद्वव उज्जीवना
 नाएवि एवचेत्र पसत्यविहायगतिनामाए पुच्छा । हेगीयमूजिम तियेचानुर्धनीपरे कइथी अतपनामकर्मने पिण दमहीज कइथी उच्योतनामने
 पिण दमहीज प्रयस विहायोगतिनो प्र० । गीयसा जह० एगसागरोवमस्त सप्तभाग । हेगीतम जयन्त १ सागरोपमने सातीयो १ भाग । ७० दससा

वर्षाना मुक्त तस्यैव-नपुररसनान्नी जघन्यास्थिति रेक सागरीपमस्य सप्तभाग. पत्योपमासंख्येयनागर्णी ७ उक्तर्पतो दशनागरीपमकोटीकोटयो
 दशवर्षज्ञानान्यायाया अवाधाहीना कर्मदलिकनियेक . अक्षरसनान्नी जघन्यत पच सागरीपमस्याष्टाविज्ञानागा पत्योपमासस्येयनागर्णीना

पुष्टीनामाए पुच्छा, गीयमा ! जह० सागरीवमसहस्र दो सप्तनागा पलिर्नवमस्स अ्संखेज्जनागज्ज गया
 उक्ती० वीस सागरीवमकोठाकोठीनु वीसयवाससयाइ अ्वाहा । तिरियाणुपुष्टीए पुच्छा, गीयमा ! ज
 हन्तेण सागरीवमस्स दो सप्तनागा पलिर्नवमस्स अ्संखेज्जनागेणं ऊणता उक्ती० वीस सागरीवमकोठा
 कोठीनु वीसयवाससयाइ अ्वाहा । मणुयाणुपुष्टीए पुच्छा, गीयमा ! जह० सागरीवमस्स दिवहुं सप्तनाग.

नः पुच्छा' गीतम । जघन्येन सागरीपमसहस्रस्य द्वी सप्तनागी पत्योपमासंख्येयनागोनी उक्तर्पतो विश्रुतिसागरीपमकोटीकोटी विश्रुति
 वपज्ञतान्यावाधा । तिर्यंगानुपूर्वोनात्त. पुच्छा, गीतम । जघन्येन सागरीपमस्य द्वी सप्तनागो पत्योपमस्यासुर्येयनागीनावुक्तर्पतो विश्रुति
 कोटीकोट्यो विश्रुतिवर्षज्ञानान्यायाया । मनुजानुपूर्वोनात्तः पुच्छा, गीतम । जघन्येन साहं सप्तनाग पत्योपमस्यासुर्येयनागोन मुरकर्पत प

एव उवधातनामाएवि पराधातनामाएवि एवचेव तिरियाणुपुष्टीनामाए पुच्छा । अग्रं जिके अग्रमस्त तेइने चिन केणुनी स्थितिकही. तिम पने जे
 प्रससससं तेइने स्थिति गृक्तर्पतोपरं जणिवो अगुवधुनादनी स्थिति केणुनीपरं इम उवधातनी विष इयद्येण पराधातनी विष इमहीज न
 र्काणुपूर्वोनां प्र० । गीयमा सागरावमसहस्र दोसप्तनागा पलिर्नवमस्य पलिर्नवमस्य उवधा । इगीतम उवधत्य सागरीपम सहस्रना सातोवा
 दोयभाग पत्योपमने चसद्यातगेभाग जथा । उ० तीसभागरीवम कोठाकोठोपी वीसयवाससया इ चवाडा तिरियाणुपुष्टीए पुच्छा । उरज्जट वीस
 सागरीपम कोठाकोठी वीसयवपंती अवाधा कर्मनी तिर्यंगानुपूर्वोनां प्र० । गीयमा उह० सागरीवम उ दोसप्तनागा पलिर्नवमस्य पचखित्त्वइमा
 येण जपया । इगीतम उवधत्य सागरीपमना सातोवा दोयभाग पत्योपमने चसद्यातगेभाग जथा । उ० वीसंयारावम कोठाकोठीपी वीसयवप

ही सागरोपनस्य सप्तमगौ प्रत्योपनासंयेयजाहीनौ वदकथंते विश्वतिवारागोपमकोटीकोटय लक्षवर्गनाल्लोपि वक्ष्यामि इति प्राय , सुराजि
 गन्तान् शुक्रगणनाम्न इव सुक्लिप्तसुरनीमहुराणदववइतिवपनात् , सुराजिगधनान्नो यद्य सेगर्तसदनस्य तजानन्तरनेगीक्षमिति न पुन
 स्यते ॥ रसाय मधुरादीषु जहा वक्ष्याय ज्ञापय तथा परिवाडीए प्राणियद्यमिति ॥ रसाना मधुरादीना परिपात्या क्रमेश तथा वक्ष्य यथा

सागरोवमकोटाकोटीतु अष्टठारसवाससथाड अवाहा । कालवन्तनामाए जहा खेवठसघयणस्व । सुस्त्रि
 गधनामाए जहा सुक्लिप्तवन्तनामस्स । दुस्त्रिगधनामाए जहा खेवठसघयणस्व । रसाणं मञ्जरादीण जहा
 वन्ताण ज्ञापिय तहेव परिवाडीए ज्ञापियद्यु । फासा जे अ्यपसत्या तंसि जहा खेवठस्व जे पसत्या तंसि
 जहा सुक्लिप्तवन्तनामस्स , अ्यगुरुलजनामाए जहा खेवठस्व । एव उवघातनामाएवि एवचेव । निरयाणु

म्न । दुराजिगन्धनामनो यथा सेवासंसदनस्य । रसाना मधुरादीना यथा वर्णाना ज्ञापित तथैव परिपात्या ज्ञापितव्यम् । स्पष्टो ये ऽप्रज्ञास्ता
 क्षोपा यथा सेवातस्य ये मञ्जस्ता क्षोपा यथा शुक्रवर्णनास , अगुरुलपुनानो यथा सेवासंस्य । एवमुपघातनासोव्येष प्रैर । निरयानुपूर्वीना

मत्र । गीयमा जड० सागरोवमस्त अष्टद्वीसदभाग यक्षि वावमस्त प्रमखिव्वाऽभागेण जयथा । हेगौतम जघव्य सागरोपमना अठावीसिया सातभाग
 पन्थोपमने प्रसव्यातदभाग यथा । ४० अष्टारससागरोवम कांजाकोटीची प्रहृष्टारसवासययाड प्रवाहा कासवक्ष्यनामाए जहा खेवठसघके सुभि
 गधनामाए पुष्ठा । ४० साटापठारे सागरोपम कोजाकोषो साटा पठारेवययंनो अथाथा कांजेवर्णो प्र० किम खेवठसघयणो कक्षी तिम सुर
 भिगन्धनामनो प्र० । गीयमा जहा सक्लिप्तनामश्च दुस्त्रिगधनामाए खेवठसघयणसा रसाण मधुरादीषु जहा वषाय भणिया तहेव पडिवाडीए भा
 षियव्या । हेगौतम जिम शुक्तनामनो मत्र तिम दुरभिमन्थनामनो प्र० तिम खेवठसघयणो कक्षी तिम रस मधुरादिकने निम वर्णदिकने कक्षी ति
 म प्रशुक्रमे परिवाटीजेकरी यदिवे । फासा खे मपसत्या तंसि जहा खेवठस्य, अगुरुलजनामाए जहा खेवठस्य

टीका ।
 पृ० ।
 पृ० ।
 पा० ।

पृ० ।
 पृ० ।

सागरीना क्रियते आगत सूत्रोक्त परिमाण अनेनेत्र गणितक्रमेण लोरितवर्णनासौ जपन्यस्थिति पट्ट् अष्टाविंशतिनागा पत्नीपमासस्य्ययना
हीना उत्कर्षत सस्य स्थिते. पञ्चदशसागरीपमकोटी २ प्रमाणत्वात्, नीलवर्णनाम्न सप्तष्टाविंशतिनागा पत्नीपमासस्य्ययनागरीना उत्कर्षत
सस्य स्थिते साद्वैसप्तदशसागरीपमकोटी २ प्रमाणत्वात् परिभाषनीया ॥ कालवर्णनाभाए जहा क्षेत्रसप्तयणस्यसति सेवासप्तहत्तनस्यैव जपन्यती

जगता उक्ती० अष्टतेरससागरीवमकोठाकीती अष्टतेरसयवाससयाडं अथाहा । लोहियवन्तनामाएण
पुच्छा, गीयमा ! जहन्तेणं सागरीवमस्स ठ अथावीसडनागा पलिउवमरस अस्सखेज्जडजागेणं जगगा
उक्ती० पन्तरस सागरीवमकोठाकीती पन्तरस वाससयाड अथाहा । नीलवन्तनामाए पुच्छा, गीयमा !
जह० सागरीवमस्स सप्त अथावीसडनागा पलिउवमस्स अस्सखेज्जडजागेणं जगता उक्ती० अथाहा

पञ्चदशवर्षज्ञान्यावाधा । नीलवर्णनाम्न पूच्छा, गीतम । जपन्येन सागरीपमस्य सप्तष्टाविंशतिनागा पत्नीपमस्या सस्येयनागोना उत्कर्ष
पंतोद्वीपादशसागरीपमकोटीसोदयोद्वी पादशवर्षज्ञान्यावाधा । कालवर्णनाम्नो यथा सेवासप्तहत्तनस्य । सुरसिगन्धनाम्नो यथा सुक्रउर्णेना

कथा । ७० अष्टतेरस सागरीवमकोठाकीतीयो अष्टतेरस वाससयाड लोहिवक्थनामिण पुच्छा । ७० १२१ नाटवारे सागरीपमनी कोडागा डो स. ठा वा
सैवर्षनी अथाधा रत्तवर्षनी म० । गीयमा जह० सागरीवमस्य अथावीसडनागा पलिपोवमस्य असखिज्जडभागण कथया । ह्योतम जवन्य सागरी
ना २८ अथासौधियां कभाग पत्नीपमने असख्यातेभाग कथा । ७० पत्तरससागरावम कोडाकीतीयो पत्तरससाससवार अथाहा नीलवर्णना
मण्यपुच्छा । ७० १५ सागरीपम कोडाकीती पनरसे वर्षतो अथाधा नीलवर्णनाम्नो मय । गीयमा जह० सागरीवमस्य सप्त अष्टतेरसभाग प
पोवमस्य असखिज्जडभागण कथया । हेगीतम जवन्ध सागरीपमना अथासौधिया कभाग पत्नीपमने असख्यातेभाग कथा । ७० पत्तरस सागरीवम
कोडाकीतीयो पत्तरससाससयाड अथाहा नीलवर्णनामण्य अथाहा । अष्टट पत्तर सागरीपम कोडाकीती पत्तरस्य अर्थको अथा. सा नीलवर्णनाम्नो

रिपयथा ॥ उक्त द्वापमर्थाऽन्यत्रापि स्वयणो सटाणो पदमे दसउधरिमेसुदुःखुकीदति, द्वारिद्वर्षेनामसूत्रे-जहकोण सागरीवमस्य पंच अठा
 वीसत्रागो पलिउवमस्य अस्त्रेज्जागणेण कणगो इति । द्वारिद्वर्षेनाद्योहि साद्धो द्वादशसागरोपमकोटीकोटय सायाचोक्त अन्यत्रापि-सुकिल
 मुरजिमदुरा एदसउतहाऽदुनगउयइकासाक ॥ अन्नाएज्जपयुक्ता अविस्सहान्निदुधुएण ॥ ताया मिथ्यास्वास्थ्यया सप्ततिसागरोपमकोटी २ प्रमाणा
 या ज्ञागो ियते तत्र ज्ञानेन पातना तेनोपरिततो राशि साश इति सत्तस्सेन वत्तर्नागकरणाय चतुर्नांगुणते जाता पचान्त' अचलनापि
 समतिसणच्छेदराणि चतुर्भि गुणते जातंदेइते अशोत्सापकं ततो नूयोपि ज्ञानेन पातया लब्धा पच अष्टाविंशतित्रागा ते पत्थोपमासत्येय

ठाणावि न चानियह्य । सुक्किलवन्नानामाए पुच्छा , गोयना ! जह० सागरीवमस्य एग सत्तजाग पलि
 उवमस्य अस्त्रेज्जागजग उक्कोसिण दससागरोवमकोकाकीनीउं दसवात्तसयाइ अयाहा । म्हालिद्ववन्न
 नामाए पुच्छा , गोयमा ! जहयेण सागरीवमस्य पच अष्टावीसडजागा पलिउवमस्य अस्त्रेज्जाडजागेण

दयोपमासस्येयजागोनमूरकपंतो दशसागरोपमकोटाकोट्यो दशवंपंशतामायाया । द्वारिद्वर्षेनाम पुच्छा , गीतम । जपय्येन सागरोपमस्य
 पचाष्टाविंशतिनागा पश्योपमस्यासस्येयजागोना चरकपंतोइं त्रयोदशसागरोपमकोटाकोटयोइं त्रयोदशवंपंशतान्यायाया । लोहितवर्णेना
 म्म पुच्छा , गीतम । जपय्येन सागरोपमस्य पचष्टाविंशतित्रागा पश्योपमस्यासस्येयजागोना चरकपंत पचदशसागरोपमकोटाकोटय प

ज एवस्थान पिण कदिवा । मुक्किलवन्नानामाए पुच्छा । द्विंये युक्कवन्तो प्र० । गोयमा जह० सागरोवमस्य एमससभाग पन्निथोवमस्य अस्त्रेज्जदभागे
 ण ऊपया । हेगौतम जघय्य सागरोपमनो सानोयो एकभाग पश्योपमनो असंख्यातमीभाग ऊपया । ४० दससागरीवम कीडाकोलोथो दसवात्तस
 याद यवाहा इतिहवणमिणं पुच्छा । ४० दससागरीवम कीडाकोटी दससयवर्पनी अवाधा पोलोवर्षेना प्र० । गोयमा जहयेण सागरोवमस्य प
 च अष्टावीसडजागे पलिप्रीवमस्य अस्त्रेज्जदभागेश ऊपया । हेगौतम जघय्य सागरोपमन ४० अष्टावीसिवा ५ भाग पश्योपमने अस्त्रेयतातेभाग

नाम्नी ऽष्टी पञ्चत्रिंशद्भागानां पल्योपमासख्येयज्ञागोना उत्कृष्टस्थितिः । योद्धवा सागरोपमकोटाकोटीप्रमाणत्वात्, कीलिकासहननाम्नो नव पञ्च
त्रिंशद्भागानां पल्योपमासख्येयज्ञागोना उत्कृष्टस्थिते रष्टादश सागरोपमकोटाकोटीप्रमाणात्वात् त्वरिजावनीयाः सेवार्तसहननसूत्रं तु सुगम यथा
सहननपट्कस्य स्थितिपरिमाणं मुक्तं तन्नैव क्रमेण सस्थानपट्कस्यापि वक्तव्यं तथाचाह-एव जहा सघयणनामा च प्रणिधा एव सठालाब्जना

अथाहा । कीलियासघयणेणं पुच्छा, गोयमा ! जहयेण सागरोपमस्स नव पणतीसड्भागानां पलिउवमस्स
असंखेज्जइन्नागेणं ऊणता उक्की० अठारस्स सागरोपमकोटाकोटीनु अठारसवाससयाइं अथाहा । तेवठ
सघयणनामस्स जहन्नेणं सागरोपमस्स दोण्णि सत्तज्जागा पलिउवमस्स अस्सखेज्जइन्नागेण ऊणता उक्की
सेण वीसं सागरोपमकोटाकोटीनु वीसयवाससयाइं अथाहा । एव जहा सघयणनामाए जणिया एवं सं

पञ्चत्रिंशद्भागानां पल्योपमसासख्येयज्ञागोना उत्कृष्टतो ऽष्टादशसागरोपमकोटाकोट्यो ऽष्टादशवपञ्चताग्यावाधा । सेवार्तसहनननाम्नो जघ
न्येन सागरोपमस्य द्वी सत्तज्जागी परयोपमसासख्येयज्ञागोनी । उत्कृष्टतो विशतिसागरोपमकोटाकोट्यो विशतिवपञ्चताग्यावाधा । एव
यथा सहनननामानि जणितानि एव सस्थानान्यापि जणितानि । शुक्रवर्णनाम्न पुच्छा, गोतम । जपन्त्येन सागरोपमस्यैक सत्तज्जाग प

धा कीलिकासघयणनां प्र० । जह० सागरोपमस्य पणतीसभागानां पलिउवमस्य पञ्चत्रिंशद्भागेषु जणया । जघत्त सागरोपमनो पैतीसिया नवभा
ग पल्योपमने अस्सयगतमेभाग जणा । ७० अठारससागरोपम कोटाकोटीप्रो अठारसवाससयाइं अथाहा केअसघयणेण पुच्छा । ७० १८ सागरोप
मकोटाकोटी १८०० वपन्तो अवाधा केअसघयणनी प्र० । गोयमा जह० सागरोपमस्य दोणिसत्तमागा पलिउवमस्य पञ्चत्रिंशद्भागेषु जणया । ७०
तम जघत्त सागरोपमना सातीया दोवभाग परयोपमने अस्सयगतमेभाग जणा । ७० वीससागरोपम कीलिकाकोटीप्रो वीसयवाससयाइं अथाहा एव
जहा सघयणनामए भणिया तइव अठारससागरोपम कोटाकोटी वीसयववर्णनो अवाधा इम जिम सघयणनाम कथा तिमहो

यसागरोपमकोटीकोटय तासो विप्याल्वस्थित्या सप्ततिसागरोपमकोटी २ प्रमाणया प्रागो प्रियते तत्र प्रागणारासप्तधात् शून्यं शून्येन पातयि
 त्या च्छेद्यखेदकराशयो रईनापवर्तना स्रथा सागरोपमस्य पट पचत्रिशङ्गागा पल्योपमासख्येयज्ञाहीना क्रियत, एव नारावसहनननाम्नो जप
 न्यस्थितिरिचिताया सप्त पचयि शङ्गागा पल्योपमासख्येयज्ञागहीना उत्कृष्टा स्थिति धतुर्दशसागरोपमकोटी २ प्रमाखत्वात्, अर्दुनारावसहनन

उक्तीसेण वारससागरोवमकोठाकोठीनु वारसवाससयाड अवाहा । नारायसघयणनामाए जहन्नेणं साग
 रोवमस्स सप्त पणतीसइनागा पलिउवमस्स अ्सखेज्जइनागेण ऊणता उक्ती० चीइस सागरोवमफोठा
 कोठीनु चीइस वाससयाइ अवाहा । अरुनारायसघयणनामस्स जहन्नेण सागरोवमस्स अ्ठ पणतीसइ
 नागा पलिउवमस्स अ्सखेज्जइनागेण ऊणता उक्ती० सोलस सागरोवमकोठाकोठीनु सोलसवाससयाइ

सागरोपमकोटीकोटय धतुर्दशवर्षज्ञाताव्यावाया । अर्दुनारावसहनननाम्नो जयन्तेन सागरोपमस्याष्टी पच्यत्रिशङ्गागा, पल्योपमस्यासख्येयजा
 मोना उत्कर्षत पोडशसागरोपमकोटीकोटी योऊज्ञवपज्ञातान्यावाया । कीलिकासहनननात्त पृच्छा, गौतम ! जयन्तेन सागरोपमस्य नय

पश्यीपमने असख्यातेमेभाग जथा । ७० बारससागरोवम कोड,क,डोत्री वारसवाससयाइ अवाहा नारायसघयणनामस्य पृच्छा । ७० १२ सागरोप
 म कोडाकांडो १२ सय वर्षेनो अवाधा नारायसघयणनामसो प्र० । गो जइ० सागरोवमस्य अहुपणतीसइभाया पलिप्रोवमस्य अय खल्लभागेण जय
 या । इगौतम जयय सागरापमना पैतोसिया ८ भाग पशंगपमने असख्यातेमेभाग जथा । उक्तीसेण वीटससागरोवमकोठाकोठीया चउदसवासस
 याइ अवाहा अहनारायसघयणनामस्य । उत्कृ० १४ सागरोपम कांडाकोठी १४०० वर्षेनो अवाधा अर्दुनारावसघयणनो प्रय । जइ० सागरोवम
 स्य अहुपणतीसइभागा पलिप्रोवमस्य असखिल्लभागेण जथा । जयय सागरोपमने पैतोसिया ८ भाग पल्योपमने असख्यातेमेभाग जथा । उक्ती०
 सोलस सागरोवमकोठीकोठीयो सोलसवाससयाइ अवाहा 'कीलिकासघयणेण पृच्छा । ७० सोले सागरोपम कोडाकोठी सोलेववर्षेनो यना

प्रेकीर्ण - आहारकशरीरनागो जपन्यतोप्यन्त सागरोपमकोटीकोटी उत्कर्षतीप्यन्त सागरोपमकोटीकोटी २ नवरं जघन्यादुत्कृष्ट सरयेयगुणं द्रष्ट
 यमन्येत्वाहारकचतुष्टय जघन्यतोत्तमूर्ध्वूर्तमिच्छति तद्रन्य - पुत्रेयश्रुत्वासा अष्टमुत्ताज्जुस्यगीयाण । साएयारसग्राहा रवगपवरनाणिकिचूण ॥१॥
 प्रत्र किचूणमिति , अन्तमूर्ध्वूर्तमित्यर्थ , तदत्र तत्त्वं केवलिनो विदति यथा च शरीरपदकस्य जघन्यत उत्कर्षत य स्थितिपरिमाणमुक्त तेनैव
 क्रमेण शरीरदन्त्यनप्यन्तस्य शरीरसघातपदकस्य वक्तव्य तथाचाह-सरीरसघननामागर्वि पधगर्हाये इति ॥ वडरोत्तन्नारायसघयणनामाए जहा
 रइतनाए इति ॥ उत्कर्षजनारायसहननासो यथा प्राक् रतिनायो मोहनीयस्योक्त तथा यक्तव्य ॥ वडरोत्तन्नारायसघयणनामाए जते । कामरस
 केवइय काल तिष्ठं पद्मत्त १ गीतम । जइकेण एक सत्तनागपलिउंभवसश्च असखेज्जइजनेण कण उक्कोसेण दससागरोवमकोडीकोडीउ इति ।
 अजजनारावमत्र-सागरोवमसश्च अयत्तनीसज्जागा पलिउंभवसश्च असखेज्जइजनेण ऊसगा इति , अयत्तनारावसहनस्य द्युत्कृष्टास्थिति द्वौद

पचग्रहवि जहा सरीरनामाए कम्मसश्च ठितिति । वडरोत्तन्नारायसघयणनामाए जहा रतिनामाए । उत्तन्न
 नारायसघयणनामाए जहं सागरोपमसश्च लप्यणतीसज्जागा पलिउंभवसश्च अयत्तनीसज्जागेणं ऊणता ।

या रतिनाम् । अयत्तनारावसहननासो जयत्तेन सागरोपमस्य पटुपन्थायत्तत्रिज्जागाः पत्योपमस्यासख्येयजागोना । उत्कर्षतो द्वादशावा
 गरोपमकोटीकोटी द्वादशवर्षशतान्यावाया । नारावसहननासो जयत्तेन यत्त पधमिज्जागाः पत्योपमस्या उभयेयजागोना उत्कर्षत द्युत्कृष्ट

चेत् । भौटारिष्वेकिं पाहारकशरीर श्रगोपाणनाम तीन पाच इमहीज शरीरवत्त्वनामने पाचशरीरनीपरे जाण्वा इमहीज । सरीरसघयणना
 माए पधपहवि जहा सरीरनाम कम्मठिइएति । शरीरसघातनामने शरीर पाचने स्थितिकहो तिम जाणवी ॥ वडरोत्तन्नारायसघयणनामाए जहा
 रतिनामाए उत्तन्नारायसघयणनामिणं पुरक्का । वज्जपमनारावसघयण नामकमनीस्थिति जिम रतिमाइनीवे कश्चो तिम अयत्तनारायसघयणनाम
 ना प्र० । गोयमा जहं सागरोपमसश्च अप्यतोत्तरभागा पलिपौवमसश्च अयत्तनीसज्जागेण उभयेय जाण्वा । इमोत्तम जघन्य सागरोपमना रूपनोया तीसभाग

जडाजागण ऊढगा इति ॥ इर विक्रियशरीरमान उरुश्टा विनाठिचापरिपनकोटीकोद्व्य स्थिति स्तत प्राक्तकरुवदोन पचन्यस्थितिपिताय ॥
 स्या ही सागरोपमस्य सप्तजागी लन्येते पर विक्रियपदुमेकेन्द्रिया विक्रितोन्द्रिया य न यन्नन्ति फिलसञ्चिपरोद्रियाञ्च जचन्यतोपि यप कुश्रोगा
 एकेन्द्रिययपापलया सहस्रगुण कुश्रुन्ति पणवीसापनासा सयसहस्रवृणुकारो । इतिवचनात् ॥ ततो यो ही सागरोपमस्य सप्तजागी प्रागुक्तकर
 शयशा हाथी ती सहस्रेण गुण्यते तत सूक्ष्म परिमाण प्रवति सागरोपमस्य ही सरस्वी सप्तजागना सागरोपमसहस्रस्य ही सप्तजागाविति

जडाजागेण ऊगता उक्तीसेण वीस सागरोपमकोठाकोठीउ वीसयवाससयाइ अत्राहा । आहारगसररीर
 नामाए जहन्नेण अतोसागरोवमकोठाकोठीए उक्तीसेण अतोसागरोवमकोठाकोठीए । तेयाकम्मगसररी
 नामाए जहस्रेण दोखि सप्तजागा पलिनुवमस्य अ्सखेजडाजागेण ऊगता उक्तीसेण वीस सागरोवमको
 ठाकोठीउ वीसयवाससयाइ अत्राहा । सररीरयथगनामाएवि पचयह्वि एवचेव । सररीरसघातनामाएवि

मकाटोकोद्व्यो विशतिवर्षसहस्राण्यावाथा । आहारकशरीरनासो जपन्येनात्त सागरोपमकोटीकोटी उरुकेपंतोप्यत्त.वागरोपमकोटीकोटी ।
 तेजसनामणशरीरनासो जचन्येन ही सप्तजागी पत्थोपमस्यारवत्येपजागोती उरुकेपंतो विशतिसागरोपमकोटीकोटी विशतिवर्षतात्यावाथा ।
 शरीरयत्ननात्ति पन्थाप्येव चैव । शरीरसहननानि पन्थाप्येव चैव । यथा शरीरतान कर्मण स्थिति । वज्रपंचजनारापसहननासो य

गरोपम कोडाकोडो वीससवर्षतो कवाथा आहारकशरीरतो प्र० । जह० अतो० सागरोवमकाडाकोडोषो उ० यतो० सागरोवमकोडाकोडोषो तेग
 कयागशरीरनामाए । जवग्य पन्तमुहत्तं माडा सागरोपमको डाडाकोटी डुवे तेजसयरोरतो प्र० । जह० दोखि सप्तभागपालिपोवमस्य पसखिज्जारभोनी
 य जथया । जवग्य सातोया दावभाग पदगोपमने यसख्यातमेभाग जथा । उक्तीसेण वीससागरोवमकाडाकोडोषो वीसवाससयाइ चवाडा । उ० वी
 ससागरोपन कोडाकोडो वीससयवयनी अत्राथा । उरालियवेठविच चाहारगशरीरगीसयथासेण विपद्वि एवचेव सररीरय यथनामएवि पचयइवि एव

ह्येकीर्ण - आणारकशरीरनामी जपत्यतोप्यन्त सागरीपमकोटीकोटी उत्कर्मतीप्यन्त सागरीपमकोटीकोटी २ नवर जपत्यादुत्कृष्ट सस्येपयुणं १२८
 ध्यमयेत्साहारकचतुफस्य जप्यतोक्तमुहूर्तमिच्छति तद्गुण्य - पुत्रेयग्रथवासा अष्टमुत्ताजसुसुगीयाण । साएवारसश्चाहा रथगपवरनाणकिचूग ॥१॥
 अत्र किचूणमिति , अन्तमुन्तमित्यर्थ , तदत्र तत्र केवलिनो विदति यथा , च शरीरदपकस्य जपन्यत उत्कर्मत अ स्थितिपरिमाणमुक्त तेनैव
 क्रमेण शरीरस्यनपचकस्य शरीरस्यतपचकस्य वक्तव्य तथाचाह-सरोरखयननामाएथि पचगत्तयि इति ॥ वडरोसजनारायसघयणनामाए जहा
 रइनामाए इति ॥ अज्येअनारावसहन्तनाधो यथा प्राक् रतिनामो मोहनीयसोक्त तथा यस्य ॥ वडरासजनारायसघयणनामाए जते । कम्मस
 केवइप काल टिइं पळता ? नीतम । जइत्तेण एक सप्तजागपलिउंभवमस अस्सेज्जइत्तागेण ऊण उक्कोसेण दससागरोवमकोडीकोडीउं इति ,
 कपजनारावमडू-सागरोवमसस लप्यत्तासिजागा पलिउंभवमस अयखंज्जइत्तागेण ऊणगा इति , अयत्तनारापसहन्तस्य घुरह्हाइत्यिति द्विं

पंचरहिवि जहा ससीरनामाए कम्मसस ठितिति । वडरोसजनारायसघयणनामाए जहा रतिनामाए । उत्त
 नारायसघयणनामाए जहं सागरोपमसस लप्यत्तीसज्जागा पलिउंभवमसस अ्यसंखेज्जत्तागेणं ऊणता ।

या रतिनाम् । अयंजनारावसहन्तनाम्नी जपत्येन सागरीपमस्य षट्पञ्चान्तत्रिज्जागा पल्योपमस्यासत्येयतागोना । उत्कर्मतो द्वादशवा
 गरीपमकोटीकोटी द्वादशवर्षशतान्वावाथा । नारावसहन्तनाधो जपत्येन सप्त पचत्रिज्जागाः पल्योपमस्या सस्येयतागोना उत्कर्मत अतुर्द्वे

वे । कोटीरिखवेकिय पाणारकशरीर भगोपागनाम तीत पाच इमहोज गरीरवमथनामने पाचशरीरभीपरे जाण्विवा इमहीज । सरीरसंघयणना
 माए पषषहवि जंहा सरीरनाम कम्मठइत्तिति । गरीरसघतननामने गरीर पाचे म्बितिकही तिम जाण्वी । वडरोसहनारायसघयणनामाए जहा
 रतिनामए वसमनारायसघयणनामं पुक्का । वज्जकपमनारावसघयण नामसंमनीस्थिति जिम रतिकोहमेवे कथो तिम अटपमनारायसघयणनाम
 नां प्र० । गोयमा जहं सागरोवमसस कपणतोसदभागा पलिउंभवमसस अस्सियज्जइत्तागेण लप्यथा । हेगौतम जप्यस्य सागरोपमना अयनोया तीसभाग

जज्ञानागण ऊगगा इति ॥ इर वैतियशरीरमास वरुष्टा विज्ञातिचागरोपमकोटीकोट्य स्थिति स्तत प्राक्तकरणप्रज्ञेन ज्ञाप्यस्थितिचित्तायां त
 स्या ही सागरोपमस्य सप्तजागौ तान्येते पर वैक्यपदूमकेन्द्रिया यिकलोन्द्रिया स न यन्नन्ति फिलचप्रियथेद्रियाश्च जचनतोपि वच कुयोरा
 एकैद्रियषापक्षया सस्त्रयुग कुर्वन्ति पणवीसापजासा सयसइसवयुकारो । इतिवचनात् ७ ततो यो ही सागरोपमस्य सप्तजागौ प्रागुक्तम
 णवशा स्रथौ ती सहस्त्रेण गुण्यते तत सूत्रोक्त परिनाथ प्रवर्तति सागरोपमस्य ही स्रथौ सप्तजागना सागरोपमसइसस्य ही सप्तजागविति

जज्ञानागणे ऊगता उक्तीसेण वीस सागरोपमकोठाकोठीनु वीसयवात्सयाइ श्रयाहा । श्याहारगसरीर
 नामाए जहन्नेण श्रतोसागरोपमकोठाकोठीए उक्तीसेण श्रतोमागरोपमकोठाकोठीए । तेयाकम्मगसरीर
 नामाए जहखेण दीखि सप्तजागा पलिनुवमस्य श्रसखेज्जइजागेण ऊगता उक्तीसेण वीस सागरोपमको
 ठाकोठीनु वीसयवात्सयाइ श्रयाहा । सरीरवधणनामाएवि पचयहवि एवचेव । सरीरसघातनामाएवि

मजाटीकोट्यो विज्ञातिवर्षसहस्राण्यावाथा । आहारकशरीरानो जपन्येनात्त सागरोपमकोटीकोटी वरकपंतोप्यत्त.सागरोपमकोटीकोटी ।
 तेजसजामणशरीरानो जपन्येन ही सप्तजागौ पत्तोपमस्यार्थस्येपजागोती वरकपंतो विज्ञातिसागरोपमकोटीकोटी विज्ञातिवपंजातान्यायाथा ।
 शरीरवधननानि पत्थाप्येव चैय । शरीरसहजनानि पत्थाप्येव चैय । यथा शरीरानान कर्मण स्थिति । वज्रपंजनापसहजननाज्ञो य

गरोपम कोठाकोडो वीससवर्षानो चवाधा आहारकशरीरानं प्र० । जइ० श्रतो० सागरोपमकोठाकोडोपो च० यतो० सागरोपमकोडाकोडोपो तैगा
 कणगसरोरपामाप । जवग्य अन्तर्मुहं माडा सागरापमनो काठाकोडो हुवे तेजसशरीरानो प्र० । जइ० टोकि सप्तभागपलिषोवमथ्य चमखिज्जरभागे
 ए जणया । जवग्य सातीया दावभाग पशोपमने पसख्यातमेभाग कणा । उक्तीसेण वीससागरोपमकोठाकोडोपो वीससाससगर चवाडा । उ० वी
 ससागरोपम कोठाकोडो वीससुरवपनी चवाधा । चरालियपेवचिय आहारगसरोरगोसयणसेण विगइति एवचेव सरोरवधणनासएवि पचपइवि एव

श्लोकार्थ - शरीरकशरीरनामो जपन्यतोप्यन्त सागरोपमकोटाकोटी उत्कर्षतोप्यन्त सागरोपमकोटीकोटी २ नवर उपन्यादुत्कृष्ट सरयेपगुणं द्रष्ट
 व्यसन्पेत्वाहारकचतुक्तस्य जपम्यतोक्तमूर्धुर्तमिच्छति तद्गन्ध - पुत्रेयश्रुत्वासा अरुमुहुत्ताजमुसुगोपाण । साएजारसश्चाहा रथगपवरनाणकिचूच ॥१॥
 अत्र किचूणमिति , प्रत्तमूर्धुर्तमित्यर्थः , तदत्र तत्त्वं केशलिनो विदति यथा च शरीरपदस्य जपन्यत उत्कर्षत य स्थितिपरिमाणमुक्तं तेनैव
 क्रमेण शरीरस्यन्यपञ्चकस्य शरीरस्यथातपचकस्य वक्तव्य तथावाह-सरोरस्यजननामाएव पक्षवद्वि इति ॥ वडरोसजनारायस्ययणनामाए जहा
 रसनामाए इति ॥ यज्यर्पजनाराचयदननामो यथा प्राक् रतिनामो मोहनीयस्योक्त तथा यत्तस्य ॥ वडरोसजनारायस्ययणनामाए जते । कामरस
 केवइय काल दिङ् पतता १ गौतम । जहनेण एक सत्तजागपलिउवमरस यसखेज्जइजाणेण जण उक्कोसेण दससागरोवमकांडीकोडीउ इति ।
 जपननाराधनमू-सागरोवमरस उष्यन्नसिजागा पलिउवमरस असखेज्जइजाणेण जणगा इति , जपननाराधसहनस्य घुरउटास्थिति द्विद

पंचरहवि जहा सरीरनामाए कम्मरस ठितिति । वडरोसजनारायस्ययणनामाए जहा रतिनामाए । उसन्न
 नारायस्ययणनामाए जह० सागरोपमस्स लप्यणतीसडजागा पलिउवमस्स सुसंखेज्जजाणेण जणता ।

या रतिनात्त । जपननाराधसहननामो जपन्येन सागरोपमस्य पटुपन्थात्तुंशद्गागा पल्योपमस्यासख्येयजागोना । उत्कर्षतो ह्यादशशा
 गरोपमकोटीकोटी द्वादशवर्षंवातान्यावाया । नाराधसहननामो जपन्येन यस पश्चिमिद्गागाः पल्योपमस्या सख्येयजागोना उत्कर्षत सुतुद्दंश
 चेत् । शीठारिचवेक्रिय शार्डारकशरीर प्रगोर्पाननाम तीन पाच इमहील शरीरस्यन्ययणनामने पाचणरोरनीपरे जाणिववा इमहीज । शरीरस्ययणना
 माए पचपइवि लंका सरीरनाम कथाठिगणति । शरीरस्यतननामने शरीर पाचने स्थितिकहो तिम जाणवी । वयसेसहनारायस्ययणनामाए जहा
 रतिनात्त उसमतारायस्ययणनामं पुच्छा । वयस्यपभनाराचस्ययण नामजर्मनीस्थिति जम रतिमांडनीये कल्लो तिम जपभनाराचस्ययणनाम
 ना प्र० । गौयमा जह० सागरोवमस्य कप्यतोसडभाग पलिधोवसस्य यसखिज्जइभागेण जणया । इगौतम जपन्य सागरोपमना कपतोया तीसभाग

इत्य गृह्यते इति प्राव , तस्यैह उत्कृष्टस्थितिं देशसागरोपमकोटीकोटय' तत प्रागुक्तकरणवशादेवसागरोपमस्य सप्त प्रागो लब्ध यथोपि चास्य जपन्ततो सत्सिपचेन्द्रियस्येति सहस्रगुणित , देवगतिमामवृत्ते उक्तोत्प्रे जहा सुरिसव्येपस्य इति ॥ दशवागरोपमकोटीने दशवाससपाड श्रवाहा श्रवाहाश्रुणिया कम्पठिई कम्पनिसेगो इति यत्तल्य गितिप्राशः, हीन्द्रियजातिनामवृत्ते-श्रवणेण नवपणशीसइप्रागा पलिउवमस्त श्रवउत्प्राशः प्रागेण ऊणगा इति ॥ हीन्द्रियादिनाम्नो पुत्रकृष्टस्थितिं रशदश सागरोपमकोटीकोटय अठारससुमुविगतितेगतिवचनात्' ततो एादशाना सागरोपमकोटीकोटीना भिव्यास्वस्योरुष्टया स्थित्या समतिसागरोपमकोटीकोटीप्रमाणाया प्रागो इत्यते प्रागथ न पूर्यते तत अग्न्य गुर्येण पा

जातिनामाए पुच्छा , गोयमा ! जहन्तेण सागरोपमस्त नव पणतीसइप्रागा पलिउवमस्त अस्सखेजइना गेण ऊणता उक्तोत्प्रेण अठारस सागरोपमकोटीकोटीने अठारस वाससयाइ अथाहा । तेइदियजातिना माएण जहसेण एवंचेव उक्तोत्प्रेण अठारस सागरोपमकोटीकोटीने अठारस वाससयाइ अथाहा । अउ रिदियजातिनामाए पुच्छा , गोयमा ! जहन्तेणं सागरोपमस्त नत्र पणतीसतिप्रागा पलिउवमस्त अस्स

प्रागोगा उत्कृष्टतोष्टादशसागरोपमकोटीकोट्योऽष्टादशयपञ्चताग्यावाचा । श्रीन्द्रियजातिनाम पुच्छा , जपय्येनेय चेयोत्कृष्टेणष्टादश सागरोपम कोटीकोट्योऽष्टादशयपञ्चताग्यावाचा । अतुरिदियजातिनास पुच्छा , गोयमा ! जपय्येन सागरोपमस्य यथ यंपचिप्रागागा. पत्तोपम

। शौचभाग पथोपमने असख्यातेभाग लणो । उक्तोत्प्रे योससागरोपम कोटीकोटीयो योसइवाससयाइ अथाहा वैइदिय लातिपामेण पुच्छा । उत्कृष्ट योससागरोपम कोटीकोटी योससयवर्पनी अवाधा वैदियजातिनामनी प्र० । गोयमा अह० सागरोपमस्य नवपणतोसतिप्रागा पलिपोवम असखिल्लइभागीणं लयया । हेगीतम लवग्य सागरोपमना पैतोसिया नवभाग पत्तोपमने असख्याभाग लणो । उक्तोत्प्रे अठारससागरोपम कोटीकोटीयो अठारसवाससयाइ अथाहा तेइ दिवजातिनामेण पुच्छा । उत्कृष्ट १८ सागरोपमकोटीकोटी अठारसयवर्पनी अवाधा वैदियजातिने

त्यते जातोपरि अष्टादशाधस्तात् सप्तसि स्तयो रहुंनापवर्तना ह्यथा नव पधनिश्रद्धागा स्ते पत्योपमासख्येयन्नागोना क्रियन्ते आप्तं सूत्रोक्त परिमाणमिति । एवं विचतुरिन्द्रियजातिनामसूत्रे ऽपि ज्ञावभीये , वैक्रियनामसूत्रे-जहन्नेण सागरोधमसहस्रस दोसतन्नागा पलिङ्गवमस्य असरो

खेज्जडन्नागेण जणता उक्खोसेण अठ्ठारस सागरोवमकोढाकोढीत्तु अठ्ठारस वाससयाइ अथाहा । पंचिदि यजातिनामाए पुच्छा , गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तन्नागा पलिङ्गवमस्स अस्सखेज्जडन्नागेण जणतां उक्खोसेणं वीसं सागरोवमकोढाकोढीत्तु वीसय वाससयाइ अथाहा । उरालियसरीरावि एवंचेव । वेडच्चियसरीरनामाएण जते ! पुच्छा , जहन्नेण सागरोवमसहस्रस की सत्त न्नागा पलिङ्गवमस्स अस्सखे

स्यासख्येयन्नागेना वरकपंतीष्टादसागरोपमकोढाकोढ्योऽष्टादशवयंज्ञायावाचा । पञ्चेद्रयजातिनात्र पुच्छा , गौतम । जयग्येन साग रोपमस्य द्वी सप्तन्नागी पत्योपमस्यासख्येयन्नागेनावूरकपंतो विजाति . सागरोपमकोढाकोढ्यो विजातिवयंसहस्राण्यावाचा । श्रीदारिकञ्जरी रमंष्वेव चैव । वैक्रियनात्र पुच्छा , गौतम । जयग्येन सागरोपमस्य द्वी सप्तन्नागी पत्योपमस्यासख्येयन्नागेनो वरकपंतो विजाति सागरोप

प्र० । गोयमा जह० जहा वेद दियस्य । हेगौतम जयग्य वेदियकञ्जा जिम । उत्रोसेण अठ्ठारससागरोवम कोढाकोढीत्तु अठ्ठ रसवाससयाइ अथाहा च वरिदिय जातिनासिण पच्छां । अठ्ठारसउवर्पंतो अवाधा चठ्ठारिगद्वय जातिनामनो प्र० । गोयमा जह० सागरोवमस्य नउपपत्तोसदभागा पलिचोव मस्य असांखिज्जडभागेण जणया । हेगौतम जयग्य सागरोपमना पेतीसिधा नवभाग पत्तोपमने प्रसख्यातमेभाग जणया । उक्खोसेण अठ्ठारससागरोवम कोढाकोढीत्तो अठ्ठारसवाससयाइ अथाहा पचिदियजातिनासंण पच्छां । वरकट अठ्ठारै सागरोपम कोढाकोढी अठ्ठारैसववर्पंतो अवाधा पचेद्विय जातिनामनो प्र० । गोयमा जह० सागरोवमस्य टाण्णिसत्तन्नागा पलिचोवमस्य अखिज्जडभागेण जणया । हेगौतम जयग्य सागरोपमना सातोवाभा न पत्तोपमनो प्रसख्यातभाग जया । उक्खोसेण वीससागरोवमकोढाकोढीत्तो वीसवाससयाइ अथाहा आठ्ठारसदोरेरनामाए पच्छां । उरकट नोसया

गमप्राहियाइ । एवं मणुस्साउयस्सवि देवाउयस्स जहा नेरइयाउयस्स ठित्तित्ति । निरयगतिनामाएण भ्रते !
कम्मास्स पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेण सागरोवमसहरस दोसत्तजागा पलिउवमस्स अस्सखेज्जज्जागेण ज्जणता
उक्कोसेण वीस सागरोवमकोफाकोफ्रीउ वीसयवाससयाइ अवाहा । त्तिरियगतिनामाए जहा नपुसगवेठस्स
मणुयगतिनामाए पुच्छा, गोयमा ! जहन्नेण सागरोवमस्स टिवहु सत्तजाग पलिउवमस्स अस्सखेज्जज्जाग
ज्जणं उक्कोसेण पन्नरससागरोवमकोफाकोफ्रीउ पन्नरसवाससयाइ अवाहा । देवगतिनामाए पुच्छा, गो

यो यथा नैरयिक्कायुप स्थिति । निरयगतिनाओ जदत्त । समथ पुच्छा, गीतम । जघन्येन सागरोपमसहस्रस्य द्वी सप्तजागी पत्न्योपमस्या
सस्येपजागोनायुःकपती विशति सागरोपमकोटीकोट्यो विशतिवंपशतान्यायाथा । तिर्यगतिनास्र पुच्छा, यथा नपुसकस्य । मनुजगतिना
स्र पुच्छा, गीतम । जघन्येन सागरोपमस्य साद्वं सप्तजाग पत्न्योपमस्यासस्येपजागोनमुत्कर्षेण पषदशसागरोपमकोटीकोट्य पत्न्यदशवंपशता

मा जघय अन्तर्गुहमं २ पत्न्योपम पूर्वकोटोने तीजेभाग अधिक इम मनुथनो । एव मणुक्काउवस्यवि देवाउवस्य जहा नेरइयाउयस्य विरयगतिनामाए
प भते कभास्य पच्छा । इम मनुथनो पाठ पिण देवताको आयु किम नारको तिम नरकगति नामकर्मनो प्र० हेमगवन् । गोवमा जइखेप सागरो
वम दोसत्तजागा पत्तिप्रावमस्य असखिज्जज्जागीण जणया । हेगीतम जघय सागरोपमना सातीया दोयभाग पत्न्योपमने ससव्यातमोभाग जणया ।
उक्कोसेण सोससागरोवम कोटाकोटोओ वीसवाससयाइ यवाहा त्तिरियगतिनामाए जहा नपुसगवेयस्स मणुयगतिनामाए पुच्छा । उट्कट २० साग
रोपम कोटाकोटो २००० वर्षनो अवाधा तियेवनामकर्म नपुसकनो स्थितिकडो मपुसकवेदनो तिम मनुखगतिनामनो प्र० । गोयमा जइयुण सःग
रोवमदिवडुठ सप्तजागं पत्तिप्रावमस्य अच खिज्जज्जागीण जणया । हेगीतम जघय सागरोपमना सातीया दोटभाग पत्न्योपमने ससव्यातमोभाग ज
णो । उक्कोसेण पन्नरससागरोवम कोटाकोटोओ पन्नरसवाससयाइ अवाहा देवगतिनामाएण पुच्छा । उट्कट १५ सागरोपम कोटाकोटो १५ सै सै वपं

तावथा स्थिते पूर्वकोटिनिर्जागरूपाया अवाधाया चालस्यमानत्वात् ० तिरियगइनामाए जहा नरुसकवेपस इति ॥ जघन्यतो द्वी सागरोपमस्य सप्तजागी पल्योपमाएष्येयज्ञागहीनी उरुकपंतो विशतिसागरोपमकोटीकोट्य इत्यर्थे , मनुयगतिसात्री ॥ जहन्नेण सागरोवमसश्चदिवदुसुसज्ञा ग पालीयमसस सखेज्जागणेण ऊणगंति ॥ अत्र प्राग्ना स्त्रीवेदय द्वावनीया दिवहसतज्ञागमित्यादी तु नपुसकनिर्देशा मारुतत्वात् नरकगतिना सो जघन्यत सागरोपमसहस्रस्य द्वी सप्तजागी किमुक्क प्रवाति सागरोपमस्य द्वी सप्तजागी सहस्रगुणितो वेति उदुदुदृष्टस्थिते विशतिसागरोपमकोटीप्रमाणत्वात्, तद्वन्यस्य च सर्वे जघन्यस्यासिषिपयेन्द्रियस्य प्राधात्, असिषिपयेन्द्रियकमंत्रयस्य च जघन्यस्य च केंद्रियजघन्यकमंत्रयान्यो पेषया सहस्रगुणत्वा द्वाघपियते चायमर्थो वैक्रियचित्ताया देवगतिनाओ सप्तजाग एकसागरोपमस्य सप्तजागस्य

यमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहस्रस्रण सप्तजाग पलिउवमसस्य अ्यसखेज्जागणेणं ऊणगं उक्को० जहा पुरि सवेदसस । एगिटियजातिनामाए पुच्छा , गीयमा ! जहन्नेण सागरोवमसस दोखि सप्तजागा पलिउवमसस अ्यसखेज्जागणेणं ऊणगा उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोट्टाकोठीउ वीसय वाससयाइं अ्यवाहा । वेइदिय

न्याधाया । देवगतिनास्र पुच्छा , गीतम । जघन्येय सागरोपमसहस्रमेक सप्तजाग पल्योपमस्यासहस्रेय प्रागेनोनकमुदकपर्वतो यपा पुरुपवेद सप । एकन्द्रियजातिनाम , पुच्छा , गीतम । सागरोपमस्य द्वी सप्तजागी पल्योपमस्यासहस्रेयप्रागेनो उरुकपर्वतो यिज्ञाति । सागरोपमको टाकोट्यो विशतिवर्षशतायायाथा । द्वीन्द्रियजातिनास्र पुच्छा । गीतम । जघन्येन सागरोपमसप नव पञ्चत्रिंशद्भाग पल्योपमस्यासहस्रेय

नी आधाया देवगतिनामनो प्र० । गीयमा ज० सागरोवमस्य पमसतभाग पलिपोवमस्य पसखिच्छाभागेण जघन्य । इगीतम जघन्य सागरोपमनो सातमोभाग पल्योपमनो चसख्यातमोभाग कर्षो । उरुकट्ट जहा पुरिसेवेदस्य एगिटिय जातिनामाएवं पुच्छा । उरुकट्ट जिम पुरुपवेदनेो लिंति एके द्विय जातिनामनो प्र० । गीयमा जह० सागरोवमसस दोखि सप्तजाग पलिपोवमस्य पसखिच्छाभागेण जघन्य । इगीतम जघन्य सागरोपमना यातो

कलत्राणां प्रागरण लब्धा सादृशं सप्तनागा इति, हासरद्वयवीगदुगद्वयञ्च अहन्कुक्षीसिद्धिं प्राप्तिवद्वा इति; हासरत्वरतिन्नयशोकजुष्वात्ता
 लपयोरुक्ता च स्थिति रंक्त्या सा प सुमखिट्टत्वादीनां कथ वक्तव्येतिचे दुष्यते-हासरद्वयं पुच्छा, गी० । जहन्ते यगो सागरोवमस्स सप्तना
 गो पलिउवमस्स अथलेज्जागणं ऊजा उक्कोसेण दस सागरोवमकोडाकोडी उ दसवाससयाइ अवाहा इति, ज्ञेयमिति, तियगायुपि

रसवाससयाइ अवाहा । पुरिसवेदस्सण पुच्छा, गोयमा ! जहन्तेणं अठ सवच्छराइ उक्कोसेण दससाग
 रोवमकोडाकोडी उ दसयवाससयाइ अवाहा जाव निसेगो । नपुसगवेदस्सण पुच्छा, गोयमा ! जहन्तेणं
 सागरोवमस्स दीन्नि सप्तनागा पलिउवमस्स अथलेज्जागणं ऊजा उक्कोसेण वीस सागरोवमकोडाकोडी उ
 वीसयवाससयाइ अवाहा । हासरतीण पुच्छा, गोयमा ! जहन्ते सागरोवमस्स एक्को सप्तनागं पलिउवमस्स

पमकोटीकोट्य पञ्चदशवर्षज्ञान्यावाधा । पुरुषवेदस्य पुच्छा, गी०तम । जपन्त्येगाएरी सन्वत्सरा उत्कर्षतोदशसागरोपमकोटीकीट्यो दश
 ष वर्षज्ञान्यावाधा यावन्निरपेक । नपुसकवेदस्य पुच्छा, गी०तम । जपन्तेन सागरोपमस्य हेसप्तनागे पल्योपमस्यावसंसेयज्जागोने उत्कर्षतो वि
 शन्ति सागरोपमकोटीकोट्यो विशन्तिवर्षसहस्रास्यावाधा । हास्यस्य रते पुच्छा, गी०तम । जपन्त्यतः सागरोपमस्यैक सप्तनाग पल्योपमस्या

अवाधा पुरुषपनी प्रश्न । गोयमा जह० अहसवच्छरार ७० दससागरोवम कोडाकोडीयो दसवाससयाइ अवाहा जाव निसेरो । हेगोतम जघन्य
 ८ वर्षनी स्थिति उत्कृष्ट १० सागरोपम कोडाकोडी १०० वर्षनी अवाधा उदयनावे । गोयमा नपुसगवेदस्य पुच्छा । हेगोतम नपुसकवेदनी प्रश्न ।
 गोयमा जहणेण सागरोवमस्य दीणि सप्तभाग पलिओवमस्य अखिज्जाभागेण ऊणया । हेगोतम जघन्य सागरोपमना सातिथा दोयभाग पल्योपमने
 प्रसव्याताभाग ऊणी । उक्कोसेण वीससागरोवम कोडाकोडीयो वीसवाससइस्कार अवाहा सरदइ पुच्छा । उत्कृष्ट २० सागरोपम कोडाकोडी वीस
 वर्षनी अवाधा हासरतिनी प्रश्न । गोयमा जह० सागरोवमस्य एकसप्तभाग पलिओवमस्य अखिज्जाभागेण ऊणया । हेगोतम जघन्य सागरोपम

दीना ।

२५ ।

२६ ।

२७ ।

मनुष्यायुषि च त्रीणि पल्लोपमानि पूर्वकोटिभिर्भागान्प्राधिकानि इति यदुक्तं-त एपूर्वकोट्यायुष स्थिर्यगमनूष्यानुबंधिजानधिकृत्य वेदितव्यं अन्वये

असखेज्जइत्तगिणं ऊण उक्कोसेण दससागरोवमकोट्टाकोट्टीत्तं दसय वाससयाइं अवाहा । अरतिजयसोग दुगंढाण पुच्छा, गीयमा ! जहन्व सागरोवमस्स दीरिह सत्तन्नागा पलिउवमस्स असखेज्जइत्तगिणं ऊणतः उक्कोसेण बीससागरोवमकोट्टाकोट्टीत्तं बीसयवाससयाइ अवाहा । नेरइयाउयस्सणं पुच्छा, गीयमा ! जहन्नेणं दसवाससहरसाइ अत्तीमुज्जत्तमप्पहिंयाइ उक्कोस तितीस सागरोवमाइं पुच्छकोट्टिज्जगमप्पहिं याइ । तिरियाउयस्स पुच्छा, गी० ! जहन्नेण अत्तीमुज्जत्तं उक्कोसेण तिन्नि पलिउवमाइं पुच्छकोट्टीत्तिज्जा

सखेपनागोन्मुदकपेत्तोदसासागरोपमकोट्टीकोट्टो दशुष वपंशतान्यावाथा । अरतिजयशोकज्जगुप्पाना पुच्छा, गीतम । जयन्वत सागरीपमस ही सप्तज्जागी पल्लोपमस्यासखेयत्तगोनावुदकपेत्तो विज्जत्तियागरोपमकोट्टीकोट्टो विज्जत्तियपंशतान्यावाथा । नेरयिकायुप-पुच्छा, गीतम । जयन्नेन दसवपंसरत्ताणत्तमुंहुत्ताण्यधिकानि सरकपंतत्तयत्तिअरसागरोपमारि एूर्वकोट्टीत्तिज्जागाधिकानि । इव मनुष्यायुषोपि । देवायु

० भीभाग एतत्ते सातीयो एकभाग पन्नांपमने असत्थातेमभाग ऊणो । उक्कासेण दससागरोवमकोट्टाकोट्टो दसवाससयाइं अवाहा. अरइं सोग भ ए दुगंढाय पुच्छा । सरकट दय सागरोपम कीटाकीटो दयसय वपंनो अथाथा अरति भय सोग दुगंढाणां प्रत्त । गीयमा जह० सागरोवमस्स ही पिइ सत्तभाग पत्तिपोवमस पत्तिउत्तःभागीय ऊयवा । हेगोतम जयन्व सागरोपमना सातीया दीयभा ए ल्लोपमने असत्थातेमभाग ऊणो । उक्को सेण बीस सागरोवम कोट्टाकोट्टीपो बीसवाससयाइ अवाहा शेरयाउयसण पुच्छा । सरकट २० सागरोपम कोट्टाकोट्टो बीससयवपंनो अथाथा ना रत्तोनां प्र० । गीयमा जह० दसवाससयाइं अत्तीमदत्तमसहिंयाइ । हेगोतम जयन्व दशहरत्तारवपं अत्तमुंहुत्तं अधिक । उक्कोसेण तेत्तीस यागरो वमाइ पुन्वकोट्टीत्तिभागमसहिंयाइ तिरिक्खत्तां गियाउयस पुच्छा । सरकट ३२ सागरोपम पर्वकोट्टी तोत्तेभागे प्राधिक तिंयंश्वोत्तिकतो प्र० । गीय

कलशेण सागरहरण इति, हासरइमयसीगदुगदास जहन्कुक्षीसिद्धिं ज्ञापियद्वा इति; हासरत्वरतिमयश्रीकजुपुष्पा
 लपयोत्कृष्टा च स्थिति वक्तव्या सा च सुप्रसिद्धत्वाद्योक्ता कथं यत्कथंतिषे दुष्यते-हासरइण पुच्छा, गी० । जहन्नेय यगो सागरोवमस उतजा
 गो पलिउवयस्य मयसेजनागेण ऊणा उक्कोसेण दय सागरोवमकोहाकोहीउ दसवासययाइ श्रयादा जाव निसेगो इति, ज्ञेयमिति, तियंगायुपि

रसवाससयाइ श्रवाहा । पुरिसवेदस्सण पुच्छा, गीयमा ! जहन्तेण अणु सवच्छराइ उक्कोसेण दससाग
 रोवमकोहाकोहीउ दसयवाससयाइ श्रवाहा जाव निसेगो । नपुसगवेदस्सण पुच्छा, गीयमा ! जहन्नेण
 सागरोवमस्य दीन्ति सत्तजागा पलिउवमस्य अस्सेज्जाइजनेण ऊण उक्कोसेण वीस सागरोवमकोहाकोहीउ
 वीसयवाससयाइ श्रवाहा । हासरतीण पुच्छा, गीयमा ! जहन्ते सागरोवमस्य एक्को सत्तजागं पलिउवमस्य

पमकोटीकात्थ पव्वदशयपेजान्तायाथा । पुरुषवेदस्य पुच्छा, गीतम । जपन्येगाही सन्वस्सरा वरकपंतोदशसागरोपमकोटीकोत्थो ददा
 च वयंजान्तायाथा यावन्नियेक । नपुसकवेदस्य पुच्छा, गीतम । जपन्ते सागरोपमस्य हेससजाने पल्योपमस्यावशयेयजागोने उरकपंतो वि
 श्शति सागरोपमकोटीकोत्थो विशतिवयसहसायाथा । हास्यस्य रते पुच्छा, गीतम । जपन्त्यतः सागरोपमस्यैक सत्तजाग पल्योपमस्या

प्रवाधा पुबयनो मदन । गीयमा जह्णं अट्टवच्छरार ८० दससागरोवम कोहाकोहीयो दसवाससयाइ प्रवादा जाव निसेगो । हेगोतम जघन्य
 ८ वयंनो स्थिति वरकृष्ट १० सागरोपम कोहाकोही १०० वयंनो प्रवाधा उदयनावे । गीयमा नपुसगवेयस्य च पुच्छा । हेगोतम नपुसकवेदनी मत्त ।
 गीयमा जहणेण सागरोवमस्य दीन्ति सत्तभाग पलिउवमस्य अस्सिज्जाभागेण ऊणया । हेगोतम जघन्य सागरोपमना सातिया दीयभाग पयोपमने
 असख्याताभाग ऊणो । उक्कोसेण वीससागरोवम कोहाकोहीयो वीसवाससइक्षार प्रवादा वरइण पुच्छा । वरकृष्ट २० सागरोपम कोहाकोही वीस
 वपनो प्रवाधा हासरतिनो मयस । गीयना जह्णं सागरोवमस्य एकसत्तभाग पलिउवमस्य अस्सिज्जाभागेण ऊणया । हेगोतम जघन्य सागरोपम

गरीपमकोटीकीटीनामक सागरीपम सप्तनागा लभ्येते ततः पञ्चदशत्रिंसागरीपमकोटीकीटीनि किं लभ्यते राशिनयस्यापना १०।१।१५ अत्रा
 स्तेन राशिता पञ्चदशलक्षणैर्गन्थो राशिरकलङ्को गुण्यते साता. पपदस्यैव. एकस्य गुलने तदेव त्रयतीति वचनात् तेषामाद्येन राशिता दश

जलणे पुच्छा, गीयमा ! जहन्तेण दी मासा उक्खोसेण चत्तालीस सागरीवमकोट्टाकीट्टीउ चत्तालीस वास
 सयाइं जाव निसेगो । माणसजलणे पुच्छा, गीयमा ! जहन्तेणं मास उक्खोसेण जहा कोहस्स । माया
 सजलणाए पुच्छा, गीयमा ! जहन्तेण अद्दमास उक्खोसेणं जहा कोहस्स । लोअसंजलणेण पुच्छा, गीय
 मा ! जहन्तेण अतीमुज्जत्त उक्खोसेणं जहा कोहस्स । इत्थीवेदस्स पुच्छा, गीयमा ! जहन्तेणं सागरीवम
 स्स दिवहुसत्तनागं पल्लिनुवमस्स अस्सेज्जइअगेणं ऊणत्त उक्खोसेण पत्तरससागरीवमकोट्टाकीट्टीउ पन्न

नि यावत्कर्पन्निपेक । मानसउज्जपुच्छा, गीतम । जपन्वतो मास वत्कर्पन्ती यथा क्रोध । लोअसज्वरतनपुच्छा, गीतम । जपन्येनान्तमुहुत्तं
 सुरकर्पन्ती यथा क्रोधस्य । स्त्रीवेदस्य पुच्छा, गीतम । सागरीपमस्य सारुं सप्तनाग पत्तोपमस्यासएयेअगोमम्, उरकर्पन्त पञ्चदशसागरी
 मासतो स्थिति उरकट्ट वाहीस सागरीपम कीउकीटो ४०००० वर्षन्ती अथाधा वदेतावे । गीयमा भाणसजलणेण पुच्छा । इगीतस आनसज्वलनतो
 प्रश्न । गीयमा जह० मास ४० जहा कोहस्स मायासजलणेण पुच्छा । इगीतस जयन्त्य १ मास उरकट्ट णिन क्रोधतोस्थिति सायासज्वलनतो प्रश्न ।
 गीयमा जह० अद्दमास ४० जहा कोहस्स लाहसजलणेण पुच्छा । इगीतस जयन्त्य १५ दिनस्थिति उरकट्ट णिम कीधतोस्थिति लोभसज्वरतनतो प्रश्न ।
 गीयमा जह० अती० ४० जहा कोहस्स इत्थीउअस्य पुच्छा । इगीतस जयन्त्य पत्तमुहुत्तं उरकट्ट णिम क्राधस्थिति ज्ञावेदतो प्रश्न । गीयमा जह०
 सागरीवमदिउउत्तु सप्तभाग पल्लिओवमस्स असखिआइभाणेण जयन्ता । इगीतस जयन्त्य सागरीपमतो सातद्विधा छोटभाग पत्तोपमने अमस्थिततो
 भाग जयो । उक्खोसेण पत्तरस सागरीवम कोट्टाकीटो वाससत्तानं अथाधा, पुरिसयेवस्सण्ण पुच्छा । उरकट्ट १५ सागरीपम कोट्टाकीटो १२००० वर्षन्ती

माणत्वात्, सम्यक्त्वेदनीयस्य जपयत् स्थितिपरिमाणं मन्त्रं तत्रैतदुक्तं पट्टपाण्डसागरीयमाणि-सातिरेकाणि तद्वेदमसिद्धस्य वेदितृष्यं न यथनमात्रित्य सम्यक्त्वस्यगमिथ्यात्वयोर्व्यतिरेकात्, मिथ्यात्वपुद्गला एवार्थे जीविन सम्यक्त्वानुशुविशोधिवलत त्रिधा क्रियते तद्यथा-सर्वविशुद्धा अद्वैतविशुद्धा अविशुद्धाश्च, तत्र ये सर्वविशुद्धास्ते सम्यक्त्वेदनीयव्यपदेश लभते ये अद्वैतविशुद्धास्तौ सम्यग्निथ्यात्ववेदनीयव्यपदेशं न विशुद्धा मिथ्यात्ववेदनीयव्यपदेशं लभते न तयोर्व्यतिरेकस्य, यदा तु तेषां सम्यक्त्वस्यगमिथ्यात्वपुद्गलानां स्वरूपतः स्थितिं द्रियते तदान्तरानुत्पत्तिर्न तत्र

अथाहा । सम्यक्त्वेदणीज्जस्य पुच्छा, गो० ! जह० अतो० उक्त्वोसंज्ञं तावन्ति सागरीयमाह सातिरेगाड । मिच्छत्वेदणीज्जस्य जहन्नेणं सागरीयम पलित्तुवमस्स अस्सखंजडनागणं जणम उक्त्वोसं० सत्तरिकोळा कोळीनि सत्तवात्सहस्साइं अथाहा जणिता । सम्यामिच्छत्वेदणीज्जस्य जहक्क अतो० उक्त्वोसंज्ञं वि अ

सत्रागा पत्तोपमस्सासुखेयजागेतोमा, उरकपंतस्सिज्जत् सागरोपमकोटीकोटी स्त्रीणि वपसइस्साणि अथाथा । सम्यक्त्वदनीयस्य पुच्छा, गो० तं । जपयन्तानामुत्तं मुरकपंतं पट्टपाणि सागरोपमाणि सातिरेकाणि । मिथ्यात्ववेदनीयस्य जपयन्तं सागरोपमं मत्स्यापमत्स्यासुखेयजागेतं उरकपंतं सत्तवत्सहस्साणि अथाथोना । सम्यग्निथ्यात्ववेदनीयस्य जपयन्तानामुत्तं मुरकपंतोप्यन्तमुत्तं । कपाय

सगे ते किम उदयभावे पसातावेदनीनां वेदमहारने पतावता सगरी ते जवन्य सागरीपमनासात् ७ भागं कीजं एवना ३ भागंनो स्थितिकधी पि ए ते पत्तोपमनो असंख्यातमेभागं जणी जे हुवे उरकष्टे ३० सागरोपमं कोडाकोडो । तिस्रव वाससहस्साः अथाहा सत्तवत्सहस्साणि पुच्छा । ३ इ जारभंनो अथाथावद्धता ते वसंउदय नावे सम्यक्त्वेदनीकर्मनो पय । गोयमा जह० अतो० इ० क्वावन्ति सागरीयमाह सातिरेगाड । हेगौतम जपयत्सुद्धं उरकष्ट ६६ सागरीपमं भाक्कोरो मनुयावतारिजरी अधिकं । मिच्छत्वेदणीज्जस्य जह० सागरीयमं पलित्तुवमस्स अस्सखंजडनागणं जणया । मिथ्यात्ववेदनीय जपयत्सुद्धं सागरीयमं पुत्तोपमने असंख्यातमेभागं जणी । उक्त्वोसंज्ञं सत्तरि कोडाकोडोश्चो सत्तवत्सहस्साः अथाथा उरकष्टो ७०

रुष्टास्त्विति खिन्नसागरोपमकोटी ज्ञेया स्तासा निष्प्यात्यस्थित्या अस्ति सागरोपमकोटी २ प्रमाणात् त्रयमात्रे ज्ञान्य ज्ञान्येन पातयेदिति
 वचनात् लब्धाद्यात् ये सागरोपमस्य समजागा ते पल्योपमस्येयज्ञागहीना क्रियते ततो प्रवर्तते यथोक्त जदयस्त्वितिपरिज्ञात् मिति ॥ सायाद्ये
 यणिज्जस्य इति ॥ इरियावाहियवधग पदुच अजएनमगुक्कोसेण दो समया सपराइयवधग पदुच अरन्नेय वारस्य ननुशा इति प्रागेव ज्ञावित्त, म
 सातयेदनीयस्य जपन्या खय समजागा पल्योपमास्येयज्ञागीना निद्रापचकवद् भावनीया स्तस्याप्युत्कपत स्थिति त्रिशसागरोपमकोटी २ म

सेण तीस सागरोपमकोटी उ तिनियवाससहस्र अथाहा ० । सातावेदणिज्जस्य इरियावाहियवधग
 पदुच अजहन्मगुक्कोसेण दो समया । सपराइयवधग पदुच जहन्नेण वारसमुज्जाता उक्कोसेण पन्तरससा
 गरोपमकोटीकोटी उ पन्तरसय वाससहसाइ अथाहा । असातावेदणिज्जस्य जहन्नेण सागरोपमस्य तिनिय
 सत्तजागा पलिउवमस्य असासज्जहन्नेण उणता उक्को ० तीस सागरोपमकोटीकोटी तिनिय वाससहसाइ

आयापाडवापीना कर्मस्थिति कर्मनियेक । सातावेदनीयस्येयापकयक प्रतीत्याजयन्वानुस्कर्षण द्वे समये, सास्परायिकवधक प्रतीत्य
 जयन्नेन हादशानुपूर्तां वरकपेर पशदशासागरोपमकाटीकात्य पशदशवपंतान्वाधाधा, असातावेदनीयस्य जयन्नेन सागरोपमस्य त्रीणि न

वसाइ अथाहा । वैगौतम अथय अन्तमुहूर्तं वरकट ३० सागरोपम काटाकोटी तीनहकार वपनी नयाधावे कर्मनोपापा ननुवे । सायावेदणिज्जाय
 इरियावाहियवधग ८७ अजहन्मगुक्कोस्य दोसमया ठिइ ५० । सातावेदनीया वयनद्वारात् इरियावाहोक्रियाना वरगाने अद्योत्पट्टधमय
 चापे पदिनेगमय वाप वीजेसमय वेदे वीजेसमयौ स्थितिकही । सपराइयवधग पदुच लहणेण वारसमुज्जाता ७० पलरचसारा
 वम कोटाकोटीपो । सपराइयवधग वयकने लघ्व १२ मुहूर्त वयक हवे वरकट १५ कोटाकोटी सागरोपमनौ स्थिति । पलरुवामसयार अवा
 हा असायावेदियवधग जह ० सागरोपमस्य त्रिषिषसभाग पलिभावनस्य असासुल्लभागेण जपया ७० तीस सागरोपम कोटीकोटीपो । १५ वप

कउत्तप्ररूपा अल्पयुत्यप्ररूपाचेति तत्रोत्कृष्टावाधाकण्डकरूपणा उत्कृष्टनिपेक्षरूपणा च दर्शिता भवति, अवाधाकालपरिज्ञानोपायध्यानं-यस्य
 यायत्त सागरोपमकोटीकोट्य स्तस्य तावति यंशतान्यावाधा यस्य पुन सागरोपमकोटीकोट्यो मध्येस्थिति तस्यायुर्वर्षस्यान्तर्भूतं मास्युप स्तु जय
 न्यतीन्तर्भूतं मासा उदत्तपंत पूर्वकोटीत्रिजाग ततश्च मवाधाकाल परिज्ञाया वाधाविषयाधि स्वय प्रावनीयानि, निद्रापचकविषय सूत्रमाह-नि
 द्रापचस्य जते । इत्यादि । अत्र जपन्वत त्रयः सागरोपमस्यसप्तत्रागाः पत्योपमास्येयत्रागोना कात्र जावनेति चे दुच्यते-पचाना ज्ञानावरणप्रक
 तीना चतसृणा दर्शनावरणप्रकतीना चतुर्दर्शनादीना सुवलनलोत्रस्य पञ्चानामन्तरायप्रकतीनाथ जघन्या स्थिति रत्तर्भूतं सातवेदनीयस्य सन्नयाधि
 कस्य द्वादशानुपूर्ता इतरस्य तु द्वी समये षषो द्वितीयसमये त्वकर्मोत्पन्न मिति, यत्र कीर्त्युर्वर्गो त्रयो रष्टी भूतां पुरुषस्याष्टी सवरसा
 राणि सुवलनकोपस्य द्वी मासौ सुवलनमानस्येको मास सुवलनमायाया छद्दगास जेयाणातु प्रकतीना या २ स्वकीया उत्कृष्टा स्थिति तस्या उत्कृष्ट
 या सप्ततिसागरोपमकोटी २ प्रमाणाया भिव्यात्स्थित्या ज्ञाने हते यल्लभ्यते तस्यलोपमास्येयत्रागरीन जघन्यस्थितिपरिमाणे तत्र निद्रापचकस्यो

कम्मसस केवडय काल ठिई पखत्ता ? गोयमा ! जहल्लेण सागरोवमस्स तित्ति सत्तनागा पलित्तुवमस्स
 अ्सखेज्जडभागेण जगता उक्कोमण तीस सागरोवमकोट्टाक्रीडं तित्तिवय वाससहस्साइं अुवाहा अुवा
 ह्मणिता कम्मठिई कम्मनिसंगो । दसणचउक्कास्सणं भते ! पुच्छा, गोयमा ! जहयेण अुतोमुज्जतं उक्को

रोपमस्य त्रय स्सप्त ज्ञाना' पत्योपमस्यास्येयत्रागरीना उत्कथंत स्थित्सागरोपमकोटीकांटी । त्रीणि वर्षं सरस्ताणि आवाधाऽव्याचीनाक
 र्मस्थिति, कर्मनियमः । दर्शनचतु फल ५० । पुच्छा, गीतम । पत्यन्तेनात्तर्भूतं मूटकपतन्नि शारसागरोपमकोटीकोट्य. स्थितित्रयं सरस्ताणि

धा तद्वे चनुभववोग कर्मस्थिति इवे कर्मनो रक्षिवो इवे । कश्चित् कश्चित् । कर्मनियमकस्थितना प्रत्यसमयपर्यन्त । गोयमा दसण चउक्केषभते
 कम्मस केवड ठिं । हेगीतम दमन धुत्कनी कर्मनो, केतलाबाबनी स्थिति । गाथना उदं अतो ६० तोरुसागरोवम कोट्टाकीदीधो, तिणियवास स

तद्यु सर्वलयमूलमस्मरारायस्य घापकस्य स्वगुणस्थानकचरमयस्यै वर्तमानस्य वेदितव्य उत्कर्षतस्त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्य साच भिव्यादृष्टि रुक्कष्टे सन्तेऽो वसन्तमानस्यावसातव्या, तदेव नियता प्रागुक्तस्य मशस्योत्तरसिद्धिः, इदमप्युपस्थाकरण त्रीणि वर्षसहस्राणि आवाधा अवापोनाकर्मस्थिति. कर्मद तिक्तनिपेक्ष इति किमर्थमिति चे दुच्यते-स्थितिद्विविध्यप्रदर्शनाय तयोर्द्विविधा स्थिति कर्मरूपतावस्थानलक्षणा आगुपीया य, तत्र कर्मरूपतावस्था नलक्षणा स्थिति नपि कल्पेदमुक्तः, त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोटय इति अनुभवयोना यत् आरभ-गोचिर्वर्षसहस्राण्यायाधिकमुक्त प्रयति धानावरणीय कर्म वरकष्टस्थितिक घच सत् वर्षसमयादारज्य त्रीणि वर्षसहस्राणि याव न किंचिदपि स्यादयते जीवस्य याधामुत्सादयति ताद्य रकालमध्ये दलिकानियेकस्याप्रावात् तत ऊर्ध्वे दलिकानियेक तथाषाष्ट-अवाधोना अवाधायाकालपरिशीना अनुभवयोग्या कर्मस्थिति किमुक्त प्रयति कर्मनिपेक सर्वैव-प्रथमास्थितौ प्रज्ञतो द्वितीयस्थितौ विज्ञोपरीनद्य ताव दृक्त्यौ याच स्थिति चरमसमप गतावता च यदुक्तमग्रायणीयास्ये द्वितीये पृथककर्मप्रकृते प्राज्ञते वन्यविधाने स्थितियथाधिकारं चत्वार्यनुयोगद्वाराणि तद्यथा-स्थितिव्यवस्थानप्ररूपणा आवाधा

नते । कम्मस्स केवतिय काल ठिडं पणत्ता ? गोयमा । जहन्तेण अतोमुज्जत्त उक्कोत्तणं तीत्त सागरोवम कोठान्कोणीत्तं तिनिय वाससहस्साइ अवाहा अत्राह्णणिता कम्मठिइ कम्मणिसेगो । निद्वापचयस्सण न्नेते !

यावदीश्वरताविहीनता । अन्तराय प्रदत्त । कर्म कतिविध प्रज्ञप्तम् ? गौतम । पञ्चविध प्रज्ञप्तम् तद्यथा-दानान्तराय यागहीर्षान्तरायम् । द्वा नावर्णोपस्य कर्मणो प्रदत्त । कियत्त काल स्थिति प्रज्ञप्ता ? गौतम । जपत्येनात्तमुहूतं मुक्तकंपतल्ययति त्रिंशत्सागरोपमकोटीकोट्य-त्रीणि वर्षसहस्राणि आवाधाऽवापोना कर्मस्थिति कर्मनिपेक्ष । निद्वापचकस्य प्रदत्त । कर्मणा कियन्त काल स्थिति प्रश्न ? गौ० । जपत्येत साग यार्मन्तो हेमगवन केतनाकालनी स्थितिकही । गौतमा जहन्तेण अतोमु० उ० तीससागरोवम कोठाकोठोपो तिण्णवाससहस्सारं अवाहा भण्णि० । हेगौतम जपत्त प्रत्तमुहूतं चल्हट ३० सागरोपम कोठाकोठो वन्या उमयथो ३ सहस्रवर्षेणो दत्त भिलिगानो यथाव हुवे अवाधायेकर्मनो याधा

पञ्चवथा
पट
२३

(२)

नेदा ययुना तयोरेव नेदानाए-उष्णगोएण जते । कस्मे कश्चिरे पत्तते इत्यादि ॥ सुगम , सम्प्रति प्रन्तरायनेदानाए-अन्तराण्ण जते । कस्मे कश्चिरे इत्यादि ॥ तत्र यदुदयवक्षात् सति विजने समागते च गुणवति पात्रदत्त भस्मे मराफलानिति जानन्नापि दातु नोत्सहत् तद्दानान्तराय , यया यदुदयवक्षा दानगुणेन प्रासदादपि दातुर्गते विद्यामानमपि दीयमानमर्थदान याञ्चाकुशलोपि गुणवानाप वाचको न लभते तद्दानांतराय , तथा यदुदयवक्षा त्वस्यपि पिशिताहारादिसम्भवे असति च प्रत्याख्यानपरिणामे वैराग्ये वा क्वलकाप्यणया क्रोत्सहते मोक्षु तद्दीगान्तराय नेत्र नृपत्रोगान्तरायमपि ज्ञावनीय नवर जोगोपजोगयो रय विशेष सकुदुमुज्यत इति श्लो ॥ आहारपुष्पमाइंशु उवजोगो उ दुशोपुग उवसुजग उवञ्चविलयाइ ॥ तथा यदुदया त्वस्यपि नीरुति शरीरे यीवनिकायानर्प वत्तमानोऽल्पप्रको जवति यदुलवत्यपि शरीरे साध्यपि प्रयोगनाप भी तस्यत्वतया प्रवत्तते तद्दीयान्तराय , उक्तो मूलोत्तरप्रकृतिविभाग सम्प्रति उत्तरप्रकृतीना जयन्योत्कृष्टस्थितिप्रतिपादनविधीयु प्रपमतो प्रानाउर जीपस्य पञ्चप्रकारस्यापि विषये प्रसूत्रमाए-नागावर्णिसिज्जण जते । कस्मस्य केवडकाल ठितो पद्यता इति ॥ ज्ञानावर्णोयस्य नतिश्रुतावर्ण नन पर्यायकेवल्लाधरणजेदत्त पञ्चप्रकारस्य कर्मको जदक्त । कियत काल यावत् स्थिति प्रद्यता एवमुक्ते जगवानाए-गौतम । जयन्मेनालमंहुते

गोएण जते ! कस्मे कतिविहे पखत्ते ? गोयमा ! श्युठविहे पखत्ते , जाडविसिठता जाव इस्सरियविचि ठता । एव नीयागोएण नवर जातिविहीणता जाव इस्सरियविहीणता । श्युतराडएण जते ! कस्मे कति विहे पखत्ते ? गोयमा ! पचविहे पखत्ते , तजहा-टाणतराडए जाव वीरियतराडए । नाणाचरणिज्जस्सण

कम कतिविध प्रवत्त ? गौतम । अएविध प्रवत्तन् तद्यथा-जातिविश्रष्टता यावदीधरताविश्रष्टता , एव नीधिर्गोमसपि नवर जातिविहीणता

हीन यावत् इशरविहीन । अतराडएण भत कस्य अविहे पं० । अन्तरायकर्मणा इभगवत् केतताभेट कक्षा । गोयमा पचाव० त० । उगौतम ५ भेट कत्ता । दाणतराए जाव उपभांगतराए । दानान्तराय योवत् उपभोगान्तराय । पायावरणिकस्युषं भते कस्यत्ता केवदयजान टिठ प० । आनावरणो

दोषात् जहा अमृणाणित्यणो यथा यदुदयवशा जीवस्य स्वर-श्रोतृणा प्रतिहेतु रूपजायते तस्स्वरनाम, तद्विपर्यति दुस्वरनाम यदुदयत् स्व
 र श्रोतृणा मप्रोतयं प्रवर्तते, तथा यदुदयवशात् यद्येते प्रापते या तस्खं लोक प्रमाणी करोति दर्शनसमनतरमेव ज्ञानोज्युत्यानादि समाचरति
 तदादेयनाम, तद्विपर्यति यदुदयवशा दुपपन्नमपि द्रुवाणो नोपादेयवचनो प्रवर्तते नाप्युपक्रियमाणोपि जन सास्याज्युत्यानादि समाचरति
 ति, तथा तप सोयंत्यागादिना समुपार्जितेन यज्ञसा कीर्त्तनेष्वब्दन यज्ञ कीर्त्तं यद्वा यज्ञ सामान्येन स्याति कीर्त्तं गुणोत्कीर्त्तनरूपप्रज्ञसा,
 अथच सर्वदिगामिती पराक्रमकृता ॥ सर्वजलोत्कीर्त्तीयगुणता यज्ञ एकदिग्गामिनी पुण्यकृता वा कीर्त्तिं ते यदुदयवशा इवत साद्यज्ञ कीर्त्तिना
 म यदुदयवशात् मध्यस्थस्यापि जपस्याप्रज्ञस्थो प्रवर्तते तदयज्ञ कीर्त्तनाम, तथा यदुदया ज्ञानुशरीरेषु स्वजात्यनुसारेणाङ्गप्रत्यगाना प्रतिनियत
 स्थानवर्तिता प्रवर्तते तान्निर्माणास, तच्च सूत्रधारकल्पे तद्भावेऽपि तद्व्यक्तकल्पेऽङ्गोपाङ्गनामादिभि निर्वातितानामपि शिरतदरादीना स्थानवृत्ते
 रीयम स्यात्, तथा यदुदयवशात् अष्टमहाप्रातिहार्यप्रमुखा बहुलिङ्गादतिशया प्रादु स्यान्ति तत्तीर्थकरनामकसौंदर्य तदेव मुक्ता नामकमणो
 द्विषयारिजान्त्रेदः सम्प्रत्यतेपानेय गत्यादोना मधान्तरजैदप्रतिपादनाथंमाह-गङ्गनामंश जते । कस्मै कश्चिदे एकते इत्यादि ॥ समस्तानपि निग
 दश्चिदु, वक्ता नामकमणो प्रेदा सम्प्रति गोत्रकमजदानाह-गोस्य जते । इत्यादि ॥ यदुदयवशा दुस्वरजातिकुलवलयतपोरूपैश्चर्यश्रुतस्वरकाराज्युस्या
 नाद्यप्रदानाज्जालिमप्रशदिसमय सादुचे गौत्र' यदुदयवशा त्पुन शोभादिसम्पन्नोपि निदा लजते हीनजात्यादिसम्भव च नीचिर्गौत्र मुक्ती गौत्र

य । गोएण जते ! कस्मे कतिविहे पयस्ते ? गोयसा ! दुविहे पयस्ते, उच्चागोए य नीयागोए य । उच्चा

विरायोगतिनाम च । गोत्र प्रदत्त । कर्म कतिविप प्रश्नम् ? गौतम ! द्विविध प्रश्नम् तद्यथा-वर्गौत्र च नीचिर्गौत्र च । उच्चगौत्र प्रदत्त ।
 च भते कश्चिदे प० । लवगोपना हेमगवन् केतसाभेट । गोयसा अद्विहे त० । हेगौतम चाठभेट कश्चिदे-जातिविसृष्टिया जाव इस्वरियवि० । जाति

विग्रिष्ट यावत् इस्वरनेविग्रिष्ट । एय नीयायोएत्रि ष्वस् वातिविहीणया जाव इस्वरियदि० । इमदोष नीचगौत्र पिप द भेदे पर एविगिय जातिवि

तितानाम कमे द्विधा प्रशस्तविहानीगतितानाम अग्रशस्तविहायोगतर्तनयेति, तथा त्रयति तन्नाद्यन्ततसाः ततो विवक्षितस्थाना दुद्विजते गच्छन्ति
 च स्वायाद्यायोगेनायं स्थानान्तरमिति त्रया द्विद्रियादय तत्पर्यायपरिगत्य वैद्य नामकमार्गपि त्रयनाम, यदुदयादुद्यान्नितापेपि तदस्थानपरि
 रासमर्थं पृथिव्यपतेजोवायुवनस्पतय, स्थावरा जायते तत् स्थावरनाम, तथा वादरनाम यदुदया वादरीभवति वादरत्व परिशामधि
 शप यदुदयात् पृथिव्यादे रेकैकस्य जतुशरीरस्य चतुर्गोत्रत्वात्तत्रावेपि यदूना समुदाये चतुषा ग्रहण भवति तद्विपरीत सूक्ष्मनाम, यदुदयाद् वा
 नामपि समुदिताना जतुशरीराणा चतुर्गोत्रता न प्रथति उक्तञ्च-श्रावकप्रश्निसूक्ष्मलटीकाया-सूक्ष्मनाम यदुदयात्सूक्ष्मो भवति अत्यन्तसूक्ष्मोऽतीन्द्रि
 य इत्यर्थ इति, पर्याप्तकनाम यदुदयात् स्वयोग्यपर्याप्तिनित्तनसमर्थो भवति पर्याप्तनाम, आहारारटिपुद्गलग्रहणपरिणामनहत्तु रात्मन. ज्ञानि
 विशप यत्तच्च मानेभोक्त मिति, तद्विपरीतमपर्याप्तकनाम, तथा यदुदयात् जीवजीवमतिजिन शरीर तत्प्रत्येकनाम, यदुदयवशा त्पुनरनता
 ना जीवनामक शरीर भवति तदसाधारणनाम, तथा यदुदयवशात् शरीरावयवनाम शिरोस्थिताना स्थिरता भवति तत् स्थिरनाम, तद्विपरीत
 मस्थिरनाम, यदुदयवशात् जिह्वादीना मवयवना स्थिरता भवति तदास्थिरता नाम, तथा यदुदया वाजे स्परितना अवयवाः शुना जायते त
 त् शुभनाम, यदुदयवशा वाजे रपसन पादादयो वयवा अशुभा भवति तदशुभनाम, तथा हि-शिरसास्पृष्टस्युष्यति पादेनतुरुष्यतिकामिन्या ।
 पादेनापिस्पृष्ट स्तोपमुपपाति ततोव्याजिचार । इतिचत् न तस्य परितोपस्य मोक्षनीयनिवधनत्वात् वस्तुस्थितिज्ञेय चित्यते इत्यदोप, तथा यदु
 दयवशा दनुपशदपि सर्वस्य मन प्रियो भवति तदनुजगनाम, तद्विपरीत दुर्जगनाम, यदुदया दुपकार रुदपि जनस्य हेयो भवति उक्तञ्च-अणु
 कर्षणियदुश्च जीहृपित्तससुजगनामुदृष्टे । तवगारकारगोविन्दु नरुधस्पृष्टपगसुदृष्टे ॥ १ ॥ सुजगपदस्यविदुतो इतिचिअसकृदुपुगोत्रादिवि । जायइत

प विहायोगतिना दीयमेत कथा ते कश्चै-पथत्यविहायगतियामे अपसस्यविहायगतियामे । प्रशस्तविहायोगति अमशस्तविहायोगति । गोप्यं न
 ते कस्ते कश्चिद्वि प० । गोपकर्मना केतवाभेद । गोयना दुर्विहा त० । हेगौतम द्वायभेद तेकथा । पथागोए योथागोए । सवगोच गोचगोत्र । पथागोत्र

नाम मनुष्यापूर्वीनाम देवानुपूर्वीनाम । तथा यदुदयवशा टात्स्न उच्छ्वासनिश्वासाद्यि रुपायते तदुच्छ्वासनाम, प्राए यद्येवमुच्छ्वासपर्याप्तिनाम क्रोपयोग उच्यते-तदुच्छ्वासनिश्वासाभ्यामुदहस्यप्रहस्योपविशालाद्यि रूपजायते साध खल्वि नोच्छ्वासपर्याप्तिभतरेण स्वफरा सापयति नसलु इतु रूपशक्तिमानपि पनुप्रदणशक्तिमकरेण हेमुमल, तत उच्छ्वासपर्याप्तिनप्याटनाय मुच्छ्वासपर्याप्तिनाम उपयोग्यो, एवमन्यत्रापि यथायोग निरालिपयता मूलभाषया प्रायनीया, यदुदया ऋतुशरीराणि व्यरूपणानुभान्यापि उज्जप्रकाशलयण मातप कुर्वति तटातपमास, तद्विपाकश्च भा नुमनलगतौपू पूर्विबीकायिकेय न शही प्रयचनेपि निषेधात् । तथोत्पल्लमुज्जस्येतामीदयात् उरकटलोहितवर्षेनागोदयाच्च प्रकाशकत्वानिति, तथा यदुदयाऋतुशरीरास्य नुल्लप्रकाशरूप मुद्योत कुर्वति यथायतिदोत्तरवैकियचन्द्रनक्षत्राविमानरत्नोपपद्य क्कटुद्योतनाम, तथा विहाय सा गति र्गमग विहायोगति, ननु सर्वगतत्वात् विहायस स्ततो न्यत्र गति नसभवतीति किमर्थंविशेषय व्यच्छेद्याभावात्, सत्यनतत् कितु य दि गतिरेवोच्यते ततो नाग प्रथमप्रकृतिरपि गति रस्तीति पीरुत्पयाप्रकसादत क्कटुवच्छेदार्थं विहायसागति नतु नारकादिपर्यापपरिराति रूपति विहायोगति, सा द्विविधा प्रशस्ता अशस्ताच, तत्र प्रशस्ता असगलरुपमादीना अप्रशस्ता एरोष्टुमरिपादीना तद्विपाकवैद्य विहायोग

देवानुपूर्वीनाम । जससनामि एगागारे पश्यते । सेनाणि सहाणि एगागाराइ पन्नत्ताइ जाव तित्यगर नामि । नवर विहायगतिनमि दुविहे पश्यते, तजहा पसत्यविहायगतिनमि य द्युपसत्यविहायगतिनमि

शोषात् सर्थाणि मकाकाराणि प्रशस्तानि यावतीर्थकरणम । तत्र विहायोगतिनाम द्विविध प्रकृत तद्यथा-प्रशस्ताविहायोगतिनाम चाप्रशस्त म पर्य, । उपयाननामकर्म विण एकहीजेमेट पराघातनाम पिण एकहीजेमेट द्विवे यानुपूर्वीनां प्रश्न । गोवना चरत्विहे प० त० । हेयोतन ४ भेट त क० । चेरदेवानुपूर्वी जाव देवानुपूर्वी उक्तासनाम एगागारे सेनाणि सत्वाणि एगागारभा० । नारकोनो धानुपूर्वीयावत् देवानुपूर्वी लचासनाम एकउदय गेपयाकतासर्वने एकहीजेमेट वापिधे । साव तित्यशनाने श्वर विहायगतिनमि दुविहे प० त० । यावत् तीर्थकरणामकान्तरे एनिमे

रिक्तनाम कटुनाम कषायनाम क्लान्नास मधुरनाम, तत्र यदुदयात् जलशरीरेषु तिक्ती रसो ज्ञयति यथा गरिचार्दीना तत्तिसकरसनाम, एवं शोषाण्यपि रसनामानि ज्ञावनीयानि, तथा स्पृशसस्पर्शो स्पृश्यते इति स्पर्श, श्रक्तरीति घञ् प्रत्यय । सघ कर्मशमदुलघुगुहस्निग्धरुद्धशीतो एभिरेता दष्टप्रकार तद्विबधन स्पर्शनामप्यष्टप्रकार यत्र यदुदया ज्जलशरीरेषु कर्मण स्पर्शो ज्ञयति यथा पापाण्यविशेषादीना तदज्जकेश्यस्पर्शना म, यत्र शोषायपि स्पर्शनामानि ज्ञावनीयानि, तथा यदुदयात् प्राणिना नगुरुणि नित्यं कित्वगुरुलघुरूपाणि ज्ञयति तदगुरुलघुनाम, तथा यदुदयात् स्वशरीरावयवैरेव शरीरात् परिवर्धमाने प्रतिजिह्वायल्लदलम्बकषोरदन्तादिभि रूपहस्यते यद्वा स्वयन्तोवधनमेवप्रपयातादि नि स्तुपुपासनाम, यदुदयात् पुनरोज्ज्वी दर्शनमात्रेण वाकृषीष्टेन वा मरणानुसन्नामपि गत सन्त्यामानपि श्वासमापादयति प्रतिवादिन च प्रतिज्जाविधात करोति तत्प्राघातनाम, तथा कूपरेनाहुलगोमूत्रिकाकारेण यथाकम द्वित्रिषत्, समयप्रमाणेन विग्रहेन प्रवालरोत्वसिस्थान गच्छ तो जीउस्मान्नेरिन्तियत्नागमनपरिपाटी श्रानुपूत्री तद्विपाकवेद्य नामकर्मोपि कारणेकार्योपचारा दानुपूत्रीनाम तद्यथा-नेरियिकानुपूत्री

पंचविहे पश्यते, तंजहा-तितरसनामे जाव मञ्जरसनामे । फासनामे पुच्छा, गोयमा ! अष्टविहे प०,
तजहा-कक्करुफासनामे जाव लुक्कफासनामे । अगुरुलज्जफासनामे एगागारे पश्यते । उवघातनामे एगा
गारे पश्यते, पराधायनामे एगागारे पश्यते । अ्याणुपूत्रीनामे चञ्चिहे पश्यते, नेरइयअ्याणुपूत्रीनामे जाव

तम । अष्टविध मञ्जरसम् तद्यथा-कर्मेश्वरपर्शनाम यावद्दृशस्पर्शनाम । अगुरुलघुनामेकाकार मञ्जरसम् । उवघातनामेकाकार मञ्जरसम् । पराया
तनामेकाकार मञ्जरसम् । श्रानुपूत्रीनाम चतुर्विध मञ्जरसम् तद्यथा-नेरियिकानुपूत्रीनाम यावद्दृवानुपूत्रीनाम । उस्त्यासनामेकाकार मञ्जरसम् ।

रस यावत् मधुररस ५ स्वर्गो प्रश्न । अष्टविहा त० । हेमोतम ८ भेद कथा । कक्करुफासनामे जाव लघुयफासनामे अगुरुलघुनामे पुच्छा । कर्म
सम् यावत् लघुमर्गं प ८ मधुररसपुत्री प्रश्न । गोयमा एगागारे प० । हेमोतम पक्करीवेदे उवघायनामे एगा० पराधायनामे एगा० अ्याणुपूत्रीना

त्यग्रीवपरिमलसस्थानं तन्मयग्रीवपरिमलसस्थाननाम, एव शोषार्यापि वाच्यानि । तथा वर्णते अलङ्कियते शरीरमनेनेति वर्णं सूचयचप्रका
 र द्यतपीतरक्तनीलकण्ठनेत्रा त त्रिद्वयन नामापि पवषा तद्यथा-श्वेतवर्णनाम पीतवर्णनाम रक्तवर्णनाम नीलवर्णनाम रुध्रवर्णनाम, तत्र यदुद
 या उज्जुशरीरेषु श्वेतवर्णनामदुर्जावो यथा विद्राकटकानां तत्र श्वेतवर्णनाम, एवं शोषवर्णनामान्यापि प्रावनीयानि, तथा मन्थ अर्दने गप्यते आघ्रा
 यते इति गद्य स द्विधा सुरनिगधो दुरनिगधश्च तन्निवचन गयनामापि द्विधा तद्यथा-सुरनिगधनाम दुरनिगधनामच तत्रयदुदयाज्जितु शरी
 रेषु सुरनिगधं उपजायते यथाशत्रुपत्रमालतोकुसुमादीनां तत्सुरनिगधनाम यदुदयादुरनिगधश्च शरीरपूजायत यथा लज्जादीनां तद्दुरनिगध
 नाम, तथा रस आस्वादनलक्षणयो, रस्यते आस्वाद्यते रस स पञ्चधा-तिक्तऋतुकपायास्त्रमधुश्रेदात् तन्निवचन रसनामापि पवषा तद्यथा-

संस्थाणामि साइसंस्थाणनामि वामणसंस्थाणनामि सुजसंस्थाणनामि ऊरुसंस्थाणनामि । वन्तनामिण जते ! कइ
 विहे पयत्ते ? गीयमा । पचविहे पयत्ते, तजहा-कालवन्तनामि जाव सुक्किलनामि । गंधनामिण जते !
 पुच्छा, गीयमा । दुविहे पयत्ते, तजहा-सुरनिगधनामि दुरनिगधनामि । रसनामि पुच्छा, गीयमा !

ग्रीवपरिमलसस्थाननाम सादिसस्थाननाम वामनसस्थाननाम कुपसस्थाननाम हुण्डसस्थाननाम । वर्णनाम जदत्त । कतिविच प्रश्नम् ?
 गीतम् । पचविच प्रश्नम् तद्यथा-कालवर्णनाम यावच्छुक्किलवर्णनाम । गंधनामो जदत्त । पुच्छा, गीतम् । द्विविच प्रश्नम् तद्यथा-सुरनि
 गधनाम दुरनिगधनाम । रसनाम पुच्छा, गीतम् । पचविच प्रश्नम् तद्यथा-तिक्करसनाम माध्वमधुरसनाम । स्पर्शनाम पुच्छा, गी
 तम् । वषणामेण पुच्छा । वर्णनी प्रश्न । गीयमा पचवि० । ऐगीतम् पाचेभट ते कच्छाके-काशयणनामे जाव मुक्किलवर्णनामे । कालोवर्णनामे जावत्
 पचभीवर्णं । गंधनामिण पुच्छा । गंधनां प्रश्न । गीयमा दुविहा त० । ऐगीतम् दीयभट ते कच्छा । सुरनिगधनामे दुरनिगधनामे रसनामिण पुच्छा ।
 सुरनिगधं दुरनिगध रसनी प्रश्न । गीयमा पचवि० त० । ऐगीतम् पाचभेदे ते कच्छा । तित्तरस्यनि जाव महारस्यनामे शसनामिण पुच्छा । तित्त

तम् । वषणामेण पुच्छा । वर्णनी प्रश्न । गीयमा पचवि० । ऐगीतम् पाचेभट ते कच्छाके-काशयणनामे जाव मुक्किलवर्णनामे । कालोवर्णनामे जावत्
 पचभीवर्णं । गंधनामिण पुच्छा । गंधनां प्रश्न । गीयमा दुविहा त० । ऐगीतम् दीयभट ते कच्छा । सुरनिगधनामे दुरनिगधनामे रसनामिण पुच्छा ।
 सुरनिगधं दुरनिगध रसनी प्रश्न । गीयमा पचवि० त० । ऐगीतम् पाचभेदे ते कच्छा । तित्तरस्यनि जाव महारस्यनामे शसनामिण पुच्छा । तित्त

नारायणसहनने, य त्पुन कीलिकारहिते सहेने तत् अयेतनाराधे, यत्र त्वस्यो मकटयधे एव केवली जवति तर्षेहनने नाराधे यत्तैलेकपात्रे
 नरेन्द्रेयस्यो द्वितीयपाथेच कीलिका तदनुनाराचसहनन यत्र त्वस्थान कीलिकामात्रमुन्येव प्रवति तामचनन कीलिकास्य, यत्र पुन परस्परपथे
 तमात्रस्पर्शोलेदना सेवामागतानि अस्थानि नित्यमेव एतन्नाराधिकाया परियोलना मायाकृति तस्मेगत एएनन मृत्तन्निधन सहननानामाधि
 पोडा तद्यथा-वज्रपतनाराधसहनननाम अयेनाराधनाम कीलिकानान यथापेनाम, तत्र यदुदयात् यज्येवमनाराचसहनन न
 तित तद्वज्रपतनाराधसहननामस्यपि ज्ञावनीय, तथा सस्यानमाकारविशेषे श्लेषि गृहीतसघातिगद्येषु श्रीदारिकादपु पुद्लेषु सस्यानविशेषा
 यस्य कर्मण उदया इवति तदसत्याननाम तद्यथा-समचतुरस्रसत्याननाम व्यग्रोधपरिमण्डलसत्याननाम साटिलसत्याननाम यागप
 स्थाननाम कुण्डलसत्याननाम हुडकसत्याननाम च, तत्र यदुदया दसुमता समचतुरस्रसत्यान मुपजायते त एतेनचतुरस्रसत्याननाम, यदुदया सु

नामिण जते ! कडविहे पसते ? गोयमा ! तदिहे पसते, तजहा-यडरोशजनाशयसंघयणनामि रिसहनारा
 यसघयणे नारायसंघयणनामि अरुनारायसघयणनामि लेवठसघयणनामि । सडाणना
 मेण जते ! कइविहे पसते ? गोयमा ! तदिहे पसते, तजहा-समचउरमसठाणनामि मग्गीहपरिमण्डल

म् ? गीतम । पद्विध प्रघसत तद्यथा-वज्रपतनाराधसहनन नाम अपजगाराधसहनननाम नाराधसंहनननामदुनाराधसंहनननाम कीलि
 कासहनननाम येथातसहनननाम । सत्याननाम प्रवृत्ता । कतिविध प्रघसम् । गीतम । पद्विध प्रघसम् तद्यथा-समचतुरस्रसत्याननाम न्य

अतपनाराधसघयण अयमनाराधसघयण नाराधसघयण ३ । यजनाराधसघयणे कीलिनामवयणे के-इसघयणे ६ । अरुनाराधसघयण कीलिकामघ
 यणे सेनामसघयण ६ । सठाणनामेष पक्क । सत्यानां प्रघन । गोयमा काय-तं । इगीतम-खभदे ते कडेके-समचउरसठाणनामि निगाहपरिम
 डनस-उरिस-वातपड-सुनच-इडस-६ । समचतुरस्रसत्यानि निमिष परिमण्डलसत्यान सादिसत्यान धननसत्यान कुजतत्यान मुप-कसरा

नानुशासि सघातरूपा जायते तदीदारिकसंघातनाम । एवं वीक्ष्यादिसरीरसघातनामस्थपि प्रावर्त्तनीय ॥ सघयणनामे इति ॥ सहननमस्थिरचनानावि
 शेष आर्य मूलटीकार-सहनन मस्थिरचनाविशेष इति, तेन य प्राह । सूत्रे शक्तिविशेष एव सहननमिति तथाच-तद्ग्रन्थ-सुते सतिविशे
 सोसघयणमिति, सघात मूलटीकारेणापि सूत्रानुयायिना सहननस्यास्थिरचनाविशेषात्प्रत्ययान्तरात्, यत्वेकेन्द्रियाणां सवात्सहजन
 मन्यत्रोक्त तदोकाकारेण समाहितमीदारिकशरीरत्वा दुपघात इदं मुक्त द्रष्टव्य, नतु तत्त्ववृत्तौ यदि पुन शक्तिविशेष स्या ततो देवाना नीरयि
 काणा च सहनन मुख्यते, अप च ते सूत्रे साक्षादसंनिन उक्ता इत्यलमुत्सूत्रप्रकल्पकविसान्दितेषु सघास्थिरचनाविशेष श्रीदारिकशरीर एव नान्येषु
 तेषामस्थिरहितत्वात्, तत्र पौढा तद्यथा-वज्रपंजनाराच अयत्ननाराच नाराराच गृह्णनाराच कौलिका सेवासंघ, तत्र वज्र कौलिका क्रमज्ञ परिवेष्ट
 नपह नाराचमुपगतो मकटवध, उक्तम्-रिसरीरयोऽपहो धकपुणकौलिपामुखेयद्या । उजयोमकूडयर्धनारायतवियाणाहि ॥१॥ ततश्च द्वयो रस्थो रु
 द्रयतो मकंदयन्धनवद्वयो पहाकतिना वृत्तियेनास्यो रूपारि वेंष्टस्यो रूपारि तदस्थिरत्रयेदिकौलिकास्य वज्रनामक मस्थि यत्र जवति तत्र वज्रपंजन

तजहा-उरालियसरीरवधनामे जाव कम्मगसरीरवधनामे । सरीरसघायणनामिणं जते ! कतिविहे प०
 गोयमा ! पचविहे पखत्ते, तजहा-उरालियसरीरसघायणनामे जाव कम्मगसरीरसंघायणनामे । सघयण

म् । गौतम ! पञ्चविध मज्झमं तद्यथा-श्रीदारिकशरीरवधननाम यावत्कामंशरीरवधननामा । शरीरसघातनाम जदन्त ! कर्म कतिविध
 मज्झम ? गौतम ! पञ्चविध मज्झमं तद्यथा-श्रीदारिकशरीरसघातनाम यावत्कामंशरीरसघातनाम । सघयणनाम जदन्त ! कतिविध मज्झ

यासरीरवधयणाने सरीरसघायणनामेण पच्छा । श्रीदारिकशरीरवधन यावत् कामंशरीरवधन ५ गरीरना सघातनो प्रश्न । गोयमा पचविहा
 त० । हेगौतम पाचभेद ते कइहे-उरालियसरीरसघयणे जाव कयासरीरसघयणनामे सघयणनामेण पुच्छा । श्रीदारिकशरीरसघयण यावत् कामंश
 यरीरसंघयण ५ सघयणनो प्रश्न । गोयमा कवि० तं० । हेगौतम कप्रकारे ते कइहे-वयरोसमनारायसघयणे उसमनारायसघयणे नारायसघयणे । व

एरकशरीराणां पुद्गलानां गृह्यमाणानां परस्परं तैजसकार्मणपुद्गलैश्च सह सम्यग् सदाहारकथनं, यदुदया तैजसपुद्गलानां गृह्यमाणा
 ना च परस्परं कार्मणपुद्गलैश्च सह सम्यग् सदैवस्यननाम, यदुदयात्कार्मणपुद्गलानां गृहीतानां गृह्यमाणानां च परस्परं सम्यग् सदात्का
 र्मण्यधननाम, तथा सघातान्ते पियडोक्तियते श्रीदारिकादि पुद्गला येन तत्सघातं सच तन्नामघ सघातनाम, तदपि पञ्चधा तद्यथा-श्रीदा
 रिकसघातनाम वेत्तिसघातनाम आहारकसघातनाम तैजससघातनाम कार्मणसघातनाम, तत्र यदुदयवशादीदारिकपुद्गला श्रीदारिकशरीररच

ऋते ! कश्चे पुच्छा, गोयमा ! पंचविहे पश्यते, तंजहा-एगिदियजातिनामि जाव पंचिदियजातिनामि ।
 सरीरनामिण ऋते ! कतिविहे पश्यते ? गोयमा ! पंचविहे पश्यते, तंजहा-उरालियसरीरनामि जाव क
 स्मगसरीरनामि सरीरंगोवगनामि कतिविहे पश्यते ? गोयमा ! तिविहे पश्यते, तंजहा-उरालियंगोवगनामि
 वेडच्छियञ्चाहारिगञ्जंगोवगनामि । सरीरवधणनामिण ऋते ! कतिविहे पश्यते ? गोयमा ! पंचविहे प० ,

प्रदत्त । कर्म कतिविध प्रश्नम् ? गीतम् । पञ्चविध प्रश्नम् तद्यथा-एकेन्द्रियजातिनाम यावत्पञ्चेन्द्रियजातिनाम । शरीरनाम प्रदत्त ।
 कतिविधं प्रश्नम् ? गीतम् । पञ्चविध प्रश्नम् तद्यथा-श्रीदारिकशरीरनाम यावत्कार्मणशरीरनाम । शरीरोपाङ्गनाम प्रदत्त । कतिविध
 प्रश्नम् ? गीतम् । त्रिविध प्रश्नम् तद्यथा-श्रीदारिकाङ्गोपाङ्गनाम वैक्रियाहारकाङ्गोपाङ्गनाम । शरीरव्यननाम प्रदत्त । कतिविध प्रश्नम्

भेद ते कश्चे-एगिदिय जाव पंचिदिय क्षातिपांमि शरीरपांमि भते पुच्छा । एकेन्द्रिय यावत् पंचेन्द्रियजाति ५ शरीरनामनी प्रश्न । गोयमा पंचवि
 द्या प० । हेगौतम पाचभेट कथा । उरालिए जाव कञ्जसरीरपांमि सरंरागोपागनांमिं पुच्छा । गोयमा तिविद्वत्ता त० । हेगौतम तौनभेटे ते कश्चे ।
 उरालिय सरीरागोवगनामि वेडच्छियसरीरगोवगनामि आहारकशरीरगोवगनामि सरीरवधणनामिं पुच्छा । श्रीदारिकशरीरागोपाग वैक्रियशरीरागो
 पाग आहारकशरीरागोपांग एव ३ शरीरना व्यननी प्रश्न । गोयमा पंचवि० तं० । हेगौतम पाचपकारे ते कश्चे-श्रीरोसवियसरीरकञ्ज जाव क

ताना मङ्गोपाङ्गविभागपरिणति रूपप्रापति तदीदारिकोपाङ्गनाम , एष यैकियाहारकोपगनात्री छापि वाच्ये , तेजसकामंशयो स्तु लो
 वमदेशस्थानानरोपित्वा वास्त्यङ्गोपाङ्गसम्बन्ध , तथा वाच्यते नेनेति यन्मन् यदौदारिकपुद्गलाना गृहीताना यद्यथायाना च परस्पर ते
 जसादिपुद्गले वां सह सम्बन्धनाक तद्गुण नाम , आश्रय मूलटीकाकार-विद्यते तत्कर्मयोगापरिति रागिय संवति यया
 काष्ठदृग्जन्देशस्व करणे जतु कारणाभिति । तद्य पश्चा तद्यथा-दौदारिकव्यवन्तनाम वैकियययननाम आहारकव्ययननाम तेजसययननाम का
 र्मव्ययननाम , तत्र यदुदयवशा दीदारिकपुद्गलानां गृहीताना गृह्यमाणाना च परस्पर तैगसादिपुद्गले य सह मन्थ्य उपपाप्यते तदी
 दारिकनन्थन , यदुदयाङ्गैकियपुद्गलाना गृहीताना गृह्यमाणाना च परस्पर तैजसकामंशपुद्गलैव सा सम्यस्य सङ्गैकियवन्थन , यदुदया दा

रीरनामे पञ्चयसरीरनामे धिरनामे सुचननामे अचुचननामे सुनननामे दुन्नगनामे सुनननामे सुसरनामे
 दूसरनामे अ्यादेज्जननामे अजसोकिञ्चिनामे निम्नगणनामे तिल्यगरनामे । ग
 इनामिणं शते ! कस्मै कतिविहे पयते ? गीयसा ! चउत्रिहे पयते निरयतिरिमणुदेवगति । जातिनामेण

नासास्त्रिनाम शुभ्रनामागुप्तनाम सुभ्रनाम दुन्नगनाम सुचननाम सुनननाम दुन्नगनाम दुन्नगनाम दुन्नगनाम दुन्नगनाम दुन्नगनाम दुन्नगनाम
 नाम तीर्थकरनाम । गतिनाम जदन्त । कां कतिविध प्रथमम् ? गीतम । चतुर्विध प्रथमम् तद्यथा-निरयतिरिमणुदेवगति । जातिनाम
 निरे अद्विदे नमं अममं समगे टमगे दुसर प्रायस्ते श्रवाद्यज्ञे अस्मिन्ने प्रथमकिते विद्यापनामे तितयराथामे । साधारवनाम प्रत्येकगरीरनाम
 स्त्रिनाम अस्त्रिनाम गुभनाम अगुभनाम शोभायनाम दीर्भायनाम सुदरनाम दुमरनाम अदेवनाम अनादयनाम अमकोत्तिनाम अयगकोत्ति
 नाम निर्माषनाम तीर्थवरनाम । गतिथामेण भते अय कदाचिदे प० । गतिनामकर्मण क्तकामेदे कप्या । गीयसा चक्षि० त० । ऐभोतम ४ भेद ते क
 हेहे—निरय तिरिय मणु देवगति सातिथामेष पुरक्षा । नारको तिवेश मनथ देवगति ४ सातिनाममो प्रश्न । गीयसा यथवि० त० । ऐभोतम पाषो

नामनियममिति, तच्च जातिनाम पञ्चधा तद्यथा-एकेन्द्रियजातिनाम यावत्पञ्चेन्द्रियजातिनाम, तथा शीयेते इति शरीर तत्पञ्चधा-तद्यथा-
 शरीरक वैक्रियमाहारक तेजस कामंशं, एतानि प्राग्व व्याख्यातानि तान्त्रवधन नानापि पञ्चधा तद्यथा-श्रीदारिक नाम वैक्रिय नाम इत्या
 दि, तत्र यदुदयादीदारिकशरीरमायोग्यान् पुद्गलानाटाय श्रीदारिकशरीरतया परिणमयति परिणमय्य च जीवप्रदेशे सए परस्परानुगमनरूप
 तथा सव्यव्ययति तदौदारिकशरीरनाम, एव शेषशरीरनामान्यापि प्रावनीयानि, शरीरस्याङ्गा न्यष्टौ त्रिर प्रचृतीति एक
 च-बीससुरीयरपिही दीक्षासूक्तस्ययश्चरगा इति, उपागानि अगावयवज्जता न्यङ्कुलादीनि शोपाणि तत्प्रत्यवयवज्जता न्यङ्कुलिवरेसादीनि त्रगो
 पागानि अंगानिच सपांगानिच अङ्गोपाङ्गानि अंगोपागानिच २ अंगोपाङ्गस्यादावस्येय इत्येकशेषं निमित्त नाम शरीरांगोपागनाम तच्च
 त्रिधा तद्यथा-श्रीदारिकाङ्गोपाङ्गना वैक्रियाङ्गोपाङ्गनाम आहारकाङ्गोपाङ्गनाम, तत्र यदुदयवशा दीदारिकशरीरत्वेन परिणतानां पुद्ग

वगनामि सरीरवधनमि सरीरसंघायणमि सधयणमि सठणममि वन्नममि गधनममि रसनममि रसनममि फासनममि
 अङ्गुसलज्जनममि उवघायनममि थावरनममि सुज्जनममि वादरनममि पज्जसगनममि अ्यपज्जसगनममि साहारणस

नाम सदनननाम सस्यानाम वर्णनाम गन्धनाम रसननाम स्पर्शनामगुरुलघुनामोपघातनाम पराघातनामानुपूर्वोनामोच्छ्वाचनानातपनामो
 द्योतनाम विहायोगतिनाम उसननाम स्थावरनाम सूक्ष्मनाम वादरनाम पर्याप्तनामपर्याप्तनाम साधारणशरीरनाम प्रत्येकशरीरनाम स्थिर

वधनामि सरीरसंघायणनामि सधयणनामि सठणनामकर्म जातिनामकर्म शरीरनाम शरीरनाम शरीरवन्धननाम शरीरसधा
 तननाम सधयणनाम सठणनाम । वच्छ रमे फासे अङ्गुसलक्षणम भववायथामे पराघातनाम अणुपूर्वोनाम अणुपूर्वोनाम अणुपूर्वोनाम वि
 दायगतिनामि तसे घावरे सधुमे वाटरे पञ्चसं प्रपञ्चसे । वर्णनाम गन्ध रस स्पर्शनाम अङ्गुसलघुनाम सघातनाम पराघातनाम आनुपूर्वोनाम उच्छ्वा
 सनाम घातपनाम उद्योतनाम विहायोगतिनाम अवननाम वादरनाम पर्याप्तनाम अपर्याप्तनाम । आहारणसरोरे,पत्तिप्रसरोरे

पायि-सर्घारिणो नोकपाया इति, उक्तव-कपाया सहयर्त्तित्वात् कपायप्रेरणादपि । हास्यादिनखकस्योक्ता नोकपाय रूपायता ॥ १ ॥ ध्यायु कर्म
 सूत्र पाठसिद्ध, नामकम द्विषत्वारिर्वादिष तान्येय द्वाषत्वारिर्वात् जेदानाह-गतनामेत्यादि ॥ गम्यते तथाविषकर्म सधिवे प्राप्यते धृति गति ना
 रकत्वादिपर्योपरिणति सा चतुर्तां तद्यथा-नरकगति स्तियगुगति मनुष्यगति देवगति साज्जनक नाम गतिनाम तदपि चतुर्तां-नरकगतना
 मेत्यादि । तथा एकैन्द्रियादीनामेकैन्द्रियत्वादेरूपसमानपरिणामलक्षणमेकैन्द्रियादिशब्दव्यपदेशभाक् य तथामान्य सा जाति साज्जनक नाम जा
 तिनान, इदमत्र तात्पर्यार्थं द्रव्यरूप सिद्धिय सगोपागनामोन्द्रियपर्याप्तिनान सामर्थ्यसिद्धिगावरूप तु स्वर्जनाटीन्द्रियावरणत्वयोपज्ञमसामर्थ्यात्
 ज्ञयोपयमिकाभोन्द्रियाणीति वचनात्, यत्पुन रेकैन्द्रियादिशब्दप्रयुक्तिनियत्यन तथात्पसमानपरिणतिलक्षण सागान्य तदनन्यसाध्यत्वा उच्यते

वविहे पणत्ते, तजहा-इत्यीत्रेण पुरिसवेण नपुसगवेण हासे रतिश्चरतिसोगे जण दुगठा । आउएण ज्ञन !
 कतिविहे पणत्ते ? गोयमा ! चउविहे पणत्ते, तजहा-नेरइयाउए जाव टेवाउए । नामिण ज्ञत्ते ! कस्से
 कतिविहे पणत्ते ? गोयमा । वायालीसतिविहे पणत्ते, तजहा-गतिनामे जातिनामे सरीरनामे सरीरगो

यय मानमायालीना । नाकपायवेदनीय जदन्त । कर्म कतिविष प्रज्ञप्तम् ? गीतम् । नवविष, तद्यथा-छीवेद पुत्तप्रेदोनपुसकवेदोत्तरस्य
 रत्परती शोको जय जुगुब्बा । आयुर्जदन्त । कतिविष प्रज्ञप्त ? गीतम् । चतुविष प्रज्ञप्तम् तद्यथा-नेरियिकायुर्वहेवायु । नामकर्म जदन्त ।
 कतिविष प्रज्ञप्तम् ? गीतम् । द्विषत्वारिर्वादिष प्रज्ञप्तम् तद्यथा-जातिनाम शरीरनाम शरीराङ्गीपाङ्गनाम शरीरव्यननाम शरीररसघात

वेद परपवेद नपुसकवेद हास्य रति शरति मय कीग दुगक्का । प्राशएण भत्ते कस्से क-विदे ष० । ध्यायुर्कर्मना हेभगवन् केतका भेट कद्धा । गोयमा च
 चविहे त० । हेगीतम चार ते कहेके -शेरइयाउए जाव टेवाउए थानिण भत्ते कस्से क-विहे ष० । नारकीनी धायु यावत् देवतायय नामकर्मना हेभग
 वन् केतलामेद कद्धा । गोयमा वायालीस तिविहे ष० त० । हेगीतम ६२ भद ते चहेके । गतिपामे जातिपामे सरीरपामे सरीरगोपयणामे सरीर

मिद-जलरूपुद्विषय राईसरिषीवठिहोकीही । तणिलेयाकठाठय खेत्त्यनीवमीभाषी ॥ १ ॥ मायावलेदोगुति मिदसिगधेषवसगूलस
 मा । लोहोहलिहृषण कहुमकिमिरागवारित्यो ॥ १ ॥ एकउचतनासवखर आवज्जोवाणुगामिणो कमसो । देववरतिरियनारय गइसाहण्टियवो
 प्रलिया ॥ २ ॥ इत्यीवेगहति ॥ येद्यते इति वेदा रिया येव खीवेद रिया पुनाउप्रत्यात्रलाप इत्यर्थ , ताहुपाकवंध कर्नापि खीवेद पुरुष
 स्य वेद पुरुषवेद. पुरुषस्य खिय प्रत्यत्रिलाप इत्यर्थं. , सङ्घिपाकवंध कर्नापि पुरुषवेद तथा यदुदया रयनिमित्तम
 निमित्त ता हसतिसा हासयते वा तत् हास्यमोहनीय, यदुदयाघाज्यन्तरपु वस्तुपु प्रमोदमाधते तद्व्रतिमोहनीय यदुदयवज्ञात् पुन घांस्त्राय्यता
 रेपु वस्तुपु अमीति करोति तद्व्रतिमोहनीय , यदुदया त्प्रयविप्रयोगादौ शोरस्ताहमाक्रदति परदेवते जूगठि घ लुठति दोषं निघसति शोक
 मोहनीय , यदुदयवज्ञा रयनिमित्तमिति वा तथारूपस्वशकल्पतो यिजेति सङ्गमोहनीय , सद्गुनयवज्ञा त्पुन शुन्नमज्ञान या वस्तु जुगुपसते
 त जुगुप्वामोहनीय , जुगुप्वानजको मोहनीय जुगुप्वामोहनीय , एव एवंपदंयपि विग्रहो ज्ञावनीया , नोकयायता घामीया हास्यादीना कपाय
 सहचारित्वा त्कै. कपायै सहचारितैति चे दुष्यते-आद्यो इदंज्ञानि तथाहि-नाद्येषु हादयकपायेषु खीणेषु हास्यादीना स्वस्थानसम्भवादनन्तर
 नेव तेषामपि घपशाय प्रयुति , अथवा एते प्रादुर्भवतोऽवश्य कपायादी मुद्दीपयति तथा कपायसहचारिण मय नोज्ञपु साहचये द्रष्टव्य , क

माया व्युत्पत्ताणुबधी लोने अपस्रकाणकोहे एव माणे माया लोने पञ्चकाणावरणे कोहे एवं माणे माया -
 लोने सजलण कोहे एव मानमायालोने । नोकसायवेयिणज्जेणं जंते ! कतिविहे पखत्ते ? गोयमा ! न

न्धिलोनीऽनन्तानुबन्धिमायाऽप्रत्याख्यानक्रोप एव मानो माया लोत्रः , प्रत्याख्यानान्तरक क्रोप एव मानो माया लोत्र , सजलण क्रोप

क्रोप मान माया लोत्र । सजलण कोहे एवं माणे माण लोत्रे । सजलणक्रोप इम मान माया लोत्र । नोकसायवेयिणज्जेणं जंते कर्ना पुच्छा । नोकपाय
 ना इभयवन् कोतशा प्रयत्न । गोयमा नवविहे तः । ऐशोतम, ८ नेद ते कपिहे-इतिवन्धे-पुरिमन्वेये गपुसगवेये हासि रए पणए भए सोमो हुनएवे ८ । ध्दो

ज्ञानिकलायिकदर्शनमोहना घेद दर्शनमोहनीय निस्युष्यते, धारित्रीमोहनीयं द्विविधं कथायवेदनीयं च तत्र यत् क्रोधादिक्रपा
 यरूपेण घेद्यते त रूपायवेदनीय, यत्पुन स्त्रीवेदादि नोकसायकेषु वेद्यते तन्नोकसायवेदनीय च शब्दो स्वगतानेकमेदसूचको, तत्र कथायवेद
 नीय पौनश्चविधं क्रोधमानमायासोत्राना प्रत्येकमनतानुष्यऽप्रत्यास्यानप्रत्यास्यानावरणसञ्चलनरूपत्वात् तत्रानत सवार सानुयुधन्वीत्येवमो
 ला अनन्तानुयुधन उक्तच-अनतानुयुधन्ति यतीजन्मानिसूर्यते । ततोगतानुयुधत्वाः क्रोधाद्येयुनियोजिता ॥ १ ॥ यथा सयोजना इति द्वि
 तीयमपि नाम तत्रायमन्वर्थे-स्युष्यते अन्तसत्ये प्रवे जेतवो येस्ते सयोजना उक्तच-सयोष्यति यन्नरमनन्तसत्ये प्रवे-कपाया स्ते स
 योजनता अनन्तानुयुधताथाप्य ततस्तेया सर्वप्रत्यास्यान देशप्रत्यास्यान च येथा मुदयेन तस्यत ते प्रवश्यप्रत्यास्याना सर्व निषेधवचनोय नञ्,
 उक्तच-स्वल्पमपि नोरसहे द्याया प्रत्यास्यानविशेदयात् अप्रत्यास्यानमुदाहृत । तदावरणसञ्चास स्वतीयेपुनियेक्षिता ॥ १ ॥ तथा परीपरीपसर्गनिपाते सति
 प्रत्यास्यानावरणा, आहच-सर्वसावद्यविरति प्रत्यास्यानमुदाहृत । तदावरणसञ्चास स्वतीयेपुनियेक्षिता ॥ १ ॥ तथा परीपरीपसर्गनिपाते सति
 धारित्रीमपि सम् ईपणञ्चलयतीति सञ्चलना उक्तच-सञ्चलयति य रसंविन्न सर्वपापविरतानामपि तस्मा स्वञ्चलना इत्यप्रथमकरा निरूप्यन्ते,
 अन्यथाप्युक्त-शब्दादीन् विपयान् प्राप्य सञ्चलयति यती मुहु । स्तत, सञ्चलनाद्वान चतुर्थाननिर्होष्यते ॥ १ ॥ स्वरूप ॥ पद्यानुपूर्वार्थमीया

गोयमा ! दुविहे पखत्ते, तजहा-कसायवेयणिज्जे नोकसायवेयणिज्जे । कसायवेयणिज्जेणं नते ! कतिविहे
 पखत्ते ? गोयमा ! सोलसविहे पखत्ते, तजहा-अणताणुवधी कोहे अणताणुवधी माणे अणताणुवंधी

वेदनीय । कथायवेदनीय प्रदत्त । कतिविधं प्रश्नः १ गीतम् । पौनश्चविधं प्रश्नः तद्यथा-अनन्तानुयुधन्तिकोपोऽनन्तानुयुधन्तिकोपोऽनन्तानुयु
 डगीतम् (१) भेट ते कहेत्ते-अणताणुवंधे कोहे अणताणुवंधेमाणे अण० माए अण० लोभे । अनन्तानुवन्धी क्रोध अनन्तानुवन्धी नान अनन्तानुवन्धी
 लोभे । अपसञ्चलणे कोहे एव माणे माए लोभे । अप्रत्यास्यानी क्रो० इम मान माया सोम ४ पसञ्चलणाधारणे कोहे एव माणे माए लोभे । प्रत्यास्यानो

दर्शनान्तरणीय, इह निद्रापञ्चक प्राप्ताया दर्शनलब्धे रूपघातकदर्शनान्तरणीयत्वे तु मूलतः शब्द-गणहृत्कीर्तिनिद्रि-
यसमधिगतया दर्शनलब्धे रूपघाते वर्तते दर्शनान्तरणीयत्वे तद्गोच्छेदितत्वात्, समूलघातवति दर्शनलब्धिमिति, वेदनीय द्विधा सातवेदनी-
य असातवेदनीय च; सातवेदनीय च यद्वेद्यते तत्सातवेदनीय तद्विपरित मसातवेदनीय किमुक्त प्रयाति यस्योदयात् शरीर मानस च सुरा वदय-
ते तत्सातवेदनीय यस्योदयात्सुन शरीरे मनसि च तु समनुभवति तदसातवेदनीय मन्त्रैक मयविध मनोद्वाननोद्भाषादिविषयप्रदात्, मोहनी-
य द्विधा दर्शनमोहनीय चारित्रमोहनीय, वशद्वी स्वगतानेकप्रदसूचकौ दर्शनमोहनीय त्रिविध तद्यथा सम्यक्वेदनीय निव्यात्ववेदनीय मिश्रवे-
दनीय, तत्र जिनप्रणीततत्त्वश्रुतानात्मकेन सम्यक्करणेन यद्वेद्यते तत्सम्यक्वेदनीय ये तु पुन जिनप्रणीततत्त्वाश्रुतानात्मकेन निव्यात्वत्त्वेण वेद्यते
तत् निव्यात्ववेदनीय यत्तु मिश्ररूपेण जिनप्रणीततत्त्वेषु न श्रुता नापि निगद्यन्ते तन्नखेन वेद्यते तन्निग्रवेदनीय आरुष-सम्यक्वेदनीय
कथ दर्शनमोहनीय नहि दर्शन मोहयति तस्य प्रवामादिपरिणामहेतुत्वात् सध्यते-इह सम्यक्वेदनीय निव्यात्वप्रकृतिततोनिघारउजघात्, थीप्

जो य चारित्रमोहनिजो य । दंसणमोहनिजो जते ! कम्म कतिविहे पयत्ते ? गोयमा ! तिविहे प० ,
सम्मत्तवेदनिजो मिच्छत्तवेदनिजो सम्मामिच्छत्तवेदनिजो । चरित्तमोहनिजो जते ! कम्मो कतिविहे प० ,

नीय च चारित्रमोहनीय च । दर्शनमोहनीय प्रदत्त । कर्म कतिविध प्रज्ञप्तं ० गौतम । त्रिविध प्रज्ञप्तं तद्यथा-सम्यक्वेदनीय निव्यात्ववेद-
नीय सम्यक्निव्यात्ववेदनीयम् । चारित्रमोहनीय प्रदत्त । कर्म कतिविध प्रज्ञप्तं ? गौतम । द्विविध प्रज्ञप्तं तद्यथा-कपायवेदनीय नोकपाय
यना तिविधा त० । इगौतम २ भेट ते कहेल्ले—समात्तवेयणं निच्छत्तवं ० सम्मामिच्छत्तवं ० सम्मामोहनीय निव्यात्वमोहनीय सम्मामिच्छत्तवमोहनीय ।
चारित्तमोहनिजो भते कम्म पुच्छा । चारित्रमोहनीयकर्मना इमगवन् केतवा भट । गोयमा दुमिधा त० । इगौतम दोचभेटे कहेल्ले—कसायने ० नो
कसायवे ० । कपायमोहनीय नोकपायमोहनीय । कसायवेयणं भते कम्म पुच्छा । कपायमोहनीय इमगवन् केतवाभेट । गोयमा सम्मामिच्छत्तं ० ।

न समुत्थाय तद्गन्तुमालमुत्थाप्य स्वोपाश्रयद्वारि च प्रविष्य पुन प्रसुप्तगमित्यादि तथा चतुर्दशानामरणीयमवधुषा पशुवैजोपेन्द्रियमनोदर्शोत्सव्य
पुर्दानं तस्यावरणीय मधुदर्शनावरणीय मवधिरेव दर्शनं तस्यावरणीय मवधिदर्शनावरणीय केवलमेव दर्शनं केवलदर्शनं तस्यावरणीय केवलत

कस्मै कतिविधे पण्यते ? गोयमा । दुविहे पण्यते, तजहा—सातावेयिण्जो य आसातावेयिण्जो य । सा
तावेदणिज्जेण जते ! कस्मै पुच्छा, गोयमा । अठविहे पण्यते, तजहा—मणुन्वा सहा जाव कायसुहता ।
आसातावेयिण्ज्जेण जते । कस्मै कतिविहे पण्यते ? गोयमा । अठविहे पण्यते, तजहा—अणुमणुन्वा सहा
जाव कायसुहता । मोहणिज्जेण जते । कस्मै कतिविहे पण्यते ? गोयमा ! दुविहे पण्यते, तसणमोहणि

य जटत्त । कस्मै कतिविधे पण्यते ? गोयमा । दुविधे पण्यते तद्यथा—चासवटनीयमसातवेदनीय व । सातवेदनीय जटत्त । कस्मै पुच्छा, गो
तम । अठविधे पण्यते तद्यथा—मनोघा शब्दा यावत्कायदु खिता । असातवेदनीय कस्मै जटत्त । कतिविधे पण्यते ? गोयमा । अठविधे पण्य
ते तद्यथा—अमनीघा शब्दा यावत्कायदु खिता । मोहनीय जटत्त । कस्मै कतिविधे पण्यते ? गोयमा । द्विविधे पण्यते तद्यथा—दर्शतोत्स

दर्शनावरणी ४ । वेगणिल्लेण भते कस्मै कतिविहे पण्यते ? वेदतोत्सवना इभगवन् कतसाभेट कच्छा । गोयमा दुविधा पण्यते । इतोत्स दायभेट कच्छा
त कहेए—सायावगणिल्ला असायापगणिल्ला । सातावटनो असातावटनो । सायावेयिण्जो भते कस्मै पुच्छा । तातावेदतो कस्मै इभगवन्
पण्यते । गोयमा दुविहे पण्यते । इतोत्स व प्रकाशिते कहेए—मणुसासहा जाव कायसुहता । मनोत्रयद्वे वावत् कायसुह । असायावेयिण्जो भते क
ण्यते । असातावेदतोत्सवना इभगवन् पण्यते । गोयमा अठविधे पण्यते । इतोत्स व भेटे त कहेए—अमणुसासहा जाव काय टट्टया । असायावद्वे वावत्
कायदुखिता । मोहणिल्लेण भते कस्मै कतिविहे पण्यते । मोहनीयम इभगवन् कतसेभेट कच्छो । गोयमा दुविधे पण्यते । इतोत्स दायभेट कच्छा ते कहे
ए—दण्यमोहणिल्लेण चारित्तमो । दर्शनावरणी चारित्तमो । दर्शनावरणी चारित्तमो । दर्शनावरणी चारित्तमो । दर्शनावरणी चारित्तमो । दर्शनावरणी चारित्तमो ।

कर्मप्रकारपरि कारणे कार्योपधारात् ॥ निदानिद्विषति ॥ निद्रातोतिशायिनी निद्रा निद्रानिद्राशाकपार्थिवादिदर्शनात् मयूरव्यंशकाद
य इति मध्यपदलोपी समास ॥ तस्या हि धैतन्यस्यात्यन्तमस्फुटीभूतत्वात् बहुत्र घोलनाप्रकारे प्रबोधो प्रवति तत सुखप्रबोधहेतुनिद्रातोत्सा
प्रतिज्ञापिनीत्य तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकारपरि निद्रा २ उपधारात् , तथा उपविष्ट कर्तृस्थितौ वा प्रचलति पूर्णयति यस्या स्वापावस्थाया सा
प्रचला तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकारपरि प्रचला ॥ प्रचला २ इति ॥ प्रचलातोतिशायिनी प्रचला २ पूर्ववन्मध्यपदलोपी समास ॥ साहि चक्रमणा
दिक मपि कुर्यंत वदय मधिगच्छति तत. स्थानस्थितस्वप्नप्रचलप्रचलापेक्षया यस्या अतिशायिनीत्व ॥ शीणहीद्विति ॥ स्थाना पिपङ्गीभूता ऋद्धि
रात्मवाक्स्वरूपा यस्या स्वापावस्थाया सा स्थानानिं साद्रावे हि प्रथमसहनस्य क्रेशवाद्द्वयलसदृशी शक्तिरूपा जायते, तथाच श्रूयत-प्रवचने
कथितप्रदेशे कोपि प्रास शुक्लक स्थानद्विनिद्रासहितो द्विरदेन दिवाखलोकत तत सास्मिन् द्विरदे बह्नाजनिवेशो रजन्या स्थानश्रूयते वसंसा

विहे पयस्ते ? गीयमा ! दुविहे पयस्ते , तजहा-निद्रापंचणु य दसणचउक्कए य । निद्रापचणुणं जते !
कडविहे पयस्ते ? गीयमा ! पचविहे पयस्ते , तजहा-निद्रा जाव थीणस्ती । दसणचउक्कएणं पुच्छा ,
गीयमा ! चउविहे पयस्ते , तजहा-चरुदुत्तणावरणिज्जे जाव केवलदसणावरणिज्जे । वेयणिज्जेणं जते !

विष प्रसप्त तद्यथा-निद्रापचकष दर्शनपतुक ष । निद्रापचक प्रसप्त । कतिविध प्रसप्त ? गीतम । पचविध प्रसप्तं तद्यथा-निद्रा याव
रस्थानानिदु । दर्शनपतुककपुच्छा । गीतम । श्रुतिबंधं प्रसप्तम् , तद्यथा-चश्रुदर्शनावरण मचश्रुदर्शनावरण याव रकेवलदर्शनावरणम् । वेदनी

दाग्नेय कक्षा ते कहेहे-विना पंचणय दसणचउक्कए । निद्रा पचक दर्शन पतुक । विना पचणय मते कविहे प० । निद्रापचकना हेमययन् केतला
भेद कक्षा । गीयमा पचविहे प० तं । हेमोतमा पावेभेदे कक्षा ते कहेहे-विना जाव थीणस्ती दसणचउक्कए पुच्छा । निद्रा यावत् शीणही दर्शन च
तुथानो मय । गीयमा चउविहे पयस्ते । तजहा । हेमोतम ष भेद ते कहेहे-चकदसणावरणिज्जे जाव केवलदसणावरणिज्जे । पचदसणावरणो यावत् केवल

व्यास्यात प्रथमोद्देशः इदानीं द्वितीयोद्देशकव्याख्येय तस्यचायनसिख्यस्य -इहानन्तरीद्देशके ज्ञानावरणीयानां अनुभावे उक्त इह तु तेषामिव ज्ञानावरणीयादीनामुत्तरप्रकृतिविभाग उच्यते तत्र विशेषपरिज्ञानार्थं प्रयोगि मूलप्रकृतिविषय प्रथमनिर्वचनसूत्रमाह-कडण जते । इत्यादि ॥ पूर्वे वत् सम्प्रति यथोद्देश निर्देश इति न्यायात् ज्ञानावरणीयोत्तरप्रकृतिविषय सूत्रमाह-नाशावरणोज्ज्वल जते । इत्यादि ॥ इह श्रान्तिनियोधिक्यादि इत्यादिशब्दाय उपयोगपद धस्यत विशुद्धभावनास्विय-श्रान्तिनियोधिकज्ञानावरणीय श्रान्तिनियोधिकज्ञानावरणीय' एव श्रुतज्ञानावरणीयमि त्यादियपि नाकनीय दर्शनावरणीयोत्तरप्रकृतीराह-दरिसबावरणोज्ज्वल जते । इत्यादि ॥ द्राक्षुत्साया नियत द्राति कुटिससत्त्वमविस्पष्टत्व गच्छति चेतस्य यस्या ह्यापायस्थाया सा तन्द्रा यदिव द्रेत्वम तन्द्राशा निद्रानखल्लोटिकामात्रेण यस्या प्रबोध उपजायते सा स्व्यापायस्था तन्द्रा तद्विपा

सम्प्रप्तौ ॥ १ ॥ कडण जते । कर्मपगणीतं पश्यतातं ? गोयमा ! अष्टकर्मपगणीतं पश्यतातं
तजहा-नाणावरणिजा जाव अताराडय । नाणावरणिज्जण जते । कर्मे कतिविहे पस्यते ? गोयमा ! पचविहे
पस्यते, तजहा--श्रान्तिनियोधिक्यनाणावरणिज्जे केवलनाणावरणिज्जे । दसणावरणिज्जेण जते ! कर्मे कति

सा ? गौतम । अष्टौ कर्मप्रकृतयः प्रथमास्तद्यथा-ज्ञानावरणीयं यावदन्तरायम् । ज्ञानावरणीय प्रकृतम् । कतिविध प्रकृतम् ? गौतम । पचवि
ध प्रकृत तद्यथा-श्रान्तिनियोधिक्यज्ञानावरणीयं याव स्वेवलज्ञानावरणीयम् । दर्शनावरणीय प्रकृतम् । कर्म कतिविध प्रकृतम् ? गौतम । द्वि

कडण भते कर्मप्रकृतयोः प० । केतसौ हेमगवन् कर्म प्रकृति कश्चो । गोयमा अष्टकर्मपगणीया प० त० । हेगौतम द्वावमं प्रकृति कश्चो ते कडण्डे--याया
वरणिज्जं जाय पतराडय । ज्ञानावरणीयावत् यन्तराय । याणावरणिज्जण भते कश्चो कडण्डे प । ज्ञानावरणी कर्मना हेमगवन् केतसामेद कश्चा ।
गायमा पचविध प० त० । गौतम ५ प्रकारे कश्चा ते कडण्डे--श्रान्तिनियोधिक्यनाणावरणिज्जे जाव केवसावरणिज्जे दरसबावरणिज्जिय भते कश्चो कर
विधे प० । नतिज्ञानावरणी चानने केवलज्ञायावरणो एव ५ अष्ट विधे दर्शनावरणीना हेमगवन् केतसामेद कश्चा । गोयमा दुविधे ए० तं । हेगौतम

न्तरायस्य कर्मणः फलं । लान्त्रान्तरायी लान्त्रान्तराय्यादिकर्मणोभिति ॥ अं वेदेऽ पुगलं वा इत्यादि ॥ थं वेदयते पुद्गलं विविधविशिष्टरत्नादिसम्प्र
 ष्ठा दृश्यते तद्विषये एव दानान्तरायोदयः सार्धच्छन्दानां गुणकरणसम्बन्धेन प्रतियोगिण्येव सन्निवृत्तौ । अन्तःकरणसम्बन्धेन प्रतियोगिण्येव सन्निवृत्तौ लोचनतो
 भोगान्तरायोदयः । मयमपन्नो गान्तरायोर्ध्वोदयोऽपि ज्ञानवनीयः । तथा लघुटाद्यभिधाता द्वीर्वाङ्तरायकर्मोदय इति ॥ पुद्गलान् वा यन् तप्याविधा
 न् यान् पुद्गलान् वेदयते यथा पुद्गलपरिणाम तथाविधा शरीरव्यभिचरिणामरूप तथाहि दृश्यते तथाविधा शरीरव्यभिचरिणामा द्वीर्वाङ्तरायक
 र्मोदय मन्त्रोपचिक्कबासादिगणपुद्गलपरिणामात् भोगान्तरायोदयो यथा सुयदुस्ययिष्यस्य विश्रसया वा पुद्गलानां परिणाम चित्र शीलादिलक्षण
 तथाहि दृश्यते-वत्यादिक दातृकामा अपि शीलादिनिर्पततमालोक्या दानान्तरायोदयात् तस्या दातार इति । तदप्रज्ञावात् स्य परत उदय उ
 क्त स्यतलान्तर-तेसि दागच्छति ॥ तेषां वा अन्तरायकर्मपुद्गतानां नृदयेन अन्तरायकर्मफल दानान्तराय्यादिकं वेदयते ॥ सस्यमित्वाद्युपसंहार
 धास्य ॥ इति श्री मलयगिरिविरचितया प्रज्ञापनाटीकाया प्रयोविज्ञातितमस्य कर्मप्रकृतिपदस्य प्रथमो वेदान समाप्तः ॥ १

राए वीरियतराए ज वेदंति पोगल वा जाव वीसया वा तेसि वा उदण्ण अत्तराडय कम्म वेदेइ एसणं
 गोयमा ! अत्तराडए कम्मि एसण गोयमा ! जाव पचविहे अणुजावि पसुत्ते ॥ कम्मपयञ्जीपटे पढमो उहेसो

थोदयेनान्तराय कर्म वेदयते एव गौतम । अन्तराय कर्मप गौतम । यावत्पचविधोनुज्ञाय प्रज्ञप्त ॥ इति श्री मनुष्याय रामचन्द्रगणि शि
 ष्याणकपन्द्ररचिते प्रज्ञापनागुगटे कर्मप्रकृतिपटे प्रथमोद्देशक समाप्तः ॥ १ ॥ कति प्रदत्त । कर्म प्रकृतय प्रज्ञ

य भागान्तराय उपनीगान्तराय बीगान्तराय ५ त वेदे । पुगलवा जाव वीसया वा तेसि वा उदण्ण अत्तराडय कम्म वेदे । पुद्गलान् जान्ति विस्त्रवा
 भावे तेहन उदय सन्तरायकर्म वेदे । एसण गोयमा अत्तराडए कम्मि । एसण गोयमा जाव पचविहे एकेभावे पं । प
 द्वा इतीतम पासने ५ प्रकारे अनुभागरसं ज्ञेयो । कथमपचवेदोपए पढमो उहेसो । कर्मप्रकृतियदमो प्रथमो उहेसो ५ ॥ २२ ॥

द्राणादिविशिष्टपुरुषस्वरूपस्य हा नीचषात्किञ्चिदपि जात्यादिसम्पन्न इय जगत्स मान्य उपजायते, यत्तद्विशिष्टतापि नानामिदं लक्षुटि
 ज्ञमएवज्ञाद्रूपविशिष्टता प्रतिविशिष्टयत्कारुण्यसम्बन्धात् तपोविशिष्टता गिरिकूटाद्यारोहणेनातापना कुर्वते, तुल्यविशिष्टता मनीषुज्जदेवासव
 धात् स्वाध्यायं कुर्वते, साजाविशिष्टता प्रतिविशिष्टतादिद्योगात् ऐश्वर्यविशिष्टता घनकनकादिसन्ध्यादिति ॥ पुद्गलेषा इति ॥ यान् वान्
 पुद्गलान् वेदयते पुद्गलपरिणाम दिव्यफलाद्याहारपरिणामरूप चिस्वसया वा य पुद्गलाना परिणाम अस्मादत्रिचित्ततदात्मसवादादल
 क्षण तत्प्रज्ञावाद्दुर्घैत्रि वेदयते रघैर्गतं कर्मफल जातिविशिष्टत्वादिकं वेदयते, एतन् परत उदय उक्तं सञ्जाति स्वतस्समा-तिसिवा उदरयति ॥
 तेषा वा रघैर्गर्भकर्मपुद्गलात् मुदयेन जातिविशिष्टत्वादिकं जवति, एवञ्च गोपमा ! इत्याद्युपसहारयाक्य ॥ नीचगोयस्वञ्च जने । इत्यादि ॥ ॥
 ज्ञमूर प्राग्भूत् निर्बन्धनमपिधी नृजाव क्षमेयाष्टविधमनुजाव दर्शयति-नाइविहीणयाइत्यादि ॥ सुप्रतीत ॥ ज वदेर पुग्गतमिति ॥ य वदयते

रियविशिष्टया ज वेदेड पोगल वा पोगले वा पोगलपरिणाम वा वीससा वा पोगलाण परिणाम तेषि
 वा उदरण जाव व्युठविहे स्थुनानवे पखत्ते । नीचगोयस्सण जते ! पुच्छा, गोयमा ! एवंचेव नवर
 जातिविहीणता जाव इस्सरियविहीणता ज वेदेड पोगल वा पोगले वा पोगलपरिणाम वा वीससा

पुद्गलाना परिणाम तेषा वोदयेन यावदष्टविधीनृजाव प्रसप्त । नीचैर्गावस्य जंदत्त । पुच्छा गीतम । मव चेव नवर जातिविहीणता याव
 दीधरताविहीणता यद्देदयते पुद्गल या पुद्गला न्या पुद्गलपरिणाम या विश्रसया वा पुद्गलाना परिणाम तेषा वोदयेन यावदष्टविधीनुजाव
 वा उदरण जाव अष्टविहे स्थुनभावे प० । पुद्गलसनेत्रिपे पुद्गलपरिणामे तिस्रसापुद्गल पुद्गलपरिणामे करीने तेदने उदय जाननी ८ विधे रजकक्षा ।
 पीयाम्बोधक्षय भते पुच्छा । इति नीचगीवनी प्रथ । गोयमाएवचेव अवर जातिविहीणया ज वेदेड । इभीतम इमहीन निचे अक्षिबो परे ए विज्ञेए
 नातिज्ञेन यावत् भीन ठकुरां वेदे । पुग्गलया पोगलया पोगलपरिणामवा वीससावा पुग्गलपरिणाम तेषिवा उदरण जाव अष्टविहे स्थुभावे

पुद्गलं नीचकर्मासेवनरूपं नीचपुरुषसम्बन्धलक्षणं वा तथाहि-उत्तमजातिसम्पन्नोपि यदि नीचे कर्मवशात् ययाजीविकारूपमासेवते षडाली वागच्छति तदा प्रवर्ति षडालादिरिव जनस्य निधेयः, बलहीनता सुखशयनीयादिसम्बन्धाः, क्षयोविहीनता पाशुंस्यादिसम्बन्धाः, श्रुतविहीनता विक्रयापरसाध्याजासादिसम्बन्धाः, लाभप्रतिहीनता देशकालानुचितकुशलाशसम्बन्धाः, ऐश्वर्यविहीनता कुग्रहकुलत्रादिसम्बन्धा इति ॥ युगले वा इति ॥ यान् बहून् पुद्गलान् वेदयते यथा पुद्गलपरिणाम वृत्ताकीर्णलं सान्यवद्वृत्तकडूत्युत्पादनेन रूपविहीनता गापादयतीत्यादि, विस्रसमाया पुद्गलानां परिणाम अग्निहृतजलदागमाविसवादलक्षणे वेदयतो मरप्रजावात् नीचे कर्म फल आत्यादिविहीनतारूपं वेदयते इत्यर्थः, एतावता परत उदय उक्तः, सम्प्रति स्वत उदयमाह-तेसि वा उदयणति ॥ तेषां वा नीचैर्गोत्रकर्म पुद्गलानामुदयेन जाल्यादिविहीनता मनुजवति । एषण गीयमा इत्यनुपसहारवाक्य ॥ अन्तरायस्त्वेष मत् । इत्यादि ॥ प्रश्नसूत्रे प्रागुक्तं, निवचन पञ्चविधो नुजावः प्रश्नस्तदेव पञ्चविधस्य दर्शयति-दाखतदाय इत्यादि ॥ दानस्यान्तरायो विप्र दानस्यान्तरायः, एव सर्वत्र प्रावर्तीयः, तत्र दानान्तरायो दाना

वा पोग्गलाणं परिणाम तेसि वा उदयेण जाव अष्टविहे अणुजावे पखत्ते । अन्तराइयस्सणं जंते ! कस्स स्स जीत्रेण बद्धस्स जाव पचविहे अणुजावे पखत्ते, तंजहा-दानंतराए लानंतराए जोगतराए उवजोगत

प्रश्न । अन्तरायस्य कर्मणो गदन्त । जीवेन पृच्छा, गीतम । अन्तरायस्य कर्मणो जीवेन वदस्व यावत्पचयिषोनुजावः प्रश्नस स्स एथा-दानान्तरायो तान्तराय उपजोगान्तरायो धीर्यान्तरायो यद्वेदयते पुद्गल वा पुद्गलान्या पुद्गलपरिणाम वा यावद्विश्रसया वा तेषा

प० । पुद्गल वस्तुप्राप्तौ नयवा घणौ वस्तुप्राप्तौ विन्यापपरिणतनी परे पुद्गलने उदय जाकने न प्रकारे रसकक्षा । अन्तराइयस्य मते कयस्स जीवेष पृच्छा । द्विवे अन्तरायकर्मनी हेमगवन् मत्र । गीयमा अन्तराइयस्य कम्मास जीवेषं बहसा जाव पचविहे अणुभावे प० तं० । हेगोतम अन्तरायकर्म जीव वाध्यायिवा जावगे तेदना ५ भेद अनुभागरस कक्षा तेकहेके-दाणतराए लाम्त० भोगंत० उपभोगंत० कोरियंत० ज वेदेद । दानान्तराय लामान्तरा

इत्ययं, कान्त स्वरो यस्य स तथा तद्भाव कांतस्वरता, प्रियस्वरतेति प्रियो जूयोऽञ्जिलयर्षीयः प्रियः स्वरो यस्य स तथा तद्भाव प्रियस्वरता ॥ मनुस्वरथा इति ॥ उपरतत्रावोपि स्वात्मन्यनप्रीतिजनको, मनोज्ञ स स्वरो यस्य स मनोज्ञस्वरता ॥ जवेण्डइत्यादि ॥ य वेदयते पुद्गल वीणावर्णकगन्धताम्बूलपट्टशिविकासिंहासनकुम्भदानराजयोगगुलिकाटिलक्ष्ण तथा च वीणादिसम्बन्धात् प्रवतीष्टाः शब्दादय इति परित्रावनी यमेतत् सूत्रप्रिया मागानुसारिण्या ॥ पुद्गलवा इति ॥ यतो बहून् पुद्गलान् वेशवीणादिकान् वेदयतो य पुद्गलपरिणाम ब्रान्स्याद्याष्टपरिणाम विद्यसया वा य पुद्गलाना परिणाम शुभजलटादिक तथाषोक्तान् कज्जलसमप्रभा न्मेचानवलोक्य प्रष्टपंमनसो गायति मत्तयुवतयोरिल्लुकानिष्ट स्त्रानिन्यादि तत्प्रज्ञावात् शुभनामकम वेदयते शुभनामकर्मफलमिष्टस्वरादिकमनुभवतीतिज्ञाव, एतावता परत वक्त इदानी स्वतः स्तमाह-तेसि वा उदगच्छति ॥ तेषा वा ज्ञानाना कर्मपुद्गलानामुदयेन इष्टज्ञादिक वेदयत, एषण गोयमा । इत्याद्युपसहारवाक्य ॥ दुहनानमस्सण जते

लपरिणाम वा बीससा वा पोगगलाण परिणाम तेसि वा उदणुणं सुजनान कम्म वेदेड एसण गोयमा !
सुजनानकम्मे एसणं गोयमा ! सुजनानमस्स कम्मस्स जाव चउद्दसविहे छणुज्जावे पयस्से । दुहनानमस्सणं

यत्ते पुद्गत वा पुद्गलान्वा पुद्गलपरिणाम वा विस्वसया वा पुद्गलाना परिणाम तेषां वेदयेन शुभनाम कर्म वेदयते एय गीतम । शुभनाम कर्म, एय गीतम । शुभनाम कर्मणी यावत्सतुष्टुंशिविधो ऽनुज्ञावा प्रव्रत । दुःखनासो जदत्त । पुच्छा, गीतम । एव वैम नवरः अग्निष्टा शु

क्रम । इत्यस्य कतस्वरथा पियस्वरथा मणुस्वरथा ज वेदेड । इत्यस्यने बलम स्वर प्रिय वेदनी खपरनो मनोज्ञस्वर ते वेद । पुग्गलवा पुग्गलेवा परग लपरिणामवा बीससावा पुग्गलाण परिणाम तेखिवा उदणुण सुभनामं कथा वेदेड । पुद्गलप्रते षक्यवन बहुवचने यपीनोपरे वच्छुट्वाक पुद्गलपरिणा म तेदने उदय शुभनाम कर्म वेदे । एषण गोयमा सुभनामे कणे पयस्य । एदने इगीतम शुभनामकर्म वालाने । गोयमा शुभनामकण्ठवा चउद्दसवि ष्टुपुभावे फं । इगीतम शुभनामकर्मने वेदेभेदे १४ चनुभाग कथो । इष्टथागच्छे भते पुच्छा । खिने चायुपनाम कर्मनी प्रय । गोयमा एववेव न

शुभनामकर्मपथेन शुभनामकर्मपथेन मन्त्रमाह-शुभनामकर्मपथेन गते । इत्यादि ॥ मन्त्रसूत्र प्राग्वत्, निर्वचन चतुर्दशविधो नृजाय तदेव च
 तुदशविधत्व दर्शयति-इहा सदा इत्यादि ॥ एते शब्दादय आत्मीया एव परियुज्यते नामकर्मविपाकस्य चिन्त्यमानत्वात्, तत्र यादित्राद्युत्पादि
 ता इत्येके तदयुक्त तेषामन्यकर्मदयनिष्पाद्यत्वात्, इहा गति मन्तारजाद्यनुकारिणी शिविकाद्यारोहणत येत्येके, इहा स्थिति सप्तजा सिंहास
 गादी चान्ये, इह लावस्य व्यायविज्ञेयलक्षण । कुटुमाद्यनुलेपनजन्मपरं, इहा यत्र कीर्त्त यज्ञसा युक्ता कीर्त्ति यत्र कीर्त्याद्याय विज्ञेय दा
 नपुण्यकृता कीर्त्ति पराक्रमकृत यज्ञः ॥ इहे उद्याकर्मयत्वीरियपुरिचकारपरिक्रमे इति ॥ उत्पान देहोपाविज्ञेय- कर्मरिचनजन्मणादि यत्र
 शारीरसामर्थ्यादिविज्ञेय धीयं जीवमनस्य सगव पुरुषाकारो प्रिमानयिज्ञेय सय्य निष्पादितस्वाविषय पराक्रम, इहस्वरता यज्ञजन्मस्वरता, तत्र
 इहा शब्दा इति सामान्योक्तावय विज्ञेयोक्त स्रदन्वद्युमतस्वावेक्षा वगतव्या कान्तस्वरत स्वरतीति कात कमनीय सामान्यतो ऽनिलपथोय

कर्मस्स जीवेण वदस्स जाव चउद्दसविहे अणुजावे पसस्ते, तजहा-इठा सदा इठा रुवा इठा इठा गंधा
 इठा रसा इठा फासा इठा गई इठा ठिई इठ लावन्त इठा जसो किन्ती इठे उठाणकम्मचलवीरियपु
 रिसक्कारपरक्रमे इठस्सरता कतस्सरता पियस्सरता मणुन्तस्सरता ज वेदेइ पोगल वा पोगले वा पुग

णो बीधन यदस्य यावच्चतुद्दशावय मधसकथया-इहा शब्दा इष्टानि रूपाणि इष्टा गन्धा इष्टा रसा इष्टानि स्पर्शानि इष्टा गति इष्टा
 स्थिति इष्ट लावण्यमिष्टा यज्ञ-कीर्त्ति इष्ट उत्पानकर्मवत्वीरियपुरुषपाटकारपराक्रम इष्टस्वरता कान्तस्वरता प्रियस्वरता मनोज्ञस्वरता यद्दे
 वेण वरस्स जाव पवविधे षण्णभावे प० त० । इभीतम शुभनामकर्मने उदय वाथायका ४ भटे षण्णभाग कक्षा ते कचेके-इहासदा इष्टारुवा इष्टागंधा

इष्टारसा इष्टेगती इष्टाठितो इष्टेजावके इष्टेजवाकित्तो इष्टेपुण्यकर्मयत्वीरियपुरिचकारपरिक्रमे । इष्टयद्य पीते सामन्ते इष्टरूप पीते इष्टगन्ध पीते इष्ट
 इष्ट रस पीते इष्टगत्यादि इष्टागती पाद्येही इष्टलावण्यथायादित्त्वेष इष्ट ययवीर्त्ति इष्टदृश वेदा कर्मं त्व गरीरतो समर्थार पीतानो नोपायो परा

प्राग् चतुर्विंशो नृजाव प्रज्ञप्तः तदेव धतुर्विषत्वं दर्शयति-नेरइयाते इत्यादि ॥ सुनिं ॥ त्वंइत्युप पुंगतं वा इत्यादि ॥ च वेदयते
 पुद्गल शखादिकमायु रपवर्तनसमर्थं बहून् पुद्गलान् शखादिकृपान् यान् वेदयते य वा पुद्गलपरिणाम विधाबादिपरिणामरूप विगतया वा
 य पुद्गलपरिणाम शीतादिकमेवायुरपवर्तनसम तेनोपपद्यमाननवायोपवर्तना कारकाद्यायु कर्म वेदयते एतावता परत उद्योतिरिति, एत
 क्तयस्य सुवमिद-तेष्विवा उदयति ॥ तेषा वा नारकायु पुद्गलाया मुदयेन नारकाद्यायु र्धयते, एषणमित्याद्युपसहारवाक्य, नामकर्म द्विवा

जीविण तहेव पुच्छा, गोयमा ! श्याउयस्सणं कम्मस्स जाव चउच्चिहे छणुज्जावे पयस्से,
 तजहा-नेरइयाउए तिरियाउए मणुयाउए देवाउए ज वेडेड पांगल वा पोगलपरिणामं वा
 बीससा वा पोगलाणं परिणाम वा तेसि वा उटएणं श्याउय कम्म वेडेड एसणं गोयमा ! श्याउयस्स कम्मस्स
 जाव चउच्चिहे छणुज्जावे पयस्से ! सुजणामरत्तण जंत ! कम्मस्स जीविणं पुच्छा, गोयमा ! सुजनालस्सण

छया-नेरयिकायुस्त्रियं गायुर्मनुष्यासुर्देवायुर्देवते पुद्गत वा पुद्गतान्वा पद्गतपरिणाम वा त्रिस्त्रया वा पुद्गलाना परिणाम वा तेषा बोदये
 वेत्ताए कस वेदयते एय गोसम । आयुप कर्मएवतुविधोनृजाव प्रज्ञप्त । श्युयस्य जदन्त । कर्मणो जीवेन पुच्छा, गोयमा ! सुजनात्र कर्म

म प्रय । गोयमा आसस कयस्स जीवेण वाया जाव चउच्चिहे अणुभवे प० त० । देवोतम गायुकर्म जीवने वाधे जातगे ४ भेदे अणुभाग कद्यो ते कहे
 छे-नेरइयाउए तिरियाउए मणुयाउए देवाउए ज वेडेड । गारकीनी आयु तिवंवायु मनुष्यायु देवायु ४ जेवंटे । पुग्गलवा योगसया पुग्गलपरिणाम
 वा बीससावा पुग्गलपरिणाम तेषि उटएण थाउकस्सं वेटर एसण । पट्टाणी एअवगुआची पडुवस्सुआची भयावादेवनी परे पुद्गलपरिणाम तहेजे
 उदय आकस्सो वेदे । गोयमा आउकस्स एसण । देवोतम पट्टो गायुपज्जं । गोयमा पाउकस्स जाव चउच्चिहे अणुभवे प० । देवोतम गायुकर्म
 नी जातगे ४ भेदे-अणुभाग कद्यो । सुइणामस्सण भते कस्सण जीवेण पुच्छा । सुभनाम कर्मने-जीवने प्रय । गोयमा सुइणामस्सण कयस्य जी

सम्यग्भित्तवैदनीय औषादिपरिणामकारण कषायवेदनीय हास्यादिपरिणामकारण नीकषायवेदनीय ॥ ज वेदेइ पुगलभित्तिव्यादि ॥ य वेदय ते पुद्गल विषयप्रतिमादिक पुद्गलान् वा यान् वेदयते यद्गन् प्रतिमादीन् य पुद्गलपरिणाम देशानुसूपाहारपरिणाम कर्मपुद्गलविशेषोपादा । नयनयं प्रवति आहारपरिणामविशेषादपि कदापि एकमपुद्गलविशेषो यथा प्राणोपवाद्याहारपरिणामात् ज्ञानावरणोपकर्मपुद्गलाना प्रति विशिष्ट स्योपजाम , उत्कृष्ट-उदयस्वस्वस्वस्वस्वो वसमाविलयकर्मणोपशयिया । दृश्येत्काल प्रवक्ष्यावचसपप्यं ॥ १ ॥ यिन्नयथा वा यं पुद्गल लाना परिणाम कर्माविकारादिक यद्दर्शना देयवियेक उपजायते-आयु शरज्जलधरप्रतिमनराषा सपत्तय कुसुमित्तुमसारत्तुल्या । स्वप्रोपन्नोपसृष्टु ज्ञावियोपजोगा सकल्पमात्रमशीयमिदं हि सर्वमित्यादि ॥ अथवा प्रणमादि परिणामनियमन य वेदयते तरसामर्थ्या स्तोत्रनीय सम्यक्त्वेद नीयादिक वेदयते सम्यक्त्वेदनीयादिककर्मफल प्रणमादि वेदयते इति भाव , एसावता परत उदय उक्ता सम्प्रति स्वस समाह-तेसि वा उदयण ति ॥ तेषा य सम्यक्त्वेदनीयादिकमपुद्गलाना मुदयेन प्रणमादि वेदयत , यस्यामित्याद्युपसहारवाक्य । आरस्स य भते । इत्यादि ॥ प्रणमन्त्र

परिणाम वा वीससा वा पीगलपरिणाम तेसि वा उदणं मोहणिज्ज कम्मं वेदेइ एसण गोयसा ! मो हणिज्जकम्मं एसण गोयसा ! मोहणिज्जस्स जाव पचविहे ज्युण्णानवे पणत्ते । ज्युडयस्स णं जत्ते ! कम्मस्स

थाप वा त्रिसयया पुद्गलपरिणाम तेषा बोदयेन मोहनीय कर्म वेदयते एय गौतम । मोहनीय कर्म एय गौतम । मोहनीयस्य यावत्सक्य चिचोनुजाव मत्तस । आयुपी जदन्त । कर्मणो जवित्त सयैव पुब्बा , गौतम । आयुप-कर्मणो जवित्त यद्दस्य यावत्तुविचोनुजाव मत्तसस

दे पुगलवा पागलेवा पीगलपरिणामोवा बोससावा पुगलपरिणाम तेसि उदयण मोहणिस्य कस्य वेदेइ एसण । पुद्गलेने एकवचन एकवस्तु पुद्गलजायो वदयवतायो पुद्गलपरिणाम मयावादकानीपरे पुद्गलपरिणाम तेहने उदय मोहनीकर्मनेवेदे । गोयसा मोहणिस्यस्य कमास जाव पचविहे ज्युभा वे प० १० । हेयोतम मोहनीकर्मने जालगे ५ भेदे गनुभाग कट्ठा । आययस्य मते कम्मस्य जीवेण तदेव पुब्बा । आयुने हेमगवन् कर्मने जीववाध्या ति

तिनावापं ॥ कायदुर्हिया इति ॥ काये दुःस यस्यासौ कायदुःखिता दुःखित काय इत्यर्थं ॥ जवेइइइत्यादि ॥ य वेदयते पु
 न्नल विपश्चात्प्रकटकादि ॥ पुगलेवा इति ॥ यान् वा पुद्गलान् बहून् विपश्चात्प्रकटकादीन् वेदयते य वा वेदयते पुद्गलपरिणाममत्याहारलक्षण
 विप्रसया वा य वेदयते पुद्गलपरिणाम मकाले अनजलापित शीतोष्णादिपरिणाम तेन मनसो ऽसमाधानसम्पादनात् असाठवेदनीय कर्मानुप्रव
 ति असातयदनीयकर्मफलमसात वेदयत इति ज्ञाव , एतेन परत उदय उक्त सम्प्रति स्वत उदयमाह-तंसि वा उटएणाति ॥ तेषां वा असातवेद
 नीयकमपुद्गलाना मुदयेनासात वेदयत, एषण गोयन्ने त्याद्युपसहारवाक्य, मोहणिल्लस्यण जते । इत्यादि ॥ प्रअसूत्र प्राग्वत् निर्वचन पचविधो
 नुनाव प्रअस तदेव पचविधत्व दर्शयति-सम्यक्त्वेदनीयमित्यादि सम्यक्त्वरूपेण यद्वेद्य तरसम्यक्त्वेदनीयम्, एव शेषपदेषुपि शब्दार्थो ज्ञावनीय,
 ज्ञावार्थस्त्वय-यदिह यद्यमान प्रथमादिपरिणाम करोति त त्सम्यक्त्वेदनीय यत् पुन रदेवादिबुद्धिहेतु स्तन्मित्यात्ववेदनीय मिप्रपरिणामहेतु ,

**गोयमा ! मोहणिल्लस कम्मस्स जीवेणं वरुस्स जाव पचविहे झुणुन्नावे पयस्से , तंजहा-सम्मत्तवेयणिल्ले
 मिच्छत्तवेयणिल्ले सम्मामिच्छत्तवेयणिल्ले कसायवेयणिल्ले नोकसायवेयणिल्ले ज वेदेइ पोगलेवा पोगाल**

मोहनीयस्य जदत्त । कर्मणो जीवेन बहुरस्य यावत्कतिविधोनुजाव प्रअस ? गीतम । मोहनीयस्य कर्मणो बहुरस्य यावत्सम्यक्त्वेदनीयानुजावः प्र
 अस्तथा-सम्यक्त्वेदनीय मित्यात्ववेदनीय सम्यक्त्वेदनीय कथायवेदनीय नोकथायवेदनीय यद्वेदयते पुद्गलं वा पुद्गलावा पुद्गलपरि

इते । गोयमा असातावेदनीयस्य कम्मस्य सत्तन्निहे अणुभावे प० । हेगीतम असातावेदनी कर्मणा सातभेदे अणुभाग कक्षा । मोहणिल्लक्षण भते कम्म
 रस जीवेण वरुस जाव कदविहे अणुभावे प० । मोहनीकर्मणे हेभगवन् जीवेवाप्यो षके जालणे केतलेभेदे अणुभाग कक्षा । गोयमा मोहणिल्लस्य कम्म
 स जीवेण वरुस जाव पचविहे अणुभावे प० तं० । हेगीतम मोहनीकर्मणे जीववाधाने ज्ञावगी पाचभेदे अणुभागस कक्षा ते कडेछे । सअतवेयणिल्ले
 मिच्छत्तवे० सम्मामिच्छत्तन० कसायवे० नोकसायवे० ज वेदेइ । सम्यक्त्वेदना मित्यात्ववेदना कथायवेदना सखिमित्यात्ववेदना कथायवेदना प कथायवेदना प० ज

विषयत्वमेव दर्शयति-मनुना सदा इत्यादि ॥ मनोच्चा शब्दा श्रागन्तुका वेणुधीयादिसवधिना । अन्ये श्रालीया इत्याहु ज्ञदयुक्त मालीयशब्दानां
याकम्पनेत्यनेनैव गृहीतत्वात्, मनोच्चा रसा इक्षुरसा. प्रवृत्तय, मनोच्चा गम्या कर्पूरादिसवधिना, मनोच्चानि रूपाणि स्वगतस्वस्त्रीवित्रादिग
तानि, मनोच्चा रपज्ञां इषतत्यादिगता ॥ मनोसि सुर यस्यासौ मन सुर स्यास्य त्रावो मन सुखिता सुखित मन इत्यर्थ, या
चि सुर यस्यासौ वाकसुर स्यास्य त्रावो वाकसुरिता सर्वथा श्रोत्रमन प्रह्लादकारिणी धागिति तात्पर्यार्थ, काये सुच यस्यासौ कायसुर स्यास्य
कायसुरिता सुखित काय इत्यर्थ, गते चाष्टौ पदार्थां सातावेदनीयस्योदयेन प्राणिना मुपतिष्ठन्ते तत उक्तोष्टविषयातवेदनीयस्यानुत्ताव पर
त. सातवेदनीयस्योदयमुपदर्शयति-जवेष्ट पुगलमित्यादि ॥ यहेदयते पुद्गलं स्वकृन्दनादि यान् वा वेदयते पुद्गलान् बहून् स्वकृन्दनादीन् य

श्चणुत्तावे पश्यते, तंजहा-मणुन्ता सदा मणुन्ता रूवा मणुन्ता गधा मणुन्ता रसा मणुन्ता फासा मणोसु
हता वयसुहता कायसुहता ज वेष्ट पुगल वा पोगले वा पोगलपरिणामं वा वीत्तसा वा पोगलाण
परिणाम तेसि वा उदण सातावेदणिज्जं कम्मं वेदेड एसण गीयमा ! सातावेयणिज्जे कम्मं, एसणं गी-

वेन यहस्य यावदष्टविधोनुत्ताव प्रज्ञप्तसद्यथा-मनीञ्चानि शब्दति मनोञ्चानि रूपाणि मनोच्चा गम्या मनोच्चा रपज्ञां मन सुखिता वाकसु
रिता कायसुरिता यहेदयते पुद्गलान् वा पुद्गलान् वा विक्रसया वा पुद्गलाना परिणाम,तेषा वोदयेन सातवेदनीय

कथी । गीयमा सायावेयापिच्छस्य कम्मस लोवेष बहस जाव अह. सत्तावेहे अयभावे प० त० । हेनोतम सातावेदनीकम्मने लोव वाध्यायके काली
मातिभेदे पनुभागरसत्ते ते षहेके-मणुणासन्ना मणुणाकवा मणुणागंधा मणुणाफासा मणुणानुहया वयसुहया कायसुहया ज वेदेह । म
णोप्रगट् मनोप्रगट्प मनोप्रगट्प मनोप्ररत मनोप्रस्यर्ग मनोप्रमुख वषनेसख कायनामुखा ज वेदेह । पुगलवा पोगलेवा पोगलपरिणामवा योयसावा
पुगलाण परिणामं तेसिषा उदण्ण सायावेयापिच्छ स्य. वेदेह एसण । पुद्गलेने पुद्गलपरिणामे वादलभरयानीमरे पुद्गलपरिणामे तेदनेचद्वे सातावेद-

एतेन परिणतुमिच्छन्ति वास्यन्त्यत्वादिना दर्शनपरिणामपुष्पात्ता न पश्यति प्राणं दृष्ट्वापि पथा न पश्यति दर्शनावस्थीयकर्मदृशना मुदया
 त् किं वपुना दर्शनावस्थीयस्य कर्मण उदयेन जीव उच्छ्वन्नदृश्यापि याव च्छक्तिप्रख्यादितदर्शान्यपि प्रवर्तते ॥ अस्य गीयमा । दरिसणावरणिज्जे
 कम्मे इत्याद्युपसंहरवाक्य ॥ सायावेयणिज्जस्सणं त्रते । कम्मस्स इत्यादि ॥ मग्गमूत्र माग्गवत् निवचनमाह-गीतम । अट्टविधोनुजाव प्रसस्र । अट्ट

ज्ञावि न पासड उच्छ्वन्नदृशनीयात्रि नवड दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उट्टण एसणं गीयमा ! द
 रिसणावरणिज्जे कम्म एसण गीयमा ! दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स जीवेण वट्टस्स जाव पीग्गलपरि
 णाम पय्य नवविहे अणुजावे पखत्तं । सातावेट्टणिज्जस्सणं त्रते । कम्मस्स जीवेण वट्टस्स जाव पीग्गल
 परिणाम पय्य कतिविहे अणुजावे पसस्से गो० । सायावेयणिज्जस्स कम्मस्स जीवेण वट्टस्स जाव अट्टविहे

याम तेषा बोदयन द्रष्टव्य न पश्यति द्रष्टु कामोपि न पश्यति दृष्ट्वापि न पश्यति उच्छ्वन्नदृशनी चापि नवति दर्शनावस्थीयस्य कर्मण उदये
 नैय गीतम । दर्शनावस्थीय कर्म, उप गीतम । दर्शनावस्थीयस्य कर्मणो जीवेन वट्टस यात्पुद्गलपरिणाम प्राप्य नयविधोनुजाव प्रसस्र
 सातावेदनीयस्य प्रदत्त । कर्मणो जीवेन वट्टस यावत्पुद्गलपरिणाम प्राप्य कतिविधोऽनुजाव प्रसस्र ? गीतम । सातावेदनीयस्य कर्मणो जी

ण उदयोपि भवति । जेवेदे ते निये एकवत्तु पुद्गल वट्ट वस्तु पुद्गलपरिणामने वर्णयथा तिम पुद्गलपरिणामने तेने उदये उच्छ्वन्नेने नट्टेये उच्छ्वानी वा
 व्या कट्टे पिय नट्टेये उच्छ्वन्नदृशनावरणीयस्यो बुवे । उदयवत्तावरणिज्जस्स कर्मण उदयेण एसणं । दर्शनावस्थीयकर्मने उदय एदने । गीयमा उदयवत्तावर
 णिज्जे कर्म एसण । हे गीतम दयनावस्थीयकर्म एदने । गीयमा उदयवत्तावरणिज्जस्स कर्मण जीवेण वट्टस जाव पय्य अट्टविहे पय्यभावे
 ॥० । हे गीतम उदयनावस्थीय कर्मने जीववाच्याहे जावने पुद्गलपरिणाम पामोने नवभेदे अनुभागस्य कट्टया । सायावेयणिज्जस्सणं भते कम्मण जोषेण
 उदय जाव पुण्यपरिणाम पय्य कट्टिदिसे अणुभावे प० । याता वेदतोऽर्थमने हेम,गमन जीवेने वाच्यायथाने जावने पुद्गलपरिणाम केतलेभेदे रस पामोने

गीतन । नवविष्य प्रक्षर स्तदेव नवविषयं दर्शयति० निद्राद्वयार्थमग्रे बह्याभो प्रावाप्यं स्वयं-सुरपिडिबोनिहा दुरपिडिबो
 हायनिद्रानिद्राय । पयलाहोशठयस्व पयलपयलायचकमठ ॥ १ ॥ श्रीबद्धीपूणअडस किलिठकस्माणयणेहोड । मरनिद्रादिणिचितिय वावारपचाड
 णीपाय ॥ २ ॥ बहुदर्शनावरण बहु सामान्योपयोगावरण एव शोषयपि जावनीय ॥ जवेयड इत्यादि ॥ य वेदयते पुद्गलमृशयनीयादिक । पुगले
 वा इति ॥ यान् पुद्गलान् बहून् मृदुशयनीयादीन् वेदयते पुद्गलपरिणाम माहिपदथाद्यान्वबहुताहारपरिणामित्यथ ॥ वीससावा पोगलण प
 रिणाममिति ॥ वर्षास्त्रससृजनप्रोरूप धारावृत्तनियस्वरूप वा न वेदयते तेन निद्राद्युदयाक्षेपतो दर्शनपरिणामपचाते मतावता परत सक्त सन्न
 ति स्वत उदयमाह-तेसि वा उदयणति ॥ तेपा वा दर्शनावरणीयकमपुद्गलाना मृदयेन परिणतिविघातेन द्रष्टव्य न परयति तथा काश्चिद्दर्शनपरि

गोयमा । नवविहे श्रुणुत्रावे पणत्ते, तजहा-निद्रा निद्रा? पयला? पयला? थीणश्री चरकुदसणावरणे
 श्रुचरकुदसणावरणे उहिदसणावरणे केवलउसणावरणे ज वेदेड पोगल वा पोगले वा पुगगलपरिणामं
 वा वीससा वा पोगलपरिणाम तेसि वा उदण पासियहं वा न् पासड पासिकामे न पासड पासि

पुद्गलपरिणाम माय कतिविधोनुभावाः प्रक्षर ० गीतन । नवविधोऽनुभाव प्रक्षरस्तद्यथा-निद्रा निद्रा प्रचला प्रचलाप्रचला स्थानद्विंश्च
 पुद्गलानावरणमचलुदर्शनावरण केवलदर्शनावरण यद्देयते पुद्गल वा पुद्गलान्या पुद्गलपरिणाम वा विश्रसया वा पुद्गलपरि

कमस कौशिय बहस जाव पुगलपरिणाम पय एवविहे प्रणभाव ष० त० । दर्शनावरणोक्तं वार्थयके जानी पुद्गलपरिणामे पामीने नवभेदे अत्रनाग
 कदिवा तेकहेके-विहा शिदापिहा पयना पयलापयला शीबहो चरकुदसणावरणे अचरकुदसणावरणे ओहिदसणावरणे केवलदसणावरणे ८ । निद्रा
 निद्रानिद्रा २ प्रथना ३ प्रचलाप्रचला ४ वीससा ५ श्रुणुत्रानावरणो ६ अचरकुदसणावरणो ७ अविदसणावरणो ८ केवलदर्शनावरणो ९ । ज वेदेड पुग
 लेना पोगलेना पु० परिणामेवा वीससावा पुगलपरिणाम तेसिवा उदरण पासियकमा कोपासक पासिकामे शोपासक पासियायि शोपासक इच्छि

द्वितीयपर्यायान्नद्वारेण ज्ञानपरिणताद्युपहृताय प्राप्त्यमेकद्विय कर्मणि सद्गस्तु न जानाति ज्ञानपरिणते रूपरत्नत्वात्, अथ साधेश्च उदय उत्ती
निरपेक्षस्य तु विषये चूत्रनिद-तेसिग उदयति ॥ ज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानां विषयकप्राप्तानां मुदयेन ज्ञातव्यं न जानाति ॥ ज्ञानिउकाम न
जाणइ इति ॥ ज्ञानपरिणामे परिणमितु मिच्छन्वपि ज्ञानपरिणयुपघातात् न जानाति ॥ जातितावि न जाणइ ॥ इति प्राग् ज्ञात्वापि पश्चात् न
जानीते तेषामेव ज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानां मुदयात् ॥ उच्छन्ननाशियावि प्रवड इत्यादि ॥ ज्ञानावरणीयस्य कर्मण उदयेन जीव उच्छन्नज्ञान्यपि
प्रयति उच्छन्न य तज्ज्ञानस्य उच्छन्नज्ञान तदस्यास्तीति उच्छन्नज्ञानी सर्वधनादिपाठान्युपगमादि यावत् अस्तिप्रच्छादितज्ञान्यपि प्रवतीत्यर्थः ॥
यद्यपि गीयमा । नागावरणिजे कत्मे ॥ इत्याद्युपसहारवाक्यं कम्प ॥ दशधावरणिजस्सण जते । इत्यादि ॥ प्रयत्नपूर्ववत्प्रवचनमाह-

अथति नागावरणिज्जरस कम्मस्स उदण्ण एसण ? गीयमा ! नागावरणिज्जे कम्मं एसण गीयमा ! ना
गावरणिज्जरस कम्मस्स जीवेण वरुस्स जाव पोग्गलपरिणाम पय्य दसविहे च्युण्णजावे पखत्ते । दरिसणा
वरणिज्जस्सण जते ! कम्मस्स जीवेण वरुस्स जाव पोग्गलपरिणाम पय्य कतिविहे च्युण्णजावे पखत्ते ?

नजानाति ज्ञात्वापि नजानाति उच्छन्नज्ञान्यपि प्रवति ज्ञानावरणीयस्य कर्मण उदयेनेप गीतम । ज्ञानावरणीय कर्मः एव गीतम । ज्ञानावर
णीयस्य कर्मणो जीवेन वदुस्य यावत्पुद्गलपरिणाम प्राप्य दशविधोनुज्ञानं प्रव्रत । दर्शनावरणीयस्य जदत्त । कर्मणो जीवेन वदुस्य यावत्
परिच्छेदधी । नागावरणिज्ज कस्य उदण्ण एसण ? ए सर्वं ज्ञानावरणीकर्म उदय हुवे । गीयमा नागावरणिजे कस्य एसण । हेभीतम ज्ञानावरणी
कर्म हुवे । गीयमा नागावरणिज्जस्य कस्यस्य जीवेण वदुस्य जाव पुद्गलपरिणाम पय्य दसविहे अणुभावे प० । हेभीतम ज्ञानावरणीकर्म जीवने प्रदेय
याथोच्छे ज्ञानी पुद्गलपरिणाम पामोने दशभेदे अनुभाग वदुस्य । दरिसणावरणिज्जस्य मते कस्यस्य जीवेण वदुस्य जाव पोग्गलपरिणाम पय्य कतिविह
अणुभावे प० । दर्शनावरणी हेभयवत् कर्म जीवने नाध्यायका बालगे पुद्गलपरिणाम पामोने चेतस्त्रेभेदे अनुभाग कथा । गीयमा दरिसणावरणिज्जस्य

द्विजितानि कर्मणि ता ता गति स्थिति जव वा प्राप्य स्वयमुदयनागच्छतीति, उच्यति परत उदयमाह-पुद्गत काएलेट्टुकादितरुण प्राप्य तथा द्वि-परैश्च द्विस काएलेट्टुकादिब सावाद्य जव त्पसातवेदनीय क्रोधादीना मुदय साया पुद्गापरिणाम प्राप्य एत किञ्चि दकृतं स्वसिपि पद्मनाग श्रित्य विषाक सायाति यथा भ्यवहृतस्या द्वारस्या जीलत्वपरिणामत्वमापित्य असातयेदनीय प्रानाशरीय त् सुरापान निमित्तं एत पुद्गापरिणाम प्राप्ये त्युक्त कतिविधो नुजाव प्रश्न इत्येय प्र ' अत्र निवचन दशाविद्योनुजाव प्रश्न तदेव दशाविषयननुजाव दर्शयति-सोयाधरगेइत्यादि ॥ इउ श्रोत्रशब्देन श्रोत्रेन्द्रियविषय क्षयोपशम परिगृह्यते ॥ सोयविनाशुवरणे इति ॥ श्रोत्र विज्ञानशब्देन श्रोत्रेन्द्रिययोगो यद्यु निर्दूत्यपलक्ष्य द्रव्य इन्द्रिय यदङ्गोपाङ्गनाम नामकमनिवर्त्ये न ज्ञानावरणविषय इति, न श्रोत्रशब्देन गृह्यते एव नेगवरणे इत्याद्यपि ज्ञापनीय तत्रेकोन्द्रियाणां रस

जव पप्य पौगलपरिणान पप्य कतिविहे छुणुनावे पखत्ते ? गोंयमा ! नाणावरणिज्जस्सण ऊन्मस्स जी वेण वरुस्स जाव पौगलपरिणाम पप्य दसविह छुणुजावे पखत्ते, तजहा-सोतावरणे सोयविद्वानाणाव रणे नेज्ञावरणे नेज्ञविद्वानाणावरणे स्सावरणे रसविद्वानाणावरणे फासावरणे

प्राप्य कतिविधोनुजाव प्रश्न ० गीतम । प्राणावरणीयस्य कर्माणि कर्तव्यं वदस्य यात्पुन्यपरिणाम प्राप्य द्वात्रिंशोऽनुनाय प्रउसखाद्य या-श्रोत्रावरण श्रोत्रविज्ञानावरण नेगावरण प्राणावरण प्राकविद्यानावरण रसावरण रसविज्ञानावरण स्वर्गावरण रवर्षा भाव कथा । गयना नाणावरणज्जगत् कल्पसागाव वदस्य काव पयानपारणाम पप्य दसविह अणुभावे प० त० । इतीतम ज्ञानावरणोऽयं शीवरा वाध्यः ज्ञानरा पत्तपरिणामने पामी त्र्यनेटे अनुभाव पुहन ती रम कथा त्र्यकथे । सोयावरणे सोयविद्याणावरण केशावरण केशविद्याणावरणे च । पावरणे वाचविद्याणावरणे रसावरणे रसविद्याणावरणे च । साधारण प्राकविद्याणावरणे च । योतावरणे ज्ञान न खाभो नृताजिग,गावरणे ज्ञानो न साभले नेत्रावरणे न देखे य उ देखे प्राण गत्य नभावे श्रोतोयावे रसनीयावरण रसविद्याणावरणे अर्थावरण सर्वाविद्याणावरण देदेहे ।

वेदयते, अक्षीणघातिकर्म वेदयते दीर्घघातिकर्मात् न वेदयते इति श्राव', अमृमेवार्थे चतुर्विंशतिशब्दक्रमेण चित्रयति-नेरइगण भते । इ
 त्थादि ॥ अमुम, मनुष्य सुखा शेषेषु सर्वेषु स्थानेषु नियमा हेदयते इति यक्तव्य सर्वेषामर्थात्कसत्वात्, मनुष्ये यथा जीवपदे चित्रित
 तथा निघातव्य शीघ्रघातिकर्मणोपि मनुष्यस्य लक्ष्यमानत्वात्' एव नेप मन्वतेन टाडक सकृ एव यदुल्लेनापि यक्तव्य, यथाप शानावरणीयो

वेमाणिपु नवर मणुस्त्वे जहा जीवि । जीघाण जते । नाणावरणिज्जं कम्म वेदेह ? गोयथा ! पुत्रंयैव ।
 एवं जाव वेमाणिया । एव जहा नाणावरणिज्जं तहा हत्तणावरणिज्जं मोहणिज्जं अत्तराह्वयंच । वेयणिज्जा
 उयनांसगीयाह एवचेत्र नवरं मणुरसेत्रि नियमा वेदेति । एव एते एगत्तपाहित्तिवा मोलस'दुग्गा । नाणा

पिको जटल । ज्ञानावरणीय कर्म वेदयत ? गीतम । नियमाहेदयते । मय यावहुमानिको नवर मन्वयो दद्या जीव । जीया स्टन । ज्ञाना
 वरणीय कर्म वेदयते ? गीतम । एव चेत् । मय यावद्वेमानिका । एव यथा ज्ञानावरणीय तथा दशरावरणीय गीतनीय मन्तराव एव ।
 वेदनीयानुनांगोत्राणयव चैव नवर मन्वयोपि नियमाहेदयत । एवमेत मरुत्तमायक्रिया पीडन दयउत्ता । ज्ञानावरणीयस्य नदन्तः करणो

विमे नारका ज्ञानावरणीकर्मने वेदे । गायमा शिवमा बट्टर एव जान यमाणि एवर मणुस्त्वे जहा जीवे । हेगीतम निचंत्तरो वेदे इम ज्ञानगे वमा
 निक्क णवियेप मणुयने जिम जौषतकह्यो तिम काडिबी । जावाण भते पाणावरणित्त लण्य वेदे । जीव हेमभवन् ज्ञानावरणोक्तमे वेदे । गोत्रया तचम
 एव काव वेमाणि एव जहा-पाणावरणिज्जं तहा टरिसथावरणिज्जं मोहणिज्जं अग्राश्व मा० । हेगीतम, इनहीज इम जानगे वेग, निज इम जिग
 पाणावरणी तिम दर्शनावरणी मोहनी अन्तराय कडवी । वेयणिल्ला सय नाम गोतादत्रि एवचम एवरं मणुरसे नियमा पट्टर एव एते एगत्त
 पुत्तित्तिवा सीलसदुग्गा । वेदभी यायु नाम गोत्र इनहीज एवियेप ननुष्य निचै वेदे बीजा सर्ववेदे बीजा सर्वजीव अथवाधात चे मे ननुष्य जी
 यधातकर्मना यणो मनुपपणी पानी ते वेदे इम एत्तल, एगत्त करी सोत्ते दण्डक काडिवा धार । पाणावरणिज्जमन्वर्भ भते कम्मल जीवेण पडरया, प

शेदि इत्यादि ॥ गवसलु इत्यर्थे रत्नलोके श्रुतमिः स्थाने कथयति रित्याह-वीर्यपृथङ्गतिः कौवर्षीयस्थायिते रित्यर्थः, ज्ञानावरणीय कर्म जीवो वप्राति, अनुमेवाय अतिर्विशक्तिदृक्कर्मणश्चितयति-एव नैरइए जाव येमाणिण ॥ सुगम नवर गव सूत्रपाठ-नैरइए जते । नाणावरणीय ज्ञान कम्प कइहि टारोदि यथइ इत्यादि ॥ तदेवमेकस्वेन चिन्ता कृता सम्प्रति यद्व्येन वा कुर्वन्नाह-जीवाय भते । इत्यादि ॥ सुगम यथाच ज्ञानावरणीयमेकत्वयुक्त्याभ्या दयत्कद्वयेन चिन्तित तथा दशनावरणीयादीन्पि चिन्तनीयानि सर्वसङ्ख्या योहय दण्डका स्तदेव नुष्क एहीयद्वा र' सम्प्रतिकतिप्रकृति वंदयते इति चतुष्टयद्वार मान्निधिस्तुराह-जीवेण जते । इत्यादि ॥ अस्यैक कचित् यो वेदपत अस्यैक काञ्चित् यो न

एवं नैरइए जाव वेमाणिण । जीवाणं जते । नाणावरणिज्जं कम्म कतिहि ठाणेहिं वधति ? गोयमा !
 दोहि ठाणेहि एवचेव । एव णेरइया जाव वेमाणिया । एव दंसणावरणिजा जाव अंतराइयं । एव एए
 एगत्तपोहसिया सोलस टरुया । जीवेण जते ! नाणावरणिज्जं कम्म वेदेइ ? गोयमा ! अत्येगइए वेदेइ
 अत्येगइए नो वेदेइ । णेरइएण जते ! नाणावरणिज्जं कम्म वेदेइ ? गोयमा ! नियमा वेदेइ । एव जाव

नि स्थाने वप्राति ? गौतम । द्वाभ्या स्थानाभ्या एव चैव । एव नैरपिका यायद्वैमानिकाः । एव दर्शनावरणीय यावदन्तरायम् । एवमेत एक
 त्वप्राथमिका योहवा दण्डका । जीवो जदन्त । ज्ञानावरणीय कर्म वेदयते ? गौतम । अस्यैकको वेदयते अस्यैकको यो न वेदयते । नैर

वपने ज्ञानावरणी केतलेकमे वाधे । गोयमा दोदि ठाणहि क्वच एव णेरइवा जाव वेमाणिचा । हेगौतम वेठामे रागद्वेष इम नारको जालगे वेमा
 निक । एव दरसणावरणिज्ज जाव अतराइव एव एते एवत्तपुइकीया सोलसदण्डया भा० । इम दर्शनावरणीय पिच जालगे यन्तराय पिच इम एकवच
 न वइवचने करी १६ दण्डकवाय हारनो जे हार अनन्तर केतथी प्रकृति वेदे बीधीचार कइहे । जीवेच भते णापावरणिज्ज कम्म वेदेइ । जीवने इभग
 वन् ज्ञानावरणी कर्मने वेदे । गोवमा अत्येगइए एव वेदेइ अत्ये० नोवेदेइ । हेगौतम केइ वेदे केइ नवेदे । णेरइएण भते णापावरणिज्ज कम्म वेदेइ ।

ऽप्रीत्युपयोग, यदा चाप्रीत्युपयोगो न तदा प्रीत्युपयोग एकस्मिन् समये उपयोगद्वयान्नावात्, ततो मानमायालोका प्रीत्युपयोगकाले उक्तद्वेष-सञ्जन्समुपयोगो दोषोऽसंशयमयेनते । रागोत्थित्यदोषोऽपि परिणामवशेनऽपि विसेसो ॥ १ ॥ माणोरोगोत्थिते चार्कारोवर्णनकालमि । सोऽप्येवोदोषो परगुणदोषोऽपि ॥ २ ॥ मायालोकाचेव परोवर्णनकाले रागोत्थित्यदोषोऽपि । सुखोवयोगकाले रागोत्थित्यदोषोऽपि ॥ ३ ॥ शब्दादय इत्यप्युत्तरवशात् । रिह द्वावेव फपयो क्रोधीलोकाश्च, येतु मानमाये ते क्रोधीलोकाश्च । तथोऽपि च लोकप्रसिद्धो द्विधा परीप ध्यवसाया स्ते क्रोधीऽप्रीत्यात्मकत्वात्, येतु स्वगुणोरुपपरद्रव्यमूर्च्छात्मका स्ते लोका अत्रिगुणरूपत्वात्, तौजोऽपि च लोकप्रसिद्धो द्विधा परीप घातात्मको मूर्च्छात्मकश्च, तत्र परीपघातात्मको यथा क्षत्रियाणा परराष्ट्रपक्षरे, मूर्च्छात्मको न्यायोपात्ते निन्दत्ये, तत्र च परीपघातात्मकश्च क्रोधी भवति कोऽप्यसर्वोऽपि यथोक्तस्वरूपो द्वेषो ऽप्रीत्यात्मकत्वात्, क्वलस्तु मूर्च्छात्मको ध्यवसायो लोकाश्च राग स्तथाचोक्त-चन्द्राइमयमा ये मायास्यसगुणोवगाराय । उवर्णनोलीहोत्थित्य जतोऽसत्तथवत्वरद्वो ॥ १ ॥ ससारिकोऽपि च परोवर्णनकाले नोदीप्तोऽपि तद्वत्त्वयोऽपि लोकोऽपि चर मुच्छाकेवलोरोगोऽपि ॥ २ ॥ तत्र चन्द्रहनयमतेनाह-रागे दुविहे पन्नते इत्यादि ॥ सुगम प्रावितत्वात्, उपसहारमाह-एष्येति चरति टा

रागेण दोसेणय । रागे दुविहे पयत्ते, तजहा-मायाय लोनेय । दोसे दुविहे पयत्ते, तजहा-कोहेय माणय । इचेतेहि चउहि ठाणेहि वीरियउवगहिणहि । एव खलु जीवे नाणावरणिज्जं कम्म वधइ ।

निं स्वार्थीर्षोपगृहीते रवं खलु जीवो ज्ञानावरणीय कर्म यप्नोति । एव निरयिको यावदुमानिक । जीवा प्रदन्त । ज्ञानावरणीय कर्म कति

ते कहेहे । मायायलोभेण दोसे दुविहे प० तं० । माया लोभ, हेपना भेटकक्षा ते कहेहे । कोहे माणय इचेइएहि ठाणेहि, वीरियो वगहिणहि एव ख सुनोवे षाणावरणिज्ज कम्म वधति एव केरइए जाय वेसाणिण । काप मान उद्वे चारठामे कहेहे चारठाम वीरिपय्यहने जीय, वीवे द्यापो निवमं प्र ज्जीने इम नियो ज्ञानावरणीकर्मने वापे इम नारको चाबोने वैसानिख । जीवाण भवे षाणावरणिज्ज कम्म कहि ठाणेहि वधति । जीप हेमगवन् चइ

रगात्-तद्यथा-रामेण हेतुग च, अथ कोसौ राग को वा हेतु इति उच्यते-प्रीतिलक्षणे रागे ऽप्रीत्यात्मको हेतु, अतीव प्रीत्य प्रीत्यात्मकीरा
 गद्वयी नात्यन्तकोपादिभ्यो व्यतिरिच्यते, किंतु तेष्वेवान्नभवत सर्वान्तर्भावो न्यजेदा द्विविध इति विनयेजनानुसृत्य मटवर्धते-तत्र सुगुहो म
 न्यते कोषोऽप्रीत्यात्मक प्रतीत्येव, मानोपि परगुणासहनात्मकत्वात् अप्रीत्यात्मक स्वतो ऽप्रीत्यात्मकत्वा देतो द्वावपि हेतु, लोको ऽभिधेया
 त्मकत्वात् प्रीतिरूप सुप्रसिद्धो, मायामाप परवधनात्मक किंचिदभिलषन् प्रयुक्ते अभिलाषय प्रीतिस्वभावा इति सर्वापि प्रीत्यात्मिका तत एतो
 मायालोको प्रीत्यात्मकी राग, उक्तव-कोऽसाञ्चयीह जाइतोयइशारेदोस । माभाएतोनेणय सुपीरजाइसामयतोराग ॥ अश्रोतरानुस्वाचरयो
 जना मायया लोकेन सह प्रीतिजातिसामान्यात् समानप्रोतिजातिभावात् द्वावपि मायालोको सुगुहो रागमाचष्टे इति, व्यञ्जार पुन द्रुते माया
 यत्तु परापघाताय प्रयुज्यते परीपघातपरिषामश्च द्वय इति मायया गद्वेपऽक्तज्ञोऽय यातु स्वायोपादानेनार्थं नूच्छां च परीपघातरिति श्रुद्धो

लोभ इति राग स्वचेदस्य सतेन यस्तुव्यवस्थित कोषमानमायाद्वेपलोको राग इति आह-मायपिदोसमिच्छइ यवफरोजपरोपघायाय । नायावा
 याणश्चिप सुच्छालोकोत्तिरोगो ॥ १ ॥ गजुसुत्र पुनराह-कोषो नियमादप्रीत्यात्मक तत च परीपघातात्मकत्वात् हेतु येत मानमायालोका
 स्ते र्द्वेषापि सम्भवति प्रीत्यात्मका अप्रीत्यात्मका च तयार्हि-मान साएकारोपयागकाने प्रीत्यात्मक स्वगुणयदुमानभागात् परगुणदोषीपयोगते
 लाया मप्रीत्यात्मको मात्सयादिभावात्, मायापि परयधनोपयोगप्रवृत्ती परीपघातरूपत्वा दप्रीत्यारिमका परातद्रव्योपादानविधत्ताया त्यजिघृक्षा
 त्मकत्वात् प्रीतिरूपलोकोपि क्षत्रियादीना परिचिन्त्यमानप्रीत्यप्रीत्यात्मक गुप्रतीति स्वयार्हि-क्षत्रिया एव मन्वते परविपयापहारीऽस्त्वाक स्वा
 यो वीरजोऽयवमुचरेतिवचनात्, ततो यदा परविपयापहाराय तेषा मित्यर्थमजियोग खादा सो प्रीत्यात्मक परीपघातहेतुत्वात् । यदा तु पर
 विपयजिघृक्षोपयोग खादा सो जिघृगालकत्वात् प्रीत्यात्मक स्वत एव मानमायालोका उन्नयरुपा अपि संयुज्यते, यदा च प्रीत्सुपयोगो न तदा

साक्षादीपयोगोपयुक्तस्यैव जायते न दर्शनीपयोगोपयुक्तस्य यद्वादीनृसागारोवृत्तौवत्तस्यैव नोऽश्रुणागारोवृत्तस्यैव यच्चनप्रभाश्यात्, अन्यच्च यस्मिन् समये सकलकर्मवित्तिर्मुक्तस्वरूपो जीव सम्पद्यते तस्मिन् समये ज्ञानीपयोगोपयुक्त एव न दर्शनीपयोगोपयुक्तौ दर्शनीपयोगोपयुक्तौ द्वितीयसमये प्राधात्, ततो ज्ञान प्रधान तदावारक च ज्ञानावरणीय कर्म सत स्तत्प्रथममुक्त तत स्तदन्तर दर्शनावरणीय ज्ञानोपयोगोपयुक्तस्य दर्शनीपयोगे ऽवस्था नात्, मतेच ज्ञानदर्शनावरणीये स्वधियाकमुपदर्शयतीति यथायोग मवश्य सुखदुःखरूपवेदनीयकर्मविविधोदयनिमित्ते प्रवत. तथाहि-ज्ञानावरणमुप धयोत्कर्षमधिकृढविधाकतोनूत्रवन् मूलम् १ तर वस्तुविचारसमयमात्मान जानान सिद्यते श्रुतिलोक, ज्ञानावरणीयकर्मज्ञयोपज्ञमपाटवोपेत श्च मूलम् १ तराणि वस्तूनि निजप्रकृष्या त्रिदानो बहुज्ञानोत्तियायिन मात्मान पश्यन् सुख वेदयते, तथाविधनिवृत्तश्रानावरणविविधोदये ज्ञानान्या दिरनुभवति दुःखमद्भुत दर्शनावरणकर्मज्ञयोपज्ञमपाटवोपेतो यथावद्वस्तूनि पश्यन् वेदयते प्रसोद तत शतदशम् प्र विपत्स्य दर्शनावरणीयानन्तर वेदनीयग्रहण, वेदनीय च सुखदुःखे जनयतीत्यज्ञानोपविषयस्यैवत् प्रतीष्टानन्तीष्टावपयस्यैव चोच्यते ससा रिणो रागद्वेषी तौ च मोहनीयहेतुकी तत एव तदर्थप्रतिपत्स्यं वेदनीयानन्तर मोहनीयग्रहण मोहनीयमूढाश्च जन्तवो यद्द्वारम्भपरिग्रहाद्यासक्ता नरकाद्यायुफ सावध्नन्ति, ततो मोहनीयानन्तर आयुफट्टइय नरकाद्यायुफोदय वा वश्य नरकगत्यादीनि नामान्युदयसायानि तत ज्ञानानन्तर नामग्रहण नामकर्मोदये च नियमा दुर्घनीवाच्यतर गोत्रकर्मविविधोदयेन प्रवितव्य मतो नाम ग्रहणानन्तर गोत्रग्रहण गोत्रोदये वीर्घे कुलोत्प लस्य प्रायो दानलान्नान्तरायाविश्वयोपज्ञसो प्रवति राजप्रजृतीना प्राचुयेण दानलान्नान्तरायायुदयोन्त्य

दरिसणावरणिज्ज्ञ वेदणिज्ज्ञ मोहणिज्ज्ञ ज्ञाउय नाम गोत्त ज्यंतराइय । नेरडयाणं ज्ञते ! कतिकम्पगज्ज्ञीनु

ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय मोहनीयमायुर्नाम गोत्रमन्तराथम् । नैरियिज्ञाणा प्रदत्त । कति कर्मप्रकृती प्रज्ज्ञा ? गीतम । एवचेच

अतराय ८ । ज्ञानावरणो दयंनावरणी वेदनी मोहनी याज्ज्ञो ताम गोत्र यनराय ८ । नेरडयाण कडकम्पग १० । नारकीने हेमगवन् कतली कर्मगकृति

दि' प्रायते परिच्छिद्यते वस्त्वर्नर्नति ज्ञान, सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि विशेषग्रहणात्मको अर्थ, आश्रयते आच्छाद्यते अनेनेत्यावरणीय, छद्मदुलभमितियथना रकरणे नीयप्रत्यय ० ज्ञानस्वावरणीय ज्ञानावरणीय दृश्यतेनेनेति दशम सामान्यविशेषात्मके वस्तुनि सामान्यग्रहणात्मको अर्थ, उक्तव-जसामकगहण प्रावाकनेयकहुआगार । अवसेविजणअत्थे दशमिदुवुषयसमए ॥ १ ॥ तस्यावरणीय दर्शनावरणीय, तथा वेद्यते आह्लादिरूपेण यदनुजुयते तद्देदीय, अथ कर्मण्यनीय, यद्यपि च सर्वं कर्म येद्यते तथापि पङ्कजादिशब्दवत् वेदीयज्ञाद्यस्य रूडिद्विषयत्वान्, सा तासातुपनेव कम वेदीय भित्युच्यते नञोष । तथा मोहयति उदसद्विवेकिकल करोत्यात्मानमिति मोहनीय, अत्र ययुवचना रक्तसंपनीय, त या एति आगच्छति प्रतिबन्धकता स्वकतकमवहनरकारिकुगतिति ऋमितु मनसो जतो रित्यायु, अथवा आसमता देति गच्छति प्रवाङ्गधान्तर सक्ताती विपाकोदय मिरयायु "उन्नयत्रा प्यौशादिक उष्मरयय ० तथा नामयति गत्यादिबर्षायानुन्नयन मति प्रवणयति जीव मिति नाम, तथा गूयते आद्यते उद्यावचे आर्षे यत्तद्गोत्र उद्यनीचकुलोत्पत्तिलक्षण पर्यायविज्ञाप, तद्विपाकवेद्य कर्मसंपि गोत्र कार्य कार्शोपचारात् यद्वा कर्मणोऽप्या दानविवक्षा गयते शब्दयते उद्यावचे आर्षे रात्ता यस्मा र्कर्मण उदया तद्गोत्र, तथा जीव दानादिक चात्सराख्यवयानापादनाय एति गच्छत्यन्तरा य जीवस्य दानादिक कर्तुमुद्यतस्य विषयतर्कवृत्तीत्यर्थः, अत्राए नन्वित्य ज्ञानावरणीयाद्युपन्यासे किञ्चिदस्ति प्रयोजन मुन्नयया कथञ्चिदेव प्रवृत्ते इति अस्तीति ब्रूम- किञ्चिदितिचे दुच्यते-इह ज्ञान दर्शनेन च जीवस्य स्वतत्त्वज्ञत तदनावे जीवत्वस्वीवायोगात्, घेतनालक्षणेदि जीव स्तत च कथ ज्ञानदर्शनाभावे प्रवेत् ज्ञानदर्शनयोरेपि च मध्ये प्रधान ज्ञान तद्दृष्ट्यादेव सकलशाखादिविषयविचारयततिप्रवृत्ते, अयिच सर्वत्रापि लब्धयो जीवस्य

कहणं नते ! कम्मपगच्छीत् पखत्तात् ? गोयमा ! अथ कम्मपगच्छीत् पखत्तात्, तजहा-नाणावरणिज्जं

व । कतिप्रकृतोर्वेदयते आनुज्जाग कतिविच कस्य ॥ १ ॥ कति प्रदन्त । कर्मप्रकृतय प्रज्जासा ? गीतम । अती कर्मप्रकृतय प्रज्जासास्तथया-
 यगा अइककथपयडोशो प० त० । हेगीतम त्राठ कर्मप्रकृति कही ते कहेणे-पाषावरणिज्ज दसपावरणिज्ज वेयपिक्ख मोहपिक्ख पाउट नाम गोवं

वति शेषस्य नवतीत्यर्थं, मिथ्यादर्शनप्रत्यया निषेध्या मनुष्यस्य यथा सामान्यतो जीवस्य व्यतरादीना यथा नैरयिकस्य, सम्प्रत्यासामैवारत्रिक्या दीना क्रियाणा परस्परमल्पबहुत्वमाह-एकसिद्धं ज्ञते । इत्यादि ॥ सबस्तोका मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया मिथ्यादृष्टिना मेव प्राजात्, ततो ऽप्रत्या स्यात्क्रिया विशेषाधिक्या अविरेतिसम्बन्धदृष्टिना मिथ्यादृष्टिना च प्रावात्, तास्योपि पारियत्रिक्या विशेषाधिक्या देशविरताना पूर्वेषा च प्रा

जहा जीवस्स । वाणमतरजोडसियवेमाणियस्स जहा णेरडयस्स । एतासिणं ज्ञते ! आरत्रियाण जाव मि
च्छादसणवत्तियाण य कयरे कयरेहितो अप्प्यावा ४ ? गोयमा ! सब्बलोवानु मिच्छादसणवत्तियाणु ङ्गिरि
याणु अप्पचक्काणकिरियाणु विसे०, पारिग्गहियाणु विसेसाहियाणु, आरत्रियाणु किरियाणु विसेसाहियाणु

मिथ्यादर्शनप्रत्ययाना क्रियाणा (मध्ये) कतमा कतमास्योऽल्पावा ४ ? गौतम । सबस्तोका मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया' अप्रत्याख्यानकि
या विशेषाधिका, पारियत्रिकी विशेषाधिका, आरम्भिकी क्रिया विशेषाधिका, मायाप्रत्यया विशेषाधिका ॥ इति श्रीरामचन्द्रगणि शिष्य

मिच्छादसणवत्तिया किरिया कच्छत् । मिथ्यादर्शनवर्तिका क्रियाकरे । मनुष्यस्य जहा जीवस्य वाचसंतर जाऽसिद्य वेसाणिया जहा खेरऽया । मनुष्यते
प्रय जीवपदमोपरे जाणिवो वानजन्तर ज्योतिषो वेमानिक जिन नारकीनपरे साणिया । एवासण भते आरभियाच जाव मिच्छादसणवत्तियाणय
कयरे २ इति सप्यावा ४ । एहने हेभगवन् आरभिकीक्रियावासाने यावत् मिथ्यादर्शनवर्तिकावासाने माहाभाङ्गिजोता किञ्चर थो विज्ञेयाधिक । म
यमा सब्बलोवा मिच्छादसणवत्तिया किरियाथो अप्पसखाणियाथो वि० पारिग्गहियाथो वि० पारिग्गहियाथो वि० मायावत्तियाथो वि० । हे०ग्ग
बंधो थोडा मिथ्यादर्शनवर्तिका क्रियाना धणो तेइथो अप्रत्याख्यानकीक्रियाना धणो विज्ञेयाधिक तेइथो पारियत्रिकीक्रियाना विज्ञेयाधिक तेइथी आ
रभिकीक्रियाना विज्ञेयाधिक तेइथी मायावत्तिका विज्ञेयाधिक ॥ पणवत्तयाए किरियापय सत्तत्त ॥ इति प्रापना भगवतीसूत्रो २२ सो क्रियापद स

मिच्छादसणवत्तिया किरिया नो कज्जइ । मिच्छादसणसल्लविरयस्सणं ज्ञते ! जेरडयस्स किं झारन्निया कि
रिया कज्जइ जाव मिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! झारन्निया किरिया कज्जइ जाव झप
झख्खाणकिरियावि कज्जइ । मिच्छादसणवत्तिया किरिया नो कज्जइ एव जाव थणियकुमारस्स । मिच्छा
दसणसल्लविरयस्सणं ज्ञते ! पच्चिदि यतिरिक्खजोणियस्स एवमेव पुच्छा, गोयमा ! झारन्निया किरिया
कज्जइ झपचस्काणकिरिया सि य कज्जइ सिय नो कज्जइ, मिच्छादसणवत्तिया किरिया न कज्जइ मणुस्सस्स

मिथ्यादर्शनशल्बविरतस्य प्रदत्त । नैरयिकस्य किमारम्भिकी क्रिया क्रियते यावन्मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया क्रियते ? गौतम । झारम्भिकी
क्रिया क्रियते यावदप्रत्याख्यानाक्रियायि । मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया नो क्रियते एव यावत्सन्नितकुमारस्य । मिथ्यादर्शनशल्बविरतस्य जद
त्त । पच्चिद्वियतियंयोनिक्खस्येवमेव पुच्छा, गौतम ! झारम्भिकी क्रिया क्रियते श्रमत्यास्यानक्रिया स्यात्क्रियते स्यात् क्रियते, मिथ्यादर्शनप्र
त्यया नक्रियते । मनुष्यस्य यथा जीवस्य । वानव्यन्तरज्जोतिफवंगानिकस्य यथा नैरयिकस्य । एतासा प्रदत्त । झारम्भिकी (प्रवृत्ति) याव

धिरति हेभगवन् नारुवो झारभो क्रियाकरे । मिच्छादसणवत्तिया कि० क० । जोव मिथ्यादर्शनवत्तिको क्रियाकरे । गोयमा झारभिया किरिया
गाथ अपचस्खाषिचा कि० । हेगौतम झारभको करे यावत् अपत्याख्यातो क्रियाकरे । मिच्छादसणवत्तिया कि० एव जावथणियकुमारसा । मिथ्यादर्श
नवत्तिको पिण करे इम यावत् खनितकुमारजने कश्चिदो । मिच्छादसणसल्लविरयस्सणं भते पच्चिदियतिरिक्खजोणियस्य एव पुच्छा । मिथ्यादर्शनशल्ब
धिरति हेभगवन् पच्चिद्विय तियं चचोनिक्खेही क्रिया करे ए प्रश्न । गोयमा झारभिया किरिया क० जोव मायावत्तिया कि० क० । हेगौतम झारभकी क्रि
या करे यावत् मायावत्तिको क्रियाकरे । अपचस्खाष किरिया मिय कज्जइ सिय नो कज्जइ । यते अपत्याख्यानाक्रिया क्रियते करे कियते नही ।

वायविरयस्स मणुस्सस धि इति ॥ एव तावहृच्छव याव नागामुपाविरतस्य जीवस्य मनुयस्य च मिथ्यादर्शनगत्यविरतनधिहृत्य सूत्र-मिच्छादं सणसह्वविरयस्सण ज्ञते । जीवस्स इत्यादि ॥ आरामिकी स्या द्रवति स्या न प्रवति प्रमत्तस्यतस्य प्रवति उपस्य न प्रवतीति ज्ञावार्थे , पारिय द्विकी देशविरति याव द्रवति मायाप्रत्ययाप्यान्वृत्तियादरसम्पराय याव ज्ञाविनी परतो न प्रवति अप्रत्यास्थानक्रिया स्पविरतसम्यग्दृष्टि या य न परत , तत एताश्चापि क्रिया अपि कृत्य सिय कज्जइ सिय नोकज्जइ इति वक्तव्य , तथाचार-एव जाव अपचक्काणकिरिया इति ॥ मिथ्याद ज्ञानप्रत्यया पुन निपेध्या मिथ्यादर्शनविरतस्य तस्या असम्भवात् , चतुरियञ्चतिदुर्भाषिताया नेरियिजादीना छानितकुमारपर्यवसानाना चतस्र कि

यमा । णो इणठे समठे । मिच्छाटसणचत्तियाए पुच्छा , गोंयमा ! णो इणठे समठे । एव पागाडवाय विरयस्स मणुस्सससवि । एव जाव मायामोसविरयस्स जीवस्स मणुरसस्सय । मिच्छादत्तणसह्वविरयस्सण ज्ञते । जीवस्स कि झ्यारत्तिया किरिया कज्जइ जाव मिच्छाटसणवत्तिया किरिया कज्जइ ? गोंयमा ! मि च्छादत्तणसह्वविरयस्स जीवस्स झ्यारत्तिया सिय कज्जइ । एव जाव उपचक्काणकिरिया । मनुयस्य च । मिथ्यादर्शनगत्यविरतस्य ज्ञदत्त । जीवस्य किमारत्तिकी क्रिया क्रियते यावन्मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया क्रियते ? गीतस्य । मि थ्यादर्शनशक्त्यविरतस्य जीवस्यारामिकी स्यात्क्रियते स्याको क्रियते । स्य यावदप्रत्यास्थानक्रिया । मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया नो क्रियते ।

ते जीवस्य कि पारभिया कि० । मिथ्यादर्शनगत्यविरति हेभगवन् जीव पारमकी क्विथाकरे । जाव मिच्छादत्तणवत्तिया कि० । यावत् मिथ्यादर्शनव त्तिकी करे ए प्रश्न । गोंयमा मिच्छाटसणसह्वविरतस्य जावस्य पारभियाकिरिया सिय कच्चइ सिय नोकज्जइ । हेगौतम मिथ्यादर्शनगत्य विरति जीव पारभिकी क्रिया करे किवारे करे किवारे नही । एव जाव अपचक्काणिया किरिया मिच्छादत्तणवत्तिया किरिया न कच्चइ । इस यावत् अप्रत्या स्थानकी क्रियासने क्विथो मिथ्यादर्शनवात्तकी क्रियाकरे नही । मिच्छादत्तणवत्तियण सते षेरइयस्य कि पारभिया कि० क० । मिथ्यादर्शनगत्य

लिस्यरक्षणार्थं प्रवृत्ति शोपकाल तु न प्रवृत्ति अग्रप्रत्याख्यानक्रिया मिथ्यादर्शनप्रत्यया श्व सर्वथा निषेध्यते तदन्नावे प्राणातिपातविरत्ययोगात्, प्राणातिपातविरतोद्य हे पदे तद्यथा-जीवो मनुष्य श्व, सन यथा सामान्यतो जीवमधिष्ठत्योक्त तथा मनुष्यमधिष्ठत्य वक्तव्य तथावाह-एव पाशाड

मिच्छादंसणवृत्तिया किरिया कज्जड ? गोयमा । पाणाडवायविरयस्स जीवस्स अ्यारन्निया किरिया सिय कज्जड सिय नोकज्जड । पाणाडवायविरयस्सणं जते ! जीवस्स पारिग्गहिया किरिया कज्जड ? गोयमा ! सिय णो डणठे समठे । पाणाडवायविरयस्सणं जते ! जीवस्स मायावृत्तिया किरिया कज्जड ? गोयमा ! सिय ड सिय नो कज्जड । पाणाडवायविरयस्सण जते ! जीवस्स अ्यपचक्राणवृत्तिया किरिया कज्जड ? गो

। क्रिया क्रियते ? गीतम । प्राणातिपातविरतस्य जीवस्यारम्भिकी क्रिया स्यात्क्रियते स्यान्नो क्रियते । प्राणातिपातविरतस्य जद । जीवस्य पारियत्तिकी क्रिया क्रियते ? गीतम । नायमयं समर्ण । प्राणातिपातविरतस्य जदत्त । जीवस्य मायाप्रत्यया क्रिया क्रिय गीतम । स्यात्क्रियते स्यान्नो क्रियते । प्राणातिपातविरतस्य जदत्त । जीवस्यप्रत्याख्यानक्रिया क्रियते ? गीतम । नायमय समथ । दर्शनप्रत्ययाया पृच्छा, गीतम । नायमयं समर्थ । एव प्राणातिपातविरतस्य मनुष्यस्यार्पि । एव यावन्मायामुपाविरतस्य जीवस्य

वविरयस्सणं भते जीवस्स मायावृत्तिया क्रि० । प्राणातिपातविरति हेभयवन जीव मायावृत्तिको क्रियाकरे । गोयमा सियक० सियनोहेगीतक० । स क्रियाकरे करे निवारि नकरै । पाणाडवाय विरयस्सणं भते जीवस्स अपचक्राणिया क्रि० । प्राणातिपातविरति हेभयवन जीव अप्रत्याख्यानोक्रिया करे । गोयमा णो इपठे समठे । हेगीतम एअयं समर्थं नहो । मिच्छादंसणवृत्तियाए पृच्छा । मिथ्यादर्शनवृत्तिको प्रथ । गोबमा णो इणठेसमठे । हेगीतम एअयं समर्थं नहो । एष पाणाडवाय विरयस्स मणुसस्सधि एव जाव मायामोसविरवस्स जीवस्य मणुसस्सथ । इम प्राणातिपात विरति जीवने क प्री तिम मनुष्वने जानवे कविषो इम यातत् नायादृशानो पाठ जीवने आत्मावै मनुष्यने आत्मावै प्रयोत्तरकरी कहयो । मिच्छादंसणवृत्तियस्सणं भ

य च यदेकोऽप्येविविधग्रन्थको न लभ्यते तदा भवति यदा पुनरेको द्विविधग्रन्थको लभ्यते तदाय द्वितीयो जग, सप्तविधग्रन्थकाश्च अष्टविधग्रन्थकाश्च यदा पुनरष्टविधग्रन्थकाश्चपि बहवो लभ्यते तदा तृतीय, सप्तविधग्रन्थकाद्याष्टविधग्रन्थकाश्च एव प्रकृतिक तावद्वाच्य याव द्वैमानिकसूत्र, नवर मनुष्यपदे सप्तविधज्ञानजगका यथा जीवपदे इति, अणारम्भिकादीना क्रियाणा मध्ये का क्रिया प्राणातिपातविरतस्थिति चित्तयति-प्राणा एवापविरपरस्रण भते । इत्यादि ॥ चारम्भिकी क्रिया स्या इवति प्रमत्तस्यतस्य भवति शेषस्य न प्रवर्तते। प्राव, पारियुहिकी निषेध्या सर्वथा परियग्रा क्रियुत्तस्यात्, अन्यथा सम्प्रकाशातिपातविरत्यनुपपत्तेर्भावाप्रत्यया स्या इवति स्या न प्रवर्तते अप्रमत्तस्यापि हि कदाचि प्रमत्तवगमा

भते ! णेरहयाण कइकम्मपगहीउं वधति ? गोयमा ! सधेवि ताव हीज्ज सत्तविहवधगा य झुहवा सत्त विहवधगा य झुठविहवधगा य । झुहवा सत्तविहवधगा य । एव जाव वेमाणिया नवर मणुस्साण जहा जीवाण । पाणाइवायविरयस्सण भते ! जीवस्स किञ्चारंभिया किरिया कज्जइ जाव

प्रकृतौयंमिति ? गौतम । सर्वेपि तावद्भेदेषु सप्तविधग्रन्थकाद्याथवा सप्तविधग्रन्थकाद्याष्टविधग्रन्थकाश्च । अथवा सप्तविधग्रन्थकाद्याष्टविधग्रन्थकाश्च इत्येव यायदुमानिका नवर मनुष्याणा यथा कीयानाम् । प्राणातिपातविरतस्य भदन्त । जीवस्य किमारम्भिकी क्रिया क्रियते यावन्मिष्यादन्नो

इवधएषा एव जाव वेमाणिया एवर मणुस्साण जहा जीवाण । ७ विधवाधे अथवा ७ विध ८ अथवा ७ विध ८ वाधे इम यावत् वैमानिकज्ञानी पर ए विधिप मनुष्यने पासावे जीवपटनोपरि कइववा । पाणाइवायविरयण भते जीवे किञ्चारंभिया कज्जइ जाव किञ्चिच्छादसणवर्तितया कि० । प्रा णातिपात विरति हेमगवन् स्य जीव चारम्भिकी क्रियाकरे वावत् सिष्यादयंनवर्तितको क्रियाकरे । गोयमा पाणाइवायविरयण जीवस्स चारंभिया किरिया सिवकज्जइ सिव नोकज्जइ । हेगौतम प्राणातिपात विरतिजीव चारंभिकीक्रिया क्रियाकरे करे क्रियाकरे नही । पाणाइवायविरयण भते जीव स्स पारिणादिया कि० क० । प्राणातिपातविरति हेमगवन् जीव परियहको क्रियाकरे । गोयमा षोडशे समुह । हेगौतम नही यथैयं समर्थ । पाण

कादिधर्तार्यशतिदण्डकचिन्ताया मनुष्यवर्जेषु श्रेयेषु सर्वेषुपि स्थानेषु सप्तविधवन्धकत्वमष्टविधवन्धकत्वान्दिश्रोणप्रतिपत्त्य सम्भवात्, मनुष्यपदे च यथा जीवपदे तथा वक्तव्य मनुष्येषु सर्वत्रावसत्रवात्, बहुवचने नैताद्विषय सूत्रमाह-मिच्छादसणसल्लविरयाण ऋते । जीवा इत्यादि ॥ अत्रापि ते एव पूर्वोक्ता सप्तविधवन्धका इत्येको भग, स

वा अष्टविहबंधु वा छविहबंधु वा एणविहबंधु वा अष्टवधु वा । मिच्छादसणसल्लविरएण ऋते ! ने रइए कइकम्मपगणीउ वधइ ? गोयमा ! सत्तविहबंधु वा अष्टविहबंधु वा जाव पचिदियतिरिस्कजो णिए मणुस्से जहा जीवे । वाणमतरजोइसियवेमाणिए जहा नेरइए । मिच्छादंसणसल्लविरयाणं ऋते ! जीवा कइकम्मपगणीउ वंधति ? गोयमा ! तेचेव सत्तावीस जंगा नाणियइया । मिच्छादसणसल्लविरयाणं

धयधकी वा एकविधबधकीवाऽवधकीवा । मिथ्यादर्शनशाल्यविरतो जदन्त । नैरयिक कतिकर्मप्रकृती वभाति ? गीतम । सप्तविधयधकीवाऽए विधयधकीवा यावत्पक्षेन्द्रियतिर्यग्योनिको मनुष्यो यथा जीव । वानव्यत्तरज्योतिकर्मनिको यथा नैरयिक । मिथ्यादर्शनशाल्यविरता ज दन्त । जीवा कतिकर्मप्रकृती वंधन्ति ? गीतम । तेचेव सप्तविशतिर्जङ्गा प्रणितव्या । मिथ्यादर्शनशाल्यविरता जदन्त । नैरयिका कतिकर्म

गोयमा सप्तविह बध अष्टविह बध जाव पचिदियतिरिक्खजाणिय मणुस्सेण जहा जीवे वाणमतर जोइसिय वेमाणिए जहा षेरइए । हेगौतम ७ पिण व वाधे इम जावगे पक्षेन्द्रिय तिर्यधुनो अजावी लगे कहवो मनुष्येने अजावीो जोवपदनीपरे वानव्यत्तर ज्योतिषी वेमानिक ए सर्वं नारकीपरे कइि ॥ । मिच्छादंसणसल्लेण विरणेण भते जीवा कइकम्मपगणीउो वधति । मिथ्यादर्शनशाल्य विरति हेमगवन् जोव कंतकी कर्मप्रकृति वाधे । गोयमा तेचेव सत्तावीस भगा भा० । हेगौतम तिनहोव पूर्वोते २७ भग्ना कइिवा । मिच्छादसणसल्ल विरणेण भते षेरइया कइकम्मपगणीउो व० । मिथ्यादर्शनशाल्य विरति नारकी हेमगवन् केतकी कर्मप्रकृति वाधे । गोयमा सत्तेवि तावहीजा । हेगौतम ए सर्वं पाछलीपरे । सत्तविहबधगवा अइवा सत्तविह अट्टवि

य , नती द्वी भागावष्टिपनक्रमपदस्यैकवचनेन लघ्वी' एतावेव द्वी प्रङ्गी बहुवचनेनेति चत्वार , एवमेव चत्वारो भगा अष्टविधवचनकावधक्त

गत्रिहवधगा य अष्टविहवधएु य अथधगाय २ । अहवा सत्तविहवधगा य एगविहवधगा य अष्टविह
वधगाय अथएय ३ । अहवा सत्तविहवधगा य एगविहवधगा य अष्टविहवधगा य अथधगा य ४ ।
अहवा सत्तविहवधगा य एगविहवधगा य अष्टविहवधगा य अथधगा य ५ । अहवा सत्तविहवधगा य
एगविहवधगा य अष्टविहवधगा य अथधगा य ६ । अहवा सत्तविहवधगा य एगविहवधगा य अष्टविह

विधयचकाय पद्विधयचकयायचकय ३ । अथवा सत्तविधयचकाश्चैकविधयचकाय पद्विधयचकायायचकाय ४ । अथवा सत्तविधयचकार्षिक
विधयचकायाष्टविधयचकय पद्विधयचकायचकय १ । अथवा सत्तविधयचकाश्चैकविधयचकायाष्टविधयचकय पद्विधयचकयायचकाय
२ । अथवा सत्तविधयचकाश्चैकविधयचकायाष्टविधयचकय पद्विधयचकायायचकय ३ । अथवा सत्तविधयचकाश्चैकविधयचकायाष्टविधय
चकय पद्विधयचकायायचकाय ४ । अथवा सत्तविधयचकाश्चैकविधयचकाय पद्विधयचकयायचकय ५ । अथवा सत्तविधयच

यचक । अहवा सत्तविहवध एगविहवध अष्टविहवध अथधगाय २ । अथवा ० विध १ विध ६ विध अथधक २ । अहवा सत्तविहव० एगविहव० अथधक
य २ । अथवा ० विध १ विध ६ विध अथधक ३ । अहवा सत्तविहवधगाय ३ । अथवा सत्तविधवधक । एगविहवध अष्टविहवध अथधगाय ४ । १ वि
ध ६ विध अथधक । अहवा सत्तविहवधगाय एगविहवध अष्टविहवध अथधगाय ५ । अथवा ० विध १ विध ६ विध अथधक ।
अहवा सत्तविहवधगाय एगविहवध अष्टविहवध अथधगाय ६ । अथवा ० विध १ विध ६ विध अथधक । अहवा सत्तविहवधगाय एगविह
वधगाय ७ । अथवा ० विध १ विध ६ विध अथधक २ । अहवा सत्तविहव० एगविहव० अष्टविहवधगाय अ
थधगाय ३ । अथवा ० विध १ विध ६ विध अथधक । अहवा सत्तविहव० एगविहव० अष्टविहवधगाय ४ । अथवा ० विध १ वि

पि जपन्यपदे एको द्वीवा उरकपती टाधिकं शर्तं, ततोष्टविधत्रय्यकपदात्रावे अर्थवन्धकपदेनापि द्वौ जंगी तदेव मैक आद्योभङ्ग एकसयोगे च ध
 हिति सप्तजङ्गा, इदानी द्विकसयोगे भगा दश्यते-तत्र सप्तविधत्रय्यका एकविधत्रय्यकाया वस्यता तत्रयेषामपि सदा बहुत्वे लान्यमानत्वात्,
 ततो ष्टविधत्रय्यकपदे पद्विधत्रय्यकपदे च प्रत्येकमेकवचन मित्येको जङ्ग, अष्टविषयत्रय्यकपदे एकवचन पद्विधत्रय्यकपदे बहुवचन मिति द्विती

विह्वंथगे य लघ्विह्वधगा य २ । अथवा सप्तविह्वधगा य एगविह्वधगा य अष्टविह्वधगा य अष्टविह्वधगा य लघ्वि
 ह्वधगे य ३ । अथवा सप्तविह्वधगा य एगविह्वधगा य अष्टविह्वधगा य लघ्विह्वधगा य ४ । अथ
 हवा सप्तविह्वधगा य एगविह्वधगा य अष्टविह्वधगा य अष्टविह्वधगा य १ । अथवा सप्तविह्वधगा य ए

ययकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्य पद्विधत्रय्यकाद्य पद्विधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्य ४ । अथवा सप्तविधत्रय्य
 काद्यैकविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्यैकविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्य २ । अथवा सप्तविधत्रय्यका
 द्यैकविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्य ४ । अथवा सप्तविधत्रय्यकाद्यैकविधत्रय्यका
 ययकाद्य पद्विधत्रय्यकाद्यैकविधत्रय्यकाद्य १ । अथवा सप्तविधत्रय्यकाद्यैकविधत्रय्यकाद्य पद्विधत्रय्यकाद्याष्टविधत्रय्यकाद्यैक

विह्वधव २ । अथवा ७ विध एकविध ८ विध ६ विध । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा ७ विध एकविध ८ विध
 ६ विध । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा ७ विध
 एकविध ७ । अथवा ७ विध एकविध ८ विध ६ विध । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ ।
 १ विध ८ विध अत्रय्यक २ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ ।
 अष्टविह्व ७ । अथवा ७ विध ७ । ७ विध ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ । अथवा सप्तविह्व ७ । एगविह्व ७ ।

व्याधिः कडक
जीवा सप्त
अह्वया य
धगा य

एवको वा । य
पयस्यकादीक्यि
न्यकाय न । य

प्रान्तमोहा क्षीणशाय कदापि लभ्यते कदापि न लभ्यते, तेषा मतरस्यापि सम्भवात्, सयोगिकैः लिन स्तु सदा प्राप्यते
मव्यवच्छेदात्, तत सप्तविधयका ए विषयका य व्यवस्थिता इत्येवविषयवन्ध्याज्ञाये एको प्रह्नु, अथवा सप्तविधयन्ध
यको वा । य
पयस्यकादीक्यि
न्यकाय न । य
प्रतिरहाभावात्, यदापि लभ्यते तदापि जघ परे एको द्वीया उत्कयपदे ऽष्टोत्तरशत ततोऽविषयन्धकनेदानाथे पट्टविषयन्ध
कपदेनापि द्वौ जगौ, अन्धका अयोगिकैःवलिन स्तपि कदाचि द्वाप्यते कदाचि न तेषानप्युत्कपंत. परमासविरहायात्, यदाप्युत्पत्ते तदा

गोयमा । गा य एगविहवधगा य ५ । अहवा सत्तविहवधगा य एगविहवधगा य
पाणाहवाय ६ । अहवा सत्तविहवधगा य एगविहवधगा य ७ । अहवा सत्तविहवधगा य
पाया सर्वेषु द्वे

गण क्रियते १ गी ष्वैकविषयन्धकायायन्धकाय ६ । अथवा सप्तविषयन्धकायैकविषयन्धकायायन्धकाय ७ । अथवा सप्तविषयन्धकायैकविषयन्धका
तौ जदत्त । जीपद्विषयन्धकायैकविषयन्धकायाएविषयन्धकाय १ । अथवा सप्तविषयन्धकायैकविषयन्धकाय २ । अथवा सप्तविषयन्धकायैकविषय

क्रियाकरे । इता गीय अहवा सप्तविहव एगविहवध ४ । अहवने ७ वाधै एकविध ६ विध । अहवा सप्तविहवध एगविहवध एगविहवध एगवि
करे । गोयमा सखेसु ७ विध यन्धका एकविध ६ विध । अहवा सप्तविहवध एगविहवध ५ । अथवा ७ विध एकविध यन्धका अहवा सप्त
लेटिया नाइ ७ इममह । एधगाय ७ । अथवा ७ विध १ विध अन्धका । अहवा सप्तविहव ७ एगविहव ७ अहविहव ७ अहविहव ७ अहवा सप्त
धर । प्राणानिपात विरम अहवा सप्तविहव ७ एगविहव ७ अहविहव ७ अहविहव ७ अहवा सप्तविहव ७ अहविहव ७ अहवा सप्त
भोतम ७ विषयाथै ८ विध एहवध एकविहव ७ अथवा ७ विधवाथै एकविहव ८ विध ६ विधवध ६ । अहवा सप्तविहव ७ एगविहव ७ अहविहव ७ अहवा सप्तविहव ७

इत्यादि ॥ ज्ञावित, मनुष्ये यथा जीवपदे तथा वक्तव्य, व्यन्तरज्योतिर्वैभानिकानां यथा नैरयिकस्य एवमेव यको द्युत्त ॥ एवमेव ज समय
 न जत । जीवस्ये त्यादिको द्वितीय, ज देसवामित्यादिऋतुशीघ्र, जपयसकमित्यादिक चतुर्थ, अथ पटकाया प्राणातिपातादिक्रियाः तव
 एव जघनति किंवा तद्विरमणहेतवोपीति पृच्छति-अत्यन्त मत् । इत्यादि ॥ संप्रज क्रियते कर्म कर्तारि प्रयोग, ततो जघतीति द्रष्टव्य प्राणाति
 पातादिविरमणवपयाश्च पटकायादय प्रागेव ज्ञावित इति न ज्ञूयो ज्ञावन्ते विरतिश्च प्राणातिपातादीनां मायाभूयापयंतानां जीवपदे मनुष्य

अपचरुणाकिरिना नियमा कज्जइ । मणुरसस्स जहा जीवस्स वाणमतरजोडोसियेवमाणियस्स जहा णेरड
 यरस । ज समय जते ! जीवस्स अरनिना किरिया कज्जइ त समय पारिग्गहिया किरिया कज्जइ । एव
 एते जस्स ज समय ज टेस ज पदेसेणय चत्तारि दरुगा नेयहा । जहा णेरडयाण तहा सव्वदेवाण नेयहं
 वेमाणियाण । अत्यिण जते ! जीवाण पाणाडवाजवेरमणे कज्जइ ? हता अत्यि । कम्मिहण जते । जीवाण

सिकी क्रिया ज्ञिबत तस्मिन्समये पारिग्रहिकी क्रिया क्रियते एवमेव यस्य यस्मिन्समये यस्मिन्देशे यस्मिन्देशे च यत्वारो द्युत्तका ज्ञात
 व्या । यथा नैरयिकाणां तथा सर्वदेवानाम् ज्ञातव्यम् याजुहोमनिकानाम् । अस्ति जदन्त । जीवानां प्राणातिपातविरमण क्रियते ? एता
 स्ति । कस्मिन् जदन्त ! जीवानां प्राणातिपातविरमण क्रियते ? गौतम । यदसु जीयतिनायसु । अस्ति जदन्त । नैरयिकाणां प्राणातिपातयि

कदिया कि० । जे समय हेमगवन् जीव आरभोक्रियाकरे ते समय पारिग्रहको ज्जिगकरे । एव एते ज समय ज टेस पदेस एए चत्तारिदुडगा भा० ।
 रम ए जीसमये जेदेमे जपदेमेकरी सर्वे ४ दण्डक कदिया । जहा णेरडयाण तहा सर्वदेवाण भा० । जिम् नारकोनो परे तिस सर्वे देवतानि कदिवा ।
 जान वेमाणियाण । खानगी वेवानिक । अत्यिण भते जोवाक पाणारवाय वेरमण कज्जइ । हे हेमगवन् जीव प्राणातिपातिको विरमणज्जग करे । ए
 ता गौवमा जयि । उगौतम छे । कद्विण भते जीवाण पाणारवायवरमणे कज्जइ । जिस हेमगवन् जीव प्राणातिपातको विरमण करे । गोवमा कसु

शक्तिरिति यात्रादासा मवश्यनावात्, उत्तराभ्यां तु द्वान्यां स्याद्वाट, तमेवंदेशंयति-जस्स एयाउं कज्जति इत्यादि ॥ देशविरतस्य न जवत । शेषस्य जवत इति ज्ञाव, यस्य पुन रूपविरतस्यो हे क्रिये तस्याद्या स्तिस्त्रो नियमा इवति उपविरतस्यो हे क्रिये अमत्यास्यानक्रिया मिथ्यादर्शनप्रत्यया च तत्राप्रत्यास्यानक्रिया अविरेतिसम्बन्धगदृष्टियावन्मिथ्यादर्शनक्रिया मिथ्यादृष्टे राद्या अतस्त्रो देशविरति यावत् अत उपविरतस्यो प्रांवे वदयमाद्य ना तिसृणा ज्ञाव, सम्प्रत्यप्रत्यास्यानक्रियाया मिथ्यादर्शनक्रियाया स्तियकूपचेद्रियस्य परस्परमविनात्राय चितयति-जस्स अपवक्त्वाणकिरिया

ह्लियाउं तित्तिवि परिप्पर नियमा कज्जति । जस्स एताउं कज्जति तस्स उवरिह्लियाउं दो जडज्जति, जस्स उवरिह्लियाउं दोस्सि कज्जति तस्स एताउं तित्ति नियमा कज्जति, जस्स अपचस्काणकिरिया तस्स मिच्छादसणवत्तिया सिय नी कज्जड, जस्स पुण मिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जड तस्स

तियंयोनिस्साद्यास्तिस्त्रोपि परस्पर नियमाटिकयन्ते यस्येता क्रियन्ते तस्योपरितस्यो हे क्रिये ज्ञाज्ये, यस्योपरितस्यो हे त्तिये तस्येताल्लिलो नियमाटिकयन्ते; यस्याप्रत्यास्यानक्रिया तस्य मिथ्यादर्शनप्रत्यया स्याटिकयन्ते स्यात्तो क्रियते, यस्य पुनर्मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया तस्याप्रत्यास्यानक्रिया नियमाटिकयन्ते । अनुप्यथ यथा जीवस्य । वातथ्यन्तरज्योतिक्वैमनिकस्य यथा नैरियस्य । यस्मिन्समये जटल । जीवस्यार

दोणि भयणाए । जे ए क्रियाकरे तेहने जपरनी २ क्रियानी भचना कहवी । जस्स उवरिह्लियादोणि यन्ति तरण यथाथो तिणपि नियमा कज्जति । जे जपरकी २ क्रियाकरे तेहने ए २ नियम करे । जस्स अचुहाणिण किरिए कज्जड तस्स मिच्छाटसणवत्तिया किरिया सियक. भिय नीक. । जन् प्रत्यास्यानी क्रियाकरे ते मिथ्यादर्शनवत्तिको क्रियाकरे क्रियारे करे क्रियारे नहो । जस्स पुण मिच्छाटसणवत्तिया कि. तस्य अपचक्खाणिया नियमा क. । जे वही मिथ्यादर्शनवत्तिकी क्रिया ते प्रत्यास्यानको नियम करे । मणसस जहा जीवसत वाणमतर जांसिय वेनाणिण जहा येरवस्स । मनुथने थानावे जीवपटनीपरे कहिया वातदत्तर ज्योतिषो वेमान्जि नारकीपीरे कहियो । जसमएथ भते जीवसस पारमिया कि. तसन्तच परि

उ चत्तारि इत्यादि ॥ मिथ्यादृष्टि मिथ्यादर्शनाक्रिया प्रवर्तते शेषस्य न प्रवर्ततीति प्राक्, यस्य पुन मिथ्यादर्शनक्रिया तस्याद्या शतस्रो नियमा
 मिथ्यादर्शने शत्यारम्भित्यादीना मवश्य प्रावात्, एव तावद्दक्तस्य याव रत्ननिर्गतकुमारस्य पृथिव्यादीना पतुरिन्द्रियपर्यवसानाना पञ्चक्रिया
 परस्परमविनाशान्नाविश्वो यत्कृष्ण, पृथिव्यादीना मिथ्यादर्शनाक्रियाया अल्पवश्य प्रावात्, तिस्रकृष्णोन्द्रियस्याद्या तिस्र परस्परमविनाशान्नादे

स्काणिकिरिया कज्जइ तस्स मिच्छादसणवत्तिया किरिया सिय कज्जइ सिय नो कज्जइ, जस्स पुण भिच्छा
 दसणवत्तिया किरिया कज्जइ तस्स अपञ्चस्काणिकिरिया नियमा कज्जइ। णेरइयस्स आठिसिंयाउ चत्तारि
 परोप्परा नियमा कज्जइ जस्स एतानु चत्तारि कज्जइ तस्स मिच्छादसणवत्तिया किरिया नडज्जइ जस्स
 पुण मिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जइ तस्स एता चत्तारि नियमा कज्जइ। एव जाव थणियकुमारस्स
 पुढविकाइयस्स जाव चउरिदियस्स पचवि परोप्परं नियमा कज्जइ। पचिदियतिरिस्सजोणियस्स आइ

क्रिया स्यात्क्रियते स्यान्नो क्रियते, यस्य पुनमिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया तस्याप्रत्याख्यानक्रिया नियमात्क्रियते । नैरयिकस्यादिमाद्यत्स
 परस्पर नियमात्क्रियन्ते यस्यैताद्यत्स्रो नियमात्क्रियन्ते तस्य मिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया प्राच्या, यस्य पुनमिथ्यादर्शनप्रत्यया क्रिया तस्यैता
 यत्स्रो नियमात्क्रियन्ते । एव यायत्स्रानितकुमारस्य । पृथिवीकायिकस्य यावत्पतुरिन्द्रियस्य पचापि परस्पर नियमात्क्रियन्ते । पञ्चेन्द्रिय
 याकरे तेहने मिथ्यादर्शनवर्तित्तो क्रियाकरे । जस्य पुण मिच्छादसणवत्तिया किं तस्स एथाओ वत्तारि नियमा कज्जति एव जाव पणियकुमारस्य । जे
 वनो मिथ्यादर्शनवर्तित्तो करेत्ते तेहने ए चार निते क्रिया हुवे इम जावगे स्तानितकुमार तासगे कहिवो । पढविकाइयस्स जाव चत्तारिदियस्य पचवि
 परोपर नियमा कज्ज ति । पृथिवीकायथी माढो चौरिन्द्रियलगे ५ क्रिया परपराये निययकरो कहिवो । पचिदिय तिरिस्सजोणियस्य पाइसियाओ
 तिणवि परोपर नियमा कज्ज ति । पचेन्द्रिय तिस्रकृष्णोन्द्रियनाने पहिलो ३ क्रिया परपराये निययकरो खहवो । जस्स एथाओ कज्जइ तस्स चत्तारिसिया

क्यादिभिश्च द्युतसृजि उपरितनीभिः क्रियाभिः सत् परस्परभावनाभावेन चिन्तितं एवं पारियत्रिकं तिसृजि भाषाप्रत्यया द्वान्यामप्रत्यास्यानक्ति या एकया मिथ्यादर्शनप्रत्ययया चिन्तनीया, तथावाह-स्व पारिगच्छयावि तिह स्वपरिगच्छि सम सचारेयद्वा इत्यादि ॥ मुननं, ज्ञावनीया सुप्रतीतत्वात्, समुमेवायं धतुर्वैशतिदत्तकमेग निरूपयति-नेरदयस्स आदह्लाउ चत्तारि इत्यादि ॥ नेरयिनासुत्कर्पतो प्यविरतसम्पग्दृष्टिगुणस्थानक याव न परत ततो नेरयिकाणा माद्या परस्परभावनाभावित्यो मिथ्यादर्शनक्रिया प्रति स्याद्वाद् तमेवाह-जस्स स्या

जीवस्स च्यारंजिया कज्जइ तस्स द्युपचस्काणकिरिया सिय कज्जइ सिय नो कज्जइ, जस्स पुण द्युपचस्का णकिरिया तस्स च्यारंजिया नियमा कज्जइ । एवं मिच्छादंसणवत्तियाएवि सम । एव परिगहियावि ति हिवि उवरिग्राहिं समं सचारेयद्वा । जस्स मायावत्तिया किरिया कज्जइ तरस उवरिग्राउ दोवि सिय कज्जइ सिय नो कज्जइ जस्स उवरिग्राउ दो कज्जइ तस्स मायावत्तिया नियमा कज्जइ, जस्स द्युपच

स्याप्रत्यास्यानक्रियां स्यात्क्रियते स्यात्क्रियते, यस्य पुनरप्रत्यास्यानाद्भया तस्यारम्भिकी नियमात्क्रियते । एव मिथ्यादर्शनप्रत्यययापि समम् । एव पारियत्रिक्यापि त्रिभिन्नरूपरितनीजि, सन सचारेयतथा । यस्य मायाप्रत्यया क्रिया क्रियते तस्योपरितन्वो द्वे त्रयि स्यात्क्रियेते स्यात्क्रो क्रियेते । यस्योपरितन्वो द्वे क्रियेत तस्य मायाप्रत्यया नियमात्क्रियते, यस्य पुनरप्रत्यास्यानक्रिया तस्य मिथ्यादर्शनप्रत्यया

यावत्तिया नियमा कज्जइ । जे जपरिलो वेक्रियाकरै त नियय मायावत्तिकी क्रियाकरै । जस्य अपचच्छाणिया किं तस्य मिच्छादसणवत्तिया क्रिया सियकं नियमोकं । जे प्रत्यास्यानकोक्रिया करेके, ते मिथ्यादर्शनवत्तिकी क्रियाकरै क्रियाकरै क्रियाकरै नहो । जस्य पच मिच्छादसणवत्तिया किं तस्य अपचच्छाणिया किरिया नियमा कज्जइ । वलो जे मिथ्यादर्शनको, क्रियाकरै ते प्रत्यास्यानको क्रिया न्तिये करै । जेरदयस्स आदह्लियाधो चत्तारिपरोपर नियमा कर्जति । नारको परिलो ४ क्रिया नियमाकरै । जस्यपयाधो चत्तारिकज्जइ तस्य मिच्छादसणवत्तिया भयणाय । जे ए ४ क्रि

पि सहायिनाभावो प्रावर्तीय तथाहि यस्मिन्कि क्रिया तस्य मिथ्यादर्शनप्रत्यया स्याद्भवति स्यात्तत्र प्रवर्तते मिथ्यादृष्टे भवति शेषस्य न भवतीत्यर्थः, यस्य तु मिथ्यादृष्टयनक्रिया तस्य निपपाटारम्भिकी मिथ्यादृष्टे रविरतत्वेनावधयमारम्भसम्भवात्, तदेव गारम्भिकी क्रिया पारिग्रहि

पारिग्रहिहिया किरिया सिय नो कज्जइ । जस्स पुण पारिग्रहिमा कज्जइ तस्स च्चारन्निया किरिया नियमा कज्जइ । जस्सण ज्ञते ! जीवस्स च्चारन्निया किरिया कज्जइ तस्स मायावत्तिया न्नििया या कज्जइ ? गोयमा । जस्सण जीवस्स च्चारन्निया किरिया कज्जइ तस्स मायावत्तिया किरिया नियमा कज्जइ । जस्स पुण मायावत्तिया किरिया कज्जइ तस्स च्चारन्निया सिय कज्जइ तसिय नोकज्जइ । जस्सण ज्ञते ! जीवस्स च्चारन्निया किरिया कज्जइ तस्स पचस्काणकिरिया कज्जइ पुच्छा, गोयमा ! जस्स

या कियते ? गोतम । यस्य जीवस्मिन्कि क्रिया तस्य मायाप्रत्ययिकी नियमात्क्रियते यस्य पुनर्भावाप्रत्ययिकी क्रिया तस्यारम्भिकी क्रिया स्मिन्क्रियते स्मिन्क्रियते । यस्य प्रदत्त । जीवस्मिन्कि क्रिया तस्याप्रत्याख्याक्रिया कियत पुच्छा, गोतम । यस्य जीवस्मिन्कि त

ण भंते जीवस्स च्चारन्निया तस्स अपचस्काणिया किरिया पुच्छा । ज हेमगवन् लोवने च्चारन्निक्रिया तेद्वने अपत्याख्याक्रिया करे ते प्रया गोयमा । जस्स जीवस्स च्चारन्निया किं तस्स अपचस्काणिया किरिया सिय कज्जइ । जे गोतम जे जीव च्चारन्निकी क्रिया करे ते अपत्याख्याक्रिया करे तेनिये च्चारन्निकी करे । एव मिथ्यादर्शवत्तियाएव सम एव परिग्रहिहियाएव तिहि च्चारन्निक्रिया मम च्चारन्निकी सिये जाणन्ते । एन परिग्रहकीस्ये सिये इमहीज जाणन्ते । एन च्चारन्निकी क्रियास्ये २४ दण्डके कहवो । जस्स मायावत्तिया किं तस्स च्चारन्निकी दानि सिय कं सिय नोकं । जे मायावत्तिकी क्रिया करे ते च्चारन्निकी क्रिया करे नही । जस्स च्चारन्निकी दो कज्जइ तस्स मा

निर्णयति-निर्णयकं व्रते । इत्यादि । स्वयम् । स्वयत्वात् । क्रियाका परस्परभावनायाश्च, चिन्तयति-यस्यारत्तिकी
 स्या इति । स्या च ज्ञेयते । अमृतसयतस्य च प्रवृत्तिः । अणस्य ज्ञेयत्वार्थः । तथा यस्यारत्तिकी क्रिया तस्य सायाप्रत्यया
 सायाप्रत्यया तस्यारत्तिकी क्रिया स्या इति । प्रमत्तसयतस्य दशाविरतस्य च न प्रवृत्तिः । प्रमत्तसयतस्य दशाविरतस्य
 तः । अण इति । अणस्यानिक्रिया तस्यारत्तिकी नियमाल सप्रत्यास्थानिनोऽवश्यमारप्रसम्भवात् । एवं सिद्ध्यादज्ञानप्रत्ययया

! अन्वयस्वयं मिच्छादसणस्त । णरइयाणं जते ! कति किरियाच पसत्ताच ? गोयमा !
 उं पखत्ताच, तजहा-अरजिया जाव मिच्छादसणवत्तिया । एव जाव वेमाणियाणं । जस्त
 जीवस्त अरजिया किरिया कज्जइ तस्त पारिगहिया किरिया कज्जइ जस्त पारिगहिया
 तस्त अरजिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! जस्सेण जीवस्त अरजिया किरिया कज्जइ तस्त

त्तिकी सावन्मिच्छादसणप्रत्यया । एवं यावद्वैमानिकानाम् । यथ्य प्रदत्त । जीवधारत्तिकी क्रिया क्रियते तस्य पारियट्टिकी क्रिया
 वरत्त पारियट्टिकी तस्यारत्तिकी क्रिया क्रियते । जीवस्य । यथ्य जीवधारत्तिकी क्रिया तस्य पारियट्टिकी क्रिया स्यात्क्रियते इत्यान्ती
 । यत्त पुन पारियट्टिकी क्रियते तस्यारत्तिकी नियमा तिक्रियते । यस्य प्रदत्त । जीवधारत्तिकी क्रिया क्रियते तस्य सायाप्रत्यया कि

नारिकेन समग्रत्वं जतकोऽप्याकरो । गोयमाप्यप्यकिरिया त० । एभोतम० । क्रिया करो । अरभिया जाव मिच्छादसयवत्तरेया एय जाव वे
 । अरभिया करो-नित्यादपुनसत्तिकी इत्त जाकिगे काटिकी । अणस्य अते जीवस्य अरभिया किरिया कज्जइ । जे इभयवन् जीव अरभिया
 । तस्य परिक्रिया क्रिया कज्जइ परिक्रिया क्रिया । जे पारियट्टिकी करो जे अरियट्टिकी क्रिया करो । गोयमा जस्येण जीवस्य अरभिया क्रि०
 किरिया करो-सिय कज्जइ किम जाकज्जइ । एभोतम जे जीवस्य अरभिया करो ते परिक्रिया क्रिया किरिया करो किरियारे तकरो । जस्त

रत्नो । आरत्नो बद्धवती सुदुनयाणतुसवेसि ॥ १ ॥ आरम्भ प्रयोजन कारण यस्या सा आरम्भिकी ॥ पारिगणित्यति ॥ परिग्रहो धर्मोपकरणवत्त्वं वस्तुस्थीकार' धर्मोपकरणसूच्छीर्ष परिग्रह एव पारिग्राहिकी परिग्रहेण निर्वृत्ता वा पारिग्राहिकी ॥ मायावर्तित्याडति ॥ माया अनाजव सुपल सणत्वात् कोपादेरपि परिग्रह , माया प्रत्यय कारण यस्या सा मायाप्रत्यया ॥ अपञ्चकशाकिरियाडति ॥ अप्रत्याख्यान मनागपि विरतिपरि यामानाव स्तदेव क्रिया अप्रत्याख्यानक्रिया ॥ मिच्छादर्शणवर्तित्याडति ॥ मिथ्यादर्शन प्रत्ययो हेतु यस्या सा मिथ्यादर्शमप्रत्यया यतासा क्रिया का मध्ये यस्य या सम्भवति तस्य सा निरूपयति-आरम्भियाण जते । इत्यादि ॥ अन्तररसर्षाव पमत्तसजयस्य डति ॥ अत्रापि शब्दो जिनन्तम ,

पच किरियात् पक्षज्ञात्, तजहा-आरम्भिया पारिगहिया मायावर्तित्या अपञ्चस्काणकिरिया मिच्छाडंस णवर्तित्या । आरम्भियाण जते ! किरिया कस्य कज्जाड ? गीयमा ! अन्तररसर्षाव पमत्तसजतस्त । पारि

णवर्तित्याकियया चास्पृष्ट ३ । कति जदन्त । क्रिया प्रज्ञप्ता ? गीतम । पच क्रिया प्रज्ञप्तास्तद्यया-आरम्भिकी पारिगृहिकी मायाप्रत्यया ऽप्रत्याख्यानक्रिया मिथ्यादर्शनप्रत्यया । आरम्भिकी जदन्त । क्रिया कस्य कियते ? गीतम । अन्यतरस्यापि प्रमत्तसंपत्तस्य । पारिगृहिकी जदन्त । क्रिया कस्य कियते (भवति) ? गीतम । अन्यतरस्यापि सयतासयतस्य । मायाप्रत्ययिकी जदन्त । क्रिया कस्य कियते (भवति) ?

याए किरियाए पुड त समय पारिवावधिगए किरियाए पपुड पाणइषावकिरियाए अणुडे । केतलाएक जीव १ वचने बहुवचने जेसमय कायको पधि करणको प्रदेवकोक्रिया फरसे त समय पारितापनिकी क्रिया न फरसे पिय प्राणतिपातकी क्रिया न फरसे । कश्य भते किरियाको प० । केतली जे भगवन् क्रिया कहो । गीयमा पचकिरिया प० त० । हेगीतम ५ क्रिया कज्जा तेकहेके । आरम्भिया पारिगहिया मायावर्तित्या अपञ्चकशापिया मिच्छा दसणवर्तित्या । आरम्भिकी परिग्रहको मायावर्तित्या अप्रत्याख्यान मिथ्यादर्शनवर्तितिकी । आरम्भियाण भते किरिया कस्य कज्जर । आरम्भिकी हेभगव न् क्रिया कुएकरे । गीयमा अन्तररसर्षाव विषमसर्षणुगम । हेगीतम अन्तररकोदे काय दुष प्रयोगभावे शब्दव्यादि नदेन पुजावर्तित्या हुवे । परि

वायुकिरियाए पुठे १। अत्येगतिए जीवने एगतियाउ जीवाने जे समय काइयाए अधिगरणियाए पाउसि
याए किरियाए पुठे त समय पारितावणियाए पुठे पाणाइवायकिरियाए अयुठे २। अत्येगतिए जीवने
एगतियाउ जीवाने जे समय काइयाए अधिगरणियाए पाउसियाए पुठे त समय पारियावणि
याए किरियाए अयुठे पाणाइवायकिरियाए अयुठे ३। कतिण जते ! किरियाउ पछताने ? गोयमा !

कायिक्यापिकरणिक्या प्राद्वैपिक्या स्पष्टस्वास्त्रिसमये पारितापनिक्या स्पष्ट प्राणातिपातिक्याऽस्पष्ट २। अस्त्येकको जीवो (एगतिआओ
ति) एकं कश्चिन्नमचिरुत्थ यस्मिन्समये कायिक्याधिकरणिक्या प्राद्वैपिक्या क्रियया स्पष्ट स्वास्त्रिसमये पारितापनिक्या क्रिययाऽस्पष्ट प्रा
वियाए किरियाए पुठे तसमय पारियावणियाए किरियाए पुठे पाणाइववायकिरियाए पुठे। हेगौतम केतलाएक जोव एकसमये १ जोवसू जेसमय का
यिको अधिकरणको महपकीक्रिया फरसे तेसमये पारितापनकीक्रियाये फरसे प्राणातिपातिकीक्रिया फरसे। अत्येगइए जीवे एगतियाओ जीवाओ
जेसमय काइयाए अधिगरणियाए पादोसियाए पुठे तसमय पारियावणियाए किरियाए पुठे पाणाइवाय किरियाए अयुठे। केत
लाएकजोव १ बचने बहुबचने जेसमये कायिकीक्रिया अधिकरणको प्रद्वैपिकीये फरसे तेसमये पारितापनिकी क्रिया फरसे पिष प्राणातिपातकी न
फरसे। अत्येगइए जीवे एगतियाओ जीवाओ जेसमय काइयाए अधिगरणियाए पादोसियाए किरियाए पुठे तसमय पारियावणियाए किरियाए अ
पुठे पाणाइवायकिरियाए अयुठे। केतलाएक जोव जोवनो अवेचाये जेसमये कायिकी अधिकरणको प्रद्वैपिकी फरसे तेसमय पारितापनिकी नफरसे प्रा
वणियाए किरियाए अयुठे पाणाइवायकिरियाए अयुठे। केतलाएक जोव १ जोवनो अवेचाये जेसमये कायिकी अधिकरणको प्रद्वैपिकी फरसे।
तेसमय पारितापनिकी न फरसे प्राणातिपातकीक्रिया न फरसे। अत्येगइए जीवे एगतियाओ जीवाओ जेसमय काइयाए अधिगरणियाए पादोसि

य तृतीयो भ्रगो याणादे लंकात्परिज्जघोन घातस्य युगादे परितापनाद्यसत्रये वेदितव्यं ; यस्तु यस्मिन् समये च जीवनपिठत्याद्याक्रियात्रयेणा स्पृष्ट स तस्मिन् समये तमधिकृत्य नियमा त्पारितापनिका प्राणातिपातक्रियया वा स्पृष्टः । कायिकाद्यात्रावे परितापनादेरत्रावात्, तदेव मु क्ता क्रिया साप्रत प्रकारान्तरण क्रिया निरूपयति-कइण ऋते । इत्यादि ॥ आरज पृथिव्याद्युपमदे उक्तव-सकृष्णोषरजो परितावकरोर्नवेसमा

किरिया अत्यि एव एतेण अञ्जिलावेण तेचेत्र चत्तारि दहगा भ्राणियह्या । जस्तजं समयं ज देसं जं पटेसं जाव वेसाणियाणं । जीवेणं ऋते ! ज समय काडयाए अहिगरणियाए पाउसियाए किरियाए पुठे तं समय पारितावणियाए पुठे पाणाडवायकिरियाए पुठे ? गोयमा ! अत्येगतिए जीवे एगतियाउ ज्जीवाउ ज समय काडयाए अहिगरणियाए पाउसियाए किरियाए पुठे । तं समयं पारितावणियाए पुठे पाणाड

कायिकाधिकरणिका प्राद्वेपिका क्रियया स्पृष्टे त्वास्मिन्समये पारितापनिका स्पृष्ट प्राणातिपातक्रियया स्पृष्ट ? गरीतम । अस्त्येकको जी व (यगतियाओ जीवाओति) एककाज्जीवात्, कायिकाधिकृत्येत्यर्थः ; यस्मिन्समये कायिकाधिकरणिका प्राद्वेपिका क्रियया स्पृष्ट त्वास्मिन्समये पारितापनिका स्पृष्ट प्राणातिपातक्रियया च स्पृष्ट । अस्त्येकको जीव एककाज्जीवात् (कायिकाधिकृत्य) यस्मिन्समये

इने अधिकरणिकी क्रिया हुवे । जस अहिगरणियाओजिवा कि० तरस काडवाओजिवा कि० । जइने पाधिकरणको अयोजित हुवे तेइने कायिकी हुवे । गोयमा एव एण अभिलावेण चत्तारि दहगा मा० । इगौतम इम एणे आत्तावे करी पूर्वलोपरे धार २ आत्तावा कइथा । जस ज समय ज टेस पदेस वेसाणियाणं । जइने ज समय ज २ देगे प्रदेगे करी यावत् वेसानिबताइं । जीवेण भंत ज समय-काडयाए अहिगरणियाए पाउसियाए किरियाए पुठे त समय पारितावणियाए पुठे पाणाडवाय किरिया पुठे । जीवने हेमनवन् जेसमये कायिकीक्रिया अधिकरणकी प्रपेवकोक्रियावे फरसे तेसम वे पारितापनीक्रियावे फरसे प्राणातिपातकीक्रियावे फरसे । गोयमा भटवेगइए जीवे एगतियाओ जीवाओ जसनेव काडयाए अहिगरणियाए पाउ

जीव सत्कारे इत्याद्योभिका कायिकादिंका शोप सर्वे सुगम, सूत्रपाठस्तु पूर्वोक्तप्रकारेण तावद्वक्तव्यो यावत् यस्मैति, यसुसमयमिति यदेशमिति, यं प्रदेशमिति, परिपूर्णां यत्वारो दृढका ॥ यसमयमित्यादि ॥ कालाध्यनोर्व्याप्तवित्यपिकरणे द्वितीया, ततो यस्मिन् समये यस्मिन् देशे यस्मिन् देशे इति व्याख्येय ॥ जीवैण ज्ञते । ज समय काडयाण अहिगरणियाए इत्यादि ॥ अत्रापि समयग्रहणेन सामान्यत कालो गृह्यते, प्रथमसूत्र सुगम निर्बंधनमूत्रे जगदधी कश्चिज्जीवमधिकृत्य कश्चिज्जीवो यस्मिन् समय काले क्रियात्रयेण स्पष्टं स्थासिन्-समये पारितापनिक्या स्पष्ट प्राणातिपातक्रिया प स्येकोभगः पारितापनिक्या स्पष्ट प्राणाति पातनास्पष्ट इति द्वितीय, पारितापनिक्या प्राणातिपातक्रिया वा स्पष्ट इति तृतीय, एष एते जस्स ज समयं ज देस ज पदेसं चत्तारि दहगा होति । कतिण ज्ञते । झाल्जियाञ्च किरियाञ्च प० ?

गोयमा । पच झाल्जिताञ्च किरियाञ्च पणत्ताञ्च, तजहा-काडया जाव पाणाडवायकिरिया । एव नेरइ याण जाव वेमाणियाण । जस्सण ज्ञते । जीवस्स काडया झाल्जिता किरिया झल्यि तस्स झहिगरणिया झाल्जिया किरिया झल्यि जस्स झधिगरणिया झाल्जिता किरिया झल्यि तस्स काडया झाल्जिया

त्रिका क्रिया प्रसालद्यथा-कायिको यावत्प्राणातिपातकी । एव नेरविकाणा यावद्धैमानिकानाम् । यस्य ज्ञदत्त । जीवस्य कायिकी आयो जिता क्रियास्ति तस्याधिकरणक्यायोजिता क्रियास्ति यस्याधिकरणिंको आयोजिता क्रियास्ति तस्य कायिकी क्रियास्ति । एवमेतेनाज्जिलापे न त एव चत्तारो दहगा जणितव्या । यस्य यस्मिन्समये यस्मिन् देशे यस्मिन्प्रदेशे एव यावद्धैमानिकानाम् । जीवो ज्ञदत्त । यस्मिन् समये

ज्ञाने प्रायुजित्तो कश्चिये ते केतल्लो क्रिया कडो । गोयमा पच चाञ्चविगा जिं त० । हेगौतम पाच क्रियाकडो ते कडहे-काविगभोजिया जाय पाणावायाभोजिया किरिया एव चेरइवाण जाव वेमाणियाण । कायिको यावत् प्राणातिपातकी इम नारकोनो वावत् वेमानिकने कडवी । ज रसण भते जीवसस काडयाभोजिया किरियाअत्ति तसस अहिगरणियाभोजिया किरिया अत्ति । जे हेभगवन् जीवने क्वाविकोयोजिता क्रिया इवे ते

च तृतीयो प्रगो अणान्दे लक्ष्मणपरिज्ञानेन घातस्य शृणादे परितापनाद्यसन्नवे वेदितव्य ! यस्तु यस्मिन् समये य जीवन्नचिह्नत्याद्याक्रियात्रयेणा स्पृष्ट स तस्मिन् समये तन्मचिह्नस्य नियमा त्पारितापनिक्या प्राणतिपातक्रियया वा स्पृष्टः । कायिक्याद्यन्नावे परितापनादेरनावात्, तदेव मु क्ता क्रिया साम्प्रत प्रकारान्तरेण क्रिया निरूपयति-कडण व्रते । इत्यादि ॥ आरज प्रथिव्याद्युपमर्दं उत्सव-सकृष्योसरजो परितावकरोप्रवेसमा

किरिया अत्य्य एव एतेण अञ्जिलावेण तेचेव चत्तारि दंरुगा ज्ञानियह्वा । जस्स ज समयं ज टेसं ज पदेसं जाव वेमाणियाण । जीवेण व्रते ! ज समय काडयाए अहिगरणियाए पाउसियाए किरियाए पुठे तं समय पारितावणियाए पुठे ? गोयमा ! अत्य्यगतिए जीवे एगतियाउ जीवाउ ज समय काडयाए अहिगरणियाए पाउसियाए किरियाए पुठे । तं समय पारितावणियाए पुठे पाणाइ

कायिक्याचिकरणिक्या प्राद्वैयिक्या क्रियया स्पृष्टे स्तस्मिन्समये पारितापनिक्या स्पृष्ट प्राणतिपातक्रियया स्पृष्ट ? गरीतम ! अस्यैकको जी व (एगतियाओ जीवाओति) एककाजीवात्, काचिज्जीवमचिह्नत्येत्यर्थं, यस्मिन्समये कायिक्याचिकरणिक्या प्राद्वैयिक्या क्रियया स्पृष्ट स्तस्मिन्समये पारितापनिक्या स्पृष्ट प्राणतिपातक्रियया च स्पृष्ट १ । अस्यैकको जीव एककाजीवात् (कचिज्जीवमचिह्नत्य) यस्मिन्समये

इने अधिकरिचिकी क्रिया हुवे । जस अहिगरणियाओलिवा किं० तरस काडवापीजिवा किं० । जइने अधिकरणको अयोजित हुवे तेइने कायको हुवे । गोयमा एव एएण अभिलावेण चत्तारि दंरुगा भा० । इगौतम इम एणे आलावे करी पवनोपरे वार २ आलावा कहवा । जस्स ज समय ज टेस पदेस वेमाणियाण । जइने ज समय जे २ देजे प्रदेये करी यावत् वेसानिकताइ । जीवेण भते ज समय काडयाए अहिगरणियाए पाउसियाए किरियाए पुठे तं समय पारितावणियाए पुठे पाणाइवाय किरिया पुठे । जीवने इममवन् जेसमये कायिकीक्रिया अधिकरणको प्रवेसकोक्रियावे फरसे तेसम ये पारितापनोक्रियावे फरसे प्राणतिपातकोक्रियावे फरसे । गोयमा अटवेगइए जीवे एगतियाओ जीवाओ जसमयं कारयाए अहिगरणियाए पाउ

द्वारस्य सर्वे पूर्वाक्त तदवस्थ तावद्वक्तव्यं यावद्द्वैमानिकसूत्रं तथावाह-एव जहैव आद्वल्लज्जं दडउं तहेव प्राणियध्वी जात्र वेमाणियस्स इति जात्र व
माणियस्स इति ॥ समयप्रदण्णेनचेत् सामान्यत कालो गृह्यते नपुन परमनिष्ठो यथोक्तस्वरूपो नैथियिक समय-परितापनस्य प्राणातिपातस्य वा
वाणादिहेपन्नन्यतम कायिकस्य प्रथमसमये एवासम्भवात्, एष द्वितीयो दडक, समति द्वी दडकी हेत्रमधिकृत्याह-ज देसण प्रते । जीवस्स
इत्यादि ॥ अत्रापि सूत्रं पूर्वाक्तं तदवस्थं तावद्वक्तव्यं यावद्द्वैमानिकसूत्रं तथावाह-तहेव जात्र वेमाणियस्स ॥ एष स्तृतीयो दडक ॥ ज पदेसेण
भंते । जीवस्स कायिया कज्जइ इत्यादि ॥ यत्तुर्थं । अत्रापि सूत्रं प्रागुक्तकर्मण तावद्वक्तव्यं यावद्द्वैमानिकसूत्रं तथावाह-एव तहेव जात्र
वेमाणिय इति ॥ दडकसकलनामाह-एवभंते इत्यादि ॥ एताद्य यथा ज्ञानावर्णीयादिकर्मबन्धकारण तथा ससारकारणमपि ज्ञानावर्णीयादिकर्म
बन्धस्य ससारकारणतया तद्देहत्वेन तासामपि ससारकारणत्वोपचारात्, तथावाह-कइण प्रते । आलोजियात् किरियात् पकहात् ॥ आयोजयति

तं समयं काइयां किरियां कज्जइ । एव जहेव ज्झाडल्लज्जं दंरुत्तं तहेव ज्ञाणियध्वी जात्र वेमाणियस्स । जं
देसण जंते ! जीवस्स काइया कज्जइ तं देसं ज्झिहरणिया तहेव जात्र वेमाणियस्स । ज पदेसेणं जीव
स्स काइया किरिया कज्जइ त पदेसें ज्झिहरणिया किरिया कज्जइ एव तहेव जात्र वेमाणियस्स एव

द्वैमानिकस्य । यस्मिन्प्रदेशो जीवस्य कायिकी क्रिया तस्मिन् प्रदेशे अधिकरणीकी क्रिया क्रियते एव तथैव यावद्द्वैमानिकस्य । एव भंते
यस्य यस्मिन् समये यस्मिन्देशे यस्मिन् प्रदेशे चत्वारो दण्डका जवन्ति । कति प्रदन्त । आयोजिका क्रिया प्रवृत्ता । गीतम । पच आयो

को । ज पसेषे भते जीवस्स काइया किं त पसेषेण चिहरणिया किं एव तसेव सव्यं भा० जात्र वेमाणियस्सण जे प्रदेशे हेभयवन् जीव कायिकी क
रे ते प्रदेशे चिहरणिकी करे इमं तिमडोलं बाल्लो वेमाणिक । एव एते जसं जंभय ज देस जं पदेस एण चत्तारिडंङगा इवति । इमं जे २ सन
वे जे २ देये जे २ प्रदेशे, इम ए सर्वंतं चार २ पात्तया, कइवा । कइण भंते चापोजियायां किरियायां यं० । कंतलो हेभयवन् जीवने ससारसाधि जो

कोपिदेहो प्रावयशात्परिणमत्येव ॥ १ ॥ परितापनस्य प्राणातिपातस्य चाद्यक्रियात्रयसमवे व्यनियम इयमितिवे दुच्यते-यद्यसौ घातो मृगा
 दिर्घातकेन धनुषादिनेन वाणादिना विद्यते तत स्तस्य परितापन मरण वा प्रवर्ति नान्यथा ततो नियमाज्ञाव , परितापनस्य प्राणातिपातस्य
 च प्राये पुराक्रियासमवेदयज्ञाव स्तासामनावे तयो रजावात् । ततोममयं परिजाव्य कायिकी, शोषाञ्जि शतसृञ्जि क्रियाञ्जि सह व्याधिकरणश्री-
 तिसृञ्जि प्राद्वैयिकी हास्या सूत्रत सम्यक् चिंतनीया । परितापनिकीप्राणातिपातक्रिययोस्तु सूत्र सात्वादाह-अस्सण ऋते ! जीवस्स पारियावण
 या किरिया कज्जइ इत्यादि ॥ परितापनिक्या-सद्भावे प्राणातिपातक्रिया स्याद्भवति स्यान्नभवति यदा वाणाद्यविधातेन जीवितात् व्याव्यते त
 दा प्रवर्ति शोषकाल न प्रवतीत्यर्थ- , यस्य पुन प्राणातिपातक्रिया तस्य नियमा त्परितापनमत्तरेण प्राणव्यपरोपणा, सप्रति नैरयिकादिबहुवैश

रिया नियमा कज्जइ । जस्सण ऋते ! जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तस्स पाठिसिया कज्जइ जस्स पा
 दोसिया कज्जइ तस्स काइया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! एवंचेव । जस्सणं ऋते ! जीवस्स काइया
 किरिया कज्जइ तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ जस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स काइया
 किरिया कज्जइ ? गोयमा ! जस्सण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ तसुत पारियावणिया सिय कज्जइ

पनिकी तस्य कायिकी क्रिया कियते ? गौतम ! यस्य जीवस्स कायिकी तस्य परितापनिकी स्यात्क्रियते स्यान्नो क्रियते यस्य पुन- पारिता
 पनिकी करे ते कायिकी करे । गोयमा जस्सण जीवस्स काइया किं तस्य पारियावणिया किं सिय कज्जइ सिय षो कज्जइ । इगौतम जेजीव कायिकी
 क्रिया करे ते परितापनिकी क्रिया कियारे करे कियारे नही । जस्स पुण पारियावणिया किं तस्य काइया नियमा कज्जइ एव काइया नियमाकज्ज
 ति । जे परितापनिकी क्रिया करे ते नये कायिकी क्रिया करे इम नये कायिकी क्रिया करे । एवं पाणाइवायकिरियाए एव अभिलावो परोप्पर निय
 मा कज्जति । इम प्राणातिपातिकी क्रिया इण परे आलावे चन्त्समै निये करणरी कहिंवा । बाण्य आइसाओ तिण्णि कज्जति तस्य चवरिसाओ दोण्णिइ

सिय नो कज्जइ, जस्स पुण पारियावणिया कज्जइ तस्स काडया नियमा कज्जइ । एवं पाणाइवायकिरि
याधि । एव आदिह्लाउ परोप्परं नियमा तिन्नि कज्जइ । तस्स उवरिह्लाउ दोन्नि सिय कज्जइ सिय नो
कज्जइ । जस्स उवरिह्लाउ दोसि कज्जइ तस्स आदिह्लाउ नियमा तिन्नि कज्जइ । जस्सणं भत्ते ! जीव
स्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स पाणाइवायकिरिया कज्जइ जस्स पाणाइवायकिरिया कज्जइ
तस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ ? गोयमा ! जस्सण जीवस्स पारियावणिया किरिया कज्जइ तस्स

पनि की तस्स कायिकी नियमात्क्रियते (जवति) एव प्राणातिपातक्रियापि । एवमादिमा परस्पर नियमाहित्वा क्रियते तस्योपरिमे द्वे
स्वात्क्रियते स्थानो क्रियते । यस्योपरिमे द्वे (जवत) तस्यादिमा नियमात्तत्र क्रियते । यस्य जवत्त पारितापनिकी क्रिया
क्रियते तस्य प्राणातिपातिकी क्रियते यस्य प्राणातिपातक्रिया तस्य पारितापनिकी क्रियते ? गौतम ! यस्य जीवस्य पारितापनिकी तस्य प्रा
णातिपातकी स्वात्क्रियते स्थानो क्रियते, यस्य पुन प्राणातिपातक्रिया तस्य पारितापनिकी नियमात्क्रियत । यस्य जदन्त । नैरप्यकस्य

स्य क्लृप्तिं सिध नो क्लृप्तिं । जे पडिनी ३ क्रिया करे ते आगनी वेक्रिया किवारे करे किवारे नही । जन्त उवरिह्लाओ दोयइ क्लृप्तिं तस्स आ
इह्लाओ नियमा क्लृप्तिं । जे जपरली दोयक्रिया करे ते धुरली ३ नियं करे । जस्सण भते जीवस्स पारियावणिया किरिया क्लृप्तिं तस्स पाणाइवाय
किरिया क्लृप्तिं जस्स पाणाइवाय किं तस्स पाणाइवाय किं । जे प्राणातिपातिको करे ते पारितापनिको करे । गोयमा जस्सणं जीवस्स पाणाइवाय
वणिया किं तस्स पाणाइवाय किरियां धियं क्लृप्तिं सिधं षो क्लृप्तिं । हेगौतम जे जीव पारितापनिकी क्रिया करे ते प्राणातिपातिको करे किवारे
करे किवारे नही । जस्स पुण पाणाइवाय किं तस्स पारियावणिया किरिया नियमा क्लृप्तिं । जे जीव प्राणातिपातिको करे ते पारितापनिकी क्रिया
नियं करे । जस्सण भते चेरस्यस्स कारण किं तस्स आइहरणिया किं । जे हेमभवन् नारको कारिकी क्रिया करे ते अधिकरण क्रिया करे । गोयमा

ट, समस्त्यासामेव क्रियाणां मेरुजीवाशयेण परस्परमविनाशप्रवृत्त्यं चिन्तयति-जस्य एव ॥ इह कायिकी क्रिया शोदारिकारिकाया
 त्रिता प्राणतिपातनिवर्तनसमयो प्रतिविशिष्टा परिगृह्यते अनयो काचन कार्मणकायाश्रिता वा तत छाद्याना तिमृषा क्रियाणं परस्परं निय

णियन्ता । एव उच्यते ज्ञेयं च विवक्ष्यते । जीवं मणुस्संयं च्यक्रिये वृत्तं संसा च्यक्रिया ण वृत्ति ।
 सवृजीवा उरालियसरीरिहतो पचक्रिया ण वृत्ति । एव एकैकजीव
 पदे चत्वारिंशद्वरुणा ज्ञाणियन्ता, एव एतद्वरुणसत सव्विविय जीवादीया द्रुगा । कतिण जन्ते ! क्रियान्त
 पखत्तान्तं ? गोयमा ! पचक्रिया पणत्ता, तज्जहा-काइया जाव पाणाइवायक्रिया । जेरडयाण जन्ते !

नोच्यते । सर्वजीवा शोदारिकारिकारित्वत्वात्क्रिया । नैरियिकदेवंस्य पचक्रिया नोपपत्ते । एवमेकैकजीवपदे चत्वार्यत्यारी द्रुगजा ज्ञप्रति
 ष्या । एवमेतद्वरुणसत सर्वेषु जीवादिषु द्रुगका । कति प्रदत्त । क्रिया प्रपत्ता ? गोतम । पचक्रिया प्रपत्तास्तया-कायिकी या
 वरप्राणतिपातक्रिया । नैरियिकाणा प्रदत्त । कति क्रिया ? गोतम । पचक्रिया सद्यथा-कायिकी यावत्प्राणतिपातक्रिया । एव यावदुमानि
 काना । यस्य प्रदत्त । जीवस्य कायिकी क्रिया क्रियते (प्रवति) तस्यापि करणिकी क्रिया क्रियते (प्रवति) यस्यापि करणिकी क्रिया (ज्ञ

वि जीव, द्रियाद्वगा भाषि । इम विरतिना करता २५ ददक ४ गुणाकरता सर्वजीवना शोदारिक इवे । कारण भते क्रियाशो प० । केतनो सुभग
 नू क्रिया कही, गोयमा पचक्रियाशो प० त० का-या जाव प्राणारवाया क्रिया । इगोतम ५ क्रियाकडो ते कायिकी यावत् प्राणतिपातको ।
 ण भते कडक्रियाशो प० । नारकोने सुभगवन् केतनो क्रिया कडो । गोयमा पचक्रियाशो प० त० । इगोतम ५ क्रियाकडो ते कडके । का
 ण पाणाइवायक्रिया एव जाव वेमाचियाण । कायिकी यावत् प्राणतिपातको इम जाननी वेमानिक । जस्य भते जीवस्य आया शिर
 कडके तस्य अद्विगरेणिया क्रिया कडके जस्य अद्विगरेणिया कि० तस्य काइया कि० । जहते सुभगवन् जीवने कायिकी क्रिया करते अविचरएको

स्यनियामकभावः कथमिति चे दुष्यते-जायोधिकरणमपि प्रवर्तयत्युक्तं प्राक् तत कापस्थाधिकरणत्वात् कायिका सत्या मवश्यमाधिकरणकी आधिकरणिक्यामवश्यं कायिकी साच प्रतिविधिषा कायिकी क्रिया प्रहेपमतरं न प्रवर्तते तत प्राहेपिक्यापि सह परस्परमविनाभावः, महेप्यपि च काये स्फुटलिङ्गएव यत्कुरुत्वत्वादे स्तदविनाभावः प्रत्यक्षत एवोपलभात्, उक्तञ्च-रूचयतिरुक्तोऽनु वक्तस्तिस्तिवच्यत पुस । श्रीदारि

कतिक्रियात् पक्षज्ञानं ? पंचक्रियात् पक्षज्ञानं, तंजहा-काडया जाव पाणाडवायकिरिया । एवं जाव वेसाणियाणं । जस्स नते ! जीवस्स काडया किरिया कज्जइ तस्स अहिगरणिया किरिया कज्जइ जस्स अहिगरणिया किरिया कज्जइ तस्स काडया किरिया कज्जइ ? गीयमा ! जस्सण जीवस्स काडया किरिया कज्जइ तस्स अधिगरणिया नियमा कज्जइ, जस्साधिगरणिया किरिया कज्जइ तस्सचि काडया कि

ति) तस्य कायिकी क्रिया (प्रवर्तते) गीतम । यस्य जीवस्य कायिकी क्रिया क्रियते तस्याधिकरणकी नियमा त्क्रियते यस्याधिकरणकी क्रिया क्रियते तस्यापि कायिकी नियमा त्क्रियते (प्रवर्तयत्यर्थं) यस्य नदन्त । जीवस्य कायिकी क्रिया क्रियते तस्य प्राहेपिकी क्रिया क्रियते यस्य प्राहेपिकी तस्य कायिकी क्रियते ? गीतम । एव चैव । यस्य नदन्त । जीवस्य कायिकी क्रिया क्रियते तस्य पारितापनिकी यस्य पारिता

क्रिया करे जे अधिकरणको क्रिया करे तेनिये कायिको करे । गोवमा जेण जीवस्य काडया कि० तस्य अहिगरणिया नियमा कज्जइ जस्यपुष अहिगरणिया कि० तस्यचि काडया किरिया नियमा कज्जइ । हेगीतम जे जीव कायिकी क्रिया करे ते अधिकरणको नियमे करे जे अधिकरणकी क्रिया करे जे अधिकरणकी क्रिया करे । जस्यण भते जीवस्य काडया कि० तस्य पाटोसिया कि० जस्य पाटोसिया कि० तस्य काडया कि० । ज हेभगवन् जीव कायिकी क्रिया करे ते प्राहेपिकी करे जे प्राहेप करे ते कायिकी करे प्रय । गोवमा एवंचैव जस्यण भते जीवस्य काडया किरिया तस्य पारियावणिया कि० जस्य पारियावणिया कि० तस्य काडया कि० । हेगीतम इमहीज जे निये पूर्वहीपर जे हेभगवन् जीवकायिकी क्रिया करे ते पारितापनको क्रिया करे जे पारिता

प्रते । जीवात् कडकिरिणं पन्नते ॥ इत्यादि ॥ एव जाव वेमाणिपरिहती इति ॥ अत्र अवत्करणान् नैरयिको जीवान् प्रति कतिक्रिय इति इत्यादि रूपो द्वितीयोपि दशहज तकौ द्रष्टव्यः, सर्वत्र श्रीदारिकशरीरान् सख्येयवर्षायुषः प्रति स्यात्तिक्रिय स्या स्रुत् क्रिय स्यात्पचक्रिय इति वक्तव्य नैरयिकदेवान् प्रति पचमी जीयिताचपरोपणरूपा क्रिया नास्ति तेषामनपवर्त्यायुक्तत्वात् ततः स्वान्प्रति स्यात्तिक्रिय स्यात्स्रुत् क्रिय इति वक्त

जीवान् कडकिरिणं ? गोयमा ! सिय तिकिरिणं सिय चडकिरिणं सिय पचकिरिणं । नेरइणं न्रते !
 णेरइयातो कतिकिरिणं ? गोयमा ! सिय तिकिरिणं सिय चडकिरिणं एव जाव वेमाणिपरिहती नत्रर
 णेरइयस्स णेरइएहिती देवेहिती य पचमा किरिया नत्थि । णेरइयाणं न्रते ! जीवान् कडकिरिया ?
 गोयमा ! सिय तिकिरिया सिय चडकिं० सिय पचकिरिं० । एव जाव वेमाणियात् नत्रर णेरइयात् दे

क्रिय स्यात्स्रुत्क्रिय स्यात्पचक्रिय । नैरयिको न्रदत्त । नैरयिकात् कतिक्रिय ? गौतम । स्यात्तिक्रिय स्यात्स्रुत्क्रिय, एव यावद्द्वैमानिके
 त्मो नत्रर नैरयिकस्य नैरयिकेस्यो देवेस्यस्य पचमा क्रिया नास्ति । नैरयिका न्रदत्त । जीवा रकतिक्रिया ? गौतम । स्यात्तिक्रिया स्यात्
 स्रुत्क्रिया स्यात्पचक्रिया । एव यावद्द्वैमानिका नत्रर नैरयिकाहेवाच्च पचमा क्रिया नास्ति । नैरयिको न्रदत्त । जीवेस्य कतिक्रिय ? गौ

ए षवर षेरइयस्स षेरइएहिती देवस्स देवेहिती पचमाकिरिया नत्थि । हेगौतम किवरि ३ किवरि ४ इम जावगी वेमानिकयो एविसेप नारकोने ना
 रकोयो देवने देवयो पाचमी प्राणतिपातकौक्रिया नही । षेरइयाण भते जीवाओ कडकिरिया । नारकोने हेभगवन् एक्षयने जीवयो कतलौक्रिया ।
 गोयमा सियति० सिपची० सियपच कि० एव जाव वेमाणिवाओ नत्रर षेरइयाओ देवयाओ पचमा किरिया नत्थि । हेगौतम किवरि ३ किवरि ४
 किवरि ५ इम जानगे वेमानिक एविसेप नारकोने देवताओ पाचमौक्रिया नही । षेरइयाण भते षेरइएहिती कडकिरिया । नारको हेभगवन्
 वइयपने जीवयो कौसोक्रिया । गोयमा सिरतिच्चि० सिवची० एव जाव वेमाणिपरिहती एवर चरान्तिपरिहती जहा जीनेहिती । हेगौतम

तु, सिद्धापरुषा या तस्य देहमनोवृत्त्यजायेनाक्रियत्यात्, प्रभुमेगार्थे चतुर्धंशतिदयकक्रमेण निरूपयति-जीवेण ज्ञते । त्रिप्याडे कडकिरिए इत्यादि ॥ सुगम नजरमय प्रायार्थ-देवनार-रुग्नु प्रति चतु क्रियएव तथा जीविताद्यपरोपणस्या सम्भवादनपवर्त्यायुषो नारकदेमा इतिवचनात्, शोपा नमस्येपवर्षायुष प्रति पचक्रियोपि तेषा मपवर्त्यायुक्तया जीविताड व्यपरोपणस्यापि सम्भवात्, तदेवमेकस्य जीवस्य एकजीव प्रति कि या धितिता यप्रत्येकस्येव जीवस्य वर्णु जीगान् प्रति क्रिया धित्यात्-जीवेण ज्ञते । जीविहो कडकिरिए पक्षते इत्यादि ॥ एषोपि दशउत्त

जीवातो कडकिरिए ? गोयमा । सिय तिकिरिए सिय चडकिरिए सिय पचकिरिए सिय चडकिरिए । जीवेण ज्ञते ! णेरइयाले कडकिरिए ? गोयमा । सिय तिकिरिए सिय चडकिरिए सिय चडकिरिए । एव जाव थणियकुमारात् पुढविकाडयात् चडकिरिए सिय चडकिरिए सिय चडकिरिए । एव चडकिरिएपचिदिनतिरिक्कजोगियमणस्साले जहा जीवाले । वाणमतरजोडसियवेमाणियातो जहा णेरइ

दल । नैरयिकात् कर्तक्रिय ? गोतम । स्याचिक्रिय स्याचतुक्रिय स्यादर्किय । अय यावत्तनितकुमारात्, पृथिवीनायिकादप्पायिका तेनरसायिकयायुर्जायिअयनस्पतिकायिकिद्विप्रत्तु पखेन्द्रियतियग्योनिकमनय्याद्यथा जीवात्, वानव्यन्तरज्योतकवेमानिकाद्यथा नैरयिका तु । जीयो प्रदत्त । जीवेअ कर्तक्रिय ? गोतम । स्याचिक्रिय स्याचतुक्रिय स्यादर्किय । जीवो जदत्त । नैरयिकेअ

कोधने हेमगवन नारकोने केतनीकिमा । गायमा सिय तिंकिं धियवः सिय अकिं एव जाव थणियकुमारा । हेगोतम किचारे २ किचारे ४ कि चारे इम स्यानिनकमारलगी । पुढवीकाश्या आरकः जाव वक्खस,काइया वेइ० ते० व० प० तिरि० मणु० जहा जीवाथो वाणमतर जोःसिय वेमाणियाथो १ पृथिवीकाय पाजाय यावत् वनस्पतीकाय वेदिय तेदिय चौरि डिग पचेद्विग तिंरिचोनिया एइने शरोर वीधियाथो नद्यो मनुष्य ते ट एइ जीवना दणकनीपरे जाणिवो वानव्यन्तर ज्यातिपौ वेमानिक नारकोपरे कहिवो । जीवे कडकिरिए प० । जीव हेमगवन जीवधी

प्रथमदण्डकदवधेप, अथुना वदूना जीवामा वदून् जीवानधिकृत्य सूत्रमाह-जीवाण भते । जीवहितो कतिकरिया पक्ता इत्यादि ॥ अत्र प्र-
पाठसिद्धो निर्वचनमिद-गौतम । त्रिक्रिया अपि चतु क्रिया अपि पञ्चक्रिया अपि कस्यापि जीवस्य कमपिजीव प्रति त्रिक्रियत्वात्, कस्यापि च

याञ्च । जीवेणं जते ! जीवेहितो कतिकरिए ? गोत्रमा ! सिय तिकरिए सिय चउकरिए सिय चउकिरिए पंचकि
रिए सिय च्युकरिए । जीवेण जते ! नेरडण्हितो कतिकरिए ? गोयमा ! सिय तिकरिए सिय तिकरिए सिय चउकि
रिए सिय च्युकरिए । एव जहेव पढमो दण्डे तथा एसोवि वित्तुञ्चाणियहो । जीवाणं जते ! जीवाञ्च
कतिकरिया ? गोयमा ! सिय तिकरियावि सिय चउकरियावि सिय पंचकरियावि । जीवाणं जते !

कतिक्रिय ? गौतम । स्यात्त्रिक्रिय स्याद्यतुष्ट्रिय स्यादक्रिय, एव यथैव प्रथमो दण्डकलया उपोपि द्वितीयो जखितथ्य । जीवा जदन्त ।
जीवात् कतिक्रिया ? गौतम । स्यात्त्रिक्रिया अपि स्याद्यतुष्ट्रिया अपि स्यात्पञ्चक्रिया अपि । जीवा जदन्त । नैरयिका त्कतिक्रिया ? गौ
तम । यथैवादिदण्डकलयात्र जणितथ्यो याथहेमान्तिक इति । जीवा जदन्त । जीवेस्य कतिक्रिया ? गौतम । त्रिक्रिया अपि चतुष्ट्रिया अ

त्रोषपणं केतनोक्रिया । गोयमा सिय तिक्रि० सियच० सियप० । सियप० सियच० । हेगौतम किवारे ३ किवारे ४ किवारे ५ अक्रिया पियहुवे विरति मथो
मनुथ । जीवेण भते षेरदण्हितो कतिकरिए । जीव हेमगवन् नारकोने केतलो क्रिया हुवे । गोयमा सिय ति० सिय चो० । सिय अक्रि० एव जहेव पढमो
दण्डो तथा एसां त्रितयोवि भाणियथ्यो । हेगौतम किवारे तीन चार किवारे अक्रिया इम जिम पहिलो दण्डक कहिवो तिम एकवचने बहुवचने या
द्विभो । जीवेण भते जीवाप्रो कदविहे प० । जीवेने हेमगवन् विशेषपण्ये केतलोक्रिया कहो । गोयमा सियतिकरिया सियचो० सियपच० सियचक्रि
रिया । हेगौतम किवारे ३ किवारे ४ किवारे पाच किवारे किगनहो मनुथने वे २ नमथो । जीवाणं भते षेरदवाप्रो कतिकरिया । जीव हेमगवन्
बहुवचने नारकोथी केतलोक्रिया । गोयमा जहेव यादिमोदण्डो तहेन भाणि० ज्ञान वेचाणियति । हेगौतम जिम पहिलोदण्डक तिम वेमानिकलो

अथैव यदुत्वेन तन्मभानत्यात्, योया द्वित्रिषुत्तुरिद्वित्यतिर्यक्पक्षद्विगममर्थस्यत्तरल्योतिकर्तमानिका यया नैरयिका अगत्रिकोक्ता स्या यत्तया-
 यथाच प्राणातिपातेनैकत्वपक्षाम्या ह्री दुरुका युक्ता वेव सर्वपापस्यानैरपि प्रत्येक ह्री २ दुरुको यक्तथो तथाचाह-आय मिच्छादसणसत्ते ॥ सर्वे
 सङ्ख्या कियतोदरुका प्रयतीतिचेत् घात आह-एव एगत्तपोहसिया कृत्तिस दुरुगा ह्रीति ॥ अष्टादशाना हास्या गुणने यद्विज्ञाद्वावात् ॥ जीवाण जते । इ
 त्यादि ॥ थय कोस्य सूत्रस्यापि सम्यन्व सच्यत इह प्रागुक्त जीवप्राणातिपातेन सप्तविषमष्टविषया कर्मे वर्णाति सुतु तमेव प्राणातिपात ज्ञानावरणी
 यादिकर्मवप्रन् कर्तव्य क्रियाञ्चि समापयतीति प्रतिपाद्यते अविष कार्येण ज्ञानावरणीयास्येन कर्मणा कारणस्य प्राणातिपातास्यस्य नियुक्तिजेद

एव अष्टरकुमारावि जाव धणियकुमारा । पुढविष्णाउतेउवाउवणस्सइकाइया य एण सहेवि जहा उहिया
 जीवा अ्वसंसा जहा णेरइया । एव एण जीवएणिदियज्जा तिन्नि अगा सव्वस्य आणियह्वत्ति । जाव
 मिच्छादसणसत्तेण एवं एगत्तपोहत्तिया वत्तीस दंरुगा ह्रीति । जीवेण जते ! नाणावरणिज्जा कम्म यधमा
 णे कत्तिकिरिणु ? गोयमा ! सिय त्तिकिरिणु सिय चउकिरिणु जाव वेमाणिणु । जीवाण

नैरयिका । एवमेते जीवैकैन्द्रियवर्णां स्वयो जह्ना सर्वत्र प्रणितत्वा इति । यावन्मिष्यादर्शेनगत्येवैकत्वप्रायद्विज्ञा यद्विज्ञाद्वायत्तका न
 वन्ति । जीवो जदत्त । ज्ञानावरणीय कर्मे यप्रन् कर्तकिय ? गौतम । स्वात्रिकिय स्वाप्तुत्तिकय स्वात्पव्वकियो यावद्वेमानिक । जीवा
 न तिमहोक्त जाविवा इत्तु इयिव्यादि शिवापरिणत प्रत्येक सप्तविधवत्पक्ष अष्टविधवत्पक्ष देश बहुवचन यामते १ भागे भुवे वेदग्निगाटिकने मारकी
 य १ बहुवचने १८ विमयागुण ते २६ आसाधा थाय । जीवेणं भते आणावरणित्त्व कथ्य वधसाणे कःकिरिणु । एकवचने जीव आनावरणीय कर्मवधे
 यको केतलीक्या करे । गोयमा सियतिरिणु सिय वरकिरिणु सिय पचकिरिणु एष केरइए जाव वेमाणिणु । इगौतम किपरिे तोमभुवे कायकी प्रधि

उपदर्शते तद्देव वन्यविजोयोपीति उक्तम्-तिसृन्नि चतसृन्नि रथ पंचत्रिंशत् क्रियात्रिंशत् एखासमाप्यते, क्रमज् वधोस्य विंशति एखाद्योगत्रंशं
 पिसाम्यत्रेति तदेवप्राणातिपातस्य निवृत्तयेदं दर्शयति-सियतिकिरिये इत्यादि ॥ स्यात्कदाचि त्तिक्रिय कदाचि क्षुत् क्रिय कदाचित् पच
 क्रिय, तत्र त्रिक्रियता कायिक्याचिकरिणकी प्राद्वैपिकीनाम इस्तपाटादिव्यापारण्य अधिकरिणकी सङ्गादिप्रगुभीकरण प्रादे
 यिकी सारयाम्येनमित्यनुजनन समचारणमिति, चतु क्रियता कायिक्याचिकरिणकीप्राद्वैपिकीपातिपातकीनाम सङ्गादिघाते
 न पीनाकरण पचक्रियता यदा प्राणातिपातक्रियायां पचमी ज्ञवति, प्राणातिपातक्रिया जीविताद्यपरोपण स्य नैरयिजादारज्य चतुर्विंशतिद
 यत्कर्मण तावदुक्तव्य याव ह्येनानिकमूत्र स्रूपाठ श्लेव-नरइयाण जते । नाणावरणित कस्य वचसारे कर्त्तिकरि ए पनत्ते इत्यादि ॥ तदेय ने
 कत्वेन दशक उक्त सम्प्रति बहुत्वेनाह-जीवाण जते । इत्यादि ॥ प्रश्नत्र सुगम । जीवास्तिक्रिया अपि षतु क्रियात्रपि
 क्रिम्क जयति जीवा ज्ञानावरणीय कर्म वप्रन्त सदैव वद्वयस्य त्रिक्रिया अपि चतु क्रिया अपि पर्यक्रिया अपि लप्यते, इत्येक एव ज्ञा । यथा च
 सामान्यतो जीवपदे ऽनङ्गक तथा नैरयिकादिषु चतुर्विंशती स्वस्थानेषु प्रत्यकमनङ्गक इत्यथ । नैरयिजादीनामपि ज्ञानावरणीय कर्म वप्रन्त च

जते ! नाणावरणित कर्म वयमाणा कतिकिरिया ? गोयसा ! तिक्रियावि चतिक्रियावि पचकिरि

जतल । ज्ञानावरणीय कर्म वप्रन्त कति क्रिया ? गीतन । त्रिक्रिया अपि चतुक्रिया अपि पचक्रिया अपि । एव नैरयिजा यावद्वैमानि

करण प्रहेय पारिं ४ किवारिक ५ हवे इम नारकीनां माहो वेमानिबलग । जोवाण भत नाणावरणित कथा वयमाणा कतिक्रिया । जीवने चतुत्रय
 न ज्ञानावरण कर्म वाधतायका कौतुकीक्रिया हवे । गोयसा पिय ति ० शिव धी ० शिव पचकिरिए एव केरइया निरतर जाव वेनागिया एव दसणा
 वरणीय वेवाणिल मोहणिल आवय नाम गीत अतराशय चहुविह कसपगंहीनां नाणिवजापी एतत्पद्मत्तया सीनसदृशगा । हेगीतम ३ पिय कि
 याहुवे ४ पियहुवे पाचहुव इत नारकीनादी वावते वेमानिबलवी इत दर्शनावरणी घेदनी साहनी आयु नाम गीत अतराशय इत पचकिरि कर्मम

वाण जते । इत्यादि ॥ सुगम नवर समविषयस्य क्तव्य, आयुर्वधविरहकाले आयुर्वधकाले चापि विषयकत्व पृथक्कचित्तार्य सामान्यतो जीवपदे
समविषयकत्वात् अष्टविषयकत्वात् अपि सदैव बहुत्वेन लभ्यते, तत उन्नयतापि बहुवचननिर्येव रूप एकएव वन्यमग नैरयिकसूत्रे-सप्तविषयवन्ध

सर्वेषु जीवणेरइयन्नेदेण ज्ञाणियन्न निरतर जाव वेमाणियाणति, एव छठारस एण टंठगा । जीविज्जते !

पाणाइवाएण कति कम्मपगणीउ वधइ ? गोयमा ! सत्तविहवधएवा छठविहवधएवा एव णेरइए जाव
वेमाणिए । जीवाण जते ! पाणाइवाएण कतिकम्मपयणीउ वधति ? गोयमा ! सत्तविहवधगावि छठवि

स्या मिथ्यादृशानशाल्यन सर्वेषु जीवैर्नैरयिकनेदेन प्राणितव्य निरतर यावद्वैमानिकानामिति । सर्वेतेऽष्टादशशब्दका । जीवो जदन्त । प्रा
णातिपातेन कति कर्मप्रकृती यन्ति ? गीतम । समविषयक्यको वा ऽष्टविषयक्यको वा । एव निरतर यावद्वैमानिक । जीवा जदन्त ।

प्राणातिपातेन कति कर्मप्रकृती यन्ति ? गीतम । समविषयक्यका अपि अष्टविषयक्यका अपि । नैरयिका जदन्त । प्राणातिपातेन कति क
य भाषि । हे गीतम सर्वद्रव्य वस्तु इम नारका पूछ्हे कोधीभावा वैमानिकवासी सती कहिवा इम कोध मान माया लीध क्वाय गम रनेइ हेप क

सह चम्याख्यात दोषद्वेषो पैशुन्यादि करवो परदापनो काहिवो असाता माया मृणा मिथ्यात्वद्वयंन सत्त २८ पापखान इम नारकोधी माही २४ दण्ड
के कहिनी पठमभिसेवकीवा वीणचरिमिदसकदावाऽ । सेसामहवयाए तदेकदिसमिनायत्वा ॥ १ ॥ निरतर जाव वेताणिएति एव एते गुरारय द

दण । वैमानिकपर्यन्त इम १८ दण्डक कहिवा हिउ हेमगवन् कोशओ वचने वदवचने कर्मवन्धनप्रकृति कहेहे—जीवेष भते पाणाइवाएण कइकम
पगहीओ वधति । जीव प्राणातिपातको विगा करेती केतवो कर्मप्रकृति वाधे । गोयमा सत्तविह्व अष्टविह्व उपएवा । हे गीतक याकखाना वन्यिगा

सातवाधे अकेखानीवाधे से गठवाधे । एव केरए निरतर जाव वेमाणिए । इम नारको जालगे वैमानिक । जीवाण भते पाणाइवाएण कइकल्प
गहीओ वधइ । जीवने हेमगवन् बहुवचने जीव प्राणातिपात करती केतवो कर्मप्रकृति वाधे । गोयमा सत्तविह्वुधगावि अष्टविह्ववपणापि । हे गीतम

धाण जते । इत्यादि ॥ सुगम नगर संसविषयस्यस्य, आयुर्वेदविषयस्यस्य, आयुर्वेदविषयस्यस्य पृथक्चित्तार्थ सामान्यतो जीवपदे
सप्तविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य अष्टविषयस्यस्य

सर्वेषु जीवनेरइयेनेदेण ज्ञानियञ्च निरतर जात्र वेमाणियाणति, एवं अष्टारस एए ठरुगा । जीवणजते !

पाणाइवाएण कति कम्मपगळीउं बघइ ? गोयमा । सत्तविहवधएवा अठविहवधएवा एवं णेरइए जाव

वेमाणिए । जीत्राण जते ! पाणाइवाएण कतिकम्मपयळीउं बघति ? गोयमा ! सत्तविहवधगावि अठवि

स्या विष्याद्वेनशाल्यन सर्वपु जीवनेरियकनेदेन प्रणितव्य निरतर यावहेमानिकानामित । सवमेतेऽष्टादशदशहका । जीवो प्रदत्त । प्रा
णातिपातेन कति कर्मप्रकृती वेमाति ? गीतम । सप्तविषयस्यको वा ऽष्टविषयस्यको वा । एव निरतर यावहेमानिक । जीवा प्रदत्त । प्रा
णातिपातेन कति कर्मप्रकृती यमन्ति ? गीतम । सप्तविषयस्यका अपि णष्टविषयस्यका अपि । नैरयिका प्रदत्त । प्राणातिपातेन कति क

मष्ट पभ्याख्यात दोपदेवं पेयुत्यादि करवो परदायनो कांदिवो पघाता माया मृणा मियात्वदयंन सप्त १८ पापखान इम नारकोधी साही २४ इए
के कहिनी पठमभिसवजीवा वीएचरिमेवसवदवाऽ । सेसामहववाए तदेकदिसमिनायत्था ॥ १ ॥ निरतर आन वेगाणिसि एव एते अठारस ट
एण । वेमानिकपर्यत्त इम १८ टएक कहिवा हिउ हेमगवन् कीवाओ वचने बहवचने कसवन्थाप्रकति कहिहे—जीवण भते पाणाइवाएण कटकस
पगळीयो वधति । जीव प्राणातिपातको किमा करेती केतलो कर्मप्रकति वाधे । गोयमा सत्तविह वधवचने अठविह वधएवा । हेमोतक थाकखाना वन्दिना
सातवाधे कखानीवाधे से आठवाधे । एव बेरएण निरतर जाव वेमाणिए । इम नारको जागे वेमानिक । जीवाण भते पाणाइवाएण कटकस
गळीयो वधे । प्रोवने हेमगवन् वधवचने जीव प्राणातिपात करती केतलो कर्मप्रकति वाधे । गोयमा सत्तविहवधगावि अठविहवधगावि । हेमोतम

का अवस्थिता एव त्रिसापरिणामपरिणताना सदैव यदुत्वेन लभ्यमानानां सप्तविधवचकत्वस्यावश्यतावित्वात् । ततो यदा एकोऽप्यष्टविधवचनो
 नान्यत इत्यत्र, सर्वेऽपि तावद्भवेयुः सप्तविधवचका इति, यदा पुनरेको ष्टविधवचक शेषा सर्वे सप्तविधवचका इति, यदा द्वितीयो जग, सप्तवि
 धवचकाश्च षष्टविधवचकाश्च यदा त्वष्टविधवचका अपि यद्वो लभ्यते तदोन्नयगतव्युत्पन्नरूप स्तृतीयोजग, सप्तविधवचकाश्च षष्टविधवचका
 च एव भगवतः सासुरकुमारोदयोऽपि ताव हस्त्या यावत् स्तनितकुमारा पृथिव्यपतेर्जीवायुवनस्पतिकारिका यथा सामान्यतो जीवा लक्षा लक्षा
 वक्तव्या लभ्यन्तेऽपि बहुवचनेऽपि जगो वक्तव्य इति ज्ञात, पृथिव्यादीनां त्रिसापरिणामपरिणतानां प्रत्येक सप्तविधवचनानां सप्तविधवचनानां

हवंधगावि । णेरडयाण नते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगळीउं बधति ? गोयमा ! सहेवि ताव होज्ज
 सत्तविहवंधगा झ्हवा सत्तविहवधगाय झ्ठविहवधगाय झ्ठविहवंधगाय ।

संप्रकृती वंभन्ति ? गीतम । सर्वेऽपि तावद्भवन्ति सप्तविधवचका, अथवा सप्तविधवचका द्वाष्टविधवचका द्वाष्टवि
 धवचका च । भवसुरकुमारा अपि यावत्स्तनितकुमारा । पृथिव्यपतेर्जीवायुवनस्पतिकारिका इति सर्वेऽपि यथोचिता जीवा अथवा यथा

सातवाधे ते प्रायुविता प्रायुसहित आठुत्तधे । वेरयाण भते पाणाइवाएण कइक मपगळीओ । नारकी हेभगवन् प्राणातिपात करे ते सेतत्तो कम्म
 प्रकृतिवाधे । गोयमा सत्तवि ताव होज्जा । हेभोतम सर्ववाधे ० विष ० पिणवाधे । सत्तविह वधेवा अदुविह वधे ० अहवा सत्तविहवधगाय अदुविह
 यधेय अहवा सत्तविह वधेण अदुविह वधगाय । बहुवचने सप्तविध वचकरे ते बहुवचनमाटे ० वाधे एकवचने ० वाधे अथवा बहुवचने सात वंधा
 च एकवचने ० विधवाधे ए २ भागो अथवा बहुवचने ० वरधाया एकवचने ० वाधे ३ भागो । एव अमुकुमारवि जाव थणियकुमारवि जाव वणसुइका
 इया एणमे लक्षा त्रीदिया जीवा अथवा लक्षा वेरया एवं एते जीवे एगिदिय वन्ते ति खिभंगा सबल भां । इम अमुकुमार लालगे स्तनितकु
 मारने धविधी १ अणुर तेच ३ वायु ४ वनस्पती ३ एकवचने बहुवचने इम सर्वे जिम त्रीधनोमव कळी तिम क्कहिबी थाकता नारकी यादि क्कया जि

व हिंसापरिणामपरिणताना सदैव बहुत्वेन लभ्यमानाना सप्तविधवधकत्वस्यावश्यमिति। ततो यदा मूलोप्यष्टविधवधको
 , सर्वेपि तावद्भवेयुः सप्तविधवधका इति, यदा पुनरेको एष्टविधवधका सादा द्वितीयो भ्रमः सप्तवि
 धिवधकाद्य यदात्वष्टविधवधका अपि वरुवो लभ्यते तदोन्नयगतबहुवचनरूप स्तृतीयोन्नयः, सप्तविधवधकाद्य अष्टविधवधका
 यदासुरकुमारादयोपि तावद्दृक्त्वा यावत् स्तानितकुमारा पृथिव्यप्तेर्जीवायुवनस्पतिकारिका यथा सामान्यतो जीवा उक्ता साया
 ततः उक्तस्य-पहममिणीपि बहुवचनेनैकस्य भ्रमो वक्तव्य इति नावः, पृथिव्यादीना हिंसापरिणामपरिणताना प्रत्येक सप्तविधवधकाना मष्टविधवधकाना

वि । णेरडयाण नते ! पाणाइवाएणं कति कम्मपगणीउं बंधति ? गोयमा ! सहेवि ताव होज्ज
 बधगा झ्हवा सत्तविहवधगाय झ्ठविहवधगाय झ्ठविहवधगाय ।

कर्मवन्धहेतुयति । सर्वेपि तावद्भवन्ति सप्तविधवधका , अथवा सप्तविधवधका द्याष्टवि
 ते ५ एते अनन्तरं । स्वमसुरकुमारा अपि यावत्स्तानितकुमारा । पृथिव्यप्तेर्जीवायुवनस्पतिकारिका इति सर्वेपि यथोचिता जीवा अत्रोपा यथा
 पात्यानाम्यधिकतः

कज्जड ? गो । गोयमा सत्तविह वधएवा अशुविह वध० अहवा सत्तविहवधगाय अशुविह
 पेज्जेण देरे । सप्तविह वधगेय अशुविह वधगाय । बहुवचन सप्तविध वधकरे ते बहुवचनमाटे ० वाधे एकवचने ८ वाधे अथवा बहुवचने सात वग्धा
 नववाधे ए २ भागो अथवा बहुवचने ० वन्धाया एकवचने ८ वाधे २ भागो । एष असुरकुमारेवि जाव यथियकुमारेवि जाव वणस्सिका
 ण परिग्रहेण । जीव्या जीवा अत्रसेवा जहा बेरया एव एते जीवे पिगिदिय वक्के ति णिभगा सक्त्य भा० । इमं अमुरकुमार कांली, स्तानितकु
 नकाना । एष २ तेउ रे वायु ३ वनसती ३ एकवचने बहुवचने इमं सर्वं विमं श्रीषुनोमच कर्तो तिम कदिवो याकता नारकी नाटि कंथा लि

भेदावप्रमाणिति चे दुच्यते-इह ह्रीन्द्रियो एकैन्द्रियेष्वप्युत्पद्यन्ते एकैन्द्रियाय सकललोकव्यापिन स्ततो यदा तिर्यग्लोकस्थितो ह्रीन्द्रिय जडलो
 कान्ते अर्धलोकान्ते वा एकैन्द्रियतया समुत्पद्यते तदा भवति तस्य मारणान्तिकसमुद्घातसप्तसप्तस्य यथोक्तप्रमाणा तैजसशरीरावगाहना ति
 र्यग्लोकगृहण च्च, प्रायस्तेषा तिर्यग्लोकस्वस्थानमिति कृत मन्यथा अधोलोकैकदेशे प्यधोलोकैकदेशेऽपि परडकवनादी ह्रीन्द्रि
 य सम्भवन्ति इति तदपेक्षया तिरिक्तापि तैजसशरीरावगाहना इष्टव्या, एव त्रिधतुरिन्द्रियसूत्रेऽपि प्रावनीये नैरयिकसूत्रे आयामेन जघन्यतो
 यत्सातिरेक योजनसंरक्षमुक्त तदेव परिप्रावनीय इह बलयामुदादय इत्यार पातालकलत्रा लक्ष्यो जनावगाहयो जनसङ्गवाह्यल्लिठिकारिका

हल्लेण आयामेणं जहन्नेण अंगुलस्स अस्सखेज्जइनागं उक्कोसेणं तिरियलीगात्तं लीगंतो एवं जाव चउरिं
 दियस्सं । नेरइयस्सणं न्तंते ! मारणातियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाह
 णा पस्सुत्ता ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विस्सकत्तवाहल्लेणं आयामेणं सातिरेगं जहन्नेणं जौयणसहस्सं

रणान्तिकसमुद्घातेन समवहृतस्य तैजस शरीरस्य किं महती शरीरावगाहना प्र० ? गीतम् । शरीरप्रमाणमात्रा विक्रमवाहल्याभ्या, आयामेन
 जघन्यतोगलासस्येयनाग उत्कर्षतस्त्रियग्लोकातिर्यग्लोकान्त । एव यावच्चतुरिन्द्रियस्य । नैरयिकस्य प्रदत्त । मारणातिकसमुद्घातेन समव
 हृतस्य तैजसशरीरस्य किं महती शरीरावगाहना प्रश्नः ? गीतम् । शरीरप्रमाणमात्रा विक्रमवाहल्याभ्याम् । आयामेन जघन्यत सातिरेक

गाहना कही इम भौरिन्द्रियस्ये जायिओ । येरइयस्सण भते मारणतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमं । नारकी हेमगधन् मारणातिक
 समुद्घात समीक्षाने तैजसनी केतलो अयगाहना कही । गोयमा सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खम वाहल्लेण आयामेणं जडक्षेण साहरेग जौयणसहस्स उ०
 अहं जाव अइसत्तमापुठवी तिरिय सयभूरमणेसमहे च्चटत्ताव पडुगवणे पुण्डरुषीओ । हेथीतम यरीरप्रमाणं मात्तवे विस्सारपणे जाडपणे लावपणे

मेतायत्प्रमाणेति चे दुष्यते-इह द्वीन्द्रिया एकैन्द्रियेषूपपद्यन्ते एकैन्द्रियाथ सकललोकव्यापिन स्ततो यदा तिर्यग्लोकस्थितौ द्वीन्द्रिय जड्वेलो
 कान्ते अघोलोकान्ते वा एकैन्द्रियतया समुत्पद्यते तदा प्रवति तस्य मारणात्तिकसमुद्घातसमवहतस्य यथीक्तप्रमाणा तैजसशरीरावगाहना ति
 यंग्लोकग्रहण च्च प्रायस्तेषा तिर्यग्लोकस्थानमिति कृत मन्यथा अघोलोकैकदेशे प्यघोलोकिकग्रामादौ जड्वेलोकैकदेशेपि पण्डकवनादौ द्वीन्द्रि
 य सम्भवन्ति इति तदपेक्षया तिरिकापि तैजसशरीरावगाहना द्रष्टव्या, एव त्रिघतुरिन्द्रियसूत्रेऽपि ज्ञावनीये नैरयिकसूत्रे आयामेन जघन्यतो
 यत्सातिरेक योजनसहस्रमुक्त तदेवं परिज्ञावनीयं इह वलयामुखादय श्वत्वार पातालकलशा लज्जयोजनावगाहयोजनसहस्रवाह्याठिकारिका

हल्लेणं व्यायामेण जहन्तेणं व्यगुलस्स व्यसंखेज्जनागं उक्कोसेणं तिरियलोगात्त लोगतो एवं जाव चउरिं
 दियस्स । नेरइयस्सण जंते ! मारणांतियसमुग्घाणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाह
 णा पयत्ता ? गोयमा ! सरीरप्यमाणमेत्ता विस्सज्जवाहल्लेणं व्यायामेणं जहन्तेणं सातिरेग जोयणसहस्सं

रशान्तिकसमुद्घातेन समवहतस्य तैजस शरीरस्य किं महती शरीरावगाहना प्र० ? गीतम् । शरीरप्रमाणमात्रा विक्रमवाहत्याज्या, आयामेन
 जघन्यतोगलार्सर्वयन्ताग तदकर्षतस्तिर्यग्लोकातिर्यग्लोकान्त । एव यावद्यतुरिन्द्रियस्य । नैरयिकस्य प्रदत्त । मारणातिकसमुद्घातेन समव
 हतस्य तैजसशरीरस्य किं महती शरीरावगाहना प्रज्ञप्ता ? गीतम् । शरीरप्रमाणमात्रा विक्रमवाहत्याज्याम् । आयामेन जघन्यत सातिरेक

गाहना कष्टी इम चौरिन्द्रियस्ये जायिषो । येरइयस्सण भते मारणतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केम० । नारकी हेमगवन् मारणाति
 समुद्घात समोद्घाते तैजसनी केतलो अवगाहना कष्टी । गोयमा सरीरणमाणमेत्ता विस्सन वाहल्लेण व्यायामेण जहन्तेण सातिरेग जोयणसहस्र च०
 अरे जधि मुद्देसत्तमापुटवी तिरिय सबभुरणसमेहे षट्ठ जाव पंडुगवणे पुक्करणीषो । हेगीतम् शरीरप्रमाण मात्राये विस्तारपणे जाडपये जावपये

वर्तन्ते न शोपा स्ततो यदा सूक्ष्मो वादरीया एकेन्द्रियो ऽधोलोकांते सूक्ष्मतया वादरतयावोत्पशु मिच्छति ऊर्धुलोकान्ते वा वर्तमान सूक्ष्मो वादरीया अधोलोकान्ते सूक्ष्मतया वादरतयावोरिपरस्यते तदा तस्य मारणान्तिकसमुद्घातेन समयदृतस्य यथोक्तप्रमाणा तीव्रत शरीरायगाहना प्रवृत्ति, एतेन पृथिव्यपृथिवीकायिकसुद्घातेन तथाहि-सुक्ष्मपृथिवीकायिकेऽधोलोके ऊर्धुलोकं वा वर्तमानो यदा सूक्ष्मपृथिवीकायिकायिकतया वा ऊर्धुलोकं ऽधोलोके वा समुत्पशुमिच्छति तदा प्रवृत्ति तस्य मारणान्तिकसुद्घातेन समयदृतस्योत्कर्षतो लोकान्तात् लोकार्त याव तैजसशरीरावगाहना, एवमप्यायिकादिद्यपि प्राथ । द्वीन्द्रियसुने ष्यायामेन लघयत्यो गुलासख्येयज्ञागप्रमाणो यदा अपर्याप्तोर्द्वीन्द्रियो गुलासख्येयज्ञागप्रमाणोदारिकशरीर स्यप्रत्याशन्नप्रदेशे एकैन्द्रियादितयोरपद्यते तदा वचेया, अथवा यस्मिन् शरीरस्थित सन् मारणान्तिकसमुद्घात करोति तस्मात् शरीरात् मारणान्तिकसमुद्घातवशा द्विनिर्निगततैजसशरीरस्थायामयि कम्बविस्तारे रवगाहना चिन्त्यते न तत् शरीरसहितस्य अन्यथा प्रवचनपत्याटि र्जगत्प्रयोगुलासख्येयज्ञागत्य वक्ष्यते तद्विस्तृत्येन प्रवचनपत्यादि शरीराणा समादिहस्तप्रमाणत्वात्, ततो महाकायोपि द्वीन्द्रियो यदा स्याप्रत्यासन्ने देशे एकेन्द्रियतयोरपद्यते तदाप्यगुलासख्येयज्ञागप्रमाणा द्वे दितव्या उत्कर्षत स्तियलौका लोकात् किमुक्त भवति तिर्यग्लोकादधोलोकान्त ऊर्धुलोकान्तो वा यावता प्रवृत्ति तावत्प्रमाणा इत्ययं, कथ

यमा ! एवचेव जात्र पुढवीञ्चाउतेउवाउवणस्सइकइयस्स । वेइदियस्सणं ज्ञते ! मारणत्तियसमुग्घाएण समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहाडिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा । सरीरप्यमाणमित्ता त्रिरुत्तन्ना इतस्स तैजसशरीरस्स किं मइती शरीरावगाहना प्र० ? गीतम ! एय चेव यावरपृथिव्यप्सेजोवायुवनरपत्तिकायिकस्य । द्वीन्द्रियस्य प्रदत्त । मा

यमा सरीरप्यमाणमेता विक्खम वाइसेण आगामेण जहणेण अंगुलसू त्रसत्तेज्जभाय ए० तिरियलोगते एवं नाय चौरितियस्य । द्वीतम गरीर ना प्रमाणमायावे विस्तारपणे जाणपणे जावपणे जपय्य अगुलनी अयस्य्याततोभाग एरुण्ट तिरखेत्तेक मेरुपर्वतने पाणुअवननादि जपजे एतत्तो अय

विद्यया सामान्यतः सवारिकी अभितिवाशालंकारे मारणात्किमुद्घातेन वक्षमाश्लक्षणेन समवहतस्य सता ॥ केमहालिया इति ॥ किमह
ती किप्रमाणमहत्वा शरीरावगाहना शरीरभीदारिकादिक मप्यस्ति तत आन-तैत्रस' शरीरस्य प्रद्युष्टा ? जगवानाह-गौतम । शरीरप्रमाणमात्रा
विक्रमयाहत्वेन, यिक्रमश्च वातुल्ये च विक्रमवाहुल्य समाहारोद्बद्ध स्तेन विप्रसंन वाहुल्येनचेत्यर्थ , तत्र विक्रम उदरादिविस्तार , वाहल्यमु
र-पट' स्थूलता आयामी दीर्घ्यं तथायामेन जघन्यतोहुलस्यासुरयेपन्नाग चदुलाचयेयनागप्रमाणा इयच मकेन्द्रियस्यैकेन्द्रियेत्यासन्नमुत्याद्यामा
नस द्रष्टव्या , उरकपंतो लोकाताक्षोकात किमुक्त प्रवति-अथोलोकात्तादारय यावदूढंलोकात कर्षुलोकातादारय यावदधोतीकात स्तावदप
माणा इति इयत्सून्मस यादरस एकैन्द्रियस्य वेदितव्या न ज्ञापस्यासम्भवात्, मकेन्द्रियादि सूक्ष्मा यादरा च यथायोग समसंतिपि लोके

मारणतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा पसुत्ता ? सरीरप्यमाणमित्ता
विस्सज्जवाहल्लेण ध्यायामेणं जहणेणं अंगुलस्स अ्सखेज्जहागो उक्कोसिणं लीगताउ लीगते । एगिदिद्य
स्सण जत्ते ! मारणतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स के महालिया सरीरोगाहणा पन्तता ? गो

वाहत्याप्य । आयामेन जघन्यतोहुलस्यासुरयेयो प्राग उरकयंतो लोकान्ताक्षोकात् । एकैन्द्रियस्य प्रदन्त । मारणात्किमुद्घातेन समव

नेगाहणा प० । जीवने हेमगवन् मारणात्किमुद्घाते समोहराने पङ्क्ताने तैजसगरीरानो केतवीमोटी अयगाहना कही । भोगमा सरीरप्यमा
विष्वम्भवाहसेण आयामेणं जहणेण अंगुलस्य अस ७० लीगताथो अंगतोः । हेगौतम शरीरप्रमाण मात्रायै विष्कभादि उपरादि विस्तार वापु
परपरि जादपणे आयाय ते लावपणो जघन्य अंगुलानो असंख्वातमो मात्रायै अयगाहना हुवे तैजसनो एकैन्द्रियायै एकैन्द्रियेन जपजैतिषवेलाये
प्राय उरकटे लोकात्तपर्यन्त कर्षुलोकाथी अधोनीकपर्यन्त सूक्ष्मादर एकैद्रियाथो जाणियो लोकाते हुवे तेमणो । एगिदिद्यस्यं भते मारणतियसमुग्घा
समोहयस सरीरस्य केम० इति हेमगवन् एकैद्रियकीय तेहने मारणात्किमुद्घाते केतवीमोटी शरीरनी अवगाहना कही । गो ।

गोयमा । रयण्यप्यज्ञापुत्रविनेरइयपचिदियतेयगसरीरेवि जाव अरुसप्तसपुडविनेरइयपचिदियतेयगसरीरेवि । अइ रयण्यप्यज्ञापुत्रविनेरइयपचिदि यतेयगसरीरे कि पल्लतगरयण्यप्यज्ञेत्यादि ॥ पचेद्रियतियंगयोनिक्काना मनुय्याणां च यथा प्रागौदारिकशरीरजदे तक साथात्रापि वक्तव्य सचेव तिरिस्वजोषियपंचिदियतेयगसरीरेण कइविदे पत्तसे इत्यादि ॥ देवाना यथा वीक्रियशरीरजद तक साथा जणितय्य , सचेव-पइ देवपचिदिय तेयगसरीरे कि जवणयासिदेवपचिदियतेयगसरीरे इत्यादि ॥ याव स्वर्वायंसिदुदेवसूत्र, उक्तो जेद सम्प्रति सस्थानप्रतिपादनायमा-तयग सरीरेण भते ! कि सठिए पक्तसे इत्यादि ॥ सुगम इह जीवमदेशानुरोचिसेष शरीर ततो पदेव तस्या र योनावीदारिकशरीरानुरोचेन वीक्रिय शरीरानुरोचेन च जीवमदेशाना सस्थान उदेव तेजसशरीरस्यापि इति प्रागुक्तमेकद्वित्रितुरिन्द्रियतयेकपक्षेद्रियमनुय्यगतमौदारिकसस्थान ने रपदेवेषु वीक्रियसस्थानमतिदिष्टमिति, गत सस्थानम् अपुना अथगाहनामानमाह-जीवसस्य गते । इत्यादि ॥ जीवस्य तैरियिकत्वादियिशेषणा

वेडस्त्रियसरीरे । पचिदियतिरिस्वजोषियाण मणुस्साणय जहा एतेसिचेव उरालियति । देवाण भते ! कि सठिए तेयगसरीरे पणत्ते ? गोयमा ! जहा वेडस्त्रियस्स जाव अणुत्तरोववाइयति । जीवस्सणं जत्ते !

प्याथा च यथैतेपा चेवौदारिक इति । देवाना भदत्त । किं सस्थित तेजसशरीर प्र० ? गौतम । यथा वीक्रियस्य यावदनुत्तरोपपातिक इति । जीवस्य भदत्त । नारणान्तिकसमुदातेन समवहतस्य तेजसशरीरस्य कि नहती शरीरावगाहना प्र० ? गौतम । शरीरप्रमाणमात्रा विकत्त नारकी हेमगवन् तेजसगरोर किसे संस्थाने सस्थितत्वे । गोयमा जहा वेडस्त्रियसरीरे पचिदिय तिरिस्वजाषिया मणुस्साण जहा यतेसिचेव उरालिय । हेगौतम निम वैक्रियगरोराना कक्षां तिम कइवो पचेद्रिय तियेषयोनिगाने मनुय्यने निम औदारिकशरीरनी पाठकक्षां पचेतिम कइवो । देवाण भते तेयगसरीरे कि सठिए प० । देवताने हेमगवन् तेजसगरोर किसे संस्थाने सस्थितत्वे । गोयमा जहा वेडस्त्रियस्य जाव अणुत्तरोववाइयति । हेगौतम निम वैक्रियगरीरने पलावैकक्षां तिम जोषिवो यावत् स्वर्वायंसिदुसणे । जीवस्य भते नारणतियसमुवाएण समोदयस्य तेयगसरीरस्य केमहाजियास

परशसप्तम्या जघाविज्जाहिचारणामुण्डे । जघाहिजाइपढमो नीसंकाउरीविकरेवि ॥ १ ॥ एगुप्याएणउ रुयगवरमिउतलेपक्रिनियतो । विइएण
 नदिरसर मिइतवएइतइएण ॥ २ ॥ पढमेणपठगवणं विइउप्याएणनदणइ । तइउप्याएणतले इदजघाधारणएड ॥ ३ ॥ पढमेणमाणुसोत्तर नग
 सनदिरसरतुविइएण । एइतउतइएण कइइइइवदणोइइय ॥ ४ ॥ पढमेणनदणवणं विइउप्याएणपठगवण । एइइइइतइइएण जोविज्जाधारणोहोइ
 ॥ ५ ॥ तथा स्वविदुमत्रादिकमोपय यस्य स सर्वोपय किमुक्त जवति यस्य मूत्र विट् श्लेसा शरीरमलोवारी गोपशमसमर्थो जवति सब सर्वोपय ,
 आदिशदादामर्षोपप्यादिलाध्यपरिग्रह एताश्च सिद्धी रप्रमत्त सन् प्राप्य पथात्प्रमत्तो जवति तेनैवै प्रयोजन , तत्र उक्त इटहि पनहापमतस
 मयइत्यादि ॥ आह मनुष्यस्याहारशरीरमित्युक्ते सामर्थ्या दमनुष्यस्य नाहारकशरीरमित्यवस्यते तत कस्मा दुष्यते-नो अमणुसहारगसरिरे इ
 त्यादि ॥ निरयकत्वा दुष्यते इहत्रिविधा विनेया सद्यथा-उद्धटितज्ञा मध्यमदुष्टय प्रपचितज्ञाश्च तत्रये उद्धटितज्ञा मध्यमदुष्टयो वा ये पुनर

द्याप्यव्यसन्नत्वात् न यथोक्तसामर्थ्यावगमकुशला स्ते प्रपचितमेवावगन्तुमीज्ञाते नात्यथा तत स्तोपा मनुगृहाय सामर्थ्यलब्धस्यापि विपन्नविषेय
 स्यान्नियान मरीयासोहि परमकठणापरीतत्वाविशेषेण सर्वेषा मनुगृहाय प्रवृत्तं नते ततो न कश्चिदोष ॥ अहनेण देसूणा रयणी इति ॥ आहारक
 शरीरस्य जपत्यतीवगाहना देशीना किंचिदूना रक्ति हंस्त तथाविधप्रयत्नवावृत्तत्वात्परमात्मसंयमि तस्या एतावत्याएव प्राधात्, तदेव मुक्तान्याहार
 कशरीरस्य विषिसस्यानावाहनामानानि सम्यति तैकसस्य तान्यात्रोचितपुराह-संयमशरीरेण प्रते । इत्यादि ॥ इदं तेजसशरीर संवेयामवस्य न
 वति ततो मया एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियगति औदारिक शरीरजेदोपि वक्तव्य पचेन्द्रियतैकसशरीरौचिताया चतुर्विधपचेन्द्रियतैकसशरीर नैरधिक
 तियंफुननुपदेवनेंटात्, तत्र नैरधिकतेजसशरीरचित्ताया यथा प्राक् वैक्रियशरीरे पर्याप्तार्थोसंविपयतया द्विगते अंद उक्त तथात्रापि वक्तव्य
 चसैवं-अपुनैरइयपचिन्दिनयतेपुगसरीरे कि-रयणप्यन्नापुढविनेरुयपचिदियतेयगवरिरे नाव कि अहंससमाए पुढविनेरइयपचिदियतेयगसरीरे ॥

त्यातेन मानुषोत्तरं पयंत गच्छति द्वितीयेनतु नर्दश्वर प्रतिनिवर्त्तमान स्वेकैर्बोत्यातेन स्वस्थानमायातीति, तथा सर्व उर्लुगच्छन् प्रथमेनो
त्यातेन वन गच्छति द्वितीयोत्पातेन परककवनप्रति निवर्त्तमानस्वेकैर्बोत्यातेन स्वस्थानमायातीति, विद्याचारणे विद्यावशतो प्रवर्त्तति वि
द्या परिशील्पमाना स्फुटास्तुटवरोपजायते अत प्रतिनियर्त्तमानस्य शस्त्रतिशयसम्भवा देकेनोत्पातेन स्वस्थानागमनमिति, उक्तव्य-अइस्य

सद्यःसिद्धगदेवति। तेयगसरीरेण जते ! किं सठिण पयस्ते ? गीयमा ! णाणासठाणसठिण पयस्ते । एगि-
दियतेयगसरीरेण जते ! किं सठिण पयस्ते ? गीयमा ! नाणासठिण पयस्ते । पुढविक्काड्यएगिदियतेयगस
रीरेण जते ! किं सठिण पयस्ते ? गीयमा ! मसूराचदसठाणसठिण पयस्ते । एव उरालियसठाणाणुसारेण
जाणियहं जाव चउरिदियाण । जेरइएण जते ! तेयगसरीरे किं सठाणसठिण पयस्ते ? गीयमा ! जहा

गीतम । नानासत्यासत्स्थित मज्झमम् । एकंन्द्रियतेजसशरीर जदन्त । किं सत्थित म० ? गीतम । नानासत्यानसत्स्थित म० । पृथिवीकायि
कैकेन्द्रियतेजसशरीर जदन्त । किं सत्थित म० ? गीतम । मसूरवन्द्रसत्यानसत्स्थित मज्झमम् । एवमौदारिकसत्यानानुसारेण ज्ञप्पितव्य या
यसत्तुरिन्द्रियाणाम् । नैरियिक जदन्त । तेजसशरीर किं सत्यानसत्स्थित म० ? गीतम । यथा वैक्लियशरीर । पचेन्द्रियतिर्यग्योनिकाना मनु
रेण भते किं सठिण प० । इवे तेजसशरीरानो इभगवन् खो सत्यानसद्यो । गीयमा षाणसठाणसठिण । इगीतम नानाप्रकारने सत्याने सत्थितहे । ए
गिदिय तेयगसरीरेण भते किं सठिण पयस्ते । एकैद्रियनो इभगवन् तेजसशरीर किंचे सत्याने सत्थित । गीयमा षाणासठाणसठिण प० । इगीतम ना
नाप्रकारना सत्यान सत्थितहे । पुढवीकाइय गिदिय तेयगसरीरेण भते किं सठिण प० । पृथिवीकाय एकैद्रियनो इभगवन् तेजसशरीर किंचे सत्याने
सत्थितहे । गीयमा मसूरचदसठाण सठिण एव ओरानिवसठाणाणुसारेण भा० जाव चउरिदियाणवि । इगीतम मसूरनोटाज जयथा अरेचद्राकार
सत्याने सत्थितहे इम एवं पृठिवीपरे ओदारिकशरीरना सत्यानोपरे जाणियथा वाबन् ओरिद्रियज्जने । एरियाण भते तेयगसरीरेण किं सठिण प० ।

प्राप्ता प्रगवता गच्छता तैर्हि सत्यादादिपदत्रयसवर्षायै सकलसपि द्वादशागत्मकप्रवचन मन्त्रिसूत्रयति, तथा चारणात्र वैक्रियच सर्वोपधीयद्वा
 वद्य चारणवैक्रियसर्वोपचिता तत्र चरण गमन तादृश्यते येषां ते चारणा (ज्योत्स्नादिभ्योऽण् इति नत्वथोषो ऽण्प्रत्यय) तत्र गमनमन्येषामपि
 मुनीनां विद्यते ततो विशेषणान्यथानुपपत्त्या चरणमिह विशिष्ट गमनमन्त्रिशब्दे, अतएव चातिशायिने मन्वर्थोपो यथारूपवती कन्येत्यत्र ततो
 यमर्थं अतिशोषिचरणसमर्थो चारणा " आह्वयनायकृत्-स्वकृते प्राण्यटीकायां-अतिशयघरणाचारणा अतिशयगमनादित्यर्थः " तेष द्विधा जघा
 चारणा विद्याचारणा च तत्र ये चारित्रतपोविशेषप्रभावत समुद्रुतगमनविषयलाब्धिविशेषा स्ते जह्वाचारणा ये पुनर्विद्यावशात् समुत्पन्नानमन
 लक्ष्यतिशया स्ते विद्याचारणा, जह्वाचारणाश्च रुचकवरद्वीप याव द्रन्तु समर्थाः विद्याचारणा नदीद्वारता जह्वाचारणा यत्र कुत्रापि गतुमिच्छव
 स्तत्र रुचिकरानपि निश्चीकृत्य गच्छति विद्याचारणास्त्वेवमेव जह्वाचारणाश्च रुचकवरद्वीप गच्छन् एकैर्नैवोत्पातेन गच्छति प्रतिनिवर्त्तमान स्त्वेक
 नोत्पातेन नन्दीद्वारमायाति द्वितीयेन स्वस्थान, यदि पुनर्नैरुचिश्चर जिनमिषु स्तार्हे प्रथमैर्नैवोत्पातेन परलक्ष्यनमन्निरोदति प्रतिनिवर्त्तमानस्तु
 प्रथमैर्नोत्पातेन नदनवनमागच्छति द्वितीयेन स्वस्थानमिति, जह्वाचारणोर् चारित्रातिशयप्रभावतो प्रथति । ततो लक्ष्युपजीवने श्रीत्सुष्यशा
 वत प्रमादसंप्रवा चारित्रातिशयनिबन्धना लाब्धि परिशीमते तत प्रतिनिवर्त्तने द्वाभ्यामुत्पाताभ्या स्वन्नृवममायाति विद्यापारण पुन प्रथमैर्नो

लियसरीरे जेदो जणिउं तथा ज्ञाणियछो । देवाणं जहा वेउछियसरीरे जेदो जणिउं तथा ज्ञाणियछो जाव

णित्तम् । देवाना मया वैक्रियसरीरे जेदो जणितस्तथा जणितस्तथा जणितस्तथा जणितस्तथा । किं सस्थित प्रज्ञप्तम् ?
 पचिदियं तिरिस्वजोपियाण मणुष्साण जहा चरानियसरीरे भेदो भणियो तथा भाणियळो । जिम वैक्रियसरीरेने पूळा तिम पचिदियं तियं चयो निया
 ने मउधने प्रलावे भिम श्रीदारिकसरीरेना भेद पूव कक्षा तिमहीज सवं कदिवा । देवाणं जहा वेउचियसरीरे भेदो भणियो तथा भाणियळो । दे
 यताने प्रलावे जिम वैक्रियसरीरेना दीयभेद कक्षा तिम इहा पिण कदिवा । जाव सण्णसिण्ण देवेत्ति । यावत् सर्वांसिण्ण देवतां लगे । तेयगसरी

प्राप्तमवचने प्रतीतपाद्यते तद्यथा-कोष्टबुद्धिपदानुसारिबुद्धिबोधवृत्तिश्च, तत्र कोष्टइव धान्ये या बुद्धि राचायुर्मुखा द्विनिर्गती तदवस्थानी च मू
त्रार्थो पारयति नाकिमपि तयो कालान्तरेण यत्नति सा कोष्टबुद्धिः, या पुनरेकमपि क्षुत्पदमवधार्य क्षुत्पदमवधार्य क्षुत्पदमवधार्य क्षुत्पदमवधार्य
ते सा पदानुसारिणी, या पुनरेकमवधार्य तद्यावधिपमनुसृत्य क्षुत्पदमवधार्य यथावास्थित प्रभूतमथयवगाहते सा बौद्धि, सा च सर्वोत्तमप्रकार्य

टीका

पचविहे पश्यते, तजहा-पुठविकाइयगुगिदियतेयगसरीरे जात्र वणस्सइकाइयगुगिदियतेयगसरीरे । एवं
जहा उरालियसरीस्स जेउ ज्ञाणिउ तथा तेयगस्सवि जाव चउरिदिद्याण । पंचिदियतेयगसरीरेण ज्ञते !
कतिविहे पश्यते ? गोयमा ! चउविहे पन्तत्ते, तजहा-जेरइयतेयगसरीरे जाव देवतेयगसरीरे । जेरइ
याण दुगती जेदी ज्ञाणियच्छी जहा वेउखियसरीरे । पचिदियतिरिक्कजोणियाण मणुस्साणय जहा जुरा

सू

धीक्कायिकेन्द्रियतेजसशरीर यावद्वहसपतिकायिकेन्द्रियतेजसशरीर । सद्य यथीदारिकशरीरस्य जेदी ज्ञितित्तया तेजसस्यापि यावद्वह
रिन्द्रियाणाम् । पचेन्द्रियतेजसशरीर जदन्त । कतिविध प्रवृत्तम् ? गीतम् । चतुर्विध प्रवृत्तम् तद्यथा-नैरियकतेजसशरीर यावद्वेगतजसशरी
र । नैरियकाणा द्विको जेदी ज्ञितित्तयो यथा वीरुयशरीर । पचेन्द्रियतियंयोगोत्तिकाणा मनुष्याणा च यथीदारिकशरीरे जेद उक्तस्तथा ज
एकेन्द्रिय तेजसशरीरना जेमभवन् केतलाभद कक्षा । गोयमा पचविहा त० । जेगीतम पाचेभेदे कक्षा । पुठभोकाइय जाव वणस्सइकाइयसरीरे एव ज
हा भोरावियसरीरख भेदो भणियो तथा तेजसशरीरखवि भाणियब्बो । ते इथिवीकाय तेजसशरीर यावत् वनस्यतोकाय एकेन्द्रिय तेजसशरीर इग स
वं निम पूरे चोदारिकशरीरनी वक्तव्यता कश्ची तिमहीज तेजसशरीरनी कडवो । जाव चौरिदिद्याण पचिदिय तेयगसरीरेण भते कडविहे प० । या
वत् चौरिदियमाननी पचेन्द्रिय तेजसशरीरना जेमभवन् केतलाभेद कक्षा । गोयमा पचविहा त० । जेगीतम चारभेद-कक्षा । जेरइय तेजसशरीरे जाव
देवतेयगशरीर जेरइयाण दुगत्र, भेदो भाणियब्बो । नारकी तेजसशरीर यावत् देवता तेजसशरीर नारकोने द्वायसेद क्खिवा । ज । उठवियसरीरे

॥ ५० ॥

॥ ११५ ॥

प्राप्ता प्रगवतां गणनृता-तेरि त्त्यादादिपदत्रयमवधायै सकलमपि ह्यादशागाल्मकप्रयथन मन्त्रसूत्रयात, तथा चारणाद्य वक्तव्यच स्वापथायङ्ग
 वद्य चारणवैक्रियसर्वापचिता तत्र चरण गमन तद्विद्यते येषा ते चारणा (ज्योत्स्नादिभ्योऽण् इति मत्वर्थीयो ऽण्प्रत्यय) तत्र गमनमन्येयामपि
 मुनीना विद्यते ततो विशेषेणान्यथानुपपत्त्या चरणमिह विशिष्ट गमनमन्त्रिशृङ्खले, अतएव चातिशायिने मन्वर्थीयो यथारूपधती कन्येत्यत्र ततो
 यमर्थ अतिशायिचरणसमर्थो धारणा " आह्वचन्यायकृत्-स्वरुते नाप्यटीकाया-अतिशयचरणाधारणा अतिशयगमनादित्यर्थ. " तेष द्विधा जघा
 चारणा विद्याधारणा च तत्र ये धारित्रतयोविशेषप्रजावत समुद्रुतगमनविषयलाब्धिविशेषा स्ते जह्वाधारणा ये पुनर्विद्यावज्ञात समुत्पन्नामन
 लक्ष्यतिशया स्ते विद्याधारणा , जह्वाधारणाद्य रुचकवरहूपि याव द्रुन्तु समर्थाः विद्याधारणा नदीद्यर तत्र जह्वाधारणा यत्र जुत्रापि गतुमिच्छव
 स्त रविकरानपि निश्रीकृत्य गच्छति विद्याधारणारत्वेभवेव जह्वाधारणाद्य रुचकवरहूपि गच्छन् एकैर्नैवोत्पातेन गच्छति प्रतिनिवर्तमान स्वैक
 नोत्पातेन नन्दीद्यरमायाति द्वितीयेन स्वस्थान , यदि पुनर्नैरुक्षिसर क्षिगमिषु स्तार्दं प्रथमैर्नैवोत्पातेन परककवनमन्त्रिरोहति प्रतिनिवर्तमानस्तु
 प्रथमैर्नोत्पातेन नदनवनमागच्छति द्वितीयेन स्वस्थानमिति , जह्वाधारणोहि धारित्रातिशयप्रजावतो जयति । ततो लक्ष्यपुर्णवने श्रीरुत्पलशा
 वत प्रमादसंज्ञवा धारित्रातिशयनियन्तना लब्धि परिहीयते तत प्रतिनिवर्तने ह्याभ्यामुत्पाताभ्या स्वभ्रुवममायाति विद्याधारण पुन प्रथमैर्नो

लियसरीरे जेदी जणिउ तहा ज्ञाणियछो । देवाणं जहा वेउच्चियसरीरे जेदो जणिउ तहा ज्ञाणियछो जाव-

णित्य । देवाना यथा वैक्रियसरीरे जेदो जणितस्तथा ज्ञाणित्यो यावत्सर्वायंसिद्धुदेव इति । वैजससरीरे प्रदत्त । कि सस्थितं प्रजसम् ?

पचिदय तिरिखलीणियार्थं मनुष्माणं जहा धराच्चियसरीरे भेदो भविषो तहा भाणियच्चो । जिम वैक्रियसरीरेने पूछा तिम पपेद्रिय तियेचयोनिया
 ने मनुषने ज्ञावै जिम श्रीडारिकसरीरेना भेदं पूवै कथा तिमहीज सवं कहिवा । देवाणं जहा-वेउच्चियसरीरे भेदो भविषो तहा भाणियच्चो । दे
 वताने ज्ञावै जिम वैक्रियसरीरेना दोयभेद कथा तिम इहा विष कहिवा । लाव सस्युसिद्धु देवति । यावत् सर्वात्रसिधना देवता जेगी । तेयगसरी

मायया स्तेषां मत्ततीययोगसम्बन्धान्, इए जितकल्पिकादयो लोड्य नीपजीवति तेषां तथाकल्पत्वात्, येषिष गच्छन्नासिन आहारकक्षरीर कुर्वन्ति तपि तदानीं लघुपक्षीवर्गेनीत्सुस्वभावतः प्रमादवतो मोचनेपिष प्रमादवत आत्मप्रदेशानामोदारिकक्षरीर सर्वात्मनोपसंहरणेन व्याकुली प्रावात्, आहारकक्षरीरैरालम्बुत्तावस्थान ततो यद्यपि मध्यनागे कियत्काल मत्तु विद्युच्चिजावत कार्मन्त्रिन्विकी रममत्तोपवण्यते तथापि मत्तु लघुपक्षीधनेन प्रमत्तवत्य प्रमत्तस्य नो प्रमत्तस्यवत्स इत्यादिना प्रतिपेच कृत ॥ इदं पक्षि ॥ गृहीरामर्थोपध्यादिलक्षण प्राप्त कृतिप्राप्त एत द्विपरीतो रिटिमास कश्चिद्द माप्नोति प्रथमतो विशिष्टमुत्तरोत्तरमूर्ध्वप्रतिपादक युतमवगापमान युतसामर्थ्यत स्त्रीवर्तीत्रतरजुभ्रज्जावना म

पञ्ज० सखे० कम्म० गज्ज० मणुस्सव्याहारगसरिरे ? गीयमा ! पमत्तस० सम्म० प० स० क० गज्ज० मणु० नो अ्पमत्तसजयसम्मदिठिपज्जत्तसखेजा० कम्मन्नुमिगज्ज० मणुस्सव्याहारगसरिरे । जड पमत्तस० सम्मदि० पज्जत्तसखेजा० कम्म० गज्ज० मणुस्सव्याहार० किं इहीपत्तपमत्तसंजयसम्म० पज्जत्तसखेजा० कम्म० गज्ज० मणुस्सव्याहा० अ्पिणीहीपत्तपमत्तसं सम्मदिठीपज्जत्तसखे० कम्म० गज्ज० मणु० ? गीयमा ! इहीपत्तपमत्त

कम्मन्नुमिगन्नेत्थुत्कान्तिकमनुष्याहारकक्षरीर ? गीतम । प्रमत्तसपत्तसम्पदृष्टिपर्याप्तसस्येगवर्षोपु कर्मभूमिगन्नेत्थुत्कान्तिकमनुष्याहारकक्षरीर नो अप्रमत्तसपत्तसस्य (प्रच्यति) यावच्छरीर । यदि प्रमत्तसपत्तस० प० स० क० ग० म० आहारकक्षरीर किमांद्दंप्राप्तप्रमत्तसयत (प्रच्यति) यावच्छरीर ? गीतम । ऋटिप्राप्तप्रमत्तसयत (प्रच्यति) यावच्छरीर नो छनांद्दंप्राप्तप्रमत्तसयत (प्रच्यति) यावच्छरीर । आहारकक्षरीर जद

प्राप्त प्रमादासयतने यावत् आहारकक्षरीरये के च ऋटि मात प्रमादीसयतने यावत् आहारकक्षरीरये । गीयमा इच्छुटिपत्त पमत्तसयत सम्म० सं० क० य० म० आहा० यो अ्पिण्डुटिपत्तसयत सम्म० सं० ग० म० आहा० । ऐगोतम ऋटिप्राप्त प्रमादीसयतने यावत् आहारकक्षरीरैरपिष च ऋटिप्राप्त प्रमादीने यावत् आहारकक्षरीर नही । आहारगसरोरेण भूते किं यदिए प० । द्विरे आहारकक्षरीर हेमगवन् किचे सत्याने एस्तिपत्तै । गीयमा सम

विपरीतप्रसन्न-यन् उक्तञ्च-अवगाएतेष्वश्रुत जलाधिप्राप्तोतिषावचिञ्चान मनस पर्याय वा ज्ञानं कोषाद्विदुही वो ॥ १॥ चारण्वीक्रियसर्वापधाया
 वा लब्धय स्तस्य प्रादुर्भवति गुरुतो बलानिवा मानसादीनि अत्र य इत्यप्रसन्नस्यत , मानस पर्यायमिति मानसा मनस संवाधिन पर्याया वि
 प्रमा यस्य तन्मानसपर्याय मन-पर्यायज्ञानमित्यर्थ , कोषाद्विदुहीवो इत्यत्रापिवाब्दात् पदानुसारिबीजपरिग्रह , तिलोहि वृद्धय परमातिशयक

सजयस० पञ्ज० स० क० ग० व्या० णो अग्निहोपत्तपमत्तसंजयसम्प्र० पञ्जतसखेज्ज० कम्मन्नूभिगम्प्रम
 णुस्सञ्चाहारग० । आहारगसरीरेणं जत्ते ! किं सठिण्ण पत्तत्ते ? गोयमा ! समचउरससंठाणसंठिण्ण पत्तत्ते
 आहारगसरीस्सणं जत्ते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! जहन्तेण देसूणा रयणी उक्को
 सेण पन्निषुखा रयणी । तेयगसरीरेण जत्ते ! कइविहे पत्तत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पत्तत्ते , तंजहा--एणि
 दियतेयगसरीरे जाव पचिदियतेयगसरीरे । एणिदियतेयगसरीरेणं जत्ते ! कइविहे पत्तत्ते ? गोयमा !

त्त । किं सस्थित प्रज्ञप्तम् ? गौतम । समधतुरस्रसस्थानसस्थित प्रज्ञप्तम् । आहारकसरीरस्य प्रदत्त । किं सती शरीरावगाहना प्रज्ञप्ता ?
 गौतम । जपत्येन देवीना रत्नि , वस्त्रपत-प्रतिपूषां रत्नि । तैलसशरीर प्रदत्त । कतिविधं प्रज्ञप्तम् तद्यथा-
 एकैन्द्रियतैलसशरीर यावत्पञ्चेन्द्रियतैलसशरीर । एकैन्द्रियतैलसशरीर प्रदत्त । कतिविधं प्रज्ञप्तं ? गौतम । पचविधं प्रज्ञप्तम् तद्यथा-पृथि

चत्तसंठाणसंठिण्ण प० । इंगौतम समधौरयस्थाने सस्थितत्वे । आहारगसरीरस्य भते केमहालिया सरीरोगाहणा प० । द्विवे इभगवन् आहारक
 यरीरतो इभगवन् केतली मोटी अवगाहना कइी। गोयमा लक्षणेण देसूणा रयणी उक्कोसेण पच्छियुणा रयणी तेयगसरीरेण भते कइविहे प० । इंगौतम
 जवत्त कारक जपो एकहाथ चरकछे पुरीहाय द्विवे तैलसशरीरता इभगवन् केतताभेदं कइता । गोयमा पचविहे त० । इंगौतम पांचमेदं ते कइता ।
 एमिदिय तेयगसरीरे जाव पचिदियतेयगसरीरे । एकैन्द्रिय तैलसशरीर यावत् पंचेन्द्रिय तैलसशरीर । एमिदिय तेयगसरीरेण भते कइविहे प० ।

सरीरे कि सम्मामिच्छादिष्ठिसंखेज्ज० कम्मञ्चूमिगंझमणुस्साहारगसरीरे ? गोयमा ! सम्मदिठिपज्जत्तसंखेज्ज
 वासाउयकम्मञ्चूमिगगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे णो मिच्छादिठिपज्जत्तसंखेज्ज० गंझमणुस्सत्थ्याहारग
 सरीरे नो सम्मामिच्छादिठिस० कम्म० गंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे । जादि सम्मदिठिपज्जत्तसंखेज्ज० कम्मञ्चू
 मिगगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे कि सजतसम्मदिठिपज्जत्तस० कम्मगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे झ्यसजयसम्मा
 दिठिपज्जत्तस० कम्मगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे सजयासजयसम्मदिठिपज्जत्तस० कम्मगंझमणुस्सत्थ्याहारग

यांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे स्याद्विच्छादिष्ठिपयांसरयेयवर्षायुःकम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे
 र ? गोतम ! सम्यग्दृष्टिपयांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे नो मिच्छादिष्ठिपयांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगं
 त्थ्याहारगसरीरे नो सम्मामिच्छादिष्ठिपयांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे । यदि सम्यग्दृष्टिपयांसर
 येयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे कि सपतसम्यग्दृष्टिपयांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे
 सपतसम्यग्दृष्टिपयांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारगसरीरे सयतासपतसम्यग्दृष्टिपयांसरयेयवर्षायुं कम्मञ्चूमिगंझमणुस्सत्थ्याहारग

सरीरे नो मिच्छादिष्ठो पज्जत्तसखिज्ज जाव सरीरे नो स्यामिच्छादिष्ठो पज्जत्त सखिज्ज जाव सरीरे । हेभोतम सम्यग्दृष्टिने यावत् या
 हारजगरीरे इवे पिण मिच्छादिष्ठिने यावत् आहारक नही सम्यग्दृष्टिने पिण यावत् आहारक नही । एत सम्मदिष्ठो पज्जत्त सखिज्ज जाव स
 रीरे तद् कि सजय सम्मदिष्ठो पज्जत्त सखिज्ज जाव सरीरे असजय सम्मदिष्ठो पज्जत्त सखिज्ज जाव सरीरे संजगत्तज स्यादिष्ठो पज्जत्त सखिज्ज जाव
 सरीरे । जो हेभगवन् सम्यग्दृष्टिने यावत् आहारकगरीरे तेषू सत सम्यग्दृष्टिने यावत् आहारकगरीरे तेषू सत सम्यग्दृष्टिने यावत् आहार
 रवगरीरे तेषू के ययतासयत सम्यग्दृष्टिने यावत् आहारकगरीरे तेषू । गोयमा चंजयसम्मदिष्ठो पज्जत्त सखिज्ज जाव सरीरे नो प्रसन्नय सम्मदिष्ठो जाय

सत्तति ॥ प्रमाद्यत्तिस्म नोहनीयादिकर्मादियप्रज्ञावत संखलनकषायनिद्राद्यन्वतमेप्रमादयोगत सधमयोगेषु सोढतेस्म मनता (पूववरकृत्तरिक्त प्रत्यय) तैच प्रायो गच्छवास्मिन तेषा क्वचिदनुपयोगसम्भवात्, तद्विपरीता अप्रमत्ता स्तेच प्रायो जिनकल्पपरिहारविशुद्धिष्यदालदकल्पिकाप्रति

सरिरे ? गोयमा ! सजतसम्मादिठिपज्जत्तसंखेज्ज ० कम्मगप्पमणुस्सञ्चाहारगसरिरे नो ध्यंसंजतसम्मादिठिप
 ज्जत्तसंखेज्ज ० कम्म ० गप्पमणुस्सञ्चाहारगसरिरे णो सजयासजयसम्मादिठिपज्जत्तसंखेज्जत्तसंखेज्जत्तसाउयकम्मञ्चूमि
 गप्पमणुस्सञ्चाहारगसरिरे । जदि संजतसम्मादिठिपज्जत्तसंखेज्जत्तसाउयकम्मञ्चूमिगप्पवक्खंति यमणुस्सञ्चाहा
 रगसरिरे कि पमतसजयसम्मादिठिपज्जत्तसंखेज्ज ० कम्मञ्चूमिगप्पमणुस्सञ्चाहारगसरिरे ध्यपमतसजयसम्म ०

ल्लिकमनुप्याहारकञ्चरीर ? गौतम । सयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तसस्येयवर्षाणु कर्मञ्चूमिजगमंभ्युदक्कान्तिकमनुप्याहारकञ्चरीर नो अस्यतसस्य ० पर्या
 शसस्येयवर्षाणु कर्मञ्चूमिजगमंभ्युदक्कान्तिकमनुप्याहारकञ्चरीर नो ययतासयत (प्रवृत्ति) यावच्छरीरम् । यदि सयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्त (प्रवृत्ति)
 यावच्छरीर कि प्रमतसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तसस्येयवर्षाणु कर्मञ्चूमिजगमंभ्युदक्कान्तिकमनुप्याहारकञ्चरीरमप्रमतसयतसम्यग्दृष्टिपर्याप्तसस्येयवर्षाणुः

सरिरे नो संजयासजय सम्मादिठो जाव सरिरे । हेगौतम सयत सम्यग्दृष्टिं यावत् आहारकके पिय अस्यतीते यावत् आहारक नही संयतासयतीने
 पिय यावत् आहारक नही । जइ सजय सम्मादिठो स ० क ० ग ० मणुस्साहारगसरिरे तइ कि पमतसजय सय ० स ० क ० मणुस्साहार प्रपमतसज
 य सम्म स ० क, ग, म, आदा । लो सयत सम्यग्दृष्टिं यावत् शरीरके तां स्म सयतने यावत् आहारकयरीरके अप्रमादोसयतने यावत् आहारक
 यरीरके । गोयमा पमतसजय सम्मादिठो यज्जत्ते संखिल जाव सरिरे नो अपमतसयत सम्मादिठो सखिज्ज जाव सरिरे । हेगौतम प्रमादोसयतने या
 वत् आहारकयरीरके पिय अप्रमादोसयतने यावत् आहारकयरीरके । जइ पमतसजयत सय ० स ० क ० ग ० म ० आदा ० तइ कि इडिठिपत्त पमतसयत
 सय ० स ० क ० ग ० म ० आदा ० अरिडुठपत्त पमतसयत सय ० स ० क ० ग ० म ० आदा ० । लो प्रमादोसयतने यावत् आहारकयरीरके तोस्म च्छि

ति ययता "गस्यं नित्याकर्मकायितिकर्तृकप्रत्यय" सकलधारित्रिण अक्षयता आविरतिसप्यादृष्टय, ययता २ देशथिरतिमत तथा ॥ ५

वक्त्रतियमणुस्सश्चाहारगसरीरे । जड गझवक्त्रतियमणुस्सश्चाहारगसरीरे कि कम्मञ्चूमिगगण्वक्त्रतियञ्चाहारगसरीरे अकम्मञ्चूमिगगण्वक्त्रतियञ्चाहारगसरीरे अतरदीवगगण्वक्त्रतियमणुस्सश्चाहारगसरीरे ? गो यमा । कम्मञ्चूमिगगण्वक्त्रतियमणुस्सहारगसरीरे नो अस्मिन्नुमि० णो अतरदीवगगण्वक्त्रतियमणुस्सहारगसरीरे । जडि कम्मञ्चूमिगगण्वक्त्रतियमणुस्सहारगसरीरे कि सखिजवासाउयकम्मञ्चूमिगगण्वक्त्रतियमणुस्सहारगसरीरे अस्मिन्नुमि० अहारगसरीरे ? गोयमा । सखिजवासाउयकम्मञ्चूमिगगण्वक्त्रतियमणु

शरीरे । यदि गर्भव्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे कि कम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे मकम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे अतरदीवगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे ? गोतम । कम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे नो अकम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे ना अतरदीवगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे । यदि कम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे कि सख्येयवपायु कम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकशरीरे मसख्येयवपायु कम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकमनुष्याहारकशरीरे ? गोतस । सख्येयवपायु कम्मञ्चूमिगण्व्युत्क्रांतिकशरीरे नो अ

जो अभवमनुष्येने आहारकशरीरे हुवे ता ख् कर्मना गभज मनुष्येने आहारकशरीरे हुवे अकम्मभूमिना मनुष्य कि अस्तरहोपना गर्भवमनुष्येने आहारकशरीरे हुवे । गोयमा कम्मभूमिग ग० म० आहा० । हेभौतम कम्मभूमिना मनुष्य यावत् आहारक हुवे । षो अकम्मभूमिग ग० नो अतर० ग म० आहा० । पिण अकम्मभूमिना मनुष्यनो यावत् आहारक नही अस्तरहोपना मनष्येने पिण आहारक नही । जइ कम्मभूमिग ग० म० आहा० तर ति सखिजवासाउय कम्म० ग० म० आहा० । जो कम्मभूमिना मनुष्येने आहारकशरीरेके तो व्यू सख्यातायुवनोके यसख्यातायुवनो आहारकहे । गोय ना सखिजवासाउय कम्म० ग० म० आहा० । हेभौतम सख्यातावपायुपने यावत् आहारक शरीरेके पिण । षो असपत्नवासाउय कम्म० ग० म० आहा० ।

स्साहारगसरीरे नो व्यसखेज्जावासाउयकम्मन्नुमिगं० मणुस्साहाहारगसरीरे । यदि सखिज्जावासाउयकम्मन्नुमिं
 मणुस्साहाहारगसरीरे कि पज्जत्तसखेज्जावासाउयकम्मन्नुमिगणुस्साहाहारगसरीरे व्यपज्जत्तसखेज्जावासाउयक
 म्मन्नुमिगणुस्साहाहारगसरीरे ? गोयमा । पज्जत्तसखेज्जावासाउयकम्मन्नुमिगणुस्साहाहारगसरीरे
 णो व्यपज्जत्तगसखिज्जावासाउयकम्मन्नुमिगणुस्साहाहारगसरीरे । जदि पज्जत्तसखेज्जा० गणुमणुस्साहारग
 सरीरे कि सम्मटिठीपज्जत्तगसखे० कम्मन्नुमिगणुस्साहाहारगसरीरे मिच्छदिठीस० कम्मगणुमणुस्साहारग

सखेपजपायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे । यदि सखेयवपायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे कि पर्याप्तसखेयव
 पायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे सखेयवपायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे ? गीतम । पर्याप्तसखेयव
 पायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे नोअपपायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे । यदि पर्याप्तसखेयव
 पायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे कि सम्यग्दृष्टिपर्याप्तसखेयवपायुं उमंनुमिगणुस्साहाहारगसरीरे मिथ्यादृष्टि

असव्यातावपायुपने यावत् आहारकयरीरे नही । जइ सखेज्जावासाउय कम्मं गं० मं० पा० । जो इभगवन् सख्यातायुपने यावत् आहारकयरीरेरुहि ।
 तइ कि पज्जत्तसखेज्जावासाउय कं जाव सरीरे । तो स्यू पर्याप्ताने यावत् आहारक यरीरेरुहि कि अपर्याप्ता
 यावत् आहारकयरीरेरुहि । गोयमा पज्जत्त सखेज्जावासाउय कं जाव आहारगसरीरे नो अपज्जत्त सखेज्जावासाउय जाव सरीरे । हेगौतन पर्याप्ताने
 यावत् आहारकयै पिय अपर्याप्ताने यावत् आहारकयरीरे नही । जइ पज्जत्त सखेज्जावासाउय जाव सरीरे । जो इभगवन् पर्याप्ताने यावत् आहारक
 है । तइ कि सम्मटिठी पज्जत्तग सखिज्जा जाव सरीरे मिच्छदिठी पज्जत्त सखिज्जा जाव सरीरे । जो इभगवन् पर्याप्ताने यावत् आहारक
 स्यू सम्यग्दृष्टीने यावत् आयु के मिथ्यादृष्टिने यावत् आहारकयरीरे वे सम्यग्मिथ्यादृष्टिने पियुं यावत् आहारक नही । गोयमा उमंनुमिगणुस्साहाहारक य

ननु मृतकर्मतो ब्रवधारीया एका रवे हस्तो वक्तव्यः, एतच्च त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमास्थितिकान् प्रति द्यातव्यं येषां पुनर्विजयादिषु चतुषु विमानैकैकत्रिंशत्सागरोपमाणि स्थिति स्तेषां परिपूर्णा द्वी हस्तो ब्रवधारीया, येषां पुन स्तत्रैव मध्यमाद्वात्रिंशत्सागरोपमाणि स्थिति स्तेषां मेकोहस्त एकस्य रस्तस्यैकादशजागो ब्रवधारीया, येषां पुन स्तत्र सर्वार्थसिद्धे महोविमाने त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि तेषां मेकोहस्तो ब्रवधारीया जघन्या सर्वत्राहुलासत्येयप्रागमात्रा तदेव मुक्तानि विधिसंस्थानावगाहनाप्रमाणानि साम्प्रतनाहारक्षस्य प्रतिपादयिषु राह-आहारगसरीरेण जते । कर्हविदे पक्तते इत्यादि ॥ सुगम नवर ॥ चजयात्त ॥ यम उपरसे सयच्छतिसा सर्वसावद्ययोगेभ्य सम्पुणपरमत्तस्ने

गोयमा ! एगागारे पयत्ते किं मणुस्सञ्चाहारगसरीरे इयमणुस्सञ्चाहारगसरीरे ?
 गोयमा ! णो इयमणुरसञ्चाहारगसरीरे मणुस्सञ्चाहारगसरीरे । जड मणुस्सञ्चाहारगसरीरे किं सम्मुच्छिममणुस्सञ्चाहारगसरीरे गण्वक्कतियमणुस्सञ्चाहारगसरीरे ? गो० ! णो सम्मुच्छिममणुस्सञ्चाहारगसरीरे गण्व

यद्येनाकार मङ्गलम् किं मनुष्याहारकशरीरममनुष्याहारकशरीर ? गो० । नो अमनुष्याहारकशरीर मनुष्याहारकशरीर । यदि मनुष्याहारकशरीर किं सम्मुच्छिममनुष्याहारकशरीर गर्जन्मुक्तान्तिकमनुष्याहारकशरीर ? गो० । नो सम्मुच्छिममनुष्याहारकशरीर गर्जन्मुक्तान्तिकमनुष्याहारक

इति मणुस्साहारगसरीरे णो अमणुस्साहारगसरीरे । नो एकैभेदे तीसू मनयने आहारकशरीर हुवे के यमनयने आहारकशरीर हुवे । गोयमा मणुस्साहारगसरीरे नो अमणुस्साहारगसरीरे । हेगौतम मनुयने आहारकशरीर पिण अमनुयने आहारकशरीर नहो । जड मणुस्साहारगसरीरे तद किं सम्मुच्छिम मणुस्साहारगसरीरे गण्वक्कतिय मणुस्सा । नो मनुयनेके आहारकशरीर तो स्य सम्मुच्छिममनुयने आहारकशरीर हुवे के गभंजमणुयने आहारकशरीर हुवे । गोयमा नो सम्मुच्छिम-मणुस्साहारगसरीरे गण्वक्कतियमणुस्साहा । हेगौतम सम्मुच्छिम मनुयने आहारकशरीर नहो गभंजमनुयने आहारकशरीरेके । जड गण्वक्कतियमणुस्साहारा तद किं कयमभिग गण्वक्कतियमणुस्साहारगसरीरेके । अतरदीपग गण्वक्कतियमणुस्साहारगसरीरेके ।

सु पचरयणीते इति ॥ इह यद्यपि ब्रह्मलोकस्थीपरिताप्तको न समश्रेण्या तथापीह शरीरप्रनापाचिन्तायामिदं द्विक विवक्ष्यते द्विकपर्यत एव ए
 स्तस्य द्रुतिततया लज्जयमानत्वात्, एव मुत्तरतापि द्विकषतुष्पादिपरिग्रहे कारक वाच्यं तत्र ब्रह्मतोक्तान्तकयो उक्तपर्यतया प्रवधारणीया पच
 रत्रय एतच्च लान्तके चतुर्दशसागरोपमास्थितिकान् देवानचिहृत्य प्रतिपादितमर्थसेय, शेषसागरोपमास्थितिद्वेव येषां ब्रह्मलोके सप्तसागरोपमा
 णि स्थिति तेषां पट्टरत्रय परिपूर्णां प्रवधारणीया, येषामष्टौ सागरोपमाणि तेषां पचहस्ता षट् हस्तस्यैकादशभाग, येषां नव सागरोपमा
 णि तेषां पच हस्ता, पच हस्तस्यैकादशभाग, येषां दश सागरोपमाणि तेषां पच हस्ता द्वादशस्यैकादशभाग एतस्य, लान्तकेपि येषां दश
 सागरोपमाणि स्थिति तेषांमेतावती प्रवधारणीयोरकपंती येषां मेकादश सागरोपमाणि लान्तकस्थिति तेषां पच हस्ता खर्वो हस्तस्यैकादशभा
 गा, येषां द्वादश सागरोपमाणि तेषां पचहस्ता द्वौ च हस्तैकादशभागे, येषां त्रयोदशसागरोपमाणि तेषां पचहस्ता यको हस्तस्यैकादशभा

गौ, येषां चतुर्दशसागरोपमाणि स्थिति तेषां परिपूर्णां पचहस्ता प्रवधारणीया ॥ महाशुक्लचरस्वारेसु चत्वारि रयणीते ॥ महाशुक्लचरस्वारयो
 चतस्रो रत्रय उरकपंती प्रवधारणीया एतच्च सहस्वारगतान् षष्टादश सागरोपमास्थितिकान् देवानचिहृत्योक्तं वेदितव्य, शेषसागरोपमास्थितिद्वे
 व येषां महाशुक्लै कल्पे चतुर्दशसागरोपमाणि स्थिति तेषां मुत्कर्पंती प्रवधारणीया परिपूर्णां. पचहस्ता, येषां पचदशसागरोपमाणि तेषां च
 त्वारी हस्ता खर्वश्च हस्तस्यैकादशभाग, येषां षोडशसागरोपमाणि तेषां चत्वारो हस्ता द्वौ च हस्तस्यैकादशभागौ, येषां सप्तदशसागरोपमाणि
 तेषां चत्वारो हस्ता एको हस्तस्यैकादशभाग चरस्वारोपि येषां सप्तदशसागरोपमाणि तेषां मेतावती प्रवधारणीया, येषां पुन चरस्वारे परि
 पूर्णान्यष्टादशसागरोपमाणि स्थिति तेषां परिपूर्णां द्वादशस्यैकादशभाग एतच्चत्वारो हस्ता प्रवधारणीया ॥ शाक्यपाण्यश्वत्थगुप्तु तिनत्रि रयणीते इति ॥ आनतमा
 शतारणाभ्युत्पे तु तिस्रो रत्रय उत्कृष्टा प्रवधारणीया एतच्चत्वारो हस्ता प्रवधारणीया ॥ देवानचिहृत्योक्तं द्रष्टव्य, शेषसागरोपमा

स्थितिर्देव येषामानर्तपि कल्प परिपूर्णांनि किञ्चित्समधिकानिवा एादशसागरोपमाणि स्थिति स्तोथा परिपूर्णा थल्यारी हला उत्कटा जवथा रणीया, येषा पुनरेकोनविंशति सागरोपमाणि तेषा त्रयोहस्ता छयश्च हस्तस्यैकादशभागा , प्राणतेपि कल्पे येषामेकोनविंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपमेतावती च जवधारणीया, येषा पुन प्राणते कल्पे विंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोथा त्रयोहस्ता द्वीच हस्तस्यैकादशभागी, ये या सारणोपि कल्पे विंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपमेतावती जवधारणीया, येषा पुनरारणोपि कल्पे एकविंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तो पा त्रयोहस्ता एकस्य हस्तस्यैकादशभागो जवधारणीया, अच्युतेपि कल्पे येषा मेकापयति सागरोपमाणि स्थिति स्तोपमेतावत्येव जवधारणी या येषा पुनरच्युते कल्पे द्वाविंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपा मुक्तर्पती जवधारणीया परिपूर्णांन्योहस्ता ॥ गेवेज्जकप्पातीतित्यादि ॥ ज्ञा वित ॥ नवरमुक्तीसंग दो रयणीर्दित् ॥ एत जवमे गेवेयके एकविंशत्सागरोपमास्थितिकान् देवान् प्रति द्रष्टव्य ज्ञापसागरोपमास्थितिर्देव-प्रथमे गेवेयके येषा द्वाविंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपा त्रयोहस्ता जवधारणीया, येषा पुन स्तोत्रेव त्रयोविंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपा द्वी ह स्ता वटरी हस्तस्यैकादशभागा , द्वितीयेपि गेवेयके येषा त्रयोविंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपा मेतावती जवधारणीया, येषा पुन स्तोत्र चतु र्विंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपा द्वी हस्तो सप्तथ हस्तस्यैकादशभागा जवधारणीया, तृतीयेपि गेवेयके येषा चतुर्विंशतिसागरोपमाणि स्थिति स्तोपमेतावत्येव जवधारणीया, येषा पुन पचविंशतिसागरोपमाणि तत्र स्थितिस्तेपा द्वी हस्तो पद् हस्तस्यैकादशभागा जवधारणीया,

णियदेवपचिदियवेडिहियसरीरस्सण जते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा ! गेविज्जगदेवजाण

महशु रुमहस्सारेपु चतस्ती रवथ । आनतप्राणतारणाच्युतेके च तिस्रोएवथ । गेवेयककल्पातीतैवमानिकदेवपचेन्द्रियवेजियशरीरस्य जदत्त ।

य । प्राणवपायथ आरण शुण्णु तिष्ठित्थवीथी । आनत प्राणत त्राएथ अच्युत ३ हाथ । गेविज्जग कणातीत वेमाणिय पचेद्वि वेडान्दियचरोरस्सण भते केम० । गेवेयक कल्पातीगविमानना पचेद्विय तैकियशरीरना हेमवन् केतली सोठी जवगाहना कही । गोयमा गेविज्जगदेवथ एगा भववान्

पयरे २ यधुन्हीए ॥ १ ॥ अर्धीएतइयपयरे दीसयपलासयारीति । अस्याप्युत्तराद्वैपुर्विकाणा नायाया अत्तरमार्गिका प्राग् उक्तंथा उत्तरवे
 क्रियोत्तरार्धपरिमाण पचयनु ज्ञानानि तानिच दृतीये प्रसूते वेदितव्यानि, आरुयोस्तु द्वयो प्रसूतयो स्त्र २ अथचारणोपायेसया द्विगुण २ अ
 वयोद्वय, अथ सप्तम्यातु पृथिव्या अवधारणीया उत्कपत' पंचयनु ज्ञानानि उत्तरवैक्रिया घनु सहस्र, सर्वत्र तथधारणीया अचन्यतोदुलासुरयेयजा
 गप्रमाणा उत्तरवैक्रियसशेवजागप्रमाणेति । तिर्यक्यप्येन्द्रियस्य वैक्रियवारीराधगाएना उत्कपती योजनयतपुयक्त' तस ऊर्ध्वं अरुण्यक्तंरजायात्
 मनुष्याणा वातिरेक योजनज्ञतसहस्र विष्णुकुमारमन्वतीना तथाश्रवणात्, अपन्यात्तन्नेयामप्यदुलसस्येयप्रागप्रमाणा नस्यसस्येयजागमाना तथा
 रूपप्रयत्नासन्नवात् । असुरकुमारादीना क्लानितकुमारपर्यंबसानाना व्यक्ताराणा ज्योतिष्काणा सौधर्मज्ञानवेयाना प्ररूप अथन्या प्रवधारणीया ये
 क्रियवारीराधगाहना अगुलासदयेयजागप्रमाणा साचोत्पत्तिसमये द्रष्टव्या, उत्कृष्टा सप्त रत्यय । उत्तरवैक्रिया अपन्या अगुलसुरययजागमाना उत्क
 ष्टा योजनज्ञतसहस्र । उत्तरवैक्रिया जाव अचतुं कप्योति ॥ उत्तरवैक्रियासम्भवात्, एतच्च प्रागेवोक्त सर्वत्र अचन्यतोदुलसस्येयजागमाना उत्तर

गुलस्स अ्सखैजइनाग उक्तीसेग सत्तरयणीत् । तत्यण जासा उत्तरवेउच्चिया सा जहस्रेण अ्यगुलरत्त सं
 खैजइनाग उक्तीसेण जीयणसयसहस्र । एव जाव यणियकुमारा । एव उहियाण वाणमतराण । एव जोड
 सियाणिवि । सोहमीसागगदेवाण एववेव उत्तरवेउच्चिए जाव अ्यचुत्तंरुप्यो नवर सणन्नुमारन्नवधारणिज्जा

गौतम । असुरकुमाराणा देवाना द्विविधा वारीरावगाहना प्रथमा तद्यथा-अथधारणीया उत्तरवैक्रिया च । तत्र या अवधारणीया सा जप
 न्येनागुलस्यासुरयेयोनाग उत्कपत सप्त रथप । तत्र या उत्तरवैक्रिया सा जपयेनागुलस्य सस्येयो भाग उत्कपती योजनज्ञतसहस्रम् ।

पंतो यीजनलदां, प्रवधारणीया तु विचित्रा तत स्ता पुण्याह-नवरमित्यादि ॥ नवरमय प्रवधारणीयाप्रति विज्ञेय सनत्कुमारै कल्पे जपवन्तो
 हुतासख्येयज्ञाग उत्कर्षत पट्त्रय ॥ एव माहिदेवि इति ॥ एवमुक्तेन प्रकारेण जघन्या उत्कृष्टा च प्रवधारणीया माहेन्द्रकल्पपि वक्तव्या,
 एतच्च समसागरोपमस्थितिकान् देवानचिठत्योक्तमखेय द्यादिसागरोपमस्थितिष्वेव येषा सनत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयो द्वे सागरोपमस्थिति स्तोपा
 मुरकर्षतो प्रवधारणीयापरिपूर्णसप्तसप्तमाणा येषा त्रीणि सागरोपमाणि तेषा पट्त्रय वृत्तस्यैकादशजागा, येषा चत्वारि सागरो
 पमाणि तेषा पट्त्रय वृत्तस्यैकादशजागा, येषा पंचसागरोपमाणि तेषा पट्त्रय वृत्तस्यैकादशजागी, येषा पट्सागरोपमाणि
 तेषा पट्त्रय वृत्तस्यैकादशजाग, येषातु परिपूर्णानि सप्तसागरोपमाणि स्थिति स्तोपा परिपूर्णा पट्त्रय प्रवधारणीया उत्कृष्ट-अत्र
 यिगंठिजेसिं सण्कुमारैतहेवमाहेदे । रथणीकृतसिं जागचउक्ताहियदेहो ॥ १ ॥ ततोअथरे २ जागोसंक्तेकुमुपकृइजाव । सागरससठिइंश रथणी
 कृतणुपमाण ॥ २ ॥ इह जघन्या प्रवधारणीया सर्वत्राप्यहुत्सख्येयज्ञागप्रमाणा साच प्रतीतिं तामवधार्योत्कृष्टा प्रति पादयति-वज्रलो-लतने

जहस्येणं अंगुलस्स अंसंखेजाइजागं उक्तीसेण ठ रयणीउ । एवं माहिदेवि । वज्रलोयलंतगेसु पंचरथणीउ
 महासुक्तसहस्सारेसु चत्वारि रयणीउ । अणयपाणसअरणअनुय त्तिन्नि रयणीउ गेविज्जकप्पातीतवेमा

एव यापट्त्रयितकुमारा । एधमीपिकाना वानव्यन्तराणम् । एव ज्योतिष्काणामपि । सीधसंज्ञानकदेवानामेव चैवोत्तरवैक्रिय यावदध्युत-
 कल्पो नवर सनत्कुमारजवधारणीया जघयेनागुलस्यासख्येयोप्राग उत्कर्षत पट्त्रय । एव माहेन्द्रेपि । वज्रलोकलान्तकेषु पच रत्रय ।
 एव एव उत्तरवेविव्या जाव अशुक्लको एव अशुक्लको भवधारणिव्या । इम ज्योतियोने पिण सीधसंज्ञान देवताने पिण इमहीज उत्तर वेनि
 य जाकगे अशुक्लताइ इमहीज ए विज्ञेय सनत्कुमारने भवधारणी । जहं अगुं अखं उ० अरथणीओ एव माहिदेवि वमबीच लतगेस पचरथणीओ म
 हासुक्तसहस्सारेसु चत्वारिरयणीओ । जघन्य अगुवनी अखस्यातमोभाग अने उत्कृष्ट ५ हाथ कदांगुक्त अने सहस्सरि ४ हा

याएव द्वितीयस्या- शंकरप्रज्ञाया एकादश प्रसूते प्रवधारणीयाया उत्कर्षत उत्सव उक्तः, पश्चात्त घनुरपि द्वी हस्तौ द्वादशशुभानि, सएव तृतीयस्या यालुक्रमज्ञाया प्रथम्या प्रथमे प्रसूते उत्सवो भवति तत्र प्रतरे २ दृष्टिस्वयेया समस्ता साहानि चैकोनविंशतिरगुताणि, तथाच सति नवमे प्रसूते यथोक्त प्रवधारणीयावगाहनाभान भवति एकत्रिंशद्गुण्य एकोस्ता इति, उत्तरवर्कोत्कटपरिमाणमाह-द्वापष्टिदनुपि द्वी हस्तौ एतद्य नवमप्रसूतापेचमवस्येय शेषेषु तु प्रसूतंयु निज २ प्रवधारणीयप्रभाणापेक्षया द्विगुणमिति, चतुर्थ्या पङ्कप्रज्ञाया प्रथम्या उत्तरुपसौ प्रवधारणीया द्वापष्टिदनुपि द्वी हस्तौ, इदं च सप्तमे प्रसूते प्रथेय शेषेषु तु प्रसूतं येव पङ्कप्रज्ञाया प्रथमे प्रसूते एकत्रिंशद्गुण्य एको हस्त द्वितीये पट्टिगद्गुण्य एको हस्तो विंशतिरगुतानि, तृतीये एकचत्वारिंशद्गुण्य द्वी हस्तौ योक्तशुभानि, चतुर्थे पट्टचत्वारिंशद्गुण्यि त्र

पुहत् । मणुस्सपचिदिववेउच्चिवसरीरस्सण जते । केमहालिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयसा ! जहन्नेण अगुलरस सखेजाइनाग उक्कोसेण जातिरेग जायणसतसहस्स । असुरकुमारिण भवणवासिदेवपचिदिववेउच्चिवसरीरस्सण जते । केमहालिया सरीरोगाहणा पण ? गो ! असुरकुमारिण देवाण दुविहा सरीरोगा योजनज्ञतपयक्कम् । मनुयपचेन्द्रियैक्कियशरीरस्य जदत्त । कियम्महती शरीरावगाहणा प्रघत्ता ? गोतम । जयमेनागुलस्य सरयेयो ज्ञाग उत्कर्षत सातिरेक योजनज्ञतसहस्सम् । असुरकुमारप्रवनवासिदेवपचेन्द्रियैक्कियशरीरस्य जदत्त । कियम्महती शरीरावगाहना प्रघत्ता ?

काल मनुष्य पचेन्द्रिय वैक्कियशरीर हेभगवन् केतलो भवगाहना कही । गोयसा जहं. अणुं अणुं उ. साररंगं लीयणसवसहस्स असुरकुमार भवण वासि देव पचिदिय येइअियसरीरस्सण भते केम. । हेगौतम जपण्य अणुजनी भसयगतमोभाग उत्कट कारक अधिक लाख्योअन हुवे असुरकुमार नामभवतपती देवता पचेन्द्रिय वैक्कियशरीरने हेभगवन् केतलोमोटी भवगाहना । गोयसा असुरकुमारदेवाण दुविहा सरीरोगाहणा पं. तं. । असुर कुमार देवताना दीयोगेद शरीरनी भवगाहना कही ते कहेहे-भवधारपिप्पित्तान् उत्तरवेव्वियाय । भवधारणे वीत्या उत्तरवेक्किय । तत्तयं जासा भ

योऽस्ता द्वादशागुतानि, पचमे द्विपञ्चाशद्गुतानि, षष्ठे सप्तपञ्चाशद्गुतानि, एकोहस्त षत्वार्यगुतानि, सप्तमे यथोक्तरूप परिमाण
 अत्रापि चैपञ्चाशत्-प्रथमे प्रस्तटे यत्परिमाणमुक्त तस्योपरि प्रस्तटे २ क्रमेण पचधनुषि विशतिरगुतानीत्येव रूपं वृद्धिरवगतव्या तत्र प्रथमे
 प्रस्तटे सूत्रोक्तपरिमाणं प्रथमि उक्तञ्च-सोचैववत्स्यै पढमेपरमिरोइउरसेहो । पचधनुषीसश्रुगुल पररे २ यदुक्तीय ॥ १ ॥ जोसत्तमएपररे ने
 रइयाणतुहीइउरसेहो । द्वावहीधनुष्याइ दोणियरयणीयवीधवा ॥ २ ॥ अस्यापि गाथाद्वयस्याक्षरगमनिका प्राग्ब द्वावनीया-उत्तरवीक्रयोत्कृपं
 परिमाणं पचविशतिधनु शत तत्र सप्तमे प्रस्तटे त्रैपेपु तु प्रस्तटेपु स्व २ प्रवधारणीयापेइया द्विगुणमिति, पचस्या धूमप्रज्ञाया पृथिव्या प्रवधा
 रणीयोऽर्कपतं पचविशतिधनु शत तत्र पचम प्रस्तटमधिकृत्याऽर्कमवसेय, शोपु प्रस्तटेऽघिदं प्रथमप्रस्तटे द्वापष्टिधनुषि द्वी हस्ती, द्वितीये ऽष्टसप्त
 तिधनुषि एकाधितस्ति, तृतीये त्रिनवतिधनुषि त्रयोऽस्ता, चतुर्थे नवोत्तर धनु शत १९७ एको हस्त एका च वितस्तिः, पचमे सूत्रोक्तपरिमा
 णं अत्रापि चाय तात्पर्याये-यत्प्रथमे प्रस्तटे परिमाणमुक्त तदुपरि प्रस्तटे २ क्रमेण पञ्चदशधनुषि सार्द्धेहस्तद्वयाधिकानि मन्नेऽस्तव्यानि तथाच
 यति यथोक्त पचमे प्रस्तटे परिमाणं प्रवति उक्तञ्च-सोचैवयपचमीए पढमेपरमिरोइउरसेहो । पञ्चरसधनुषोइह त्य-सकूपपरं सुदुक्तीय ॥ १ ॥
 तइपचमएपररे उरसेहोयणुसततुपणवीस । अस्या सार्द्धेगाथाया अक्षरगमनिका प्राग्ब त्कतंभ्या उत्तरवीक्रियोत्कृपंपरिमाणं अर्द्धेवृत्तीयानि धनु
 शतानि, एतानि च प्रथमे प्रस्तटे वेदितव्यानि त्रैपेपु प्रस्तटेपु स्व २ प्रवधारणीयाद्विगुणमिति, पष्ट्या तम प्रज्ञाया पृथिव्यानुत्कृपंती प्रवधा
 रणीया अर्द्धेवृत्तीयानि धनु शतानि तानि च तृतीये प्रस्तटे प्रत्येतव्यानि, प्रथमे तु प्रस्तटे प्रत्येतव्यानि, प्रथमे तु प्रस्तटे पचविशतिधनु शत
 द्वितीये सार्द्धेसप्ताशीत्यधिक धनु शत तृतीयेतु सूत्रोक्तमेव परिमाणं प्रवति उक्तञ्च-सोचैवयउठोए पढमेपरमिरोइउरसेहो । द्वावहिधनुषयसह्या

हणा पसुता, तजहा-प्रवधारिणिजाय उत्तरवेउद्विधाय । तत्पणं जासा प्रवधारिणिजा सा जहसेण च्च

वधारिणिजा जहः अगुनस्र थसं ४० सत्तरयणीथो । तिरो जे मवधारणी ते जपत्त अगुवतो असख्याततोभाग ४० ७हाथ । तत्पण जासा उत्तर वे

साट्टानि त्रयोदशगुलानि, सप्तमे सप्तविंशतिधनुषि एकी हस्ती नवचौगुलानि, अष्टमे एकौनविंशद्विंशतिधनुषि एकी रस्त' साट्टानि चत्वार्यगुलानि, नवमे यथोक्तरूप परिमाण अत्रापि चाय प्रावार्यं.-प्रथमप्रसङ्गे यत्परिमाणमुक्तं तत्साट्टोपरि प्रसङ्गे २ सप्तस्ता साट्टानि च मकोनविंशति रगुलानि क्रमेण प्रवेस्यन्ति ततो यथोक्त प्रसङ्गेपरिमाणेन प्रथमि रक्तञ्च-सौचैवयत्प्रमाणे पटमेपरिमिरोऽउत्सहेही । सत्तरयणीत्रयगुल उण वीससकवृद्धीय ॥ १ ॥ पररे २ यत्प्रहा नवमेपरिमिरोऽउत्सहेही । धृणाणिएगतीस एकारयणीयनायवा । अस्यापि गायाहयस्येयमहरगमनिका

माए नवधारणिजा पंचधणसयाडं उत्तरवेउच्चिवा धणसहस्सं । एव उक्तीसेणं जहन्तेण नवधारणिजा
अगुलस्स अस्खेज्जइभाग उत्तरवेउच्चिया अगुलस्स संखेज्जइभागं । तिरिस्कजोणियपचिटियवेउच्चियसरी
रस्सणं नत्ते ! केमहालिया सररीगाहणा पणत्ता, जहन्तेण अगुलस्स संखेज्जइभाग उक्तीसेणं जोयणसत्त

शतम् । उत्तरवैक्रियाद्वंद्वीयधनु शतानि । तमाया नवधारिणीयाद्वंद्वीयधनु शतानि । उत्तरवैक्रिया पवचनु शतानि । अथ सप्तमाया नव
धारणीया पवचनु शतानि, उत्तरवैक्रिया धनु सहरम् । एवमुक्त्येण अचम्येन नवधारणीयागुलस्यासुर्येयभागमुत्तरवैक्रियागुलस्य सत्येय
भागम् । तिर्येयोनिक्कपचेन्द्रियवैक्रियशरीरस्य नदन्त । कियन्महती शरीरावगाहना म० ? गीतम् । जघन्येनाहुतास्य सत्येयो भाग उत्तरज्येतो

रवेधिविया धनुसहस्र पव उक्तीसेण जहणेण भवधारिणिजे अगुलस्य अथ० उत्तरवैक्रियाया अगुलस्य सखि० । पाचसै धनुष हुवे उत्तरवैक्रिय धनुषसहस्र
इम उत्तरको कक्षी जघन्ये पिय कइहे—भवधारणी उत्तरको पाचसै धनुष हुवे भवधारणी जघन्य उत्तरको इत्यत्तिसमय अगुलनो अचंख्यातमोभाग दे
इहुवे उत्तरवैक्रिय जघन्यतो सर्गातमोभाग देइहुवे उत्तरको सातमोवे धनुषसहस्र हुवे द्विवे तिर्यचनो अथगाहना कइहे—तिरिखजोणिय पचिटिय
वेउच्चियसरीरस्सणं भत्ते केमहालिया सररीगाहणा प० । तिर्यच पचेद्वियेन वैक्रियरोर हेमगवन् केतलीमोटी अथगाहना कइही । गोपमा जहके
य अगु०० अथ० उ० जोयणस्यपुहुत्त मणुस्स पाचद्विय वेउच्चियसरीरस्सणं भत्ते केम० । हेगीतम् जघन्य अगुलनो अचंख्यातमोभाग योजन नवसे पत्र

प्रसूते उत्तरेषी प्रवति घातव्य , तत प्रतरं २ वृद्धि रवसेषा त्रयोहस्ता ख्यातिगुलानि तथाच सत्येकादशौ प्रसूते उत्कर्षतो जवधारणीयशरीर परिमाणमापाति पचदश धनूपि द्वी हस्ती ह्यादशागुलानिति, उत्तरवैक्रियोत्कषपरिसाखमाह-एकविंशतधनूपि एकोहस्त , इदंच एकदशौ प्रसूते वेदितव्य शेषेषु तु प्रसूतेषु स्व २ जवधारणीयापेक्षया द्विगुणमवसेष , तथा तृतीयस्या वालुकप्रजाया पृथिव्या मुत्कर्षतो जवधारणीया एक त्रिंशत्धनूपि एको हस्त एतद्य नवम प्रसूतमधिकृत्योरुमवसेष्य शेषेषु प्रसूतेषु त्व प्रथमप्रसूते जवधारणीया पचदशधनूपि द्वी हस्ती ह्यादशा गुलानि, द्वितीये प्रसूते सप्तधनूपि द्वी हस्ती साद्वानि तत्रागुलानि, तृतीये एकोनविंशतिधनूपि द्वी हस्ती त्रीण्यगुलानि, चतुर्थे एकविंशतिधनूपि एको हस्त साद्वानि हाविशतिरगुलानि, पचमे त्रयोविंशतिधनूपि एको प्रसूतशशधगुलानि, षष्ठे पचविंशतिधनूपि एको हस्त धणुइ एका य रयणी । वालुयप्पन्नाए पुच्छा, जवधारणिजा एकात्तीसधणुइ एका य रयणी, उत्तरवेउ खिया तावठिधणुइ दोखिय रयणीउ । पकप्पन्नाए पुच्छा, जवधारणिजा तावठिधणुइ दोन्तिय रयणीउ । उत्तरवेउखिया पणवीस धणुसत । धूमप्पन्नाए जवधारणिजा पणवीस धणुसत, उत्तरवेउखिया छु हाइजाइ धणुसयाइ । तमाए जवधारणिजा छुहाइजाइ धणुसयाइ उत्तरवेउखिया पचधणुसयाइं छुहेसत्त नागुलस्यावसेष्य ज्ञागमुत्कर्षंत पचदशधनूपि अद्वैततीवहस्ता , तत्र वा उत्तरवैक्रिया वा जपत्वेनागुलस्य सरवेयज्ञागमुत्कर्षंत एकत्रिंशद् धनूपि एको रति । वालुकाप्रजाया पुच्छा, जवधारणीया एकत्रिंशद्घनूपि एको रति, उत्तरवैक्रिया अष्टषष्टिधनूपि द्वी रती । पकप्रजाया पुच्छा, गीबम । जवधारणीया द्विषष्टिधनूपि द्वी रती । उत्तरवैक्रिया पचविंशतिधनु जतम् । धूमप्रजाया जवधारणीया पचविंशतिधनु उत्तरवैक्रिया अष्टाद्वार धणुसयाइ तमाए भवधारिबिळा । ११५ धनुष हुवे उत्तरवैक्रिय २५० धनुष हुवे तमानो भवधारणो । अष्टाद्वार उत्तर वैक्रिय पंचधणुसयाइ पचसत्तमाए भवधारणिळा । अष्टादसे धनुष उत्तरवैक्रिय पाचसे धनुष हुवे हुटे सातमीनो भवधारणो । पचधणुसयाइ उत्तर

त्तरवीक्रिया तु तथाविधप्रयत्नवादाद्यसमये ग्गुलसंख्येयप्रागमात्रे च उत्कर्षत पञ्चदशधनूपि अद्वैततीयहस्ता इदं च उत्तरवीक्रियशरीरावगाह
नापरिमाण त्रयोदशो प्रसूते ऽवसातव्य उपेपु प्रसूतेषु प्रागुक्त अवधारणीयमानापेक्षया द्विगुण प्रत्येतव्य, शंकरप्रज्ञाया अवधारणीया उत्कर्षतः
पञ्चदशधनूपि अद्वैततीयहस्ता इदं चोत्कर्षते प्रवधारणीयावगाहनापरिमाणमेकादशे प्रसूते वसातव्य उपेपु प्रसूतेष्विदं शंकराया. प्रथमे प्रसू
ते सप्तधनूपि त्रयोहस्ता पट्चाहुलानि द्वितीयं प्रसूते ऽष्टोधनूपि द्वीहस्तौ नवधागुलानि, तृतीये नव धनूपि एकी हस्तौ द्वादशागुलानि, चतु
र्थे दश धनूपि पचदशागुलानि, पचमे दशधनूपि त्रयोहस्ता अष्टादश अगुलानि, षष्ठे एकादश धनूपि द्वी हस्तावेकविंशतिरगुलानि, सप्तमे
द्वादश धनूपि द्वी हस्तौ, अष्टमे त्रयोदश धनूपि एकी हस्त द्वीविंशति अगुलानि, नवमे चतुर्दश धनूपि पट्चागुलानि, दशमे चतुर्दश धनूपि त्रयो
हस्ता नवधागुलानि, एकादशे सुत्रोक्तमेव परिमाण अत्रापिद तात्पर्य-प्रथमे प्रसूते यत्परिमाणमुक्त तस्योपरि प्रथमे प्रसूते क्रमेण त्रयोहस्ता
त्रीविधागुलानि प्रोक्तव्यानि ततो यथोक्त प्रसूते परिमाण त्रवति-सोचेबयलीयाय पठमेपथरमिहोइउस्वेहो । इत्यतियतिलिङ्गुल पररे २ य
वुक्तीते ॥ १ ॥ एकारसंयपरे पञ्चरसपण्डिदोणिरयणीते । यारसययगुलाइ देहपमाथ तुविलेय ॥ २ ॥ गाथाइयस्यापीधमन्नरगमनिकय एव
प्रथमपृथिव्यास्त्रयोदशे प्रसूते उत्कर्षत उत्सथो जणित सप्त धनूपि त्रयो हस्ता पट्चागुलानीति सएथ द्वितीयस्या शंकरप्रज्ञाया पृथिव्या प्रथमे

जाव तत्यणं जा सा अवधारणजा सा जहन्तेणं अंगुलसस अ्यसखेज्जइजागं उक्तीसेण पन्नरसधण्डं अ्यहा
इज्जाते रयणीते, तत्यण जासा उत्तरवेडिहिया सा जहन्तेणं अंगुलसस संखेज्जइजागं उक्तीसेणं एक्कीतीसं

न्येनागुलसस सरयेपमाग उत्कर्षत. पचदशधनूपि साद्वौ द्वी हस्तौ । शंकरप्रज्ञाया पृष्ठा, गीतम । यावत्तत्र या अवधारणीया सा जघन्ये
थीप्रो पञ्चभाए भवधारणिल्ला । २१ धनुष १ हाथ हुवे उत्तरवीक्रिय ६६ धाय दोबडाथ पइप्रभानो भवधारणो । कावडि धणु दोरयथीथी उत्तर वे.
पणवीस-रणसय धूमपभाए भवधारणिल्लाए । ६६ धनुष २ हाथ उत्तरवीक्रिय २५ जपर एकसौ धनुष धूमप्रभानो भवधारणो । पणवीस धणसय ल

नि, पष्ठे त्रीणि पर्यापि द्वे द्वे साट्टोऽन्यथात्सागुलानि, सप्तमे चत्वारि धनुषि त्रयोहस्ता साट्टोऽन्यथात्सागुलानि, नवमे पञ्चधनुषि एकोऽ-
 स्तो विशतिरगुलानि, दशमे षट्धनुषि साट्टानि चत्वार्यगुलानि, एकादशे षट्धनुषि द्वौ द्वौ त्रयोदशे त्रयोदशे सप्तधनुषि साट्टौ
 त्वेक्यिञ्चतिरगुलानि, त्रयोदशे सप्तधनुषि त्रयोहस्ता षट्परिपूर्णाव्यगुलानि, एतद्यथा तात्पर्यार्थे - प्रथमे प्रसूते यच्चरीरावगाहनापरिमाणे ७
 योहस्ता इति तस्यो परिप्रस्तटक्रमेण साट्टानि षट्पञ्चाशदगुलानि प्रक्षिप्यन्ते ततो यथोक्त प्रसूतेषु शरीरावगाहपरिमाणे ऋषति उक्तप-रयणा
 मपष्टमपर्यरे इत्यतिगदेषु ऋषिण्डे ॥ छप्यन्तगुलसङ्का पर्यरे २ इवद्वन्द्वी ॥ १ ॥ तस्य जाया उत्तरवेऽधिया इत्यादि ॥ जपन्यतोऽगुलस
 स्मैयज्ञाग मयमसमयेपि तस्या अगुलसस्येयज्ञागप्रमाणाया एव जावात्, नत्वसस्येयज्ञागप्रमाणा आह-स-स्यहणिसूलीकाकारोऽहरिजद्रसूरि - ७

असखेज्जज्ञाग उक्तीसेण सप्तधण्डू तिणि रयणीउ लच्चय्यगुलाइ, तत्यण जासा उत्तरवेऽधिया सा जहन्ने
 ण अगुलस्स सखेज्जज्ञाग उक्तीसेण पन्तरसधण्डू अह्हाइजाउ रयणीउ । सक्करप्पन्नाए सुच्छा, गीयमा !

तत्र या ऋषारिणीया सा षपत्येनानुलसासस्येय ज्ञागमुत्कथत सप्तधनूपि त्रयो रतय पट्चाहुतानि । तत्र या उत्तरयोऽधिया सा जप
 क्षण अगुलाइ । तिहा जे भवधारणो ते जवन्य अगुलना षसख्यातमीभाग वटकट ३ इथ अगुनप्रमाणे इवे ई अगुल । तस्य जेहे उत्तरवेऽधिया
 या जइणेण अगुलस्स षस० ७० पणरसधण्डू षटाइल्लाथो रयणीओ सक्करप्पभाएण सुच्छा । तिहा जे उत्तरवेऽधिये तेहनो जवन्य अगुलनो षस
 प्यातमीभाग वटकट पन्ने धनुष इटाइ इथ देइ विमथा भणो यंकरप्रमानो प्रथ । गीयमा जाव तस्य जासा भववारणिल्ला सा जइणेण अगु० अ
 स० ७० पणरस धण्डू षटाइल्लाथो रयणीओ । इमीतम जा तिहा जे भवधारणो तेहनो जपन्य अगुलनो षसख्यातमीभाग वटकट १५ धनुष अटाइ
 इथद्वे । तस्य जासा उत्तर वेऽधियासा जइ० अगु० अस० ७० इकतोस धण्डूअउरयणो बालुवयभाए भवधारणिल्ला । तिहा जे उत्तरवेऽधिये ते
 जपव अगुलनो षसख्यातमीभाग वटकट ३१ धनुष १ इथ बालुवयभाए भवधारणो । एकतोस धण्डूअउरयणो उत्तरवेऽधिया जाविं धणु दो रय

। टीका ।

। सूत्र ॥

॥ ५० ॥

॥ भाषा ।

तिवचनात् करणे उनीचप्रत्यय उ उरुपेत्त पञ्चधनुं ज्ञातानि उत्तरवैकिया धनुं सुररा समनरकपुण्यिष्यपेक्षया अन्यत्रैतावत्या प्रवधारणीया वत र्विक्रिया वा शरीरावगाहनाया अप्राप्यमाणत्वात्, अतुना प्रतिपुण्यिष्यवगाहनामानसाह-रयणप्यसेत्यादि ॥ अतुलाऽवहेयज्ञानप्रमाणता प्रथमो त्पत्तिकाले वेदितव्या उरुपेत्त सप्तधनूयि त्रयो वृक्षा पद्मगुलानि पयोसावस्थाया इदशोरकपेत्त शरीरावगाहनामान त्रयोदशे प्रस्तटे द्रष्टव्य

एणे जवधारणिजे सरीरे एसिण समचउरससठाणसठिए पणत्ते । एवं अणुत्तरोववाडयाणत्ति । वेडड्डिय सरीरस्सण जत्ते । के महारडिया सरीरोगाहणा पणत्ता ? गोयमा । जहन्तेण अगुलस्स अणुत्तरोववाडयाणत्ति । वेडड्डिय उक्कीसेण सातिरेग जीयणसयसहस्स । वाउक्काडयएगिदिववेवड्डियसरीरस्सण जत्ते ! केमहाडिया सरीरो गाहणा पणत्ता ? गोयमा । जहन्तेण अगुलस्स अणुत्तरोववाडयाणत्ति । वेडड्डिय उक्कीसेण जत्ते ।

गाहना प्रसप्ता ? गीतम । जचन्तेनाकुलस्याउत्पेपभागमुत्कयत सातिरेक योगनदातवहस्सम् । वायुकायिकेकेन्द्रियवैकियशरीरस्य जदत्त । कियन्महती शरीरावगाहना प्रसप्ता ? गीतम । जपन्तेनाकुलस्याउत्पेप भागमुत्कयत वायुत्तस्याउत्पेपे प्राप्ताम् । नेदयिकपचेद्वियवैकिय शरीरस्य जदत्त । कियन्महती शरीरावगाहना प्रसप्ता ? गीतम । द्विविधा प्रसप्ता-उगुथा-जवधारणीया सात्तरवैकिया य तत्र या जवधा

एष भवधारणो शरीररुपे ते समचउरय उखान दखित्थे । एषत्तरोववाडयाणि एवचेव भाषियवथा । अणुत्तरोववाडयाणि सरीर समचउरग कडिवा । वेडड्डियसरीरस्सण भत्ते के मडाडिया सरीरोगाहणा प० । दिवे वेड्डिय शरीरने केतलोमीटो अवगाहना कडो । गोयमा चइयेण अणुत्तरोववाडयाणि जीयण सयसहस्स । देगीतम सपन्व अणुत्तरोववाडयाणि एवस्सत्तमाभाग एउकए क्खारए अथिअ गीजनसाखडुवे । पाउकाय गगिदि प वेडड्डिय सरीरस्सण भत्ते के मडाडिया सरीरोगाहणा प० । वायुकाय एकेद्वियवैकिय सरीरोगाहना कडो । गोयमा चइयेवदि उ० अणुत्तरोववाडयाणि एवस्सत्तमाभाग । देगीतम सपन्व एष एउकए एष अणुत्तरोववाडयाणि एवस्सत्तमाभाग । वेडड्डिय सरीरस्सण भत्ते

नैरेविकादीना भवधारणीयस्यापयोग्यावस्थाया वातकायस्यवा । उत्कर्षतः सीतिरकं भीजिनशतवृक्षं देवानामुत्तरविक्षियस्य मनुष्याणांवा ॥ एनि
दिववेवधियसरीरस्रमितादि ॥ अत्र एकद्वियो घातकाभो न्यस्य बीक्रियलघ्यसम्भवात्, तस्य जघन्यत सरूपतोवा उवगाहनामानमदुलासत्येय
ज्ञानप्रमाणनेतावरप्रमाण विदुवंक्षायामेव तस्य शक्तिसम्भवात् सामान्यनैरयिकसूत्रे-प्रवधारणी यात्रयोषांते यथा सा प्रवधारणीया "कदुलमि

उत्तरवेउद्विपुय । तत्यण जेसं भवधारणिल्लो सेणं समचउरससठाणसठिए पयत्ते, तत्यणं जेमे उत्तरवेउद्विपु
सेण नाणासठाणसंठिए पयत्ते, एत्र जाव थणियकुमारि देवपचिदियवेउद्वियसरीरे । एव वाणमताराणवि
णत्रर उहियावाणमतारा पुच्छिज्जति । एव जोडसियाणवि उहियाणं । एवं सोहम्म जाव अञ्जुयडेवसरीरे
गेविज्जकप्यातीयवेमाणियदेवपचिदियवेउद्वियसरीरेण जते ! किं सठिए पयत्ते ? गोयमा ! गोविज्जादेवाण

यसरीरेम् । एव वातव्यन्तराराणामपि नवरमीचिका वानव्यन्तरा पुच्छनीया । एव ज्योतिष्काणामपि अपिमानामेव सौधमं (प्रवृत्ति)
यावदध्युतदेवसरीरे । श्रैवेयककनपातीवैमानिकदशपचेद्विययोक्रियसरीरे प्रदन्त । किं सस्वत प्रप्रप्तम् ? गीतम् । श्रैवयकदेवाना स्रज प्रव
धारणीय सरीरे मतेया समचतुरस्रसस्यानसस्थित प्रज्ञप्तम् । एवमनुत्तरोपपत्तिकानामपि । येनियसरीरेस्य प्रदन्त । कियत्सहती सरीराय

ण सठिए प, । तिहा जे उत्तरवेउद्विपुय ते नानाप्रकारे सस्थान सस्थित इव । एव जाव धविधकुमार देव पचिदिएसु वेउद्वियसरीरे । इम जालीसू
नितकुमार । एव वाणमताराणवि एवर आहिया वाचमतारा पुच्छिज्जत्त । इम वानव्यन्तरने णविपेय आधसंय पूछिगी वानव्यन्तरनी । एव जोरिसिया
पवि श्रीहियाण एव सोडम्य जाव अञ्जुयदेवसरीरे भाणियत्तम् । इम ज्योतिपोने श्रैवमन् प्रकृशो इम सौधमं जालगे पञ्चुन पवंत्त वेयरीर कट्टिया ।
गेविल्लग कापातीत वेमाणियदेव पचिदिय वेउद्वियसरीरेण मते किं नठिए प० । इव येवेयक कल्पणीतविमानना पचेद्विय देवना वैल्लिप
यरीरे देवमगवन् किंसं सुस्थान । गोयमा गेविल्लयाण देवाण एमि भवधारणिल्लो सरीरे सेण सनचउरपसठाण च० प० । ऐगीनन् वेयसना देवता

विषयानुप्रनामकभर्तृदयवशात् प्रत्येक सर्वेषां समघतुरस्रसस्थानमुत्तरवैक्रियं त्रिकल्यां नुरोधतः प्रवृत्तेर्नानासस्थानसंस्थितं त्रिवेयकानामनुत्तरोपपत्तिं
 कारां चोत्तरवैक्रियं न प्रवर्तते । प्रयोजनाप्राधा दुस्तरवैक्रियं ह्यत्र गमनागमननिमित्तं परिधारणानिमित्तत्वात् क्रियते , नचैतेपान्नेतदस्ति यन्नु जवधा
 रिणीयमेतेषां तत्समघतुरस्रसस्थानसंस्थितमितिवक्तानि सस्थानानि सम्यक्संज्ञानामाह-येतद्विषयसरीरस्संज्ञमित्यादि ॥ जपत्यतोदुलासत्येयज्ञानं

इयवेउद्विषयसरीरे, तिरिस्कजोणियपचिदियवेउद्विषयसरीरेण जते ! किं संठिए पखत्ते ? गोयमा ! गाणा
 सठाणसठिए पखत्ते । एव जलयरथलयरखहयराणवि । थलयराणचउप्यदपरिसप्पाणं उरपरिसप्यज्जुयपरि
 सप्पाणवि । एव मणुस्सपचिदियवेउद्विषयसरीरेवि । असुरकुमारजवणवासीपचिदियवेउद्विषयसरीरेणं किं
 सठाणसठिए पखत्ते ? गोयमा ! असुरकुमाराण देवाण दुविहे सरीरे पखत्ते , तजहा-जवधारणिज्जोय

स्थलधराणां चतुष्पदपरिसर्पणां चरपरिसर्पणां जलपरिसर्पणांमपि । एव मनुष्यपंचेन्द्रियवैक्रियसरीरमपि । असुरकुमारजवनवासिपचिद्वि
 यदेववैक्रियसरीरं किं सस्थानसंस्थितं प्रज्ञप्तम् ? गीतम् । असुरकुमाराणां देवाणां द्विविधं शरीरं प्रज्ञप्तं तद्यथा-जवधारिणीयं चोत्तरवैक्रियं च
 तत्र नङ्गवपारणीयं तत्समघतुरस्रसस्थानसंस्थितं प्र० । तत्र यदुत्तरवैक्रियं तन्नानासंस्थितं प्रज्ञप्तम् । एव यावत्सामिनकुमारदेवपंचेन्द्रियवैक्रियं

रिसप्पाणवि भाणियथा । इमं जनचरादि थलयचरादि खचरादिनी चोपदनी पियं चरपरिसर्पनीं भुजपरिसर्पनीं पियं वैक्रियं नानाप्रकारे सस्थान
 कक्षा । एव मनुष्यं पचिदियं वेववियसरीराणवि भाणियथा । इमं मनुष्यं पंचेन्द्रियं वैक्रियं सस्थानं कहिंवि । असुरकुमारं भवणवासिं देवं पचिदियं
 येउद्विषयसरीरेणं भंते किं सठिए प, । असुरकुमारादि भवनपतिना पंचेन्द्रियनीं वैक्रियसरीरं हेभगवन् किंचे सस्थानं हुवे । गोयमा असुरकुमाराणं दु
 विषेसरीरे प, त, । हेगीतमं समुरकुमारदेवना दोयप्रकारे कक्षां ते कहेके-भवधारणिज्जोयं चत्तरवैववित्रएयं । भवधारणीं चत्तरवैक्रियनां धणीं । तत्य
 षं जेसे भवधारिणिजे सेणं समघतुरस्रसठाणं सठिए प, । तिहा जे भवधारणीं ते समघतुरयं सस्थानं हुवे । तत्येण जेसे चत्तरवैववित्रए सेणं षायासठा

नानासंस्थानसंस्थितनिष्क्रामाद्यशत प्रवृत्ते दंशाधिपन्नवनपतिव्यन्तरल्योत्तिसफसौधमाद्युत्तपयंवरानवेमानिकाना भवधारणीं नन्नरप्रभावतया तथा

उद्विष्टाय । तत्पण जेसे नवधारणिजे से ऊंठसठाणसठिए पणत्ते । तत्पण जेसे उत्तरवेडविष्टिए सेवि ऊंठ सठाणसठिए पणत्ते । रयणप्यन्नापुढविणरइयपचिद्वियवेडविष्टियसरिणं नत्ते ! किं सठाणसठिए पणत्ते ? गोयसा ! रयणप्यन्नापुढविनेरडयाण दुविहे सरीरए पणत्ते , तंजहा-नवधारिणिजेय उत्तरवेडविष्टिएब । तत्पण जेसे नवधारणिजे सेवि ऊंठे जेसे उत्तरवेडविष्टिए सेवि ऊंठे । एवं जाव अहे सत्तमापुढविनेर

रत्नप्रज्ञापृथ्वीनिरिक्कपचेद्वियवैक्कियशरीरे नदन्त । किं संस्थानसंस्थित प्रज्ञप्तम् ? गीतम् । रत्नप्रज्ञापृथ्वीनिरियिकाणा द्वियिध शरीर-न यधारणीय चीत्तरवैक्कियत्त्व । तत्र यद्भवधारणीय तत् पुण्ड । यदुत्तरवैक्किय तदपि पुण्ड । एवं यावदच सत्तमापृथ्वीनिरिक्कियवैक्कियशरीरम् तियंयोनिकपचेद्वियवैक्कियशरीर नदन्त । किं संस्थित प्रज्ञप्तम् ? गीतम् । नानासंस्थानसंस्थित प्रज्ञप्तम् । एवं जलयरस्यलपरारणामपि ।

वैक्कियशरीर ते हुण्डसंस्थाने संस्थितत्ते । तत्पण जेसे उत्तरवेडविष्टिए सेवि इ इ सठाणसठिए प, । तिहा जे उत्तरवैक्किय शरीर पिण हुण्डकसंस्थान संस्थित तत्ते । रयणप्यमपुढवी येर, प, वे, भते कि सठिए प, । रत्नप्रभा प्रथिवी नारकी पचेन्द्रिय वैक्कियशरीर हेभगवन् किसे संस्थाने संस्थितत्ते । रयणप्यमपुढवी येर, प, वे, दुविहे पं, तं, । रत्नप्रभा प्रथिवीना नारकी पचेन्द्रिय वैक्कियशरीरना दोयभेड तेकत्ता । भवधारणिल्लेय उत्तरवेडविष्टिएय । भवधारणी वैक्किय उत्तरवैक्किय । तत्पण जेसे भवधारणिल्ले से हुण्डेसठाण सठिए प, । तिहा जे भवधारणी वैक्किय त्पण हुण्डकसंस्थान संस्थित कथी । जेसे उत्तरवेडविष्टिए सेवि इ, एव जाव अहेसत्तमाए येरए वेडविष्टियशरीरे भाणि, । जे उत्तरवैक्किय ते पिण हुण्डकसंस्थान हुवे इम जालनी नीचे सातमीनर कसणे वैक्कियशरीर सर्वने जाण्ठिवा । तिरिक्कनीपिय पचिद्विय वेडविष्टियशरीरेण भते कि संठिए पणत्ते । तियंरुवोनिया वैक्कियशरीर हेभगवन् किसे संस्थान हुवे । गोयसा पाणासठाण सठिए प, । हेगीतम् नानाप्रकारना संस्थाने संस्थित हुवे । एवं जलयर धलयर सुदयर वत्तय उत्तरपरिसापे मुत्तप

नारुतुमारव्यमपि तथा विद्यास्यन्ताशुननामकर्मोदयवक्त्रा दतीवाशुनतरमुपजायते इति दुरुचस्थानम् । तिर्यक्पचेन्द्रियाणा मनुष्याणा च वैक्रिय

गा नवविहा । अणुतरोववाइया पचविहा एणसि पज्जहार निलावेण दुगज्जे नेदी । वेउच्चियसरीरेण ज्जेते !
कि सठिए पणत्ते ? गोयमा । णाणासठाणसठिए पणत्ते । वाउकाइयएगिदिउवेउच्चियसरीरेण ज्जेते ! कि
सठिए पणत्ते ? गोयमा । पनागासठाणसठिए पणत्ते । णेरइयपचिदिउवेउच्चियसरीरेण ज्जेते ! कि सठा
णसठिए पणत्ते ? गोयमा ! णेरइयपचिदिउवेउच्चियसरीरे दुविहे पणत्ते, तज्जहा-नवधारणिज्जेय उत्तरवे

तिनाथ । ग्रैययका नवावया । अणुतरीपपात्तिका पचविद्या गतेपामपि पर्याप्तपयोसकमेदेन द्विको जेदे । वेक्कियजरीर ज्जदत्त । किससिय
त प्रश्न ? गौतम । तानासस्थानसस्थित प्रश्नम् । वायुकायिकैकेन्द्रिययोः क्रियशीर ज्जदत्त । कि सस्थित प्रश्न ? गौतम । पताकासस्थानसस्थिय
त प्रश्नम् । नैरयिकपचेंद्रिययोः क्रियशीर ज्जदत्त । कि सस्थानसस्थित प्रश्न ? गौतम । नैरयिकपचेन्द्रिययोः क्रियशीर द्विविध प्रश्न तद्यथा-
प्रवधारखीय शोत्तरवैक्कियच । तत्र यद्भवधारणीय तत् दुरुचउख्यानसस्थित प्रश्न । तत्र यदुत्तरवैक्किय तदपि दुरुचसस्थानसस्थित प्रश्नम् ।

गश्चभेदो भाषियथो । प्रैवयकना नवभेद अनुकरना ५ भेद इवा सगसाहोने पर्याप्ता अपर्मात्तान दोयभेद प्रश्रोत्तरकरो सर्वेने वैक्कियशीर कञ्ची । वे
उच्चियशीरेण भते कि सठिए पणत्ते । वैक्कियशीर इभगवन किा स्थाने स्थित कञ्ची । गोयमा णाणा सठाणसठिए पणत्ते । नानाप्रकारना स
स्थाने सस्थितश्चे । वाउकाय एगिदिउ वेउच्चियशीरेण भते कि सठिए पणत्ते । दिवे वाउकाय एकेन्द्रियनी वैक्कियशीर इभगवन किचे स्थान । गोय
मा पढागसठाणसठिए पणत्ते । इभौतम धरना पताकाने स्थाने । षेरइय पचिदिउ वचविबसरीरेण भते कि सठिए प, । नारकी पचेन्द्रियनी वैक्कि
यशीर इभगवन किचे स्थाने कत्था । गायमा षेरइय पचिदिउ वेउच्चियशीरेदुविहे प, त, । इभौतम नारकी पचे इत्तना वैक्कियशीर दोयभेद ते क
त्था । भवधारणिलय उत्तर वेउच्चियेय । भवधारणेवैक्कियशीर, उत्तरवैक्कियशीर । तत्पण ज्जेसे इउचठिए पणत्ते, । तिहा जे भवधारणी

दीया ।

सु ।

॥ ५० ॥

॥ भाषा ॥

त्यादि ॥ सुगम नवर नैर्यिकाया प्रवधारणीयमुत्तरवैक्रियं हुण्डसस्थानमत्यन्तक्रिष्टकर्मोदयवशात् तथापि-तेषां प्रवधारणीयशरीर प्रवस्वजावत्
 एय निर्मूलविलुप्तप्रसोत्यादितसकलयीवादिरोमपत्तिसस्थानवदतीव वीप्रत्स हुण्डसस्थान यदप्सुत्तरवैक्रिय तदापि शुभ वयं कस्यियाम इत्यतिसुन्य

देवपंचिदियवेउद्वियसरीरे अपज्जत्तअसुरकुमारजत्रणवासिदेवपंचिदियवेउद्वियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तग
 असुरकुमारजत्रणवासिदेवपंचिदियवेउद्वियसरीरेवि अपज्जत्तगअसुरकुमारदेवपंचिदियवेउद्वियसरीरेवि अप्प
 पज्जत्तगअसुरकुमारदेवपंचिदियवेउद्वियसरीरेवि एवं जात्र यणियकुमाराणं दुगतो भेदो । एवं वाणमतराणं
 अठविहाण जोडिसियाणं पचविहाणं वेमाणिया दुविहा पयत्ता, कप्पोवगा कप्पातीताय । कप्पोवगा
 चारसविहा तेसिपि एवचेव दुगतो भेदो । कप्पातीया दुविहा पयत्ता, गेविज्जागय अणुत्तराय । गेविज्जा

सिदेवपंचिदियवैक्रियशरीरं गोतम । पर्याप्तकासुरकुमारजत्रणवासिदेवपंचिदियवैक्रियशरीर अपर्याप्तकासुरकुमारजत्रणवासिदेवपंचिदियवैक्रिय
 रीरमपि । एव यावरस्मानितकुमारणा द्विको भेद । एव यानअन्तराणामएविधाना, ज्योतिष्काणां पचविधाना, वैमानिका द्विविधा मद्य
 मा कल्पोपका कल्पातीताय । कल्पोपका हादवाविधास्तीपामप्येव-वेव द्विको भेद । कल्पातीता द्विविधा मद्यसा ग्रैवेयका यानुत्तरोपया

क्रिय कै अपर्याप्ता यावत् वैक्रिय इम यावत् स्तानितकुमारलगी मद्य । गोयमा दुगत्रो भेदो भाणियन्थो । दुगोतम दोय २ भेद प्रअंशरे सर्वने वैक्रियशरी
 र कश्चित्ती । एव वाचमतराणं अष्टविहाण ज्योतिसयाण पंचविहाण वेमाणियाण दुविहाण कप्पोवगाणं कणतोवाण कपोवगाण चारसविहाण सत्वे
 षि दुगत्रोभेदो भाणियन्थो । इम वानअन्तरदेव ८ प्रकारे ज्योतिषीदेवता ५ प्रकारे वैमानिकदेवताना दोयभेद कल्पवासीने कल्पतीत जिहा कल्प
 वासीना १२ भेद तावगे संअधिकार दोय २ पात्तवे प्रत्रीत्तरे संवषणे वैक्रियशरीर कश्चित्ती । कप्पातीया दुविहा प, । द्विवे कल्पतीतना दोयभेद
 कथा । गेविज्जागय अणुत्तराय । ग्रैवेयकवासी वीजा यनुत्तरवायासी । गेविज्जागय नवविहा यणुत्तरोपयाइया पचविहा एतेसि पज्जत्ता २ भिलविहंउ

सरीरे गङ्गमणुस्सपचिदिदियवेउहियसरीरे । जदि गङ्गवक्कतियमणुरसपचिदिदियवेउहियसरीरे कि कम्मन्नूनि
 गगङ्गवक्कतियमणुस्सपचिदिदियवेउहियसरीरे झुकम्मन्नूमिगगङ्गवक्कतियपचिदिदियमणुस्सवेउहियसरीरे झुत
 रदीवयमणुस्सवेउहियसरीरे ? गोयमा ! कम्मन्नूमिगगङ्गवक्कतियमणुस्सपचिदिदियवेउहियसरीरे णो झुक
 म्मन्नूमिगगङ्गमणुस्सपचिदिदियवेउहियसरीरे णो झुतरदोवगमणुस्सपचिदिदियवेउहियसरीरे । जदि कम्मन्नू
 मिगगङ्गवक्कतियमणुस्सपचिदिदियवेउहियसरीरे किं सखिजवासाउयकम्मन्नूमिगगङ्गमणुस्सपचिदिदियवेउहिय

गर्भमनुष्यपचेद्वियवैक्रियशरीरमपि । यदि गजव्युत्क्रान्तिकमनुष्यपचेद्वियवैक्रियशरीर कि कम्मन्नूमिगङ्गवक्कतियमणुस्सपचेद्वियवैक्रियशरीरम
 कर्मन्नूमिगङ्गवक्कतियमणुस्सपचेद्वियमनुष्यवैक्रियशरीर अन्तरहीपमनुष्यवैक्रियशरीर ? गौतम । कर्मन्नूमिगङ्गवक्कतियमणुस्सपचेद्वियवैक्रियशरीर
 नो अन्तर्मन्नूमिगङ्गमणुस्सपचेद्वियवैक्रियशरीर नो अन्तरहीपकमनुष्यपचेद्वियवैक्रियशरीर । यदि कर्मन्नूमिगङ्गवक्कतियमणुस्सपचेद्वियवैक्रिय
 शरीर किं सखेयवधर्षाणु, कर्मन्नूमिगमनुष्यपचेद्वियवैक्रियशरीर असरयेयवधर्षाणु कर्मन्नूमिगङ्गवक्कतियमणुस्सपचेद्वियवैक्रियशरीर ? गौतम ।

दिवे हेमगवन् मरुथ पचेद्वियने वैक्रियशरीर कच्छो तो खू सख्खिंमने कच्छा किम गर्भमनुष्यने । गावमा थोसम्विच्छम मणुस्स प० वे० गभ्वक्कतिय
 म० । हेगौतस सख्खिंम मनथतो वैक्रिय नद्यो गर्भमनुष्यने वैक्रियशरीर कच्छो । जइ गथ० प० वे० तइ कि कम्मभूमिग गभ्वक्कतिय मणु० प०
 वे० अकम्मभूमिग मणु० प० वे० अतरदोवम मणु० प० । आ हेमगवन् गर्भमनुष्यने वैक्रियशरीरके तो कर्मभूमिना मनुष्यनेके अकम्मभूमिना मनुष्यनेके
 के अन्तरदोपना मनुष्यने वैक्रिय । नोयमा कम्मभूमिग गथ० मणु० प० वे० नो अकम्मभूमिग गथ० म० प० वे० नो अतरदोव गथ० म० प० वे० । हेगौत
 म कर्मभूमिना गर्भमनुष्यने वैक्रिय अकम्मभूमिना गर्भमनुष्यने पिण वैक्रियशरीरके पिण अन्तरदोपना मनुष्य गर्भजने वैक्रियशरीर । जइ कम्मभूमिग
 ग० म० प० वे० तइ किं पछे जवासाउय कथ० ग० म० प० वे० । जो कर्मभूमिना मनुष्यने वैक्रिय तो स्वागो सख्याता आकखाना घणो मनुष्यने वै०

खेज्ज० गङ्गवक्त्रतियपचिदियतिस्वेउद्वियसरीरे । यदि सखेज्ज० किं जलयरगङ्ग० पचिदियतिस्वेउद्विय-
सरीरे किं थलयरसखेज्ज० गङ्ग० पचिदियतिस्वेउद्वियसरीरे किं खहरसखेज्ज० गङ्ग० पचिदियतिस्वे
उद्वियसरीरे ? गोयमा ! जलयरसखेज्ज० गङ्गपचिदियतिस्वेउद्वियसरीरेवि थलयरसखेज्ज० गङ्गपचिदि-
यतिस्वेउद्वियसरीरेवि खहरसखेज्ज० गङ्गपचिदियतिस्वेउद्वियसरीरेवि । यदि जलयरसखेज्ज० किं
पज्जत्ताजलयरसखेज्ज० गङ्गपचिदियतिस्वेउद्वियसरीरे किं श्यपज्जत्तजलयरसखेज्ज० गङ्गपचिदियतिस्वे
शरीर । यदि सखेपथपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीर किं जलवरगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियग्यो-
निकवैक्कियशरीर किं त्वत्तवर
सपयवपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीर किं खपरसखेपथपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीर ? गीतन । जलवरसखेपथ
पांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीरनपि स्थलवरसखेपथपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीर खचर
सखेपथपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीरनपि । यदि जलवरसखेपथपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिक (मद्यति) यायव्वैक्कियशरीर
किं पयांसगतपथरसखेपथपांयुक्कगज्जव्युरक्कान्तिकपथेन्द्रियवैक्कियशरीर किंनपयांसजलवरसखेपथ (मद्यति) यायव्वैक्कियशरीर ? गीतन । पयां
रीरव्वै पिय श्रपथांगाने नही । कति सुखेज्जवा० पल्लत्तगग० प० ति० वे० । जो खख्याता श्रावणाना गभश्रपचेन्द्रिय तियेव पथांगाने वेक्कियरीरकळी

तइति जनरपल्लत्तनस्यै० ग० थं० ति० वे० । तीसु जलवरपचेन्द्रियने कळीके । थनगरपल्लत्तसखेज्ज जाव सरीरे उहवरपल्लत्तसखेज्ज जाव सरीरे ।
थलवरपचेन्द्रियने वैक्कियरीर कळी किं खेवरपचेन्द्रिय वैक्कियरीरकळी । गोयमा जलयरसखेज्ज जाव सरीरे थलवरसखेज्जजावसरीरे । गीतन
जलपरने पिय यावत् वैक्कियरीर कळी थनवरने पियहुवे । खडगरसखेज्ज जाव सरीरे कति जलवर जाव सरीरे । खचरो पिय वैक्कियरीर कळी
जो स्वामी जलवरने यावत् वैक्कियरीर कळी । तरकिं पल्लत्तजलवर जाव सरीरे थपल्लत्तजलवर जाव सरीरे । तीसु पथांगाने कळीके

त्यादि ॥ वैक्रियशरीर मूलनेदतो द्विनेद एकद्वियपचेद्विभजेदात्, सर्वक्रेद्वियस्य वातकायस्य तत्रापि वादरस्य तत्रापि पर्याप्तस्य शेषस्य चेकि

विणेरडयपचिदियवेउद्वियसरीरे कि पज्जत्तगरयणप्पन्नापुढविणेरडयपचिदियवेउद्वियसरीरे कि अपज्जत्तग
रणप्पन्नापुढविणेरडयपचिदियवेउद्वियसरीरे ? गोयमा । पज्जत्तगरयणप्पन्नापुढविणेरडयपचिदियवेउद्वि
यसरीरेवि अपज्जत्तगरयणप्पन्नापुढविणेरडयपचिदियवेउद्वियसरीरेवि । एवं जाव अहे सत्तमाए दुगउ
नेदो णेयव्ही । जदि त्तिरिक्कजोणियपचिदियवेउद्वियसरीरे कि सम्मुच्छिमपचिदियत्तिरिक्कजोणियवेउद्विय
सरीरे कि गसुवक्कत्तियपचिदियत्तिरिक्कजोणियवेउद्वियसरीरे ? गोयमा ! नो सम्मुच्छिमपचिदियत्तिरिक्कजो
णियवेउद्वियसरीरे गसुवक्कत्तियपचिदियत्तिरिक्कजोणियवेउद्वियसरीरे । जइ गसुवक्कत्तियपचिदियत्तिरिक्क

रमपि अपयत्तारत्तमापूथिथीनैरियकपचेद्वियवोक्कयशरीरम् । एव यावदथ सप्तमापूथिव्या द्विको वेदो ज्ञातव्यो । यदि तिर्यग्योत्तिकपचेद्वि
यवैक्रियशरीर कि सम्मुच्छिमपचेद्वियत्तिरिक्कजोणियसरीरे कि गज्जत्तगान्तिकपचेद्वियत्तियग्योत्तिकवैक्रियशरीर ? गीतम । नो सम्मु
च्छिमपचेद्विशतियग्योत्तिकवैक्रियशरीर गज्जत्तगान्तिकपचेद्वियत्तियग्योत्तिकपचेद्वियत्तियग्योत्तिकवैक्रि

गायमा पज्जत्तगरयणप्पन्नापुढवोनेरडय प० वे० । गीतम पर्याप्तारत्तमभानानारकोने पिण वैक्रियशरीररुवे । अपज्जत्तगरयणप्पन्नापुढवोनेरुं प० पे० ।
अपर्याप्तारत्तमभानानारकोने पिण वैक्रियशरीररुवे । एव जाव अहेसत्तमाणविदग्घोभेदीभाथिवत्वा । इम वासवो दोयपय सत्तमो नरकलगे जाथिवा
जति भते त्तिरिक्कपचेदिय वे० । द्विवे को भगवन् तिर्यस्यपचेदियने वैक्रियशरीररुवे । तदकि सम्मुच्छिमत्तिरिक्कपचेदियवे० गभ्रवक्कत्तियत्तिरिक्कजोणिय
पचेदियवे० । तासु सम्मुच्छिम तिर्यस्यपचेदियने वैक्रियशरीर रुवे कैर्गमल तिर्यस्यपचेद्वियने वैक्रिय । गोयमा नो सम्मुच्छिम प० ति० वे० गभ्रवक्कत्तिय प०
ति० वे० । गीतम सम्मुच्छिमपचेद्विय तिर्यसो वैक्रियशरीररुवे गभ्रवक्कत्तिय तिर्यस वैक्रियशरीररुवे । जति भते गभ्रवक्कत्तियपचेदियत्ति० वे० तदकि ।

सरीरे ना अणुपञ्जात्तयादरवाउ हाडयणुगिदियवेउड्वियसरीरे । जटि पंचदियवेउड्वियसरीरे कि णेरडयपंचि
दियवेउड्वियसरीरे जात्र किं देवपचिदियवेउड्वियसरीरे ? गोयमा ! णेरडयपचिदियवेउड्वियसरीरेवि जात्र
देवपचिदियवेउड्वियसरीरेवि । जटि णेरडयपचिदियवेउड्वियसरीरे कि रयणप्पन्नापुढविणेरडयपचिदियवे
उड्वियसरीरे जात्र किं इहे सत्तमापुढविणेरडयपचिदियवेउड्वियसरीरे ? गोयमा ! रयणप्पन्नापुढविणेरड
यपचिदियवेउड्वियसरीरेवि जात्र इहेसत्तमापुढविणेरडयपचिदियवेउड्वियसरीरेवि । जटि रयणप्पन्नापुढ

कापिकेकण्डियवेउड्वियसरीरे । यदि पंचेन्द्रियवेउड्वियसरीरे कि नैरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे याव त्कि देवपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे ? गो
तम । नैरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरेमपि सावहेवपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरेमपि । यदि नैरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे कि रत्तमप्रापुण्वीनेर
यिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे यावत्किमपि सत्तमापुढविणेरडयपचिदियवेउड्वियसरीरे ? गोतम । रत्तमप्रापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरेमपि
यावत्त सत्तमापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरेमपि । यदि रत्तमप्रापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे किं पयांसरत्तमप्रापुण्वीनेर
यिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरेमपि पयांसरत्तमप्रापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे ? गोतम । पयांसरत्तमप्रापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे

दियवेउड्वियसरीरे इतीतम नारकीपण्वेन्द्रियवेउड्वियसरीरे वावत् देवता पण्वेन्द्रिय वेउड्वियसरीरे । जटि नैरयिकपण्वेन्द्रिय वे० । जो भगवत् नारकीपण्वीरेडुवे
तत्तमि रयणप्पन्नापुढवीने० वे० । तेषु रत्तमप्रापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रिय वेउड्वियसरीरे । जटि किं इहेसत्तमापुढवीनेरयिकपण्वेन्द्रिय वे० । जाले काइं गण्वातनां नरत्तनार
कीने वैक्रिय । गोयमा रयणप्पन्नापुढवीनेरयिकपण्वेन्द्रिय वे० । गोतम रत्तमप्रापुण्वीनेरयिकपण्वेन्द्रिय वेउड्वियसरीरे । जटि किं इहेसत्तमापुढवीनेरयिकपण्वेन्द्रिय वे० । जाले
सातमो नरत्तनानारकीनी पिय वैक्रियसरीरे । जटि नैरयिकपण्वेन्द्रिय वेउड्वियसरीरे । जटि किं इहेसत्तमापुढवीनेरयिकपण्वेन्द्रिय वे० । जाले
सरीरे । तत्तमि पञ्चासत्तमपण्वेन्द्रिय वे० वे० । तेषु पयांसने छे कि । नप्रत्तमपण्वेन्द्रिय वे० वे० । नप्रत्तमपण्वेन्द्रिय वे० वे० । नप्रत्तमपण्वेन्द्रिय वे० वे० । नप्रत्तमपण्वेन्द्रिय वे० वे० ।

यवेउच्चियसरीरे ? गोयमा ! बाउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरे नो अत्राउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरेय ।
 जादि बाउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरे कि सुजमवाउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरे बादरवाउकाइयएगि
 दियवेउच्चियसरीरे ? गोयमा ! णो सुजमवाउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरे बादरवाउकाइयएगिदियवेउ
 च्चियसरीरे । जादि बादरवाउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरे किं पज्जत्तवाउकाइयएगिदियवेउच्चियस
 रीरे अपज्जत्तवाउकाइयएगिदियवेउच्चियसरीरे ? गोयमा ! पज्जत्तवाउकाइयएगिदियवेउच्चिय

यिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे कि सूक्ष्मवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे यादरवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे ? गीतम । नो सूक्ष्मवायुकायिकेके
 न्द्रियवैक्रियसरीरे यादरवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे । यदि यादरवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे कि पर्याप्तयादरवायुकायिकेकेन्द्रि
 यवैक्रियसरीरेमपर्याप्तयादरवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे ? गीतम । पर्याप्तयादरवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियसरीरे नो अपर्याप्तयादरवायु

गिदिय वैक्रियसरीरे तदकि सुहम वाउकाय ए० वे० वायर वा० ए० वे० । जो याउकाय एकेद्रियने वैक्रियसरीरे कछी ती र्खं सूक्ष्मवाउकायना
 एकेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे कि वादर वाउकाय एकेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे । गोयमा नोसुहुमगा० ए० वे० । गीतम सूक्ष्मवायुकारवा एकेद्रियने वैक्रि
 यसरीरेनहो । वायरवा० ए० वे० । वादरवायुकाय एकेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे । अतवादरवाउकाय एगिदियते० । जो वादरवायुकाय एकेद्रियने वैक्रि
 य । तदकि पज्जत्तवायर वा० ए० वे० । तौसु पर्याप्ता वादरवायुकायने एकेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे । अपज्जत्तवायरवा० ए० वे० । अपर्याप्ता वादरवा
 उकाय एकेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे । गोयमा पज्जत्तवायरवा० ए० वे० । हेगीतम पर्याप्तावादरवायुकाय एकेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे । नो अपज्जत्तवायर
 वा० ए० वे० । अपर्याप्तावादरवाउकाय एकेद्रियने वैक्रियसरीरे नहो । अति भते पचिदियवेउच्चियसरीरे तदकि नेरइयपचिदिय वे० । इवे भगवन्
 पचेद्रिय वैक्रियसरीरेनारकी पचेद्रियने वैक्रियसरीरेरुवे । जावकि देवपचेद्रियवे० गोवसा नेरइयपचेद्रियवे० जाव देवपचेद्रियवे० । जालगे देवगा पचे

या तदेवमीदृशिकशरीरस्य विषयः सस्थानानि प्रमाणानि धोक्तानि, सम्प्रति तानि क्रमेण वेत्स्यस्यन्निष्पत्सुराह-वेत्तव्यसरीरेण मते । ३

जहन्नेणवि उक्तोसेणवि च्यंगुलस्स च्यसखेज्जडन्नागं । सम्मुच्छिमाण जहन्नेणवि उक्तोसेणवि च्यंगुलस्स च्यसं
खेज्जडन्नागं । गप्पवक्कतिवाणं पज्जत्ताणय जहन्नेणं च्यंगुलस्स च्यसंखेज्जडन्नाग उक्तोसेणं तिसि गालयाइं ।
वेत्तव्यसरीरेण मते ! कतिविहे पसत्ते ? गोयमा दुविहे पसत्ते, तज्जहा-एगिटियवेत्तव्यसरीरेय पंचिं
दियवेत्तव्यसरीरेय । जइ एगिटियवेत्तव्यसरीरे कि वाउकाइएगिटियवेत्तव्यसरीरे च्यवालकायएगिटि

गत्तंएहत्तिकाणा पर्याप्ताना च जघन्येनाहुत्तस्यासत्तयेज्जनागः । उत्तपत्तसीणि गन्वुत्तानि । वेत्तव्यसरीरे मत्त । कतिविध मत्त ?
गीतम । द्विविध मत्त तद्यथा-एकेन्द्रियवेत्तव्यसरीरे च पञ्चेन्द्रियवेत्तव्यसरीरे च । यद्येकेन्द्रियवेत्तव्यसरीरे किं वायुकायिकेकेन्द्रियवेत्त
व्यसरीरे श्वायुकायिकेकेन्द्रियवेत्तव्यसरीरे ? गीतम । वायुकायिकेकेन्द्रियवेत्तव्यसरीरे नो श्वायुकायिकेकेन्द्रियवेत्तव्यसरीरे । यदि वायुका

मांटी श्वगगहना कशी । गोयमा लहणेण अगुलच्छ मसं ७० तिण्णिगत्तयाइ । हेगोतम जघन्ये अगुलतो असख्यातमाभाग ७० ३ गाल । अपज्जस
गाण जइणेण ७० अगुलस्स असखिज्जडभाग । अपर्याप्ताने जघन्ये पिण ७० पिण अगुलतो असख्यातमाभाग । समुत्तमाय जइखेणवि ७० अंगुलज्ज
मसं । सम्मुच्छिमाने जघन्ये ७० अगुलतो असख्यातमाभाग । गम्भवक्कतिवाण पज्जत्तगाण जइ० अगुलस्य असं । गम्भं च पर्याप्तानामनुयते जइन्ने अगुन
तो असख्यातमाभाग ७० ३ गाल । वेत्तव्यसरीरेण मते कतिविहे प० द्विवे वेत्तव्यसरीरेनो हेमगत्तन् केतलाभद कत्ता । गोदमा दक्खिणं ० तं० । हेगो
तम दीयभद कत्ता तेकइहे । एगिटिय वेत्तव्य सरीरेय पचिदिय वे० । एकेन्द्रिय वेत्तव्यसरीरे पचेत्तव्य वेत्तव्यसरीरे । जइ एगिटिय वेत्तव्यसरीरे त
इ कि वाउकाय एगिटिय वे० श्वाउकाय एगिटिय वे० । लो एकेन्द्रिय वेत्तव्यसरीरे तेकिम वाउकाय एकेन्द्रियनो इवे वीका एकेन्द्रियनेपुवे । गोयमा
वाउकाय एगिटिय वेत्त० नो श्वाउकाय एगिटिय वेत्त० । हेगोतम वायुकायने एकेन्द्रिय वेत्तव्ये पिण वीजानं एकेन्द्रिय नही । जइ वाउकाय ए

या तदेवमीदारिकशरीरस्य विषय सस्थानानि प्रमाणाणि धोक्तानि, सम्प्रति तानि क्रमेण वैक्रियस्याग्निोद्यत्सुराह-वेउद्वियसरीरेण मते । इ

जहन्नेणवि उक्तोसेणवि अंगुलस्स अस्सखेज्जडभागं । सम्मुष्किमाणं जहन्नेणवि उक्तोसेणवि अंगुलस्स अस्स
खेज्जडभागं । गम्भवक्कांतियाण पज्जात्ताणय जहन्नेण अंगुलस्स अस्सखेज्जडभागं उक्तोसेण तिस्सि गाउयाइं ।
वेउद्वियसरीरेणं नते ! कतिविहे पसत्ते ? गोयमा दुविहे पसत्ते, तजहा-एगिटियवेउद्वियसरीरिय पंचिं
दियवेउद्वियसरीरिय । जइ एगिटियवेउद्वियसरीरे कि वाउकाइयएगिटियवेउद्वियसरीरे अवाउकायएगिटि

गन्धुइकान्तिक्काना पर्याप्तकाना च जप्येनाहुलस्यासस्येवज्जागं । उतकपंतस्त्रीणि गन्धूतानि । वैक्रियशरीर प्रदत्त । कतिविध प्रदत्त ?
गौतम । द्विविध प्रदत्त तद्यथा-एकेन्द्रियवैक्रियशरीरं च पञ्चेन्द्रियवैक्रियशरीरं च । यद्येकेन्द्रियवैक्रियशरीरं कि वायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रि
यशरीरं अवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियशरीरं ? गौतम । वायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियशरीरं नो अवायुकायिकेकेन्द्रियवैक्रियशरीरं । यदि वायुका

माटी अवागाहना कही । गोयमा जहणेण अंगुलस्स अस्सं उ० तिण्णगाउयाइ । हेगौतम जसन्ने अंगुलतो असख्यातभोभाग उ० ३ गाज । अपज्जत्ता
गाण जहणेण उ० अंगुलस्स अस्सखिज्जडभाग । अपर्याप्ताने जसन्ने पिण उ० पिण अंगुलतो असख्यातभोभाग । समुत्तुहमाण जहणेणवि उ० अंगुलस्स
अस्सं । सम्परिणमनेजसन्ने उ० अंगुलतो असख्यातभोभाग । गम्भवक्कतियाण पक्कत्तगाण जह० अंगुलस्स अस्सं । गर्भज अपर्याप्ताननुयत्ते जसन्ने अंगुल
तो असख्यातभोभाग उ० २ गाज । वेउद्वियसरीरेण मते कतिविहे प्र० द्विवे वैक्रियशरीरतो हेमूअवन् केतनाभेद कक्षा । गोयमा दुविहे पं० त० । हेगौ
तम दोयभेद कक्षा तेकहत्ते । एगिटिय वेउद्विय सरीरेण पचिदिय वे० । एकेद्रिय वैक्रियशरीर पचेद्रिय वैक्रियशरीर । जइ एगिटिय वेउद्वियसरीरे त
इ नि वाउकाय एगिटिय वे० अवाउकाय एगिटिय वे० । जो एकेद्रिय वैक्रियशरीर तेकिम वाउकाय एकेद्रियनो हवे वीजा एकेद्रियनेहवे । गोयमा
वाउकाय एगिटिय वेउ० नो अवाउकाय एगिटिय वेउ० । हेगौतम वायुकायने एकेद्रिय वैक्रिय हवे पिण वीजानि एकेद्रिय नही । जइ वाउकाय ए

गारुमान योजनसहस्र चतुष्यदस्थलधराणा पट्गठयुतानि, सर परिषपस्थलधराणा योजनसहस्र, मृगपरिषपस्थलधराणा गठ्यतपृथक्, पक्षिणा धनु पृथक्, तथा सम्बुद्धिमाना चलधराणामुत्कथंयत शरीरावगाहनाया प्रमाद्य योजनसहस्र, चतुष्यदस्थलधराणा गठ्यतपृथक्, पक्षिणा धनु पृथक्, सर परिषपस्थलधराणा योजनपृथक्, मृगपरिषपस्थलधराणा च धनु पृथक्निति उक्त त्रियक्ष्णखेत्रिद्यीटारिकशरीरावगाहनामान इदानीं मनुष्यपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीरावगाहनामानमाह-मनुष्योरालियशरीरस्वामित्वादि ॥ कथं नर त्रीति गठ्यतानि देवकुर्वाद्येव

तत्तीयजोयणसहस्र गाडपुहत्तनुयपरि धणहेपुहत्तचपस्कीसु । जोयणसहस्रगाडय पुहत्त तत्तीयजोयणपुहत्त । दोरहधणहपुहत्त सम्बुद्धिमेहोतिउच्चत्त ॥ २ ॥ मणुरसोरालियसरीरस्सण जते । के महालिया सरीरो गाहणा पणत्ता ? गोयमा । जहन्तेप अगुलस्स अस्संजडनगे उक्कोसेण तिननि गाडयाड । अ्यपज्जज्ञाण

जनसहस्रम् । गठ्यतपृथक् मृगपरि धनु पृथक् चपस्त्रिपु ॥ १ ॥ योजनसहस्रगठ्यत पृथक् ततययोगमपृथक्म् । द्वयोधनु पृथक् सम्बुद्धिमे प्रवति उद्यत्म् ॥ २ ॥ मनुष्यौदारिकशरीरस्य प्रदत्त । कियत्सहती शरीरावगाहना प्रज्ञता ? गोयम । जपत्येनाङ्गुलस्यासत्येयज्ञान मुरकपंतस्त्रीणि गठयुतानि । अययामकाना जपत्येनाप्युरकपंतोप्यङ्गुलस्यसगयेयज्ञान ।

दि ० धनुषपुहत्त इनाथो सपणणगाहो । सम्पूरुम ३ ने ० धनुषपृथक्त्वे ए सशश्रीगाद्या कइहे—जोयणसहस्रकगाडयाः तरीनजोयणसहस्र गाडयपुहत्तमने धनुषपुहत्तचपक्कोस । १ । एकोद्वियने हजारोजन त्रियेष पंचेन्द्रिगनां चौपट थलचरने ६ गाड त्रिधारपछो सरपरने ३ जारगोन भुजपरने गाड पृथक्त्वे पछोनो धनुष पृथक्त्वे इवे १ ॥ जोयणसहस्रगाडयपुहत्ततत्तीयजोयणपुहत्त । दोरहत्तुषपुहत्त सम्बुद्धिमेहति उचत्त ॥ २ ॥ सरपरिसपंते गंजन पृथक्त्वे सम्बुद्धिम पयागा चौपटने गाडपृथक्त्वे वलो गाडपृथक्त्वे सरपरिसपंते भुजपरने पचोने धनुषपृथक्त्वे सम्बुद्धिमती अवगाहना कइी ॥ २ ॥ मनुष्योरालिय सरीरेण भते के महालिया सरीरोगाहणा प० । दिने मनुष्य औदारिकशरीरेने हेभगवन् केतकी

सहस्र, समूच्छिंसेपु योजनपथक, सुखपरिषथेयोपिकेपु गन्धुत्तातेपु च गय्युत्पथक, समूच्छिंसेपु यनुपुयज, रापरिपेपिकेपु गन्धुत्ता
 तेपु समूच्छिंसेपु च सर्वेपु स्थानेपु बन्नु पृथक, छत्रेमे सग्रहगाये-जोयणवदसमित्यादि ॥ गन्धुत्तात्ताता जतपरगाग मुदरपंथ' अरीराय

असुरोज्जडजाग उक्कोसेण वारसजोयणाइ । एव सत्वत्यत्रि अुपजस्तमाणं अुगुलस्त अुसुरोज्जडजाग जड
 न्तेणत्रि उक्कोसेणत्रि । पज्जहगाण जहेव उरालियन्त उहिरस्त । एवं तेइद्वियाण तिननि गाउयाइं चउ
 रिद्वियाण चत्तारि गाउवाइ पचिदियतिरिक्कजोणियाण उक्कोसेण जोयणसहस्र ३ । एवं समुच्छिमाण ३ ।
 गज्जवक्कतियाणवि ३ । एवचेव णवत्तं जेडो ज्ञाणियथो । एव जलयराणवि जोयणसहस्रं णवत्तं जेडो ।
 थलयराणवि णवत्तं जेडो उक्कोसेण त्ता गाउयाइ, पज्जहाणवि एवचेव ३ । समुच्छिमाणं पज्जत्ताण य

वीन्द्रियाणा त्रीण गय्युत्ताति, पतुरिन्द्रियाणा चत्तारि गय्युत्ताति, पथेद्वियतियंयोनिजानामुत्कपंतो योपनसदत्तम् ३ । एव समूच्छिंसा
 णा ३ । गन्धुत्तात्तात्ताता ३ । एव चैव नयको जेडो प्रजितय । एव जतपरगागामपि योपनसहस्रं नयको जेडो । स्थलपरागामपि नय
 को जेड उरनपंथ पट्गय्युत्ताति, पर्याप्तकानामपेय चैव ३ । समूच्छिंमाणं पर्याप्तकाना चोत्कपंतो गय्युत्तपुयत्तम् ३ । गन्धुत्तात्ताति

तिलि गाउवाइ चहरिदियाय चत्तारिगाउवाइ पचिदिय तिलिक्कोषियाय । इम तेद्वियतो तोनगाउ चोद्वियतो ३ गाउ पथेद्विय तियंयते । इ
 कोसेण जोयणसहस्र ३ एव समुच्छिमाणं ३ गभयक्कतियाणवि ३ एवचेव नवथोभेथो भावि । इरकटपथो मयस्योजन यगाएना २ इम गय्यु
 च्छिंसेपु गभंजेने विप इमडोळ नवभेद कटिवा एव जसयराणवि जोगपसदस नवथोभेथो भावि । इम जसपरने मयस्योजनो यवगाएना ३
 वे ८ भेद । एव जसगराणवि उक्कोसेण ज्ज गलयाइ पज्जत्ताण एवचेव । इम जसपरना ८ भेद परकट ३ गाउको यवगाएना पर्याप्ताने इमडोळ
 जाथवी । समुच्छिमाणं पज्जत्ताण ए० गाउय पुट्ट ३ । समूच्छिंसेपु पर्याप्ताने ८० गाउ इथत्ता इवे । गभाथ दिगाय ७० ए गाउगाइ एवं पञ्चस

एव वनस्पतिकारिकायिकानामपि च सूत्राणि, नवरसौषधिक वनस्पतिसूत्रे श्रीपिकवनस्पतिपर्याप्तकसूत्रे वादरसूत्रे वादरपर्याप्तसूत्रे अपत्यतीतुलासहस्र
यथाग वरकर्मत सातिरेक योजनसहस्र तच्च वदननालाद्यपिहृत्य वेदितव्यं अपेयु तु जघन्यत वरकर्मपतीवानुलासस्येयजाग, द्वित्रिचतुरिन्द्रिया
या प्रत्येक त्रीणि २ सूत्राणि तद्यथा-शौषिकसूत्रमपर्याप्तसूत्रं च तत्रौषिकसूत्रे पर्याप्तसूत्रे च द्वीन्द्रियाणामुत्कर्षतो द्वादशयोजनानि, श्रीन्द्रियाणा
त्रीणि गध्यन्तानि, धतुरिन्द्रियाणा चत्वारि गध्यन्तानि, अपर्याप्तसूत्रे तु जघन्यत वरकर्मपतीवानुलासस्येयजाग, तथा सामान्यतस्त्रियं ग्पञ्चोन्द्रिया

काड्याणपि । तेउकाड्याणपि वाउकाड्याणपि । वणस्सइकाड्यउरालियसरीस्सणं भते ! केमहालिया
सरीरोगाहणा पयत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अगुलस्स अस्सत्तेज्जइजाग उक्कोसेण सातिरेगं जौयणसहस्स ।
अपज्जात्ताण जहखेणपि उक्कोसेणपि अगुलस्स अस्सत्तेज्जइजागं । पज्जात्ताण जहखेण अगुलस्स अस्सत्ते

रीरस्य नदन्त । कियन्महती शरीरावगाहवा प्रक्षप्ता ? गौतम । जघन्येनाहुलस्यावरयेय ज्ञागमुत्कर्मत सातिरेक योजनसहस्रं । अपर्याप्त
दाना जघन्येनाप्युत्कर्षतोप्यहुलस्यावरयेय ज्ञागम् । पर्याप्तकाना जघन्येना गुलस्यावरयेय ज्ञागमुत्कर्षतं । सातिरेक योजनसहस्रम् । वाद
राणा जघन्येनागुलस्यावरयेयज्ञागमुत्कर्षतो योजनसहस्रं सातिरेक । पर्याप्तकानामप्येत्येव । अपर्याप्तकाना जघन्येनाप्युत्कर्षतोप्यहुलस्या

कसौ । गौयमा जहखेण अगुलस्स असखिज्जइभागं व० सातिरेग जावणसहस्रं । हेगौतम जघन्ये अगुलनो असत्थातमीभाग वरकर्मते भाभेरो योजन
सहस्र पर्याप्ताने । अपज्जात्ताण जहखेणपि व० अगुलस्स असखिज्जइभागं । अपर्याप्ताने जघन्ये वरकर्मते पिण अगुलनो असत्थातमीभाग । पज्जात्ताग
इत्त वादने । जइ० अगुलस्स अस० । जघन्ये अगुलनो असत्थातमीभाग वरकर्मते भाभेरो योजन स
हस्र योजनसहस्र भाभेरो पर्याप्ताने पिण इमहीज पर्याप्ताने । जहखेण व० अगुलस्स अस० । जघन्ये पिण वरकर्मते पिण अगुलनो असत्थातमीभाग । वरक

एव वनस्पतिकार्यकानामपि च सूत्राणि, नवरभौषिक वनस्पतिसूत्रे श्रीपिकवनस्पतिपर्याप्तसूत्रे वादरसूत्रे वादरपर्याप्तसूत्रे अपत्यतोमुलाचक्षु
 यत्राग उत्कर्षत सातिरेक भोजनसहस्र तच्च षट्पनालाद्यधिकृत्य वेदितव्यं अप्येपु तु जघन्यत उत्कपतोवाहुलासत्येयनाग, द्वित्रिचतुरिन्द्रिया
 णा प्रत्येक त्रीणि २ नूत्राणि तद्यथा-शौषिकसूत्रमपर्याप्तसूत्रं च तत्रौषिकसूत्रे पर्याप्तसूत्रे च द्वीन्द्रियाणामुत्कर्षतो द्वादशभोजनानि, त्रीन्द्रियाणा
 शीणि गृह्यन्तानि, चतुरिन्द्रियाणा चत्वारि गृह्यन्तानि, अपर्याप्तसूत्रे तु जघन्यत उत्कपतथाहुलासत्येयनागः, तथा सामान्यतस्त्रियंगुष्विन्द्रिया

काडयाण्यपि । तेउकाडयाण्यपि वाउकाडयाण्यपि । वणस्सइकाडयउरालियसरीररसण अंते ! केमहालिया
 सरीरोगाहणा पसत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अगुलस्स अस्सखेज्जइजाग उक्कोसेण सातिरेग जोयणसहरस्स ।
 अण्णत्ताण जह्सेणपि उक्कोसेणपि अगुलस्स अस्सखेज्जइजाग । पज्जत्तगाण जह्सेण अगुलस्स अस्सखे
 रीरस्स जदन्त । कियन्महती वारीरावगाहत्ता प्रचत्ता ? गीतम । जपयेनाहुलस्यासख्येय प्रागमुत्कर्षत सातिरेक योजनसहस्रं । प्रपयांस
 काना जपयेनाप्युत्कर्षतोप्यहुलस्यासख्येय प्रागम् । पर्याप्तकाना जपयेना गुलस्यासख्येय प्रागमुत्कर्षत. सातिरेक योजनसहस्रम् । वाद
 राणा जपयेनागुलस्यासख्येयनामुत्कर्षतो योजनसहस्र सातिरेक । पर्याप्तकानामप्येव च । अपर्याप्तकाना जपयेनाप्युत्कर्षतोप्यहुलस्या
 कको । गोयमा जह्सेण अगुलस्स असखिज्जइभागं ४०. सांरेग जायणसहरस । हेभौतय जघन्ये अगुलनो असख्यातभोगं ४४कटे भांभेरो योजन
 सहस्र पर्याप्तानि । अपज्जत्तगाण जह्सेणपि ४०. अगुलस्स असखिज्जइभागं ४०. अपर्याप्तानि जघन्ये ४४कटे पिण अगुलनो असख्यातभोगं । पज्जत्तगा
 णा जह्सेण अगुलस्स असखेज्जइभागं ४०. सांरेग जायणसहरस वायराण । पर्याप्तानि जघन्ये अगुलनो असख्यातभोगं ४४कटे भांभेरो योजन ४
 इत्त वादरने । जहं अगुलस्स अस० । जघन्ये अगुलनो असख्यातभोगं । उक्को. जायणसहरसं सातिरेग पज्जत्तगाण एवचैव अपज्जत्तगाण । ४४क
 ट योजनसहस्र भांभेरो पर्याप्तानि पिण इमहौज अपर्याप्तानि । जह्सेण ४०. अगुलस्य अस० । जघन्ये पिण ४४कट पिण अगुलनो असख्यातभोगं । ४४क

नि तदेव सुक्तात्योदारिकर्जदाना संस्थामानि, सांस्मृतमवगाहनामानमाह-उरालिबस्व जते । इत्यादि ॥ श्रीदारिकस्य पपत्यतोवगाहना ज मुलावस्वप्राग सुचोत्पत्तिप्रथमसमये पृथिवीकायिकादीना ता ब्रह्मावस्था सत्कर्मत सातिरेक योजनसहस्रमेया तवजसमुद्रगोतीर्यादिसु पद्य नासाद्यपिक्रमावस्थातव्या, अन्वयेतावत् श्रीशारिकचारीरस्यास्रजवात्, स्वमेकोन्द्रियसूत्रेपि, तथाषाह-एगिदिद्यतरालियस्स एवचेष जहा उद्विह्य रयइति ॥ पृथिव्यपतेलीवायुना सुक्ताका वादराबा प्रत्येकपर्याप्तानामपर्याप्ताना श्रीदारिकचारीरस्य जपत्यत उत्सर्पतथावगाहना अदुलाचस्येय ज्ञाग प्रत्येक नव सूत्राणि तेषा श्रीपिकसूत्र मीपिकपर्याप्तसूत्र तथा सुक्लसूत्र सूक्ष्मपर्याप्तसूत्र सूक्ष्मपर्याप्तसूत्रमेवं वादरेपि युञ्जिष्यति,

व जहा उद्विह्यस्स । पुढविक्रायएगिदिद्यतरालियसरीरस्सणं जते ! के महालिया पुच्छा, गोयमा ! जह त्नेणवि उक्कोसेणवि इगुलस्स अंखेज्जइजाग । एवं अपज्जत्तयाणवि पज्जत्तयाणवि । एव सुज्जमाण पज्जत्तापज्जत्ताण । वायरणं पज्जत्तापज्जत्ताणवि । एव एसो नवज्जेत्तं जहा पुढविकाइयाणं तहा अ्याउ

र्षतोप्यद्भुलस्यासस्वपन्नाग । एवमपर्याप्तकानामपि पर्याप्तकानामपि । एव सुक्ताबा पर्याप्तपर्याप्तकानामपि पर्याप्तपर्याप्तका नाम् । एवमेप नवको जेदो यथा पृथिवीकायिकाना तथापृकायिकानामपि । तेजस्कायिकवायुकायिकानामपि । वनस्पतिकायिकीदारिकश दो । गोयमा जइशेषवि उ० अगुत्तञ्च असखिल्लःभाग एव पज्जत्ता पज्जत्ताएव सुहुमाए पज्जत्ता पज्जत्ताएव वायरण पज्जत्ता पज्जत्ताएपि एववेत्त । हेगौतम जवत्वे पिच उट्टट्ट पिण अंगुलनो एसस्सार्तमोभाग इम पर्याप्ता अपर्याप्ता पिण पृथिवीकायने इम सूक्ष्मपर्याप्ताने इमहीज ज्जा एधो इम वाटर पुढ्वी पर्याप्ता अपर्याप्तानो पिण ए ८ भेत्त इमहोज । एवं एवो नवज्जेत्तं जहा पुढ्वीकाइयाणं तहा आउक्काइयाणवि तेउक्का इयाण वाउक्काइयाणवि भाषि० । इमः पृथिवीकायने तिमहोज तिम अक्कायने पिण वाविवो तेज्जकायने पिण इमहीज ज्जाए वे । नपस्सःकाइ उरालियसरीरस्सणं मते केमइयाणिया सरीरोगाइया प० । वनस्पतीकाय श्रीदारिकस्यरोरनी हेमअन्त् केतलीमेतो अजगाइना

एवमुक्तेन प्रकारेण सामान्यत स्तिर्यक्पक्षेन्द्रियाणांभिव पर्याप्ताना मपर्याप्ताना च प्रत्येक मूत्र यक्त्य तदेवमेतानि मूत्राणि यद्यमेय च ज्ञानान्य
तः समूर्च्छिमतिर्यक्पक्षेन्द्रियाणामपि मूत्राणि यक्तव्यानि, नवर-ते-हे-तु-दुक्तसंस्थानवस्थितमिति यक्तव्य, समूर्च्छिमाणामपिशेषेण सर्वेषामपि दुक्त
संस्थानप्रावात्, योनि सामान्यतो गजवतिर्यक्पक्षेन्द्रियाणामपि नवर-ते-पु-ग्रापि मूत्रेषु यद्विषयटापयसिद्धिपत्रतो इत्यादि यक्तव्य, गर्भेषु च
मधतुरस्तादिस्थानानामपि सम्भवात्, तदयमेतं सामान्यत स्तिर्यक्पक्षेन्द्रिययया नय आलापका अनन्य क्रमेण जलपरनिर्यक्पक्षेन्द्रियाणा
सामान्यत स्थलधराणा चतुष्पदस्थलधराणा मूत्रपरिसंस्थलधराणा प्रलपरिसंस्थलधराणा यथरतियरूपेन्द्रियाणां च प्रत्येक नव २ मूत्राणि य
क्तव्यानि, सर्वेषु मूत्राणि तिर्यक्पक्षेन्द्रियाणां त्रिपट्टि ६२ मूत्राणि, मनुष्याणां नव सर्वत्र समूर्च्छिमेषु दुक्तसंस्थान च यत्नव्यगति अत्रयकपि संस्थाना

मा ! जक्रसंठाणसठिया प० । उरालियसरीरस्सण जते ! केमहालिया सररीगाहणा पं० ? गीयमा !
जहन्तेण अगुलस्स अ्सखेजाडजाग उक्कोसंण सातिरेग जोयणसहस्स । एगिदियउरालियस्सवि एवचं

श्रीदारिकगरीरस्य जदत्त । कियल्लइती शरीरावगाहना मप्रसा ? गीतम । अपन्येनाङ्गुनस्यावभयेय जागमुदरुपंत सातिरेक योपनसइत्तम्
यकंन्त्रियीदारिकस्याप्येव चैव यथीचिकस्य । पृथिवीवायिकेन्द्रियीदारिकगरीरस्य जदत्त । कियणमहत्तो पृच्छा, गीतम । जपयंयेनाप्पुरक
पपयोंता पिय इमहोव जालिबो इमहोव । समइम मपुष्पाव पुष्पा । समइम मजुयनी मय । गोवमा दुदुवठाप वठिया पं० । इगीतम दुदु
खसंखानवहो । उरालियकरीरस्स मते केमहालिया सररीगाहणा पं० । श्रीदारिकगरीरतो इमगवन् केतसोमोतो पयगाहना कइी । गो
यमा जइयेव अगुलस्य असंगिज-भाग व० । इगीतम जइयेव अगुलस्य असाप्यातमोभाग वपजता । सारंग वायव्यवह्व पगिटिय उरालियसरो
रस्य एवचं वदना मोदियाण । उरकट भाकरो वांजनवह्व कमजटि उक्केटिय श्रीदारिकगरीरतो पिय इमहोव जिम योवमम् । उठयोकाय वणि
दिय उरालियकरीरस्स मते क नहाविगा सररीगाहणा पं० । इदं पृथिवीवाय एक्केटिय श्रीदारिकगरीरतो इमगवन् केतसोमोतो पयगाहना क

न तदसादीति, अमरेच साधीति पठति तत्र शाची प्रवचनवेदिन ज्ञात्मलीवरुमाचलते तत्याधीय यत्संस्थान तत्साधिसंस्थान, यथा ज्ञात्मलीत
 रो. रक्त्य कायहसतिपुष्टसुपरितना तदनुरूपाननहाविज्ञालता तद्दस्यापि संस्थानस्याधोजाग परिपूर्णोन्नवत्युपरितनजागस्तु नेति, तथा यत्र
 विरोगीय इक्षुपादादिक च यथोक्तप्रमाखलसुणीपित उरउतरादिच मरुत तत्कुक्ष संस्थान, यत्र पुनरुउदरादिप्रमाखलसुणीपित इक्षुपादादि
 क हीन तद्दामनसंस्थान, यत्रतु सर्वेप्यवयवा. प्रमाखलसुणीपरिच्यष्टा क्त्तुदुग्धसंस्थान समास सर्वत्रापि पूर्ववत् ॥ एव पञ्जात्तापञ्जात्ताणवि इति ॥

सुतावि णवर सस्रत्य समुच्छिमा झंठसंठाणसंठिया ज्ञाणियह्या इयरे ठसुचि । मणुस्सपंचिटियउरालिय
 सररीण ऋते । किं सठाणसंठिए प० ? गीयमा ! ठांछिहसठाणसंठिए प० त०-समचउरसे जाव झंठि ।
 पञ्जात्तापञ्जात्ताणवि एवचेत्र । गङ्गत्रह्णंतियाणवि एवचेत्र । पञ्जात्तागणवि । समुच्छिमाणं पुच्छा, गीय

भुगपरिसर्पस्रस्रचरणामपि एव सचराणामपि नव सूत्राणि । नवर सर्वत्र समुच्छिमा दुग्धसंस्थानसंस्थिता प्रणिशय्या इतरेषु पटपू अपि
 मनुष्यपंचेद्विगोदारिकशरीर ऋतत् । किं सस्थानसंस्थितं ? गीतम । पशुविषसंस्थानसंस्थित तद्यथा-समचतुरस्र यावद्दुग्धम् । पर्याप्ता
 पर्याप्तकानामप्येय चैव । गर्भप्लुट्क्रांतिकानामप्येय चैव । पर्याप्तकानामपि । समुच्छिमाना पुच्छा, गीतम । दुग्धसंस्थानसंस्थिता प्रद्युष्टा

एवा धीपद यलचर पिण । ३ उरपरिस्रस्र यनगराणि ३ भुगपरिस्रस्रस्रयराणि ३ एव सचराणि षवर सवत्य । उरपरिस्रस्रं यलचरभुज
 परिस्रस्रं प्रकचर इम सचरना पिण ६ सूय चाजिवा ए विषेप । समुच्छिमा दुग्धसठाणसंठिया भा० इयरे छ सठाणा भा० । समुच्छिमेने इग्धसत्या
 न हीन कश्चिवा वीजाने ३ कश्चिवा । मणुस्स पंचिटिय उरालियमरीरेण भते किं सठाणसंठिए प० । मनुष्य पंचेद्विय श्रौदारिकशरीरानो हेनमवन्
 किंवा मस्थान कश्चो । गीयमा कश्चिच्च सठाणसंठिया प० तं० । हेगीतम एप्रकारे संस्थानसंस्थित कश्चा ते कश्चै-समचउरसे जाव दुग्धे पञ्जात्ता प
 ज्ञात्ताणवि एवचेत्र । समचउरस्र जावनी दुग्धक पर्याप्ता अपर्याप्ता पिण इमहीज । समचउरस्रसंस्थिता पञ्जात्तापञ्जात्ताणवि एवचेत्र । गर्भज पर्याप्ता

नाजेरपक्षात्प्रागेन यथोक्तप्रमाणलक्षणैर्न वर्तते इति सादि यद्यपि नवै शरीरमादिना सप्त वर्तते तथापि चादित्वविशेषणान्मथानुपपत्त्या वि
 शिष्टएव प्रमायलक्षणोपपत्त्य आदिरिच लभ्यते, तत उक्त-यथोक्तप्रमाणलक्षणैर्न इदमुक्त प्रवर्तते यत्स्थान नाजेरच प्रमायोपपत्त सुपरिच ही

लियसरीरेण ज्ञते ! किसंठाणसठिपु पयत्ते ? गोयमा ! अस्मिहसंठाणसठिपु प०, तजहा—समचउरसे
 जाव ऊहे । एव पज्जासापज्जाणावि । सम्भुच्छिमजलयरा ऊरुसंठाणसठिया । एतेसिचेव पज्जासापज्जासा
 णवि । एवचेव गप्पवक्कतियजलयरा अस्मिहसंठाणसठिया एव पज्जासापज्जासाणवि । एव थलयराणवि णव
 सुत्ताणि । चउप्पयथलयराणवि उरपरिसप्पयथलयराणवि नुयपरिसप्पयथलयराणवि एव खहयराणवि णव
 रिक्कशरीर जदत्त । कि सत्थानसत्थित ? गोतम । पट्टिपसत्थानसत्थित तद्यथा-समचतुरस्र यावद्दुग्गलसत्थानसत्थित । एव पयोसापयोसि
 कानामपि । सम्भुच्छिमजलाघरा दुग्गलसत्थानसत्थिता । एतेषा चैव पयोसापयोसिकानामपि । एव चैव गप्पवक्कतियजलयरा पट्टिपस
 स्थानसत्थिता । एव पयोसापयोसिकानामपि । एव स्थलचराणामपि नव सुत्ताणि, यत्तुपटस्थलचराणामपि उर परिसप्पयथलयराणामपि

सुत्तान् सूल्लपयोसाणाम् सूल्लपयोसाणाम् वाटरपयोसाणाम् ८ इम ८ सत्था । जलयरपयचिदिय तिरिक्कलोपि
 व योरालियसरीरेण भते कि सठिपु प० । जलयर पञ्चेन्द्रिय तिर्ययोनिक्क औदारिकगरोर इभनवन् विचो संस्थान कच्छी । गोयमा अविह्व कठाप
 सठिर पणत्ते तजहा । हेतोतम छभेदे सत्थान कक्षा ते कच्छे—समचरे जाव दुग्गलसंठाण सठिपु प० एव पज्जासा अपज्जासाणवि । समचोरयमा हु
 एउक्कसत्थान पण्णोव ६ पयोसा अपयोसाणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयराणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयराणवि प्रय कच्छी
 चचरभो प्रय ऊएभेदे च्छान्न कक्षा इम पयोसा अपयोसाणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयराणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयराणवि प्रय कच्छी
 चचरभो प्रय ऊएभेदे च्छान्न कक्षा इम पयोसा अपयोसाणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयराणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयराणवि प्रय कच्छी

न तत्सादीति, प्रपरेष साचीति पठति तत्र शाची प्रवचनवेदिन शास्मलीतरुमाचक्षते तस्याधिव यत्सस्यान तत्साधसस्यान; यथा शास्मलीत
 री, रक्त्य कायहमतिपुष्टमुपरितना तदनुरूपानमहाविज्ञानता तद्दस्यापि सस्यानस्थाघोत्राग परिपूर्णात्रव्युपरितनत्रागलु नेति, तथा यत्र
 शिरीषीय इक्षुपादादिकं च यथोक्तप्रमाणलक्षणीयितं सरतरादिच मरुल तत्कुक्ष सस्यान । यत्र पुनरुत्तरादिप्रमाणलक्षणेपेत हस्तपादादि
 क हीन तद्वासनसस्यान, यत्रतु सर्वेष्ववयवा प्रमाणलक्षणपरिचष्टा स्तद्गुणसस्यान समास सर्वत्रापि पूर्ववत् ॥ एव पञ्जतापञ्जताणवि इति ॥

सुतावि णवरं सद्यस्य सम्मुच्छिमा ऊरुसंठाणसंठिया ज्ञानियव्वा इयरे तसुवि । मणुस्सपचिंठियउरालिय
 सरिरेणं नतं ! कि सठाणसठिणु प० ? गीयमा ! त्थिहसठाणसठिणु पं० त०—समचउरसे जाव ऊरि ।
 पजाज्ञापज्जाणवि एवचेव । गप्पवक्कतियाणवि एवचेव । पज्जातगाणवि । सम्मुच्छिमाणं पुच्छा, गीय

मुनपरितर्पस्यसराणामपि एव सवराणामपि नव सूयाणि । नवर सर्वत्र संगुच्छिमा इण्डसस्थानसस्वितता ज्ञानियव्वा इतरेषु पट्पु अपि
 मनुष्यपचेद्रियौदारिकणरीर नदत्त । कि सस्थानसस्थित ? गीतम । पद्धिधसस्थानसस्थित तद्यथा—समचतुरस्त्र यावद्वुहम् । पर्यासा
 पर्याप्तकानामप्येय चैव । गर्जस्युत्कान्तिकानामप्येव चैव । पर्याप्तकानामपि । समुच्छिमाना पुच्छा, गीतम । इण्डसस्थानसस्थिता मद्यसा-

णवा वीपद यतवर पिण । ३ उरपरिषय यलयराणि ३ भुयपरिषययलयराणि ३ एव खड्यराणि एवसुताणि एवर सव्वस्य । उरपरिषयं यपावरमुज
 परिसर्पं यलवर इम सुवरता पिण ८ गुण जायिवा ए वियेप । समुच्छिमा इण्डसठाणसठिया भा० इयरे छ सठाया भा० । समुच्छिमाने इण्डसस्या
 न इण्ड कडिवां वीजानं ६ कडिवा । मणुस्य चचितिय उराणिमरीरेथ भते कि सठाणसठिणु प० । मनुष्य पचेद्रिय औदारिययरीरनी इभगवन्
 किंवा सस्यान कश्चो । गीयमा क्वचिउ सठाणसठिया प० तं० । हेगीतम छप्रकारे सस्थानसस्थित कक्षा ते कक्षे—समचउरसे जाव इण्डे पज्जाता प
 ज्जाताणवि एवचेव । समचउरस जावगे इण्डक पर्याप्ता अपर्याप्ता पिण इमहीज । गप्पवक्कतियाणवि पज्जातापञ्जताणवि एवचेव । गर्भज पर्यारता

विद्युत्प्रकाशानि न यथा क्तप्रमाणलक्षणेन वर्तते इति सादि यद्यपि सर्वं शरीरमादिना सह वर्तते तथापि सादिखविद्येपणान्यानुपपत्त्या वि
 शिष्टेष्वप्रमाणलक्षणोपपन्न आदिरिदं लभ्यते, एत उक्त-ययोत्प्रमाणलक्षणेति' इदमुक्तं प्रवति यत्प्रस्थान नात्रैरय प्रमाणोपपन्न सुपरिच ही

लियसरीरेण जते ! किसंठाणसठिणु पयत्ते ? गोयमा ! बहिहसठाणसठिणु प०, तजहा-समचउरसे
 जाव ऊठि. एव पज्जसापज्जत्ताणवि । सम्भुच्छिमजलयरा ऊठिसठाणसठिया । एतेसिचेव पज्जसापज्जत्ता
 णवि । एवचेव गम्भवक्कतियजलयरा बहिहसठाणसठिया एव पज्जसापज्जत्ताणवि । एव थलयराणवि णव
 सुत्ताणि । चउप्पयथलयराणवि उरपरिसप्पयथलयराणवि नुयपरिसप्पयथलयराणवि एव सहयराणवि णव

रिक्करीर जदत्त । किं वस्थानसंस्थित ? गीतम । पट्टिथसस्थानसंस्थित तद्यथा-समचउरस्य । एव पर्याप्तापर्याप्त
 कानामपि । सम्भुच्छिमजलयरा दुण्डसस्थानसंस्थिता । एतेषा चैव पर्याप्तापर्याप्तकानामपि । एव चैव गम्भवक्कतियजलयरा पट्टिथस
 स्थानसंस्थिता । एव पर्याप्तापर्याप्तकानामपि । एव स्थलयराणामपि तत्र सुत्ताणि, चउप्पयथलयराणामपि उर परिसप्पयथलयराणामपि
 नुयपरिसप्पयथलयराणामपि सूक्ष्मपर्याप्तानाम् सूक्ष्मपर्याप्तानाम् वाटरअपर्याप्तानाम् ८ इम ८ सखा । जलयरपरिचिदिय तिरिक्कजोवि
 व पोपखियसरीरेण भते किं सठिणु प० । जलयर पखेद्विय तिरिक्कजोविकं औदारिकगरोर हेमगवन् विसी सखान कळी । गीयमा छविह सठाण
 सठिणु पणत्ते तजहा । हेगीतम छभेदे सखान कळा ते कहेके-समचउरसे जाव दुहसठाण सठिणु प० एव पज्जत्त अपज्जत्ताणवि । समचौरयमा ह
 एत इम पर्याप्ता पर्याप्ताने । सम्भुच्छिम जलयरा दुहसठाणसठिया प० एतेसिचेव पज्जसापज्जत्ताणवि एवचव । सम्भुच्छिम जलयरतो प्रय कळी
 एण्डकसस्थान एण्डक ६ पर्याप्ता अपर्याप्ताने पिय इमहोव । गम्भवक्कतिय जलयरा छविह सठाणसठिया प० एव पज्जसापज्जत्ताणवि । गम्भज ज
 यचरभो प्रय छएभेदे सखान कळा इम पर्याप्ता अपर्याप्ता पिय । एव थलयराणवि यवसुत्ताणि चउप्यय थलयराणि । इम थलयरना पिय नवसुत्ता जा

। टीका ॥

। ५८ ॥

। ५० ॥

। भाषा ॥

समस्तुरसस्थानसंस्थित' तथा न्यग्रोधपरिमल यस्य तन्म्यग्रोधपरिमलं यथा न्यग्रोध उपारं सधुप्रभाया उच्यते तत सह आदिना न नात्ररुपरि सन्पूर्णमाशमवस्तु न तथा तन्म्यग्रोधपरिमलं, तथा आदिरिशोरेषास्यो नात्ररुपल्लनो देहजागो गृह्यते तत सह आदिना

सम्बुद्धिमतिरिस्कजोणियपचिदियउरालियसरीरेणं ज्ञते ! किसठाणसंठिए पसत्ते ? ऊरुसठाणसंठिए प० एव पज्जातापज्जाताणवि ३ । गम्भवह्णतियतिरिस्कजोणियपचिदियउरालियसरीरेणं ज्ञते ! कि सठाणसंठिए प० ? गोयमा । उद्विहसठाणसंठिए पसत्ते । समवउरसे जाव ऊरुसठाणसंठिए । एवं पज्जातापज्जाताणवि ३ । एवमेते तिरिस्कजोणिया उहियाण नव आलावगा । जलयरपचिदियतिरिस्कजोणियउरा

कपचेन्द्रियोदारिकशरीर जदण । कि सस्थानसंस्थित प्र० ? गीतम । उरुसस्थानसंस्थित प्र० । गय पर्याप्तपर्याप्तकानामाप २ । गजंघुरना त्तिकतियंन्योनिकपचन्द्रियोदारिकशरीर जदन्त । कि सस्थानसंस्थित प्र० ? गीतम । पद्विघसस्थानसंस्थित प्र० । चरवतुरस्त यावट्टुहसंस्थानसंस्थित । एव पर्याप्तपर्याप्तकानामपि ३ । यथामिते तियंन्योनिकमेधिकाना नव आलापका । जलयरपचिदियतिरिस्कजोणियउरा

उरुसस्थान इम पर्याप्तता अपर्याप्तानो पिण जणिषा । समच्छिम तिरिक्त पचिदिय ओरालियसरोरेण भते कि संठिए प० । समच्छिम तिरिक्त पचिदिय उरुसस्थान इम पर्याप्तता अपर्याप्तानो पिण जणिषा । गोयमा इ, उरुसठाणसंठिए प० एव पज्जाता पज्जाताणवि । इतीतम इ, उरुसस्थान इम पर्याप्तता अपर्याप्तानो पिण जणिषा । गम्भवह्णतिय तिरिक्त पचिदिय उरालियसरोरेण भते कि सठाणसंठिए प० । इति नभज तिरिक्त पचिदिय ओदारिकशरीर हेमगवन् कि सस्थान कथा । गोयमा उद्विह सठाणसंठिए प० त० । इतीतम ऊपरमेदे सस्थानकथा तेकथे । समवउरसे जाव इ उरुसठाणसंठिए प० एवं पज्जाता पज्जाताणवि एव एतेवि तिरिक्तलोबियाण आदिवाण नव आलावगा । सम वउरश यावत् इ, उरुसस्थान इम पर्याप्तता अपर्याप्तानो पिण कडवी इम दोज एह तिरिक्तलोबियाण ओयना आलावा कडवा पर्याप्तता नादरमून नव आलावा ओधिकमून ओधपर्याप्ततामून ओधपपटास्तामून

त्वात् । द्वित्रिषतुरिन्द्रियाणां प्रत्येकं पर्याप्तानामपर्याप्तानामीदारिकशरीराणि । हुक्कसस्थानसंस्थितानि । तिर्यक्पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर सामान्यतः पञ्चिषसस्थानसंस्थित तदेवोपद्वयं सति तदेवोपद्वयं सति ॥ यावत्करणात् किङ्गोहपरिमलसंस्थासंस्थिते साइसठाणसंस्थिते यामसठाणसंस्थिते सुज्जसठाणसंस्थिते हुक्कसठाणसंस्थिते इति परिरयह, तत्र समा. सामुद्रिकशरीरकप्रमाणलक्षणा विसर्वादिन्य यतस्त्रोऽस्य य तुदिग्बिजागोपतचित्ता शरीराधयवा यस्य तत्समचतुरस्र समासात् प्रत्ययः, समचतुरस्र च तत्संस्थान च समचतुरस्रसंस्थान तेन संस्थितं

णासठाणसंस्थिते पश्यते । एव सुज्जमवादरपज्जतापज्जताणिवि । वेइदियउरालियसरीरेणं ज्ञते ! किंसठाणसंस्थिते पश्यते ? गीयमा ! ऊरुसंठाणसंस्थिते प० । एवं पज्जतापज्जताणिवि । एवं तेइदियचउरिदियाणसंस्थिते पश्यते, तजहा—समचउरससठाणसंस्थिते जाव ऊरुसठाणसंस्थितेपिवि । एव पज्जतापज्जताणिवि ३ ।

एव सुज्जमादरपर्याप्तकानामपि । द्वीन्द्रियौदारिकशरीर ज्ञदत्त । किं संस्थानसंस्थित प्रच्छत ? गीतम । हुक्कसंस्थानसंस्थित प्र० । एव पर्याप्तपर्याप्तकानामपि । एव त्रीन्द्रियपतुरिन्द्रियाणामपि । तिर्यग्योनिकपचेन्द्रियौदारिकशरीर ज्ञदत्त । किं संस्थानसंस्थित ? गीतम । पञ्चिषसंस्थानसंस्थित, समचतुरस्रसंस्थानसंस्थित यावद्हुक्कसंस्थानसंस्थितम् । एवं पर्याप्तपर्याप्तकानामपि ३ । सम्भूच्छिंमतिर्यग्योनि

श्रीरालियसरीरेण भते किं संस्थिते पं० । तेन्द्रिय शीदारिकशरीर हेमगवन् किंसंस्थाने संस्थित । गीयमा हुक्कसठाणसंस्थिते प० । हेगीतम हुक्कसंस्थान कश्चो । एव पज्जता २ णिवि एव तेइदिय चउरिदियाणिवि तिरिक्खबोषिव पचिदिय श्रीरालियसरीरेरेण भते किं संस्थासंस्थिते पं० । इम तेन्द्रिय शीरिन्द्रियने पिण तिर्यचयोनिया पचेन्द्रिय शीदारिकशरीरने हेमगवन् किंसंस्थान कश्चो । गीयमा क्विह सठाण संस्थिते पश्यता तं० । हेगीतम क्कमरि संस्थान क्कवा तेक्कहे—समचउरससठाणसंस्थिते जाव हुक्कसठाणसंस्थिते एव पज्जता अपज्जताणिवि । समचउरस्य संस्थान यावत् हुक्क

धीकलापर्यन्तसंस्थितानि, वायुक्तकाना सूक्तादिभेदत श्रुतज्ञेदनाभौदारिकशरीराणि पताकासंस्थानसंस्थितानि, वनस्पतिकार्याना सूक्ता
नां यादराणा पर्याप्तानामपर्याप्ताना च प्रत्येकभौदारिकशरीराणि नानासंस्थानसंस्थितानि, देशकालजातिभेदत स्तेषा संस्थानानामनेकभेदेभेदत

पञ्जज्ञाणवि एवचेव । व्याउकाइयएगिदियउरालियसरीरेणं ज्ञते ! किंसठिणु पखत्ते ? गोयमा ! थियुगवि
दुंसंठाणसठिणु पखत्ते । एवं सुज्जमवादरपञ्जज्ञापञ्जज्ञाणवि । तेउकाइयएगिदियउरालियसरीरेणं ज्ञते !
किं संठाणसठिणु पखत्ते ? गोयमा ! सूयाकलावसंठाणसठिणु पखत्ते । एव सुज्जमवादरपञ्जज्ञाणवि ।
वाउकाइयाणं पठागासंठाणसठिणु पखत्ते । एवं सुज्जमवादरपञ्जज्ञापञ्जज्ञाणवि । वणस्सडकाइयाणं ना

रिकञ्जरीर जदत्त । किं संस्थित म० ? गीतम । क्तियुक्कविन्दुसंस्थानसंस्थित म० । एव सूक्त्तवादरपर्याप्तकानामपि । तेजस्कार्यिके
न्द्रियौदारिकशरीर जदत्त । किं संस्थानसंस्थित म० ? गीतम । सूचीकलापसंस्थानसंस्थित म० । एव सूक्त्तवादरपर्याप्तकानामपि ।
वायुक्तापिकाना पताकासंस्थानसंस्थित । एव सूक्त्तवादरपर्याप्तकानामपि । वनस्पतिकार्याना नानासंस्थानसंस्थित म० पञ्चपत्तम् ।

हेमवन् केशवो कथो । गोयमा थियुग विदसंठाणसठिणु प० । हेगोतम थियुक्कविन्दु संस्थान संस्थितत्तै । एव सुहमवाचरपञ्जया अप्लत्ताणवि भा०
इम सूक्त्तवादर पर्याप्त अपर्याप्त पिण कश्चो । तेवकार्याणदिण श्रीरालियसरीरेण भते किंसठिणु प० । इवे तेवकाय एकैन्द्रिय श्रीदारिकशरीर हेमव
वन् किञ्चो संस्थान कक्षा । गोयमा सूक्त्तलावसंठाण सठिणु एव सुहमवाचर पञ्जया अप्लत्ताणवि भा० । हेगोतम सूइनो फूल जेहवो तेहवो संस्थान
कथो इम वादरपर्याप्ता अपर्याप्ता तेजने पिण कश्चो । वाचकाइयाण पठागासंठाणसठिणु प० । वाक्कायनी प्रथ किञ्चो ध्वजानी । एव सुहमवा
चर प्लत्त अप्लत्ताणवि भा० । इम सूक्त्तवादर पर्याप्ता अपर्याप्ता वाक्के कश्चो । वणस्सडकाइयाण पाणासंठाण सठिणु । वनस्पतीकार्यानी प्रथ
नानामकार्णा संस्थान संस्थितत्तै । एव सुहमवादर प्लत्त अप्लत्ताणवि भा० । इम सूक्त्तनी वादर पर्याप्ता अपर्याप्ता पिण जाणिया । तेइ दिव

पर्याप्तानामपर्याप्ताना श्रीदारिकशरीराणि मसूरपन्द्रसस्थानसंस्थितानि मसूरी धान्यविशेषे तस्य चद्र यद्राकारमर्द्धदल तस्यैव यत् सत्यानि तेन संस्थितानि, अप्कायिकाना सूक्ष्मादिभेदत चतुर्भेदाना भौदारिकशरीराणि स्तियुक्तविटुसस्थानसंस्थितानि स्तियुक्ताकारो यो विटु नंपुनरित स्तौ यातादिना विदिस स्तियुक्तविटु सास्येव यत्सस्थान तेन संस्थितानि, तेजस्कायिकाना सूक्ष्मादिभेदत चतुर्भेदानाभौदारिकशरीराणि सू

पण्यते ? गीयमा ! नाणासंठाणसठिण पन्नत्ते । एगिदियउरालियसरीरेण जत्ते ! किसठिण पन्नत्ते ? गीय मा ! नाणासंठाणसठिण पन्नत्ते । पुढविकाइयएगिदियउरालियसरीरेण जत्ते ! किसठिण पन्नत्ते ? गीय मा ! मसूराचदसंठाणसठिण पन्नत्ते । एव सुज्जमपुढविकाइयाणवि । वादराणवि एवचेव । पज्जत्ता

रीर च । श्रीदारिकशरीर मदन्त । कि संस्थित मज्जस ? गीतम । नानासस्थानसंस्थित मज्जस । एकन्द्रियीदारिकशरीर मदन्त । कि संस्थित मज्जस ? गीतम । नानासस्थानसंस्थित मज्जसम् । पृथिवीकायिकेन्द्रियीदारिकशरीर मदन्त । कि संस्थित मज्जस ? गीतम । मसूरचन्द्र सस्थानसंस्थित मज्जसम् । एव सूक्ष्मपृथिवीकायिकानामपि । वादराणामप्येव चेव । पर्याप्तपर्याप्ताना मप्येव चेव । अप्कायिकेन्द्रियीदा पुढवोकाइय एगिदिय उरालियसरीरेण भते कि सठिण पण्यते गीयमा । पृथिवीकाय एकद्रिय श्रीदारिकशरीर हेभगवन् किसेसस्थानि कळी हेगी । पायासंठाणसठिण पण्यत । नानाप्रकारना संस्थानने संस्थितके । एगिदिय श्रीरालियसरीरेण भते कि सठिण पण्यते । एकद्रिय श्रीदारिकशरीर हे भगवन् किसेसस्थाने कळा । गीयमा पायासंठाणसठिर । हेगीतम नानाप्रकारनो कळी । पुढवोकाइय एगिदिय श्रीरालियसरीरेण भते कि सठि प । पण्यते पृथिवीकाय एकन्द्रिय श्रीदारिकशरीर हेभगवन् किसे सस्थान कळी । गीयमा मसूरचट संठाणसठिण प० । हेगीतम मसूरदाल तथा च र्द्रसस्थानन संस्थित । एव मुहुमपुढवोकाइयाणवि वायर पु० एव चेव । इम सूक्ष्मपृथिवीकायने पिण वाटरने पिण इमहीज । पज्जत्त अपलताणवि एवचर । पर्याप्ता अपर्याप्ताने पिण इमहीज । आरुकाय एगिदिय श्रीरालियसरीरेण भते कि सठिण पण्यते । द्वि चरुकाय पकेद्रिय श्रीदारिकशरीर

प्यथलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरीरे य पज्जतासम्मूच्छिमउरपरिसप्ययलयरतिरिक्कजोणियप
चिदियउरालियसरीरे य । एव गप्लवक्कतिणुवि । उरपरिसप्यवउनेदो । एव नुयपरिसप्यावि । सम्मुच्छि
मगप्लवक्कतियपज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । सहयरा दुविहा पयन्ता, तजहा-सम्मूच्छिमाय गप्लवक्कतियाय ।
सम्मूच्छिमा दुविहा पज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । गप्लवक्कतियावि पज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । मणुस्सपचिदियउ
रालियसरीरेण नते ! कतिविहे पयन्ते ? गोयमा ! दुविहे पयन्ते, तंजहा-सम्मूच्छिमणुस्सपचिदियउ

च्छिम द्विविध प्रज्ञा तद्या-श्रवयाप्रसम्मूच्छिमोर परिसप्ययलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरीरे य पयानुसम्मूच्छिमोर परिसप्ययलयर
वपतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरीरेण नते । एव गप्लवक्कतियावि । उरपरिसप्यवउनेदो । एव नुयपरिसप्यावि । सम्मुच्छि
मगप्लवक्कतियपज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । सहयरा दुविहा पयन्ता, तजहा-सम्मूच्छिमाय गप्लवक्कतियाय ।
सम्मूच्छिमा दुविहा पज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । गप्लवक्कतियावि पज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । मणुस्सपचिदियउ
रालियसरीरेण नते ! कतिविहे पयन्ते ? गोयमा ! दुविहे पयन्ते, तंजहा-सम्मूच्छिमणुस्सपचिदियउ

च्छिम उरपरिसप्ययलयर पचोद्वय नियञ्च शौदारिकशरीर । पञ्चससमु० उरपरिसप्ययलयर प० ति० उर० । पर्याप्तसम्मूच्छिम उरपरिसप्ययलयर
पचोद्वय नियञ्च शौदारिकशरीर । एव गप्लवक्कतियावि । उरपरिसप्यवउनेदो । एव नुयपरिसप्यावि । सम्मुच्छि
मगप्लवक्कतियपज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । सहयरा दुविहा पयन्ता, तजहा-सम्मूच्छिमाय गप्लवक्कतियाय ।
सम्मूच्छिमा दुविहा पज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । गप्लवक्कतियावि पज्जन्नाय अणुपज्जन्नाय । मणुस्सपचिदियउ
रालियसरीरेण नते ! कतिविहे पयन्ते ? गोयमा ! दुविहे पयन्ते, तंजहा-सम्मूच्छिमणुस्सपचिदियउ

शरीरपरतियंक्पन्त्रियीदारिकशरीरयसूच्छिंनगर्भस्युत्कान्तिकनेवा द्विजेदं । पुनरेकेक द्विधा पर्योपापर्याप्तोदादिति सर्वसह्या तियंक्पन्त्रे

परिसप्यथलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरीरेण जते ! कतिविहे पन्तते ? गोयमा ! दुविहे प०
तजहा—उरपरिसप्यथलयरपचिदियतिरिक्कजोणियउरालियसरीरे य ज्ञुयपरिसप्यथलयरपचिंठियतिरिक्कजो
णियउरालियसरीरे य । उरपरिसप्यथलयरपचिदियतिरिक्कजोणियउरालियसरीरेण जते ! कतिविहे पन्तते
? गोयमा ! दुविहे पयत्ते , तजहा—सम्भुच्छिमउरपरिसप्यथलयरपचिदियतिरिक्कजोणियउरालियसरीरे
य गङ्गवक्कतियउरपरिसप्यथलयर० । सम्भुच्छिमे दुविहे पन्तते , तजहा—ञ्जुपजत्तासम्भुच्छिमउरपरिस

य प्रज्ञप्तम् तद्यथा-उर परिसप्यंस्थानवरपन्त्रे त्रिद्वयतियंग्योतिकीदारिकशरीर च भुजपरिसप्यंस्थलवरपन्त्रे त्रिद्वयतियंग्योतिकीदारिकशरीर
य । उरपरिसप्यंस्थलवरपन्त्रे त्रिद्वयतियंग्योतिकीदारिकशरीर प्रदन्त । कतिविध प्रज्ञप्तम् तद्यथा-सम्भुच्छिमीर
परिसप्यंस्थलवरपन्त्रे त्रिद्वयतियंग्योतिकीदारिकशरीर च गजस्युदकान्तिकोर परिसप्यंस्थलवरपन्त्रे त्रिद्वयतियंग्योतिकीदारिकशरीर च । सन्नु

इवो । परिसप्य थलयर तिरिक्क पविभोरादिय शवसरीरेण भंते कदविहे पयत्ते । उरपरिसापे थलयर पचेद्विय त्रौदारिकशरीरना हेमगवन् केतले
गोयमा दुविहे प० तं० उरपरिसप्यथल० प० ति० उरा० । हे भौतम दोवभेद तेकहे उरपरिसप्यथलयर पचेद्विय तियं च त्रौदारिक । भुयपरिसप्यथ० प०
ति० उरा० । भुजपरिसप्यथलयर पचेद्वियतिरिक्क त्रौदारिकशरीर । उरपरिसप्यथ० प० ति० उरालियसरीरेण भते कतिविहे पयत्ते गोयमा । उरपरिस
प्यथलयरपचद्विय तियेचना त्रौदारिकशरीरना भगवन् केतला भेद हे भौतम । दुविहा पयत्ता तजहा समुक्किम उरपरिसप्यथ० प० ति० उरा० । दोय
भेदतेकहे सम्भुच्छिम उरपरिसप्यथलयरपचेद्विय तियं च त्रौदारिक । गङ्गवक्कतियउरपरिसप्यथलयरप० ति० उरा० समुच्छिमदुविहे पयत्ते तजहा । गर्भज
उरपरिसप्यथलयरपचेद्विय तियं च त्रौदारिक सम्भुच्छिमे तिकाया । अप्पत्ताससन्निक्कमउरपरिसप्यथलयरप० ति० उरा० । यपवीतासन्

पुनरेकैक द्विधा पर्याप्तार्थप्रदेदात्, परिसर्पस्थलचरतिर्येकपञ्चन्द्रियौदारिकश्चारीरसायि तरपरिसर्पमूत्रजपरिसर्पभेदतो द्विभेदं, पुनरेकैकं द्विधा समूच्छिमगंश्रुत्क्रान्तिक्रमेदात्, तत्रापि पुन प्रत्येक द्विविध्य पर्याप्तार्थप्रदेदात्, सर्वसङ्ख्याप्रदेद । परिसर्पस्थलचरतिर्येकपञ्चन्द्रियौदारिक

विहे पन्तस्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्तस्ते, तंजहा-सम्भुच्छिमचउप्यथलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालि
यसरीरे य गप्पवक्कतियचउप्यथलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरीरे य । सम्भुच्छिमचउप्यथउरा
लियसरीरे दुविहे पन्तस्ते, तंजहा-पज्जत्तासम्भुच्छिमचउप्यथलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरी
रे य छपज्जत्तासम्भुच्छिमचउप्यथलयरतिरिक्कजोणियपचिदियउरालियसरीरे य । एव गप्पवक्कतिएविवि ।

पञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर नदन्त । कतिविध मज्जसम् ? गौतम । द्विविध मज्जसम् तद्यथा-सम्भुच्छिमचउप्यदस्थलचरतिर्येकपञ्चन्द्रियौदारिकशरीर च गमंश्रुत्क्रान्तिकचतुप्यदस्थलचरतिर्येकपञ्चन्द्रियौदारिकशरीर च । सम्भुच्छिमचउप्यदस्थलचरपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर द्विविध मज्जसम् तद्यथा-पर्याप्तसम्भुच्छिमचउप्यदस्थलचरपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर चापर्याप्तसम्भुच्छिमचउप्यदस्थलचरपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर च । एव गमंश्रुत्क्रान्तिकमपि । परिसर्पस्थलचरतिर्येकपञ्चेन्द्रियौदारिकशरीर प्रदन्त । कतिविध मज्जसम् ? गौतम । द्विवि

द्वि पणस्ते । चोपद यलचर पचेद्वी तिर्येव औदारिकशरीरना हेमगबन् केतवाभेद कथा । गोयमा दुविहे । हेमोतम दोयभेद । समुच्छिमचउप्य
यलचर पचिदिय तिरिक्क शरानिय । सम्भुच्छिम चोपद यलचर पचेद्विय तिर्येव औदारिकशरीरी । गप्पवक्कतिय चउप्य यलचर पचिदिय शरानिय ।
गमंज तिर्येव चोपद यलचर पचेद्विय तिर्येव औदारिकशरीर । सम्भुच्छिम चउप्य य० य० ति० श्रोत्रालियसरीरेण भते कइविहे प० । सम्भुच्छिम चोप
द यलचर पचेद्विय तिर्येव औदारिकशरीरना केतवाभेद । गोयमा दुविहा तज्जहा । हेमोतम दोयभेद कथा ते । पज्जत्त सम्भुच्छिम चउप्य यलचर
पचिदिय तिरि० शरानिय । पर्यागा सम्भुच्छिम चोपद यलचर पचेद्विय तिर्येव औदारिक । एव गप्पवक्कतिएव भाणियच्चो । इम गमंजने पिय क

शरीराणि प्रज्ञप्तानि मया अन्येभ्य ओषे स्त्रीकंलिङ्गे तांयेव नामत आङ्-उरालिए इत्यादि ॥ उदार प्रदान प्राधान्य तीर्थकरगणधरशरीराण्यपि कृत्य ततोन्वस्या नुत्तरशरीरस्या ध्वनन्तगुणहीनत्वात्' यद्वा उदार सौत्तरिकयौगणसहस्रमानत्वात् ओषशरीरापेक्षया बृहत्प्रमाणं बृहत्तयास्य वैक्रियप्रति स्रग्धरणीयसहस्रशरीरापेक्षया द्रष्टव्या' अन्यथा उत्तरवैक्रिय योजनलेखमानमपि लज्यते उदारमेव श्रीदारिक विनयादिपाठादिकं ॥ तथा विविधा विशिष्टावा क्रिया विक्रिया तस्या ज्ञव वैक्रिय, तथाहि-तदेकं ज्ञूत्वा अनेकं प्रवति अनेकं ज्ञूत्वा एक, तथा अगुज्जुत्वा मद्भवति महद्भूत्वा अणु, तथा स्रवर ज्ञूत्वा ज्ञूमिषर भवति ज्ञूमिषर ज्ञूत्वा अदृश्य भवति अदृश्य ज्ञूत्वा दृश्यमि स्यादि । तच्च द्विविधमपिपयातिक लोथ्यप्रत्यय च तत्रोपपत्तिकमुपयातल्लान्निमित्तं तच्च देवनारकाणां लोथ्यप्रत्यय तिर्यङ्मनुष्याणां ॥ तथाप्य रइति ॥ आहारक बहुदेशपूर्वाविदा तीर्थकरस्यातिदेशनादिकतथाविधप्रयोजनोत्पत्तौ सत्या विशिष्टलथ्यबशादाङ्गियते तिर्यत्पते इत्यान्वारक " कर्तुलमितिषचना तर्कमणि पूज् यथापादहारकइत्यत्र उक्तान्य-कञ्जमिसमुप्यने हुयकेयलिषायिसिचलद्वीए । जस्यस्याहारिज्जइ ज्ञयितेश्वाहा रगतसु ॥ १ ॥ कापेपेद-पाण्डियरिद्रिदसण सुदुमपयत्यावगइएरुवा । यसयवोच्छेयतय गमणलिषपादमूलानि ॥ २ ॥ तए वैक्रियशरीरापेक्षया अत्यन्तशून्य स्वप्नरफटिकशिलेव शुञ्जपुद्गलसमूहपटनात्मक ॥ तेज तेजस स्तेज पुद्गलानां विचार लौकिकविकारे इत्येत् तत्र ज्ञान

भते ! शरीरया प० ? गी० ! पच शरीरया पञ्चज्ञा, तजहा-उरालिए वेउलिए व्याहारए तेयए कम्मए ५ ।

पुद्गलघन शरीरसयोगे । द्रव्यप्रदेशाल्पकहु शरीरावगाहनाल्पबहुत्वम् ॥ १ ॥ कति प्रदत्त । शरीराणि प्रज्ञप्तानि ? गी० तम । पच शरीरा णि प्रज्ञप्तानि' तथाया-श्रीदारिक वैक्रिय तेषसमाहारक कामेश । श्रीदारिकशरीर जइत्त । कतिविध प्रज्ञप्तम् ? गी० तम । पचविध प्रच

केतवा हेमगवन् शरीर कक्षा । गी० तम पचशरीरा प० त० । हेगी० तम ५ शरीरकक्षा ते कहेहे - शीराणि वेउलिए आहारए तेउए कम्मए । श्रीदारिक वैक्रिय आहार तेजस कामेष ५ । शीरानिउरालिए भते कविदि प० । श्रीदारिकशरीर हेमगवन् केतवेभेदे कक्षा । गी० तम पचविदि

पचत्रया
४८
२०
॥ ५९ ॥

ते । इत्यादि ॥ न यदसंज्ञयाप्युल्लेख्यदुस्त्व तदस्य ह्रस्वदीर्घत्वे प्रतीत्य ॥ इति श्री मलयगिरिविरचित्याया विशाततम पद समाप्तम् ॥ ३० ॥
 व्याप्त्यात विशातितम पद इदानी मेकविशतितममारभ्यते-अस्य चायमत्रिसम्बन्ध इहानन्तरपदे गतिपरिणामविशेषोक्तक्रियारूपपरिणाम इत्य
 इहापि गतिपरिणामविशेष एव शरीरस्य सख्यानादिनरकादिगतित्युत्पन्नाना प्रतिपाद्यते इति तत्र चेत्यस्य विकारगथा-विहिताठानपनाथे इत्या
 दि ॥ प्रथम विषयो प्रेदा शरीराणा वक्तव्या स्तदनन्तर स्थानानि तत प्रमाणानि तदनन्तर कतिञ्चो दिग्ग्य शरीराणा पुद्गलीपचयो प्रवती
 त्येय पुद्गलचयन वक्तव्य तत, कस्मिन् शरीरे सति कि शरीरमवश्यजाधी त्येवरूप परस्पर सयोगो वाच्य, ततो द्रव्याणि च प्रदेशाच्च द्रव्यप्रदे
 शा तेव द्रव्याणिच प्रदेशाय द्रव्यप्रयोगा य समानानामेकशेष इत्येकशेष, स्त्री रल्पथदुस्त्व वक्तव्य, किमुक्त प्रवति द्रव्यार्थतया प्रदेशाच्च द्रव्यप्रदे
 पचानामपि शरीराणामल्पथदुस्त्वमत्रिपातव्यमिति, तत पचानामपि शरीराणा मवगाहनाविषयमल्पथदुस्त्व वाच्यामिति गाथासलेपाथे, तत्र
 यथोद्देशे निर्देश इति प्रथमतो विधिद्वारमजिघरसु रादौ शरीरमूलनेदान् प्रतिपादयति-कडण जते । इत्यादि ॥ कति किपरिमाणानि शमि
 तिवाक्यालकारे, प्रदत्त । शीयते प्रतिषणं विचारारुजाथ विच्रतीति शरीराख्येव शरीरकाणि तथा स्वार्थक मत्स्य, जगबानाह-गीतम । पञ्च

यच्चसन्निध्याउणु अस्खेज्जगुणे ॥ इति पञ्चवणाए जगवईणु अतकिरियापद समतं ॥ २० ॥
 विहिसठाणपमाणं पोगलचिणणासरीसजोगे । दद्युपदेसप्यवज्ज सरीरुजगाहणप्यवज्जं ॥ १ ॥ कतिण

रामचन्द्र गणि शिष्य मानकचन्द्र विरचिते प्रज्ञापनानुवादे लक्रियापद विशातितम समाप्तम् ॥ २० ॥ विधिस्थस्थानप्रमाण

समत्तं ॥ इति प्रज्ञापना विद्वान्तमादि चन्तक्रियानामै खीसमोपद कक्षो तीजीदार कक्षो ॥ २० ॥ विहिंसठाणपमाणे पुगलचिणणासरीरसं
 बीगे । दब्बणसप्यदु सरीरश्रीगाहणप्यवदु ॥ १ ॥ शरीर ५ भेद सखानप्रमाणे तिवारपक्षी कंदिचि शरीरेने पुद्गलने चपचन इये पुद्गलनी चापि
 धी कदिधो मरीरे कंदि मरीरे कक्षो चावसे द्रव्यप्रदेय द्रव्यप्रयोगथो मत्ववदुल पाचशरीरनी मवगाहनानी मत्व वदुल । कडणं भते सरीरा प० ।

न्याय्यपि इहासह्यायुरसह्यप्रस्थानुप्रमानमप्युच्यते, नचेद मत्र प्रकृतमत स्तत् कृतलक्षणसवधिशेषनिरूपणार्थमाह-असन्तीइत्यादि ॥ व्यक्तं न
 य ॥ पकरेड इति ॥ यन्नाति ॥ दसवाससहस्राइति ॥ खप्रजाप्रथमप्रकृतमधिकृत्य ॥ उक्तीसेष पलिउवमस असेजेज्जनाग इति ॥ एतद्द्व
 प्रनाचतुर्थप्रतरे मध्यमस्थितिक नारकमाश्रित्य प्रथमप्रस्टं हि जघन्या स्थिति दशबर्षसहस्राणि उत्कृष्टा नवतिसहस्राणि, द्वितीय दशलक्षाणि
 जघन्या उत्कृष्टा नवतिसहस्राणि, तृतीय जघन्या उत्कृष्टा सागरोपमस्य दशजनाग, ततोत्र पत्न्योप
 मासख्येजनागो मध्यमा स्थिति ज्ञेयति, तियंगसुत्रे पत्न्योपमासहस्रयजनागो पियुनकतिरिथोधिकृत्य ॥ एव मशुयाउयपि ॥ इति जघन्येनातमसुत्रे

न्निष्ठाउए । असन्तीण जते ! जीवि किं णेरडयाउयं पकरेड जाव देवाउयं पकरेड ? गीयमा ! णेरडयाउ
 यपि पकरेड जाव देवाउयं पकरेड । णेरडयाउयं पकरेमाणे जहन्नेण दसवाससहस्राइ उक्तीसेणं पलिउ
 वमसस अ्सखेज्जइजाग पकरेड । तिरिक्कजीणियाउय पकरेमाणे जहन्नेण अ्थीमुज्जत्तं उक्तीसेणं पलिउ
 वमसस अ्सखेज्जइजागं पकरेड । एवं मणुस्साउयंपि । देवाउय जहा नेरडयाउयं । एयस्सणं जते ! णेरड

इयायु मसस २ गीतम । चतुविधमसहस्रायु. मससम् । तद्यथा-नैरयिकासञ्जयायु षोडशेवासञ्जयायु । असञ्जी मदन्त । जीव-किं नैरयिकायु-
 मकरोति यावद्देवायु मकरोति ? गीतम । नैरयिकायुरपि प्रकरोति यावद्देवायुरपि प्रकरोति । नैरयिकायु मज्जुवंन् जघन्येन दशबर्षसहस्रा

ये पसाधिपावए प० तं० । इगीतम चारभटे कक्षां ते कश्चि-नेरइय असाधिपावए जात्र देवअसविनाए । नारकी असनीनो आकखी इम जा
 स्सी देवता असनीनीआकखी । असखीयं भते जीवे किं णेरइयाउयं करेड जाव देवाउयं करेड । असञ्जी इभयवन् नारकीनो आज्जखीकरी जालने
 देवतानी आकखी करे । गीयमा णेरइयाउय पकरेड जाव देवाउयपि पकरेड । णेरइयाउयं पकरेमाथे । इगीतम नारकीनोआकखी करतीयको जा
 वगी देवतानी आकखी पियकरे नारखीनो आज्जखी पियकरे । जहणेण दसगाउचदहस्राड ख० पलिअेवमस अ्सखिज्जाभागाउय पकरेड तिरिक्क

दार-विराधितसयमाग मुरूपण सौधर्म कल्पे इति गृहक तरकथ घटते द्वीपद्या सुनुमादिकाशवे विराधितसयमाया अपि इंशानकल्पे न
त्यादशवशात्, नैपदोप कास्याहि सयमविराधना उत्तरगुणविषया यक्षुञ्जत्वमात्रकारिणी न मूलगुणविराधना सौधर्म उत्पाद न प्रनूततरसयमवि
राधनाया प्रवति यदि पुनविराधनामाश्रमपि सौधर्मोत्पत्तिकारण स्यात् तदा यक्षुञ्जादीना सुतरगुणादिप्रतिशेयायता कथमच्युतादिपूत्पत्ति रूप
पद्यते कथपि हिरावकत्वा सेषा मिति, अशुद्धोदेवपूत्पद्यते इत्युक्त, सचायुपाडति, तदायुर्निरूपयति-कडाविष्टमित्यादि ॥ व्यक्त ॥ नवरमस
त्रिआरयति ॥ अशुद्धीसन् यत्परमवयोग्यमायु यंश्रान्ति तदसह्यायु ॥ नरइय अशुद्धियाचरति ॥ नैरर्थकप्रयोग्यमसह्यायु नैरर्थकासह्यायुरेव म

द्विसियाण जहन्नेण सोहममे कप्ये उक्कोसिण लतए कप्ये, तिरिच्छियाण जहन्नेण नवणवासीसु उक्कोसिण
सहस्सारे कप्ये, आजीवियाण जहन्नेण नवणवासीसु उक्कोसिण अञ्जुए कप्ये । एव आनिउग्गाणवि ।
सलिगीण दसणवावयणाण जहणेण नवणवासीसु उक्कोसिण उवरिमगवेज्जाएसु । कतिविहेण भते ! अ्स
न्तियाउए पसत्ते ? गोयमा । चउविहे अ्सन्तियाउए पणत्ते, तजहा-नेरइयअ्सन्तियाउए जाव देवअ्स

धर्म करणे वरकपतो लात्तके कल्पे । तिरिया जपन्नेन प्रवनयासिपूरकपेण सहस्सारे कल्पे । आजीविकाना जपन्नेन प्रवनयासिपूरकपेणयाच्युते
कल्पे । एवमान्नियोगिकानामपि । खालिङ्गिना दशानव्यापनाना जपन्नेन प्रवतायासिपूरकपेणोपरिनशैवेयकेपु । णत्तिविध प्रदत्त । अ्स
जानादि एवणंवाट जघत्थ सौधर्म वरकट । लतएकपे तिरिच्छियाण जह्णं भवणवासीसु व० । खान्तकमादि तिरिव जघन्ने भवनपतोवरकट । सह
आरेकपे आजीवियाण जह्णं भवणवासीसु व० । सहस्सारमादि पापण्णो गोशालादि जघन्ने भवनपतीमादि वरकट । अशुएकपे एव अभिन्नागा
णपिमलिगीणवा दसणमहाण जह्णं भवणवासीसु व० । अश्रतमादि इम अभिन्नाग सलिङ्गी भेषधारी सम्यक्त्वथो अटने जघन्ने भवनपतो वरकट ।
अवरिनगीवज्जएमु कडविहण भते अरुणियाणयाए प० । अणरिवा अयेयक ताद जपजी कंतलेभेदे हेमगवन् प्रसथोनी धालखो कथा । गोयमा चवन्नि

देवत्या दन्वत्रापि यथाध्यवसायगुत्यादौ प्रवर्ततीति प्रतिपादित ॥ विराट्प्रियसंजमाणं जहन्ते प्रवणवासीसु उक्तीसेण सोहम्ने इति ॥ अत्र कश्चि

उक्तीसेण सोहम्ने कप्पे, अत्रिविराहियसजमासजमाणं जहन्तेणं सोहम्ने कप्पे उक्तीसेणं अञ्जुए, विराहिय सजमासजमाणं जहन्तेण प्रवणवासीसु उक्तीसेण जोडसिएसु, अस्त्नीणं जहन्तेणं प्रवणवासीसु उक्तीसेण वाणमतरंसु, तावसाण जहन्तेणं प्रवणवासीसु उक्तीसेण जोडसिएसु, कदप्पियाणं जहन्तेणं प्रवणवासीसु उक्तीसेणं सोहम्ने कप्पे, चरगपरिछायगाण जहन्तेणं प्रवणवासीसु उक्तीसेण वन्नलोणे कप्पे, कि

रपे, अत्रिविराधितसयमासयमाना जपन्तेन सीधर्मे करुपे उरकपंतो उच्यते । विराधितसयमासयमाना जपन्तेन प्रवणवासिपु उरकपंतो ज्यो तिकेपु । असंक्त्तना जपन्तेन प्रवणवासिपु उरकपंतो वानध्यकरेपु । तपस्विता जपन्तेन प्रवणवासिपु उरकपंतो ज्योतिकेपु । कान्दस्पिकाणा जपन्तेन प्रवणवासिपु उरकपंत, सीधर्मे करुपे । चरकपरिछायगाणा जपन्तेन प्रवणवासिपु उरकपंतो ज्यो

सीहन्नेकणे उ० । जधत्वे सीधर्मेदेवकीक उपजे । सवट्टसिद्धे विराहियसजमाय जह० भवणवासीसु उ० । उरकट सर्यांसिद्ध ताद विराधितसजमना धणो । जहण्णं भवणवासीसु उ० । जधत्वे भवनपति इव । सीहन्ने कपे अत्रिविराहियसजमा सजमेण । उरकटे सीधर्मं कपजे अत्रिविराधितसयना सजमना धणो । जह० सीहन्नेकपे उ० । जधत्वे सीधर्मे कपजे । अञ्जुतिकपे विराहिय सजमासंजमेण । उरकट अच्युजकपजे विराधितसयमासयमना धणो । जह० भवणवासीसु उ० । जधन्त भवनपतिमाहि कपजे । जोतात्तणसु असक्कीण जह० भवणवासीसु उ० । ज्योतिपोमाहि असनी जधन्ते भ वनपतीमाहि उरकटे । वाणमतरंसु तावसाण जह० भवनवासीसु उ० । वानव्यन्तर तापस जधन्ते भवनपतिमाहि उरकट । जोतांसपसु कटप्पियाण जह० भवणवासीसु उ० । ज्योतिपोमादि कन्धयनी कुचेठाना धणो जधन्त भवनपतिमाहि उरकट । सीहन्नेकपे चरगपरिव्वायगायं जह० भवणवा सीसु उ० । सीधर्मं चरकपरिछायक जधन्ते भवनपतिमादि उरकट । वमत्तीण्णकपे किञ्चिद्विवाण जह० सीहम्ने उ० । वन्हेदेवनीतपादि किलिपकने

वा । ते व्यग्रहरत धरण्यत एव मन्नादिप्राथीकार' उक्तम्-कार्त्यन्नुक्तम् पविष्ठापसिखेनिमित्तमालोधी । इष्टिरससायगुरुर्नु अग्नियोगजावश
 कुण्ड । कीर्तु कौन्त्याद्यथं स्वपन्नूतिकसंशयविरतादिभूतदान प्रथाप्रशस्तप्रविद्यादि ॥ सलगीणमिति ॥ रजोहरणादिसाधुलिगयता किं वि
 धानामित्याह-दशकवाबलगाणति ॥ दर्शनं सम्यक् ध्यापन्नं झट येपा ते तथा तेपा निरुक्तानामित्यर्थं ॥ देवजीनेषु उग्रवृत्तापाणति ॥ अन्तेन

श्रुजोवियाण श्रान्तिर्जियाण सलिंगीण दसणवावन्तगाण देवलोनेसु उववज्जमाणं कस्स कीहं उववानु
 पन्नत्ताउं ? गीयमा ! श्रसजयन्नविद्यदद्देवाण जहन्तेण नवणवासीसु उक्तीसेण उवरिमगेवेज्जगेसु, श्रुवि
 राहियसजमाण जहन्तेण सोहम्मो कप्पे उक्तीसेणं सद्य्ठसिद्धे, विराहियसजमाणं जहन्तेण नवणवासीसु

दर्शनं ध्यापकानां देवलोकैः पूज्यमानानां कस्य कीर्त्यादः प्रशस्तः ? गीतम् । अस्य तन्मन्त्रविक्रम्यदेवानां जघन्येन प्रथमवासिषु उत्कृष्टं तत्परि
 मश्रैवेयकैश्च विराचितस्यमाना जघन्येन शीघ्रमे कल्पे उत्कृष्टं सर्वायंसिद्धे । विरापितस्यमाना जघन्येन त्वत्तवासिषु, उत्कृष्टं शीघ्रमे क
 प्ये ॥ कन्द्यं कुक्कुटं दशयोजियापि साहसकरं वा विद्यावित्तीयपरं कन्द्यं भावणं गुणस्य परकं त्रिदण्डोयादिकं द्योताधारं चरित्रधारो विष
 शानादिकनी प्रवर्षणाद् बिल्वियौयामाषु केशवोच धन्वागर्तियं उग्रसाहस्यं मादंश्याय अथशर्वाकिश्वित्यि भावणकण्ड । आनोवियाण श्रामिन्नां गाण
 दसणभगाण देवेषु उववज्जमाणाय कण्ड २ कश्चि २ उववाची प० । आभियोगं त्रिया मनादि यदाह इविशीखलुपमिथीगो दत्वेमविपहोइनायत्तो ।
 द्द्वमिहीतिजायोगा विद्यामहायभाष्यो ॥ १ ॥ उक्तञ्च काश्रवभूक्त्यां पविष्ठापसिखेनिमित्तमालोवि रिशिरससायगुरुवो अभियोगभाष्यकुण
 ६ ॥ २ ॥ रजोहरणादिविपना धरणशर सम्यक्त्वपामो स्पष्टयाने निन्द्व इत्यादि पददेवताने विपे क्पणजतोयत्तो अनेरागते यथा यच्चससायपले उ
 पपौ तोकहा २ जपलै ते कश्चो इमं पूजा कर्तुं । गीयमा नवजय भावयद्वदेवाण जडकण्ड भवणवासीसु उ० । अस्य तन्भावो पूज्यदेवता चरुवेनी
 जवच्ये भवनपतीमादि जपन्ते । उवरिमगेविष्णुमु श्रविराहियस्यमाय । उरकण्ड उपरिता श्रैवेयकताइं उपलै श्रविराहितस्यमना धरो । जड०

प्यनाथकुण्ड ॥ १ ॥ कहकहकहसहस्रं कदप्योऽपि हयायतल्लावा । कदप्यकटाकणं कदप्यवससाय ॥ २ ॥ मूननयणबयपदसण छेदेहिं
 करपादयकणमार्हेहि । ततकरेडवसजह हसइपरोअत्तथाअहय ॥ ३ ॥ वीयाकुण्डेषुणत जपइजेणरस्सएलीउ । णाणाविरजीवरुते कुण्डइमुइतरए
 वेव ॥ ४ ॥ प्रासइदुयंगच्छेय दरिठं गोविंसोसरएसव्व । दधकुण्डकारी फुइइवाळ्ळियदप्पेण ॥ ५ ॥ वेसवयणेहिणचं जणयतीअप्पणीपरेधिच ।
 अइहासणोत्तिअन्नइ पणोव्विखलोनियच्छत्तो ॥ ६ ॥ सुरजालमाइयो ए तुविइइयकुणइतविहजजस्स । तेहुपविम्हइयसु यआहुटुकइठममुच ॥ ७ ॥
 जोसजुठिविए सुअप्पस्यामुजावणकुणइ ! सोतविहेसुगच्चइ सुरेसुजइठघरणो ॥ ८ ॥ तेपा कन्दर्पकाणा ॥ वरिणपरिखायायापति ॥ वरकपदि
 प्राजना घावितनेलोपजीविन खिदंदिन , अथवा वरका कच्छोटकादय परित्ताजका कपिलमुनिमुनव वरकाश्च परित्ताकाश्च तेपा , तथा ॥
 किंविधिघरणाति ॥ किंतिवष पाप तदांस्त येया ते किंतिवया स्तेष व्यधइरत थरण तएव छानाद्यवखंवादिन , उत्तल्य-नाणस्सकेवलीण धम्माय

रियाणसव्वसाहूण । माईअवत्तथाइ किंविंसियजावक्कुणइ ॥ १ ॥ कायावपायतेधिप तेधेवमायथप्पमायाय । मोक्खोहिगारियाणं जोइसजोणी
 हिंकिज्ज ॥ २ ॥ एगतरमुप्पाए अलोत्ताघरणयादुवैयहपि । केवलदसणनाणाण नेगकालेवएगत्त ॥ ३ ॥ जघाईहिअथन विइसइवइहनयावि
 सववाए । अइउळ्ळिइप्यंही पगासवाइअणुकुलो ॥ ४ ॥ अविंसहणतुरियगई अणावुवतीएअवगुरूणपि । सणमतपीइरोसा गिहयच्छलगायसष
 इया ॥ ६ ॥ गूहइआयसइव पायइगुणैपरससतेवि । सोरोउसव्वसकी गूढायारोवितइनासी ॥ ७ ॥ तेपा ॥ तिंरिच्छियाणति ॥ तिंरिवा गयादी
 ना देअविरतिंताजा ॥ आजीवियाणति ॥ आजीविका पायणकविज्ञापाः गोसालमतानुसारिण , अथवा आजीविति ये ऽधिवेकतो लोच्यपूजाख्या
 तिंनि थरणादीन्याजीविका तेषा ॥ आनिपयोगियाणति ॥ अत्रियोजन विद्यामत्रादिजिः परेया वशीकरणादिअत्रियोग स च द्विधा-यदार-दुविहो
 खलुअत्रिउगे देवैत्रावेयरोइनायवो । दव्वमिहोविजोगा विज्जामंताइप्रावसि । सोसि येषां ते तथा धरति येते अत्रिउगिका-आत्रियोगिका

हीयतीती ॥ १ ॥ तदयुक्त-यतो मीषामुररुष्टत उपरितनर्धयक्षीपुपपातो यर्यते सम्यग्दृष्टीनां तु देशविरतानामपि न तन्नीपपातोऽस्ति देवा
विरुतिश्रावकायामय्युक्तादुदुमगात्, नाप्येते निज्जवा स्तेपामिष्टेय भेदेनात्रिपानात् तस्या न्निध्यादृष्टय स्यात्तद्व्याप्तव्या य प्रमज्जगुणयारिणो
निखिलसमाचार्यनुष्ठानयुक्ता द्रव्यलिङ्गधारिणो ऽस्यतन्मयद्रव्यदेया प्रतिपत्तव्या, ते पौष्पासिलकेवलक्रियाप्रनायत उपरियेयैपक्षेपुत्सद्यन्त संये
ति अस्यताद्य ते सत्यनुष्ठानं चारित्र्यपरिष्कारानुत्पत्त्यात्-आविराहियसन्मार्गामिति ॥ प्रतन्व्याकालादारभ्या प्रमणारित्रपरिष्कारमाना सुष्ट्या सुष्ठु
नकपायसामर्थ्यात् प्रमत्तगुणस्थानकवशात् ॥ स्वल्पमायादिदोषसम्भवेव्यनापरितसयं शायरणीपपातानामित्यर्थः, तथा ॥ विराट्पियवज्जमायंति
॥ विराचित सर्वालना सक्तितो न पुन प्रायश्चित्तप्रतिपत्त्या भूय संचित सपत्नी ये स्ते विराचितसयमा स्तेषा ॥ अयिराहियसन्मार्गामिति
ति ॥ प्रतिपत्तिकालादारभ्याउचिततदेशविरातिपरिष्काराना [त्रावकाशा ॥ विराहियसज्जनासज्जमायामिति ॥ विराचित स्वयंत्तनोऽपराहितो न
पुन प्रायश्चित्तप्रतिपत्त्या पुनर्नवीकृत सयमासयमी ये स्ते विरापितसयमासयमा सया मसोत्तना मनोलात्त्रिरक्षितामकामनिर्जरायता तथा
॥ तावसाचति ॥ परिश्रुतितपत्राद्युपसोगवता यालतस्त्रिना तथा ॥ कल्प परिश्राव' स सयामस्ति तेन चापि परति ते कद
पिक्ता कदप्यिंका व्यवहारत यरखवत एव कदप्यिंकीकुच्यादिकारका उक्त'व-कदप्येकुडुंय दयसीक्षियाविशाहकरेय । विन्हायितीपपर कद

विराहियसज्जमां ण सुसन्तीणं तावसाण कदप्पियाणं चरगपरिष्काराणं क्खिसियाणं त्तिरिच्छीयाणं

सयनासयमानामसोत्तना तपस्त्रिना कान्दार्प्यकाना चरकपरित्राजकाना क्षिन्धिपकाना विरया आनीयिकानामानियोनिकामा स्वानिद्रुना
य विराहियसज्जनाच अदिराहियसज्जनासज्जमां च य इभनवन् सत्तगत दोषपापान्ने भावमन्व देवताने योग्ग ते द्रव्य लक्षिं नयो विराधोचयम
त्रिचे विराधनाकोषो अयमने विषे लवेनधो विराध्या यागकनोविरति लेणे । विराहियसज्जमानज्जमां च सवनीचं तावसाण क्खदप्पियाणं चरगपरि
चायया पक्खिन्धिसियाणं त्तिरिच्छीयाणं । विराधकसयमो अमवो मनोव्रियिपरिहिय अकान निजंताना धरेश्वार तावसससु क्खन्न योग्यव्यवहार चारिपत्त

रन्म निरन्तर यावदीशानात्, सर्वत्र विचिवाक्यं अत्येगइए लनेज्जा अत्येगइए नो लमेज्जा इति वक्तव्य, प्रातिपद्ये नो इण्ठे समठे इति । तदेव मक्तानि द्वाराणि, सम्प्रति उपपातगत किचिद्वक्तव्यमस्तीति तदन्विधिरसुराह-अह जते ॥ इत्यादि ॥ तथेति परप्रश्ने ॥ असन्नयन्नविद्यद्वेदेवाण मिति ॥ असयता शरणपरिणामज्ञान्या प्रथ्या देव्यत्वयोग्या अतएव द्रव्यदेवा समासशैव-असयताथ ते प्रव्यद्रव्यदेवायाऽसयतप्रव्यद्रव्यदेवा, तत्रेके प्रादुरेते किंलाऽसयतसम्पद्दृष्टयो देवेषुत्यादात् उक्तच किलिवमागमे-अशुद्धयमदृष्ट्याह वास्तवोकासनिज्जाराण्य । देवातयनिवचइ सम्प्रदि

नत्र अणुत्तरोत्रवाडयज्जोहितो, आसयणत्तं हत्यिरयणत्त च रयणप्पज्जात्तं निरंतरं जाव सहस्सारी अत्ये गतिए लनेज्जा अत्येगतिए नो लनेज्जा । चक्करयणत्तं दंरुयणत्तं चक्करयणत्तं लत्तरयणत्तं मणिरयणत्तं अस्सिरयणत्तं कागिणिरयणत्त एणसि अस्सुरकुमारोहितो अ्यारद्धं निरंतरं जाव ईसाणात्तं सेसेहितो नो इण्ठे समठे । अह जते ! असजयन्नविद्यद्वेवाणं अ्यविराहियसंजमाणं अ्यविराहियसंजमाणं

नधरमनुत्तरोपपातिकवर्जंज्य, अश्रुत्तव हस्तिरत्तव च रत्तप्रजातो निरन्तर यावत्सहस्सारी ऽस्त्येकको लभेतास्त्येकको नो लनेत । चक्कर त्तव चर्मरत्तवत्वं दण्ठंरत्तव लत्तरत्तव मणिरत्तवमसिरत्तव काकिणिरत्तव मेतेपामसुरकुमारंज्य आरज्य निरन्तर यावदीशानात् त्रोपेज्जो नापमर्थं समर्थं । एण जदत्त ! असयतत्रविद्वद्देवानामविराचितसंयमाना विराचितसयमाना अ्यविराचितसयमाशयमाना विराचित

न वर्जने । आसयणत्तं हत्यिरयणत्तं रयणपमाथो निरन्तर जाव सहस्सारी । अत्तत्त गज्जत्त रत्तमाथो निरन्तर जालगी सहस्सारपर्यन्त । अत्ये गरए ल० अत्ये० नी ल० । कोइ रत्त जपने कोइं न जपने । चक्करवणत्तं कत्तर० चक्कर० दडर० अस्तिर० मणि० कागिणिरयणत्त । अिये चक्करत्त क्व० चर्म दण्ठ चक्क मणि कागणोरत्त ० । एतेसि अस्सुरकुमारोहितो आरत्त निरन्तर जाव ईसाणात्तं सेसेहितो । ए सर्वं अस्सुरकुमारघो आरभो निरन्तर जानीं इयानयी जपने बोवाथो न जपज्जानो । ओइण्ठुं समठे । एथं समर्थं नरो । अहभते असन्नय भविद्वद्देवाथ अ्यविराहियसजमा

लिरवत् रत्नप्रज्ञात आरभ्य निरन्तर यावदासहस्रारत्नं, चक्ररत्नस्य द्वापरवत् प्रकृतवत्तमसिखरवत् माण्डिक्यरत्नस्य काफिरवत्तय पासुन्दनारादा

विहितो वैमाणिपुहितो यश्च्युत्तरीववातियवज्जोहितो सेसेसु णो इण्ठे समठे । मंछलियत्तं झुहे सत्तमापु
तेउवाउवज्जोहितो, सेणावडरपणत्त गाहावडुरयणत्त वड्डइरयणत्त पुरोहियरयणत्तं डलियरयणत्त च एत्तंवेव

धत्त नवर शकराप्रज्ञापायिबीनेरियकोपि तन्नत्त । एव वासुदेवस्य द्वाभ्या पृथिवीभ्या वैमानिकेभ्ययानुतरोपपातिकदुर्ज्ञेभ्य ओपंसु नापमये
समये । मण्डलितमस्यस्य सप्तमाया सोणोवायुज्जैल्य , सेनापतिरवत्त गायपतिरवत्त घाटुकिरवत्त पुरोहितरवत्त स्तिरवत्त मेव चैव

ए पटवोए केरइवस्स तित्यवरत्त तद्वा भाविं. सखरपभपटवोकेरइएष भते पुष्ठा । हेभौतम त्रिम रत्नपभाप्रथिवीना नारकोने तोर्थश्चरपर्षो वज्जो
तिम कश्चिदो यंकरपभा प्रथिवीना नारकोनो हेभगवन् प्रत्त । गीयमा षोइएण्डे समठे एव जाव पद्देमत्तमाएवि तिरियमस्यपुत्तितो पुष्ठा । हेभौतम

एषयं समर्थं नशो इम जावगी सातमी ताइ विण्डुवे तियंउ मनुष्यो वक्रवत्तंयाय प्रत्त । गीयमा योइएण्डे समठे । हेभौतम एषयं समर्थं नशो । भवव
पति वाणमतर कोयधिय वेनापिण्डितो पुष्ठा । मवमपतो वानस्यसर ण्योतिथो वैमानिकयो भायो वक्रवत्तं इवे । अत्ये. स. पटय. नी न. ।

हेभौतम कीरलामे कोइ नलामे । एव वलदेवत्तंवि एवर सखरपभ पुटवो केरइएण्डियि समेधा एयं वासुदेवत्त दोहितो पटवोत्तितो वैमाणिएपुत्तितो
अणत्तरीववाइयवज्जोहितो सेसेसु । इम वसदेवनी पिण कश्चिदो एतकीविमेष यंकरपभा प्रथिवीना नारकोथी पिण डुवे इम वासुदेव दोय नरकएवि

दोयो वैमानिकयो पनुत्तरवर्कीने श्रेय सर्वया नकथो वासुदेव याय । योइएण्डे समठे मटवियत्तं पद्देमत्तमाएण्डितो तेउ वाण वज्जोत्तितो । एषयं समर्थं
नशो मण्डलीकराजा षिवे सातमीयो जपलै तेउ वाठ वर्नीने जपलै । सेणावरयणत्त गाहावडुरयणत्त वड्डइरयणत्त पुरोहियरयणत्त इलियरयणत्त
वि एवचेन । सेनापतिरत्त गायपतिरत्त वाठंकीरत्त पुरोहितरत्त स्तोत्त इमदोण जपलै । एवर पणुत्तरीववाइयवज्जोत्तितो । ए विमेष पनुत्तरविम

लिरवत् रत्नप्रज्ञात आरभ्य निरन्तर यावदासहस्रारत्नं, चक्ररत्नस्य द्वापरवत् प्रकृतवत्तमसिखरवत् माण्डिक्यरत्नस्य काफिरवत्तय पासुन्दनारादा

विहितो वैमाणिपुहितो यश्च्युत्तरीववातियवज्जोहितो सेसेसु णो इण्ठे समठे । मंछलियत्तं झुहे सत्तमापु
तेउवाउवज्जोहितो, सेणावडरपणत्त गाहावडुरयणत्त वड्डइरयणत्त पुरोहियरयणत्तं डलियरयणत्त च एत्तंवेव

धत्त नवर शकराप्रज्ञापायिबीनेरियकोपि तन्नत्त । एव वासुदेवस्य द्वाभ्या पृथिवीभ्या वैमानिकेभ्ययानुतरोपपातिकदुर्ज्ञेभ्य ओपंसु नापमये
समये । मण्डलितमस्यस्य सप्तमाया सोणोवायुज्जैल्य , सेनापतिरवत्त गायपतिरवत्त घाटुकिरवत्त पुरोहितरवत्त स्तिरवत्त मेव चैव

ए पटवोए केरइवस्स तित्यवरत्त तद्वा भाविं. सखरपभपटवोकेरइएष भते पुष्ठा । हेभौतम त्रिम रत्नपभाप्रथिवीना नारकोने तोर्थश्चरपर्षो वज्जो
तिम कश्चिदो यंकरपभा प्रथिवीना नारकोनो हेभगवन् प्रत्त । गीयमा षोइएण्डे समठे एव जाव पद्देमत्तमाएवि तिरियमस्यपुत्तितो पुष्ठा । हेभौतम

एषयं समर्थं नशो इम जावगी सातमी ताइ विण्डुवे तियंउ मनुष्यो वक्रवत्तंयाय प्रत्त । गीयमा योइएण्डे समठे । हेभौतम एषयं समर्थं नशो । भवव
पति वाणमतर कोयधिय वेनापिण्डितो पुष्ठा । मवमपतो वानस्यसर ण्योतिथो वैमानिकयो भायो वक्रवत्तं इवे । अत्ये. स. पटय. नी न. ।

हेभौतम कीरलामे कोइ नलामे । एव वलदेवत्तंवि एवर सखरपभ पुटवो केरइएण्डियि समेधा एयं वासुदेवत्त दोहितो पटवोत्तितो वैमाणिएपुत्तितो
अणत्तरीववाइयवज्जोहितो सेसेसु । इम वसदेवनी पिण कश्चिदो एतकीविमेष यंकरपभा प्रथिवीना नारकोथी पिण डुवे इम वासुदेव दोय नरकएवि

दोयो वैमानिकयो पनुत्तरवर्कीने श्रेय सर्वया नकथो वासुदेव याय । योइएण्डे समठे मटवियत्तं पद्देमत्तमाएण्डितो तेउ वाण वज्जोत्तितो । एषयं समर्थं
नशो मण्डलीकराजा षिवे सातमीयो जपलै तेउ वाठ वर्नीने जपलै । सेणावरयणत्त गाहावडुरयणत्त वड्डइरयणत्त पुरोहियरयणत्त इलियरयणत्त
वि एवचेन । सेनापतिरत्त गायपतिरत्त वाठंकीरत्त पुरोहितरत्त स्तोत्त इमदोण जपलै । एवर पणुत्तरीववाइयवज्जोत्तितो । ए विमेष पनुत्तरविम

करवें न लजते अन्तःक्रिया पुन' कुरुं, द्विप्रियतुरिन्द्रिया अन्तरमुद्गता स्तामपि न कुर्वन्ति मनःपर्यवधानं पुनरुत्सादयेयुः । तिर्यक्पञ्चोन्द्रिय मनुष्यव्यन्तरव्योतिका अन्तरमुद्गता स्तीर्यकरव्य न लजते अन्तःक्रिया पुन कुरुं; सौधमादय सर्वाथिच्छिद्रपुंयवसाना नीरथिकवद्वृत्तव्या, गतं तीर्यकरद्वार । सम्यति चक्रवर्तित्वादीनि द्वाराण्युच्यते तत्र यक्रवर्तित्व रत्नप्रान्नीरथिकजवनपविष्यन्तरव्यातिर्ष्वमतिकेच्यो न शोषेच्य, बलदेव वासुदेवस्ये शकरतोपि नवर वासुदेवत्वे वैमानिकेच्यो अनुचरोपपातवर्जेच्यो मयाकलिकत्वमथ सप्तमतेजोवायुवर्जेच्य. शोषेच्य सर्वेच्योपि स्थाने

अत्येगतिए लजेजा । से के गठेण जते ! एव युच्छड-गोयमा ! जहा रयणप्यजा पृढविणेरइयतियगरत्ते । सक्करप्यजापृढविणेरइएणं जते ! अणंतर उव्वहिहा चक्कवहित्तं लजेजा ? गोय मा ! णो इणठे समठे । एव जात्र अहे सत्तमाए पृढविणेरइए । तिरियमणुएहितो पुच्छा, गोयमा ! नोइणठे समठे । जत्रगवइवाणमतरजोइसियवेमाणिएहितो पुच्छा, गोयमा ! अत्येगडए लजेजा अत्ये गइए नो लजेजा । एव च बलदेवत्त णवर सक्करापृढविणेरइएवि लजेजा । एवं वासुदेवत्त देहिंहेतो पुढ

रथेककौ नो लजेत । अथ केनार्थेन प्रदत्त । एवमुच्यते ? गीतम । यथा रत्नप्रज्ञापृथिवीनिरयिक तीर्थंकरत्वम् । शंकराप्रज्ञापृथिवीनिरयिको प्रदत्त । अन्तरमुद्गत्यं धक्रवर्तित्व लजेत ? गीतम । नायमर्थं समर्थः । एव यावदथ सप्तमापृथिवीनिरयिक । तिर्यग्मनुजेच्य पुच्छा, गौ तम । नायमर्थं समर्थ । प्रवर्णपतिवानव्यन्तरव्योतिर्ष्वमतिकेच्य पुच्छा, गीतम । अस्त्यकको लजेतास्त्येकको नो लजेत । एव च बलदे

रको ने कश्चो तिन सौधमंथो मांढो सर्वाथिच्छिद्रस्ये कहवो । रयणप्यभपुढवो केरइएण भते रयणप्यभपुढवो नेरइएहिती अणतरं वद्वहिता अणवहित्त सभज्जा । रत्नप्रभा पृथिवीना नारको हेमगवन् रत्नप्रभा पृथिवीथो नारको यनकरै चवेने चक्रवर्त्तपणो पामै । गोयमा अर्थे० ल० अर्थे० नी ल० ।

ऽन्तरमुद्रता स्तीर्यकरत्य न लभते, अन्तर्लिया पुन. कुर्युः, वसुदेवधरिते पुन नागकुमारस्यो प्युद्धती अनन्तरमेरावतदन्ते ऽस्यामेवावसात्वेत्या चतुर्विंशतितमस्तीर्यकर उपदशित, सदर्थतत्त्व केवलिनो विदति, तेजोवायवोऽनन्तरमुद्रता श्रुत्क्रियाभाष्ये न कुर्वति मनुष्येषु तेपामानन्तर्ये शोत्यादान्नाद्यादपि च ते तियत्त्वत्वा केवलिप्रसप्त घर्षे श्रवणतया लभेत्, ननु वीर्यं न इत्युक्तं प्राक् वनस्पतिकारिकायिद्यानन्तरमुद्रता स्तीर्ये

गोयमा ! णो इणठे समठे । अतकरिय पुण करेजा । वेइदियतेइदियचउरिदए पुच्छा, गोयमा !
 णो इणठे समठे । मणपज्जवनाण उप्पाळिजा । पचिदियतिरिस्कजोणियमणस्सवाणमतरोइसिएणं पुच्छा,
 गोयमा ! णो इणठे समठे । अतकरिय पुण करेजा । सोहम्मदेवेण जते ! अणतर चयचडत्ता तिल्यगरत्त
 लनेजा ? गोयमा ! अत्येगतिए लनेजा अत्येगइए नो लनेजा । एव जहा रयणप्पन्नापुढविणेरइए । एवं
 जाव सव्वठसिद्धगदेवे । रयणप्पन्नापुढविणेरइएण जते ! अणतर उव्वहिता चक्खवहिहत्त लनेजा ? गोयमा !

कुर्यात् । सीधर्मदेवो जदन्त । अनन्तर अत्युत्वा तीर्थकरत्व लभेत् ? गीतम । अस्त्येकको लज्जतास्त्येकको नो लभेत् । सव यथा रत्नप्रज्ञापुपि धीनिरपिक । एव यावत्सर्वार्थोसिद्धदेव । रत्नप्रज्ञापुपिधीनिरपिको जदन्त । अनन्तरमुद्रत्यं पक्रवत्तित्व लभेत् ? गीतम । अस्त्येकको लज्जता तीर्थहरने इवे पिण अन्तर्लिया करे । वेऽदिय तेदिय वीरिदिएण पुच्छा । गोयमा शोइएण्ठे समठे मणपज्जवणपुण उप्पाळिजा । हेगीतम एपथे समर्थं नहो तीर्थहरपणो नपामे पिण मनपर्वध्यानपणो पामे । पचिदियतिरिस्सकोरिया मणुखा वाचभतर जीइसियाण पुच्छा । पचेदियतियच योनिक मनुष्य वानयन्तर ज्योतिपीनो प्रस । गोयमा शोइएण्ठे समठे अतकरिय पुण करेजा । हेगीतम एपथं समर्थं भदो अन्तर्क्रियाकरे पिण तीर्थ हर नथाय । शोइमण्ठेवाण भते अणतरं चडत्ता तिल्यगरत्त नमेजा । सीधमना देवता हेमगवन् अनन्तरे ववीने तीर्थहरपणो पामे । अर्थे० ल० अ त्ये० नी न० । कीइपामे कोइ नपामे । एव जहा रयणपुण्डरी शेरइए तहेव जाव सव्वठसिद्धगदेवति भाषियवो । इम जिम रत्नप्रज्ञापुपिधीनानार

॥ टी ॥
 त्, धूमप्रज्ञापृथिवीर्नैर्यिकोऽन्तःक्रियामपि न करोति सर्वविरतिं पुन लंजते । तत्र प्रज्ञापृथिवीर्नैर्यिक सर्वविरतिमपि न लंजते । विरत्यविर
 तिदेशविरतिं पुन लंजते, अथ सप्तमपृथिवीर्नैर्यिक स्त्रामपि देशविरतिं न लंजते यदि पर सम्यक्मात्र लंजते असुरादयो यावद्वनस्पतिकार्यो

यमा ! णोऽण्ठे समठे, विरयाविरतिं पुण लजेज्जा । इहे सत्तमाए पुच्छा, गोयमा ! णो इण्ठे समठे !
 सम्मत्तं पुण लजेज्जा । असुरकुमारेण पुच्छा, गोयमा ! णो इण्ठे समठे । अत्तकिरिय पुण करेज्जा । एवं
 निरतर जाव अण्ठकाइए । तेउकाइएणं जते ! तेउकाइएणं हंतो अणतरं उह्विहा उववजेज्जा ? गोयमा !
 णो इण्ठे समठे । केवलपसुत्तं धम्म लज्जिज्जा सवणयाए । एवं वाउकाइएणं पुच्छा,

पुनलंजते । अथ सप्तमायाः पृच्छा, गौतम । नायमर्थं समयं, सम्यक् पुनलंजते । असुरकुमाराणां पृच्छा, गौतम । नायमर्थं समयं । अ
 स्त्रोक्त्या पुन कुर्यात् । एव निरन्तर यावदप्युक्त्या । तेजस्कार्यिको जदत्त । तेजस्कार्यिकेभ्योऽनन्तरमुहूर्त्योरपद्यते ? गौतम । नायमर्थं
 समयं । केवलप्रज्ञप्त धर्म लंजते श्रवणतया । एव वायुकार्यिकोपि । वनस्पतिकार्यिक पृच्छा, गौतम । नायमर्थं समयं, अन्तक्रिया पुन

महे विरति २ पुण लभेज्जा अहेसत्तमाएण पृच्छा । हेगौतम एअर्थं समयं नहो विरतिं पिण अविस्सपणे लामे हिवे सातमोनो प्रय । गौयमा षोऽण्ठे सम
 ष्ठे समठे । हेगौतम एअर्थं समयं नहो । समत्तं पुण लभेज्जा अमरकुमारं पृच्छा । ए सम्यक्पणो लामे अमरकुमारो प्रय । गोयमा षोऽण्ठे सम
 ठे अर्ताकारिय पुणकरेज्जा । हेगौतम एअर्थं समयं नहो देयविरतिं पिण नपामे सम्यक्कुलमाध पामे । निरंतर जाव आउकाइए तेउकाइएण भते तेउ
 का. एहिती अण्ठर उव्वट्ठिता पुच्छा । इम निरन्तर जालगे अण्ठव तालगे तेउकाव इअगवन् तेउकावयो अनन्तरे वयोने मनुष्यमादि जपले प्रयत्न ।
 षोऽण्ठे समठे । हेगौतम एअर्थं समयं नहो । केवलपसुत्त धम्म लभेज्जा सवणवाए क्वलोप्रणीत धर्मं लामे साभले । एव वाउकाइएणिय
 एएण पृच्छा । इम वाउकार्यिकेने पिण वनस्पतौकावतो प्रय । गोयमा षोऽण्ठे समठे अर्ताकारिय पुण करेज्जा । हेगौतम एअर्थं समयं नहो

उदीर्घानि विपाकीदयनागतानि, नोपशान्तानि न सर्वथा अप्रादायापदानि, निकषितानि व्यवस्थोद्वेकरहितानि वा प्रवृत्तिं नोपसस्तमपि क
 त्वा, एव शक्यप्रज्ञाधालुकप्रज्ञाविषयेऽपि सूत्रे वक्तव्ये, पङ्कप्रज्ञापूर्थिवीनैरियक स्वतोनन्तरमुदृत स तीर्थकरत्व न सप्रति अन्तःक्रिया पुन कुर्वी

गरत्त नो लजेज्जा से तेणठेणं गोयमा ! एव बुच्चइ अत्येगतिए लजेज्जा अत्येगतिए नो लजेज्जा । एवं
 जाव वालुयप्पन्नापुढविनेरइएहितो तिल्यगरत्त लजेज्जा, पकप्पन्नापुढविनेरइएण व्रते ! पकप्पन्नापुढविनेरइए
 हितो अणतर उच्चइत्था तिल्यगरत्त लजेज्जा ? गोयमा ! णो इणठे समठे, अत्येकरिय पुण करेज्जा ।
 धूमप्पन्नापुढविनेरइएण पुच्छा, गोयमा ! णो इणठे समठे । विरति पुण लजेज्जा । तमाए पुच्छा, गो

त्य नो लजेत ततनार्थेन गीतम । गयमुच्यते-अस्त्येकको लजेतास्त्येकको नो लजेत । एव यायहालुकाप्रज्ञापूर्थिवीनैरियकेभ्य स्तीर्थकरत्व ल
 जेत । पङ्कप्रज्ञापूर्थिवीनैरियको प्रदत्त । पङ्कप्रज्ञापूर्थिवीनैरियकेष्व्योऽनन्तरमुदृत्य तीर्थकरत्व लभेत ? गीतम । नायमर्थं समयं । अन्तःक्रि
 या पुन कुर्वीत् । धूमप्रज्ञापूर्थिवीनैरियक पुच्छा, गीतम । नायमर्थं समयं, विरति पुनलजेत । तसाया पुच्छा, गीतम । विरताविरति
 पुढवी चेरइएहितां अणतर उच्चइत्ता तिल्यगरत्त नो लभन्ता । रत्नप्रज्ञापूर्थिवीना नारको अनन्तर चकोने तीर्थपुरपथो नपामै । सेतेणठेण गोउमा
 ए-५४३६ । तेमाटे गीतम इमकए । अर्थे- ल० अर्थे- ल० कोरं लामे कोरं नलामे । एव जाव वालुयपुढविनेरइएहिती चेरइएहिती तिल्यगरत्त लभे
 यरत्त लभेज्जा । त्रिवे पङ्कप्रज्ञापूर्थिवीना नारको तालवी कश्चिं । पकप्रज्ञापूर्थिवीनेरइएण भते पकप्रज्ञापूर्थिवीनेरइएहितां अणतर उच्चइत्ता तिल्य
 प पथ समयं नठी । अन्तःक्रिय पुण करेज्जा । अन्तःक्रियाकरो वलीपामै । धूमप्पन्नापुढविनेरइएण भते पच्छा । गोयमा चोइएण्डे समठे । इगीतम
 न्प्रपत्त । गोयमा चोइएण्डे समठे विरति पुण लजेज्जा तनारत्त पुच्छा हेगीतम एअर्थं समयं नठी विरतिपण लामे तमानो प्रय । गोउमा चोइएण्डे स

नि मनुष्यगतिपथेन्द्रियजातित्रयवाद्दरपर्याप्तसुजगदे यथा कीर्तनान्तसहोदयत्वेन व्यथस्थापितानीतिप्राव , निविष्टानि तीत्रानुप्रावजनकतया स्थितानि श्रान्तिनिविष्टानि विचित्रविशिष्टतराध्यवसायनावतीतितीव्रतमानुप्रावजनकतया व्यवस्थितानि , श्रान्तिमन्त्रागतानि उदयान्निमुसूतानि ,

मा ! जस्सन्तं रयणप्यन्नापुढविनेरडयस्स तित्यगरनामगोयाइ कम्माइं वथाइं पुठाइं कछाइं पठविथाइं णिविठाइं अन्निनिविठाइं अन्निमन्त्रागयाइं उदिन्नाड नो उत्रसताइ हवति सेणं रयणप्यन्नापुढविनेरड एहितो अणंतरं उव्वहित्ताण तित्यगरस्त लन्नेजा , जस्स त्त रयणप्यन्नापुढविनेरडयस्स तित्यगरनामगोया इ णोवत्ताइ जात्र नोउदिन्नाइं उत्रसताइ जत्रति सेण रयणप्यन्नापुढविनेरडएहि अणंतरं उव्वहित्ता तित्य

गीतम ! यस्य रत्नप्रभापृथिवीनैरियकस्य तीर्थकरनामगोत्राणि कर्माणि यद्दानि स्पृष्टानि कृतानि प्रस्थापितानि निविष्टान्यन्निविष्टानि अन्निमन्त्रागतानि वदीर्णानि नोपशान्तानि प्रवन्ति स रत्नप्रभापृथिवीनैरियकेभ्यो उनन्तरमुद्दस्य तीर्थकरत्व लभेत् , यस्य रत्नप्रभापृथिवी नैरियकस्य तीर्थकरनामगोत्राणि नो यद्दानि यावन्निबोदीर्णानि उपशान्तानि प्रवन्ति स रत्नप्रभापृथिवीनैरियकेभ्यो उनन्तरमुद्दस्य तीर्थकरं

लाभे । गोयमा जस्य रयणप्यन्नापुढवी खेरदयस्य । इगौतम जे रत्नप्रभापृथिवी नारकीने । तित्यगर नाम गोयाइ कम्माइं वत्ताइं पुठाइं कछाइं पुढ विथाइ णिविथाइ अन्निनिविष्टाइ अन्निमन्त्रागयाइ उदिन्नाइं नो उत्रसताइं भवन्ति । तीर्थहर नाम कर्मेना गीण कर्मेने वाच्याकै फरस्याकै कीथा कै धायाकै रत्नाकै तीत्रानुभावमार्ते विशेष धाय्याकै रत्नाकै अभिनिवटतरा ध्ववसायनावे तीत्र मनुभाज जनक व्यवस्थित धयन्नाववा समुत्त घ याकै वटोणं विपाकपणे उटवसाव्या उपशान्तपणी न पास्या इवे । सेणं रयणप्यन्नापुढवी खेरदयस्य पुढवी खेरदयस्य तित्यगरत्तं लभेत्ता । ते रत्न प्रभा पृथिवीना नारकी अनन्तरे ववीने तिर्थहरपणी पाभे । जस्य रयणप्यन्नापुढवी खेरदयस्य तित्यगरनामगोयाइं नो वत्ताइं छाव नो उदिन्नाइ ववयताइ भवन्ति । जे रत्नप्रभापृथिवीना नारकीने तीर्थहर नाम गोय न वाच्याकै जालगे, उदय न यथा इवे उपशान्त पास्याकै । केष रयणप्यन्ना

जेणं मणपज्जवनाणं उप्पाट्टेज्जा सेणं केवलनाणं उप्पाट्टेज्जा ? गोयमा ! णो इणठे समठे । पचिट्टिव
 त्तिरिक्खज्जोणिएण ऋते ! पचिदियत्तिरिक्खज्जोणिएहिंतेो अणतर उच्चहिंत्ता नेरइएसु उववज्जेज्जा ? गोय
 मा ! अत्येगइए उवव० अत्येगइए नो उववज्जे० जेणं ऋते ! उवव० सेणं केवलपत्तत्तं धम्मं लभेज्जा
 सवणयाए ? गोयमा ! अत्येगतिए लभेज्जा अत्येगतिए नो लभेज्जा । जेणं केवलपत्तत्तं धम्मं लभेज्जा
 सवणयाए सेण केवलं बोहिं बुज्जेज्जा ? गोयमा ! अत्येगतिए बुज्जेज्जा सत्येगतिए नो बुज्जेज्जा । जेण

मंपद्यानमुत्पादये त्व केवलज्ञानमुत्पादयेत् ? गीतम । नायनयं समयं । पञ्चोन्द्रियतिर्यग्योनिको जदन्त । पञ्चोन्द्रियतिर्यग्योनिकेज्ज्योनन्त
 रमुद्धत्यं नैरियकेपुद्गद्योत २ गीतम । अस्यैकक उत्पद्योतास्यैकको नोरपद्योत । यो जदन्त । उत्पद्योत स केवत्तिप्रद्यस परं लजेत द्रवपत
 या २ गीतम । अस्यैकको लजेतास्यैकको नो लभेते । यो केवत्तिप्रद्यस धमं लजेते श्रवणतया स केवला योधि युष्येत ? गीतम । अस्यैक

व मणपज्जवनाथं उप्पाट्टेज्जा । इन तेरिद्रिय चोदिद्रियेने पिय जालगे मनपर्यवसान उपाये एतले आसावेकरो कहथो । जेण भते मणपज्जवनाथ उपा
 डेज्जा सेणवि केवलिपाण उपाडेज्जा । जे हेमगवन् मनपर्यवसान उपावे तेषू केवसदान उपावे । गोयमा षोडशे समठे । हेगौतम एचयं समयं नको ।
 पचिदिय त्तिरिक्खज्जोणियाण भते पचिदियत्तिरिक्खज्जोणियाहितो अणतर उच्चहिंत्ता नेरइएसु उवव० । पञ्चोन्द्रिय तिर्यग्योनिक हेमगवन् पचेद्रियति
 र्यवयोनिकथो अनन्तरै नीकलोने नारकोमाहि कपजे । अत्ये० उ० पत्ये० नो उ० । हेगौतम कीर कपजे कोइ न कपजे । जेण भते उवव० सेण केव
 लिपणत्त धम्मलभेत्ता सवण्याए । जे हेमगवन् कपजे ते केवलीप्रणीत धम्मलाभे सुण्याने । गोयमा पत्ये० लभेत्ता पत्ये० नो लभेत्ता । हेगौतम कोइ
 लामे कोइ ननाभे । जेण भते केवलिपणत्त धम्मलभेत्ता सवण्याए सेण केवलि बोहिं बुज्जेज्जा । जे हेमगवन् केवलीप्रणीत धम्मलाभे सुण्याने ते केवले

पि च तिर्यक्पञ्चेत्रियेषु च नेरयिकवद्वक्तव्यमेव संप्रकायिकवनस्पतिकायिकाश्च वक्तव्याः । तेजस्क्रीयकावायुकायिकाश्च मनुष्येद्यपि प्रतिषेधनीया
तेषामानन्तर्येण मनुष्येपूसादसन्नवात्, असम्भवद्य क्लिष्टपरिणामतया मनुष्यमतिमनुष्यान्पृथीमनुष्यायुर्थस्यात्सम्भवात् तिर्यक्पञ्चन्द्रियेषूपत्यता, किं
वन्तिमद्यस घर्मे श्रवणतया लज्जोरन् श्रवणेन्द्रियस्य प्रावात्, पुनस्ता केवलिकी योचि नावबुध्यन् सक्लिष्टपरिणामत्वात्, द्विविधतुरिन्द्रिया
पृथिवीकायिकवत् देवनेरयिकवर्लेषु तोषियु सर्वेद्यपि स्थानेपूतपद्यन्ते नवर पृथिवीकायिका मनुष्येद्यगता श्रतक्रियामपि कुप्ये स्ते पुनरन्तिक्रिया

लज्जेज सवणयाए सेणं केवलिवोहिं बुज्जेज्जा ? गोयमा ! णो इण्ठे समठे । मणुस्सवाणमंतरजोइसिय
वेमाणिएसु पुच्छा, गोयमा ! णो इण्ठे समठे । एव जहेव तेउकाइए निरंतरं एवं वाउकाइएवि । वेइं
दिएणं जते ! वेइदिएहिती अणतरं उव्हित्ता नेरइएसु उव० ? गोयमा ! जहा पुढविकाइए णवरं मणू
सेसु जाव मणपउजवनानं उव्याडेज्जा । एवं तेइदियचउरिंदियावि जाव मणपउजवनानं उव्याडेज्जा ।

कायिको नवर मनुष्येषु यावन्मन पर्येषज्ञानमुपादयेत् । एव श्रीन्द्रियषतुरिन्द्रिया अपि यावन्मन पर्येषज्ञानमुपादयेत् । यो जदत्त । मनप

संभं केचि वीद्विबुद्धेः । ते केवल बोधेकरी बुद्धे । गोयमा षोदण्ठे समठे । हेगौतम एअर्थं समर्थं नहो । मणुस्साए वितर जोयधिं येमाणियाए
पुच्छा । इम मनुष्य व्यन्तर ख्योतिपी येमानिकनी प्रअ । गोयमा यो इण्ठे समठे । हेगौतम एअर्थं समर्थं नहो । एवं जहेव तेउकाइए निरतर याउ
काइएवि । इम जिम तेउकाय अन्तरावना कच्चो तिम वायुकाय पिण कइवो । वेद दिएण भते वेद दिएहिती अणतरं उव्हित्ता चेरइएमु उवव० ।
वेदिय हेमगवन् वेदियथो अन्तरं नोकसीने नारकीमाहि छपजे । गोयमा जहा पुढवीकाइएण अवरं मणुस्सेसु जाव मणपकायनाए उव्याडेज्जा ।
हेगौतम जिम पृथिवीकाइया कच्चा निम एतलोविमेष मनुष्यमाहि जपजे ते जालगे मनपर्येषज्ञान कच्चो न उपावे । एव तेइ दिव चउरिंदियाव जा

आउवाउवणस्सइ वेइदिय तेइदिय चउरिदिएसु अर्थेगतिए उववज्जेजा अर्थेगतिए नो उववज्जेजा । जेण नते । उववज्जेजा सेण केवलपत्तत्त धम्म लज्जेजा सवणयाए ? गोयमा ! णो इण्ठे समठे । तेउ क्काडएण नते ! तेउक्काइएहितो अणतर उव्वहिता पचिदियतिरिक्कजोणिएसु उववज्जेजा ? गोयमा ! अर्थेगतिए उववज्जेजा अर्थेगतिए णो उववज्जेजा । जणं उववज्जे० सेण केवलपत्तत्त धम्मं लज्जेजा सवणयाए ? गोयमा ! अर्थेगतिए लज्जेजा अर्थेगतिए नो लज्जेजा । जेण नते ! केवलपत्तत्त धम्मं

सत्येकको नोत्पद्येत । य उत्पद्येत स केवलपत्तत्त धम्मं लज्जेत अणत्तया ? गौतम । असत्येकको लज्जेतासत्येकको नो लज्जेत । यो नदत्त । त ज्ञत स केवला योधि बुध्येत ? गौतम । नायमर्थे समय । मनुयवानव्यक्तरज्योतिकयमानिकेषु पृच्छा, गौतम । नायमर्थे समय । एय यथैव तेजस्कार्थिको निरत्तरमेव वायुकार्थिकोपि । द्वीन्द्रियो प्रदत्त । द्वीन्द्रियेज्योऽनन्तरमुद्दत्तं गैरियिकयूरुपट्टोत्त ? गौतम । यया पृथिवी

एएण भते तंउक्काइएहिता अणतर उव्वहिता णेरइएसु उवव० । त्विे तेउकाय हेमगवन् तेउकाययो अनन्तर अबीने नारकीमाडि जपजे । गोयमा योइएठ्ठे समठे एव असुरकुमाररेमुवि एव काव अथियकुमाररेमुवि एव बाल वषस्सइ वे० ते० यौरिदिएसु अर्थेगए उववज्जेजा अर्थे० नो उव० । हेगौतम एवयं समयं नहो इम असुरकुमारत पिण इम स्तनितकुमारने पिण कहिवो इम वायु वनसणी येदिय तेदिय यौरिन्द्रियने जपजे काइ जप जे कोइ न जपजे । जेण भते तेउक्काइएण उवव० सेण क्वचिपणत्त धम्म लभेजा सवणयाए । जे हेमगवन् तेउकायन जपजे ते केवलीप्रथोत्त धम्मं लामो सामलीसके । गोयमा णोइएठ्ठे समठे । इभोतम एवयं समय नहो । तेउकाइएण भते तेउकाइएणित्तो अणतर उव्वहिता । तेउकाय हेमगवन् ते उकाययो अनन्तरै नोक्कलोने । पचिदिय तिरिक्कजोणिएसु उवव० । पचेदिय तिव्वसमाडि जपजे । गोयमा अर्थे० उ० अर्थेगए नो उ० । इभोतम कोइ उपजे कोइ न उपजे । जेण भते उव० सेण केवलपत्तत्त धम्मं लभेजा सवणयाए । जे हेमगवन् जपजे ते केवलीप्रथोत्त धम्मं लामे सुणयाने ।

पि, च तिर्यक्पञ्चन्द्रियेषु च नैरयिकवद्वक्तव्यमेव मण्युकायिकवनस्पतिकायिकाद्यं वक्तव्यां, तेजस्कायिकावायुकायिकाश्च मनुष्येषुपि प्रतिषेधनीया
 तेषामानन्तर्येण मनुष्येषुत्यादसञ्जवात्, असम्भवश्च क्षिप्रपरिणामतया मनुष्यमतिमनुष्यान्पूथीमनुष्यायुष्याचम्भवात् तिर्यक्पञ्चन्द्रियेषूपत्यन्ता. के
 वलिप्रसङ्गं धर्मं श्रवणतया तस्यैरन् श्रवणेन्द्रियस्य ज्ञावात्, पुनस्ता केवलिनी बोधि नावबुध्यरन् सक्रिष्टपरिणामत्वात्, द्वित्रिवतुरिन्द्रिया
 पृथिवीकायिकवत् देवमैरयिकवर्जेषु शेषेषु सर्वेषुपि स्थानेषूपद्यन्ते नवर पृथिवीकायिका मनुष्येषागतता अतस्क्रियामपि कुर्युं स्ते पुनरन्तःक्रिया

लनेज सवणयाए सण केवलिवोहि बुज्जेज्जा ? गोयमा ! णो इणठे समठे । मणुस्सवाणमंतरजोइसिय
 वेमाणिएसु पुच्छा, गोयमा ! णो इणठे समठे । एव जहेव तेउकाइए निरंतरं एवं वाउकाइएवि । वेइं
 दिएणं जते ! वेइदिएहिंतो छ्यणतरं उव्वहिता नेरइएसु उव० ? गोयमा ! जहा पुढविकाइए णवरं मण
 सेसु जाव मणपउजवनाण उप्पाडेज्जा । एवं तेइदियचउरिंदियावि जाव मणपउजवनाणं उप्पाडेज्जा ।

कायिकी नवर मनुष्येषु यावन्मन पर्यवधानमुरपादयेत् । एव त्रीन्द्रियवतुरिन्द्रिया अपि यावन्मन.पर्यवधानमुरपादयेत् । यो जदत्त । मन प

सेष केवलि बोधिवुक्तेः । ते केवल बोधेश्चरी बुक्ते । गोयमा षोडशे समठे । हेगौतम एअर्थं समर्थं नही । मणुस्साण विंतर लीयसिय वेमाणियाणं
 पुच्छा । इम मनुष्य व्यन्तर ल्योतिपो वैमानिकनी प्रथं । गोयमा णी इणठे समठे । हेगौतम एअर्थं समर्थं नही । एव जहेव तेउकाइए निरंतरं याउ
 कारएवि । इम जिन तेउकाय अन्तरावना कच्छी तिम वायुकाय पिय कइवी । वेद दिएण भत्ते वेद दिएहिंतो यणतरं उव्वहिता एरइएसु उवव० ।
 वेदिय हेमगवन् वेदियथी अन्नत्तर नोक्कलीने नारकीमाहि कपले । गोयमा जहा पुढवीकाइएणं षवरं मणुरसेमु जाव मणपकायनाण उप्पाडेज्जा ।
 हेगौतम जिन पृथिवीकारया कच्छा तिम एतलीविशेषं मनुष्यमाहि कपले ते जालेगे मनपर्यवधानं कच्छी न उपावे । एव तेइ दिव चउरिंदियावि जा

आवाउद्यणसइ वेइदिय चउरिदिएसुं अर्थेगतिए उववजेजा अर्थेगतिए नी उववजेजा ।
जेण जते ! उववजेजा सेण केवलपन्नत्त धम्म लज्जेजा सवणयाए ? गोयमा ! णो इणठे समठे । तेउ
क्काइएण जते ! तेउक्काइएहितो अणतर उव्वहिता पचिदियतिरिस्कजोणिएसु उववजेजा ? गोयमा !
अर्थेगतिए उववजेजा अर्थेगतिए णो उववजेजा । जण उववजे० सेण केवलपन्नत्त धम्म लज्जेजा
सवणयाए ? गोयमा ! अर्थेगतिए लजेजा अर्थेगतिए नी लजेजा । जेण जते ! केवलपन्नत्त धम्म

सयेज्जो नोस्पयेत । य उस्पयेत च फेवलपन्नत्त धमं लजेत अरुणतथा ? गोतम ! अरुणकको लजेतास्येकको नी लजेत । पो जदत्त । ल
जत च केयता मोधि बुध्जेत ? गोतम । नायमर्थं समय । अनुयवानव्यन्तरज्जोतिकेयमानिकेपु पूच्छा, गोतम । नायमर्थं समय । एय
ययेव तेजरकायिको निरन्तरमेव वायुकायिकोपि । हीन्द्रियो जदत्त । हीन्द्रियेज्जोऽनन्तरमुहत्वं नीरयिकपूरपद्येत् ? गोतम । यथा पृथिवी

इएण भते तेजकारइहिती अणतर उव्वहिता वेरइएसु उवव० । इवे तेउकाय हेभगवन् तेउकाययो अनन्तर ववीने नारकीमाहि जपजे । गोयमा
थोऽण्डे समठे एव पसुरकुमारेमुवि एव जाव थथियकुमारेमुवि एव वाज ववसइ वे० ते० चौरिदिएसु अर्थेगइए उववक्केळा अरुण० नी उवव० ।
हेगोतम एअर्थं समयं नहो इम पसुरकुमारन विण इम स्तनितकुमारने पिण कहिन्ना इम वायु वनसती वेदिय चीरिगिद्वयेने जपजे कांइ जप
जे कोर न जपने । जेण भते तेउकारइएण उवव० सेण केवलपणत्त धम्म लजेळा सवणयाए । जे हेभगवन् तेउकायन जपजे ते केवलोप्रणीत धमंने
सामो सामोएलै । गोयमा थोऽण्डे समठे । हेगोतम एअर्थं समयं नहो । तेउकाइएण भते तेउकाइएहिती अणतर उव्वहिता । तेउकाय हेभगवन् ते
उकायथो पत्तरे नोक्खोने । पचिदिय तिरिउज्जोविएसु उवव० । पचेदिय तिवंभमाहि जपजे । गोवमा अर्थे० उ० अर्थेगइए नी उ० । हेगोतम
कांइ जपजे कोर न जपजे । जेण भते उव० सेण केवलपणत्त धम्म लजेळा सवणयाए । जे हेभगवन् जपजे ते केवलोप्रणीत धमंने सामे सुणयाने ।

आउवाउवणरसइ वेइदिय तेइदिय चउरिदिणसु अत्येगतिए उववज्जेजा अत्येगतिए नो उववज्जेजा ।
 जेण नते ! उववज्जेजा सेण केवलपत्तत्त धम्म लज्जेजा सवणयाए ? गोयमा ! णो इणठे समठे । तेउ
 क्काइएण नते ! तेउक्काइएहि तो अणतर उच्चहिता पचिदियतिरिक्खजोणिणसु उववज्जेजा ? गोयमा !
 अत्येगतिए उववज्जेजा अत्येगतिए णो उववज्जेजा । जणं उववज्जेजा सेण केवलपत्तत्त धम्म लज्जेजा
 सवणयाए ? गोयमा ! अत्येगतिए लज्जेजा अत्येगतिए नो लज्जेजा । जेण नते ! केवलपत्तत्त धम्मं

सत्येकयो नोस्पद्येत । य उरपद्येत स केवलपत्तत्त धम्मं लज्जेत प्रवणतया ? गौतम । अत्येकको लज्जेतासत्येकको नो लज्जेत । यो ज्ञदत्त । ल
 ज्जेत स केवला योपि वुध्येत ? गौतम । नायमर्थे समथ । मनुय्यवानध्यन्तरज्योतिष्कयैमानिकेषु पृष्ठा, गौतम । नायमर्थे समथ । एव
 यथैव तेषस्कार्यायको निरन्तरमेव वायुकार्यायकोपि । हीन्द्रियो ज्ञदत्त । हीन्द्रियेष्व्योऽनन्तरमुद्दत्तं नैरयिकपूप्यद्येत ? गौतम । यथा पृथिवी

इएण भते तेजकाइएहिता अणतर उच्चहिता खेरइएसु उवव । णिवे तेउकाय हेमभवन् तेउकायथो अतन्तर चवीने नारकीमाहि जपजे । गोयमा
 षोइएण्ठे समठे एय असुरकुमारैमुवि एव जाव थणियकुमारैमुवि एव वाज वणस्सइ दे० ते० चौरिदिणसु अत्येगए उववज्जेजा अत्ये० नो उवव० ।
 हेगौतम एअयं समथं नहो इम असुरकुमारन पिण इम स्तानितकुमारने पिण कहिवा इम वायु वनएत्ती वेद्विअ चौरिन्द्रियने जपजे काइ जप
 जै बीइ न जपजे । जेण भते तेउकाइएण उवव० सेण कथलिपपत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए । जे हेमभवन् तेउकायन जपजे ते केवलोप्रणोत धम्मं
 लाभो वामलोसजे । गोयमा षोइएण्ठे समठे । हेगौतम एअयं समथ नहो । तेउकाइएण भते तेउकाइएहिता अणतर उच्चहिता । तेउकाय हेमभवन् ते
 उकायथो अणतर नोक्खोने । पचिदिय तिरिक्खलोविणसु उवव० । पचेद्विअ तिरिक्खमाहि जपजे । गोयमा अत्ये० उ० अत्येगए नो उ० । हेगौतम
 कोइ उपजे कोइ न उपजे । जेण भते उव० सेण केवालपत्तत्त धम्मं लभेज्जा सवणयाए । जे हेमभवन् जपजे ते केवलोप्रणोत धम्मं लाभे सुणयाने ।

तेषां विशिष्टमनोद्रव्यासम्भवतस्तीव्रसंज्ञाविशुद्धध्वसयाप्राभावात्, शेषेषु तु सर्वेषुपि स्थानेषु उत्पद्यन्ते तद्योग्याध्यवसायस्थानसम्भवात्, तत्रा

नोऽङ्गठे समठे । एव श्याउकाइयादिसु निरतरं ज्ञाणियच्च जाव चउरिदिएसु । पंचिदियतिरिस्कजोणिय मणुसंसु जहा णेरइए । वाणमतरजोइसियवेमाणिएसु पणिसेहो, एव जहा पुढविकाइउत्तणित्तं तथा श्याउ काइउत्तियि । वणस्सइकाइत्तं ज्ञाणियथो । तेउकाइएणं जते ! तेउकाइएणं जते ! तेउकाइएणं जते ! पुढविकाइय उववज्जिजा ? गोयमा ! नो इणठे समठे । एवं श्युसुरकुमारसुत्तियि जाव थणियकमारसुत्तियि । पुढविकाइय

सुखसुखादियु निरन्तरं ज्ञाणित्तम् यथावद्यत्तुरिन्द्रियेषु । पञ्चेन्द्रियतिययोगिकमनुष्येषु यथा नैरियिक । वानव्यत्तरं ज्योतिषवैमानिकेषु प्रतिपद्ये । एव यथा पृथिवीकायिको ज्ञाणित्तं स्तयाष्कायिकोपि । वनस्पतिकायिको ज्ञाणित्तम् । तेजस्कायिको भद्रत्त । तेजस्कायिकेभ्योऽनन्तरमुद्गत्त्वं नैरियिकेषूपद्येत ? गीतम् । नायमर्थं समर्थम् । एवमहुरकुमारैर्यपि यावत्स्तनितकुमारैर्यपि । पृथिवीकायिकाष्कायिकवायुवनस्पतिद्वित्रियत्तुरिन्द्रियेषु अस्त्येकक उत्पद्येतारस्त्येकको नोत्पद्येत । यो भद्रत्त । उत्पद्येत स कैवलिप्रपन्नं यथै लनेत श्रवणतया ? गीतम् । नायमर्थं समर्थम् । तेजस्कायिको भद्रत्त । तेजस्कायिकेभ्योऽनन्तरमुद्गत्त्वं पञ्चेन्द्रियतिययोगिकेषूपद्येत ? गीतम् । अस्त्येकक उत्पद्येत

उच्यते नो स्ववचः । इगौतम कोऽरु लपन्ते कीदं न लपन्ते । लेणं भते उ० तेण केवल्लिपणत्तं यथैल्लभत्तां सवणयाए । जे हेमगवन् लपन्ते ते केवल्लि कायित्तमने सामने । गीयमा कोऽरुत्ते समठे एव आउकाइयादिसुविरतरं भाणि० । हेगौतम एथयं समर्थं नही इमं भ्राज्जायादिकने निरन्तरपणं कइवो । चउरिदिएसु पचिदिय तिरिस्वकीरिणं मणुसु जहा णेरइए वाणमतरं ज्ञाणियेव वेमाणिएसु पचिदियेहो कायवो । वीरिन्द्रियं तांउ पचेन्द्रियं तियं च वीरिज्जं मनुष्य एसवं जिनं नारकी तिम वानव्यन्तरं ज्योतिषी वैमानिकने नारकीनां प्रतिपद्य करवो नारकीमाहि न लपन्ते । एव जहा पुढविकाइ यो भणियो तथा आउकाइओवि वषस्सकाइओवि भाणियवो । इमं जिनं पृथिवीकायने कइवो तिम परकाय वनसतीकायने पिण कइवो । तेजका

द्वियउववज्जेजा ? गोयमा ! णो इणठे समठे । अउवसेसेसु पंचसु पचिदियतिरिख्खज्जेणियादिसु । असु
रकुमारिसु जहा नेरइछे । एवजाव थणियकुमारो । पुढविकाइएण ञ्जेते ! पुढविकाइएण हतो अणंतर उच्चहिता
णेरइएसु उववज्जेजा ? गोयमा ! णो इणठे समठे । एव असुरकुमारिसुवि जाव थणियकुमारिसु पुढवि
काइएणहो अणंतर उच्चहिता पुढविकाइएसु उववज्जेजा ? गोयमा ! अल्येगतिए उववज्जेजा अल्येगति
ए णो उववज्जेजा । जेण ञ्जेते ! उववज्जेजा सेण केवलपन्नत्त थम्म लजेजा सवणयाए ? गोयमा !

प्रदग्ग । असुरकुमारिस्योऽनन्तर मुहुत्तं तेजोवायुद्विगत्रिचतुरिन्द्रियैरुत्पद्येत ? गौतम । नायमर्थं समयं । अवधोयेषु पप्यसु पञ्चेन्द्रियति
र्ययोनिकादिवसुरकुमारेषु यथा नेरयिक । एव यावत्स्नानितकुमार । पृथिवीकायिको प्रदग्ग । पृथिवीकायिकेस्योनन्तरमुहुत्तं नेरयिकेषु
त्पद्येत ? गौतम । नायमर्थं समयं । एवमसुरकुमारेषुपि यावत्स्नानितकुमारेषुपि । पृथिवीकायिकोनन्तरमुहुत्तं पृथिवीकायिकेषुत्पद्येत ?
गौतम । अस्यैकक सत्यद्योतारत्येकको नोत्पद्येत । यो जदन्त । उत्पद्येत स केवलप्रदग्ग थम सन्नंत श्रवणतया ? गौतम । नायमर्थं समयं ।
बाज वेर । तेर । चोरि । चव । तेजो वायु वेद्विय तेद्विय चोरिद्वियमाहि उपजे । गोममा णो इच्छे समठे अवसेसेसु पचसु निसेहो जायको । हेगो

तम एष्यं समयं नही थाकते पावयाने निपय कोले । पचिदिय तिरिख्खज्जेणियाइ असुरकुमारि जहा णेरइए एव जाव थणियकुमार । पचेद्विय
तियंथ तौनभेदनी गतिइवे असुरकुमार जिम नारको तिम जाणिवो इम स्नानितकुमारजगी जाणिवो । पुढवोकाइयाण भते पुढविकाइणहो पणतर
उच्चहिता णेरइएस चवव । पृथिवीकायना हेमगवन् पृथिवीकायथो थनन्तर नोक्कनीने नारकोमाहि ऊपजे । गोयमा णोरण्ठे समठे एव असुरकु
मारिसुमि जाव थणियकुमारिसुवि । हेगौतम एष्यं समयं नही इम असुरकुमार पिण छालगे स्नानितकुमार पिण । पुढविकाइएणं भते पुढविकाइणहि
तो थणतर उच्चहिता पुढवोकाइएसु उवव । पृथिवीकाय हेमगवन् पृथिवीकायथो थवन्तर चवीने वको पृथिवीमाहि लपजे । इता गोयमा थरथेगइए

त्यद्यन्ते, ईशानान्तर्देवानां तेषु तेषांदाविरीयाद् तेषु बोत्सका न केवलप्रदक्ष घमं लभते । श्रवणतया श्रवणोन्त्रियस्याप्रावात्, शेष सर्वं नैरयिक यत् ॥ एव जाव यणिकुमारारुति ॥ एवमसुरकुमारोक्तेन प्रकारेण तावदृक्तव्य यावत्स्वानितकुमारः, पृथिवीकायिका नैरयिकेषु च प्रतिपिध्यते

यमा ! नोइणठे समठे । असुरकुमारेणं जते ! अणंतर उव्वज्जेज्जा ? गोयमा !
 णो इणठे समठे । एवं जाव यणियकुमारेसु । असुरकुमाराण जते ! असुरकुमारोहितो अणंतरं उव्वहिता
 पुढाविकाडएसु उव्वज्जेज्जा ? हता गोयमा ! अर्थेगतिए उव्वज्जेज्जा अर्थेगतिए नो उव्वज्जेज्जा । जेण
 जते ! उव्वज्जेज्जा रेण केवलपणत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए ? गोयमा ! णो इणठे समठे । एव अण
 उव्वणस्सईसुवि । असुरकुमारेण जते । असुरकुमारोहितो अणतर उव्वहिता तेउवाउव्वेइदियतेइदियचउरिं

यन्ते ? गीतम । नायमयं समर्थं । अनन्तरमुद्दत्तं असुरकुमारोपसृपयन्ते ? गीतम । नायमयं समर्थं । एव यावत्स
 नितकुमार । असुरकुमारो जदत्त । असुरकुमारोन्मोन्तरमुद्दत्तं पृथिवीकायिकेत्पद्येत् ? गीतम । अस्त्येकक उत्पद्येत्तारस्त्येकको नोत्पद्ये
 त । यो जदत्त । उत्पद्येत्त स केवलप्रदक्ष घमं लभेत्त श्रवणतया ? गीतम । नायमयं समर्थं । एवमसुरकुमारो

उव्वज्जति । असुरकुमार हेभगवन् वधीने वधी असुरकुमारमाहि जपले । गोयमा णोइणठेसमठे एव जाव यणियकुमारोसु । हेगीतम एअर्थं समर्थं न
 धी इम जासने स्तित्तुनार । असुरकुमारेण भते असुरकुमारोहितो अणतरं उव्वहिता । असुरकुमार हेभगवन् असुरकुमारो असन्तर वधीने । एउ
 वोकाएएमु उव्वज्जेज्जा । पृथिवीकायमाहि जपले । इता गोयमा अर्थेगए उव्वज्जेज्जा अर्थे । नो उव्व । नोगीतम केतला जपजे केतला न जप
 जे । जेण भते उव्व । सर्वं केवलपणत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए । से जपले ते वेवलीप्रणीत धम्मनामै साभलवाने । गोयमा णो इणठे समठे एवं अणवण
 अणरुति । हेगीतम एअर्थं समर्थं नही इम अणु उव्वसत्तोने विण कइवो । असुरकुमारेण भते अणतर उव्वहिता । असुरकुमार हेभगवन् वधीने । तेज

के प्रतिपादयति-लेण प्रते । सथाएज्जा मुंनेत्रविद्या इत्यादि ॥ सुगम, नगर ॥ सिक्केज्जा इत्यादि ॥ सिञ्चे त समस्त्राणिमैश्वर्यादिसिद्धिनाक्त्त
येत् बुध्येत लोकालोकस्वरूपमत्रोपसयगच्छेत, मध्येत् प्रबोधप्राप्तकर्मजिरपि किमुक्त्त प्रवति-सर्वदुःखानामत कुर्यात्, धानमतरज्जोतिरुयैमा
निकेपु प्रतिपेधो वक्तव्यो, नैरयिकस्य प्रवस्थात्राख्यानैरयिकदेयजययोग्यायुर्वधासन्नधात्, तदेव नैरयिकादिषतुर्विधातिटगतककन्येण चिन्तित्ता
साम्प्रतमसुरकुमारान् नैरयिकादिषतुर्विधातिदयककमेण चिन्तयति-असुरकुमाराण प्रते । इत्यादि प्राग्वत्, नगरमेते प्रविध्यवृत्तस्वतिप्रपु

मा । अत्येगतिपु उप्पाळिज्जा अत्येगतिपु नो उप्पाळिज्जा । जेण प्रते ! केवलनाणं उप्पाळिज्जा सेण
सिक्केज्जा बुक्केज्जा मुत्तेज्जा सब्दुस्काणं अत्त करेज्जा ? गोयमा ! सिक्केज्जा जाव सब्दुस्काण अत्त करेज्जा
नेरइएण प्रते ! नेरइएहिती अणतर उव्वहित्ता वाणमत्तरेसु जोइसियवेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा !
णीइणठे समठे । असुरकुमारानं प्रते ! असुरकुमारैहिती अणतरं उव्वहित्ता नेरइएसु उववज्जेज्जा ? गो

सिञ्चेत् बुध्येत सर्वदुःखानामत्त कुर्यात् ? गौतम ! सिञ्चेत् माद्यसर्वदुःखानामत्त कुर्यात् । नैरयिको प्रदत्त । नैरयिकेप्प्यो नत्तरसुद्ध
त्यं धानव्यन्तरेपु ज्योतिरुक्केपूत्त ? गौतम ! नायमर्थं समर्थं । असुरकुमारा प्रदत्त । असुरकुमारैप्पोऽनत्तरसुद्धर्यं नैरयिकेपूत्त
भते केवलपाथ ४० सेण सिक्केज्जा मुत्तेज्जा जाव सब्दुस्काणमत करेज्जा । जे हेभगवन् केवलज्जानते एपल्ले ते सौक्के व्हेत्ते जावगी सर्वदुःखनी पत्तक
रे । गोयमा सिक्केज्जिज्जा जाव अत्तकरेज्जा । हेगौतम ते निसै वाखने सर्वदुःखनी अत्तकरे डार । केरइएण भते केरइएहिती अणतर उव्वहित्ता । नार
की हेभगवन् नारकीधी नोसरीने । वाणमत्त जोरसिय वेमाणिएसु उववज्जेज्जा । वानव्यन्तर ज्योतिरो वेमानिकनेविये जपल्ले । गोयमा थोरइएसुसमेठे
हेगौतम एषर्थं समर्थं नहो । असुरकुमारानं भते असुरकुमारैहिती अणतर उव्वहित्ता केरइएसु उववज्जेज्जा । असुरकुमार हेभगवन् असुरकुमारधी अ
नत्तर चवीने नारकीमाहि जपल्ले । गोयमा थोरइएणठे समठे । हेगौतम एषर्थं समर्थं नहो । असुरकुमाराण मते अणतर उव्वहित्ता असुरकुमारिसु ४

। टीका

। ५७

। ५७

। भाषा

क्षुपात् प्रागधानाह-नायमर्थं समयं तिरिया प्रवक्षन्नावतः तथारूपपरिणामासन्नवात् अनगारताया अन्नावे मन पर्यवधानस्य धानाव सिद्धपुव यथाच तिर्यक्पथेन्द्रियविषयमूत्रकदम्बकमुक्त् तथा मनुष्यविषयमपि वस्तव्य नवर मनुष्येषु युर्वानायसम्भवात्, मन पर्यवधानकेवलज्ञानमूत्रे ऽपि

तिरिस्कजोणिसु जाव जेणं जते ! उहिनानं उष्याहेज्जा सेणं सचाएज्जा मुहेज्जविता अगारात्ते अणगारियं पवइत्तए ? गोयमा ! अत्येगतिए संचाएज्जा अत्येगतिए नो संचाएज्जा । सेणं जते ! सचाएज्जा मुहेज्ज विता अगारात्ते अणगारियं पवइत्तए सेण मणपज्जवनान उष्याहेज्जा ? गोयमा ! अत्येगतिए उष्याहेज्जा अत्येगतिए नो उष्याहेज्जा । जेण जते ! मणपज्जवनानं उष्याहेज्जा सेणं केवलनानं उष्याहेज्जा ? जोय

जदत्त । अथपिज्ञानमुत्पादयेत् अक्षुयान्मुगन्तो पूत्वागारादनगरता प्रव्रजितुम् ? गौतम । अस्त्येकक ज्ञानुयादस्त्येकको नो ज्ञानुयात् । यो जदत्त । अक्षुयादागारादनगरता प्रव्रजितुम्स मन पर्यवधानमुत्पादयेत् ? अस्त्येकक उत्पादयेदस्त्येकको नो त्पादयेत् । यो जदत्त । मन प र्यवधानमुत्पादयेत् केवलज्ञानमुत्पादयेत् ? गौतम । अस्त्येकक उत्पादयेदस्त्येकको नोत्पादयेत् । यो जदत्त । केवलज्ञानमुत्पादयेत् च

पचिदियतिरिक्खजोणिसु । हेभौतम जिम प चेंद्रिय तिवंउगोतिकनी कक्षा तिम जाणिसी । जाव जेष मत्ते भीडिणाय उष्याहेज्जा सेणं संवाहेज्जा मुहेभवित्ता । जे जाकती हेभगवन् अथपि उपावै ते अथपि उपावीने चारिसपथो धारे । आगाराथो अणगारियं पवत्तए । आगारयको अणगारम व्रजे । गोयमा अथ्येगइए सचाएज्जा अथ्येगइए नो च । हेभौतम कोइक दोवा लेसके कोइ दोवा न लेसके । सेणं मत्ते सचाएज्जा जाव पवत्तए ज्जा । ते निये हेभगवन् करसके जाल्ले-प्रव्रजो सके । सेणमत्ते मथयल्लवणाय उष्याहेज्जा । ते हेभगवन् मनपर्यवधानने उपाज्जो सके । गोयमा अथ्येग इए च । अथ्येगइए नो उष्याहेज्जा । हेभौतम कोइ उपावै कोइ न उपावै । जेष मत्ते मणपज्जवनानं उष्याहेज्जा । जे हेभगवन् मनपर्यवधानने उपा ज्ज । सेण केवलपण उपाहेज्जा । ते केवलज्ञानने उपाज्जे । गोयमा अथ्येगइए च । अथ्येगइए ज्ञो च । हेभौतम कोइ उपाज्जे कोइ न उपाज्जे । जेष

पयमरुपपरिणामत्वात् अवधिचिदानावरणकर्मण लयोपशम उपलभ्यते स उत्पादेयत् शोषस्तु नेत्यर्थं , अविधिज्ञानानन्तरं मन पर्यवधानं द्रष्टव्यं मन पर्यवधानं वा अनगारस्य प्रवृत्तिः " त सजयससवृ प्यमायरहियस्याविवहरिद्रिमतो इतिवचना " ततोऽनगारतामेव प्रत्ययति-जंणं जते । इत्यादि ० मुक्ती द्विधा द्रव्यतो ज्ञावतय्य , द्रव्यत केशाद्यपनयेन ज्ञावत सर्वसङ्गपरित्यागेन , तत्रेह द्रव्यमुणक्तत्वासम्भवात् ज्ञावनुसह परिरुह्यते , मुक्ती त्रुत्या जगारात् स्वाश्रयरूपात् विनिर्गत्य न विद्यते अगार गृह द्रव्यतोऽज्ञावतय्य यस्यासायनगार साङ्गवतोऽनगारता ता प्रवृत्तितु ज्ञा

मा ! अत्येगतिए उष्याजेजा अत्येगतिए णो उष्याजेजा । जेणं जते ! उहिनाण उष्याजेजा सेण सचा एजा मुक्तेनविज्ञा अगारात् अणगारिय पण्डित्तए ? गोयमा ! णोडणठे समठे णेरइएण जते । णेरइएहि तो अणतर उद्यहिता मणुस्सेसु उववजेजा ? गोयमा ! अत्येगतिए उववजेजा अत्येगतिए नी उववजे जा, जेण जते ! उववजेजा सेण केवलि प० धम्म लजेजा सवणयाए ? गोयमा ! जहा पचिदिय रता मज्झित्तुम् ? गीतम । नापमणं समणं । नेरयिको प्रदत्त । नेरयिकेसोऽनन्तरमुदत्तं मनुष्येषु उत्सद्येत् ? गीतम । अस्सयेरुज्ज उत्त धोवास्सयेरुज्जो गोत्सद्येत् । यो प्रदत्त । उत्सद्येत् स केवत्तिप्रसन्नं धर्मं तजेत् अक्कतया ? गीतम । यथा पत्वेन्द्रियतिययोनिजेषु । यायद्यो वजे । श्रीद्विषाण उष्याजेजा । अविज्ञान उष्याजे । गोयमा अत्येगदए उष्याजेजा अत्येगदए ना उ० । हेगौतम कोर उषावे कोर त उषावे । जेण भते श्रीद्विषाण उष्याजेजा सेण सवाएजा मुडेभविता । जे हेभगवन अविज्ञान उषावे ते पारिवज्जान लेवके उदइस्यवास मूको । आगारायो अणगा रिय पण्डित्तए । अनगार याम्पु इवे । गोयमा षोऽण्डे समठे । हेगौतम एषधं समणं नहो । येरएण भते षेरइएहिती अणतर उव्वटित्ता मणुष्येषु उवव जेजा । नारकीधी हेभगवन नारकीपणे नीकलोने मनुष्यमादि जपजे । गोयमा अत्येगदए उ० अत्ये० नी उ० । हेगौतम कोर जपजे कोर न जपजे । जेण भते उववजेजा सेण जेअलिपणस पुग्ग लजेजा सवणयाए । जे हेभगवा जपजे ते केवलो प्रह्वी धर्मं नामे सामलयाओ योगपत्ति । गोयमा जहा

त्यादि ॥ पुनरपि प्रश्नयति-यस्तु प्रदन्त । केवलप्रसन्न धर्म लजेत श्रवणतया ॥ सेण केवलां योत्ति युक्तेज्जा इति ॥ इह योचिधर्मावाप्तिं ह्यते तस्या निमित्तततो य शब्दसन्दन सोपि कारकेकार्योपचारा द्वौघि सच केवलिना साक्षा त्परम्परया वा उपदिष्ट इति केवलिकं स केवलप्रसन्नस्य धर्मस्य श्रोता समित्तपूर्ववत् केवलिकी बोधि यथोक्तरूपा बुध्येत तदर्थजानीयादित्यर्थं , प्रगवानाह-श्रत्येगण्डेण इत्यादि ॥ पुनरपि प्रश्नयति-यो प्रदन्त । केवलिकी योचिमर्थतो वगच्छति सोर्यत स्ता श्रद्धपाते श्रद्धाविषया कुर्यात्, तथा प्रत्ययेत प्रत्ययविषया कुर्यात्, योचयेत् घि

णिणसु उववज्जेज्जा ? गीयमा । छुत्येगडए उववज्जेज्जा छुत्येगडए नो उववज्जेज्जा । जेण ज्ञते ! नेरडए हितो छुणंतर पचिट्ठियतिरिक्कजोणिणसु उववज्जेज्जा सेण केवलपन्नत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए ? गो यमा ! छुत्येगडए लभेज्जा छुत्येगतिए नां लभेज्जा । जेणं ज्ञते ! केवलपन्नत्तं धम्म लभेज्जा सवणया

एव निरन्तर यावत्तुरिन्द्रियेषु पृच्छा, गीतम । नायमर्थं समर्थं । नैरयिको जदन्त । नैरयिकेभ्योऽनन्तरमुद्बुध्यं पञ्चन्द्रियमित्यंग्योक्तं पूत्यद्येत ? गीतम । अस्त्येकक उत्पद्येतास्त्येकको नोत्पद्येत । यो प्रदन्त । नैरयिकभ्योऽनन्तर पञ्चन्द्रियमित्यंग्योक्तिकेषूत्पद्येत स केवलप्रसन्न धर्मं लजेत श्रवणतया ? गीतम । अस्त्येकको लजेतास्त्येकको नो लभेत । यो प्रदन्त । केवलप्रसन्न धर्मं लभेत सवणतया स केवला

४ इमं आकाय पिण ४ यावत् वनसुतोकाय एकेमये अगतकिया करे । पचिदिय तिरिक्कजोणिया दस तिरिक्कजोणियो दस मणुस्सा दस मणुस्सो ओ वीस । पचेट्टिय तिर्यचना आथा १० अगतकिया करे तिर्यचयो १० अगतकिया करे मनुय १० अगतकिया करे मनुयथो आथा २० अगतकिया करे । नाणमंतरा दम वाणमतरौथी प च लोऽभिया दमं जी.निषीथी वीस मणुक्क वेनाणिथीथो वीस । यातअमतरना आथा १० अगतकिया करे वानअमतरौथी थ आ ५ अगतकिया करे प्योतिपीथो आया १० अगतकिया करे स्वातिपथीथी आया २० अगतकिया करे मनुय वेना गिक्रमी आया तेइथी १०८ वेनापिक्रमी देवीथो आया २० अगतकिया करे चार २ । जेरइएण भते अणतर सच्चटिता जेरइएण उववज्जेज्जा । ७।र

राष्ट्र-नेरइएण जते । इत्यादि ॥ सुगम, नवर । कैवल्यल्लह घमा लजेळा सवण्याए इति ॥ कैवलिना सर्वज्ञेन प्रज्ञप्तोद्देशित कैवल्यप्रज्ञप्तो घ
मः श्रुतधर्मधारिव्रतपमंश्च त लजेत श्रवणतया श्रूयते इति श्रवण श्रावणशब्दस्य त्राय-प्रवृत्तिनिमित्त त्राय-प्रवृत्तिनिमित्त श्रुतिरेव श्रवणता श्र
यणमेवेत्यर्थे, श्रावेत्यतलाधित्यश्रुतस्योति शब्दरूपस्य त्राय प्रवृत्तिनिमित्तमित्यपि व्याख्यानमास्ति, तथा श्रवणतया प्रगवानाहु-श्रत्येगइएह

जोइसिया दस, जोइसिणीउ वीस, वेमाणिग्या अठसतं, वेमाणिणीउ वीसं । नेरइएणं जते ! नेरइएणं जते ! नेरइएणं हं
तो अणतर उव्हिहा नेरइएसु उववज्जेजा ? गोयमा ! णोइणठे समठे । नेरइएण जते ! नेरइएण जते ! नेरइएणं हितो
अणतर उव्हिहा असुरकुमारिसु उववज्जेजा ? गोयमा ! नोइणठेसमठे । एव निरतरं जाव चउरिदिएसु
पुच्छा, गोयमा ! नो इणठे समठे । नेरइएण जते ! नेरइएणं जते ! नेरइएणं हितो अणतर उव्हिहा पचिदियतिरिस्कजो

पट् । पञ्चेन्द्रियतियंयोगिना दस, तियंयोगिना दस, मनुष्या दस, मानुषो विज्ञाति, धानखन्तरा दस, धानखन्तर्यं पञ्च, ज्योति
का दस, ज्योतिफदेव्यो विज्ञाति । वेमानिका अष्टोत्तरस्रतम् । वेमानिको विज्ञाति । नेरयिको प्रदन्त । नेरयिकेज्यो उन्तरमुह्ल्यं नेर
यिकेपूस्वद्योत ? गीतम । नायमर्थं समर्थं । नेरयिको प्रदन्त । नेरयिकेज्योन्तरमुह्ल्यं सुकुमारपूस्वद्योत ? गीतम । नायमर्थं समर्थं ।

• दस । हेगीतम जवय १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

त्यादि ॥ पुनरपि प्रशयति-यस्तु प्रदन्त । केवलप्रपञ्च धर्म लज्जेत श्रवणतया ॥ सण केवल बोधि बुद्धेज्जा इति ॥ इह बोधिधर्ममावाप्ति इत्यते तस्या निमित्तज्ञतो य शब्दसन्दर्भं सोपि कारुणिकार्योपचारा द्वोपि सच केवलिना साक्षा त्परस्परया वा उपदिष्ट इति केवलिक स केवलप्रपञ्च प्रस्य धर्मस्य श्रोता समितिपूर्ववत् केवलिकी बोधि यथोक्तरूपा बुध्येत तदर्थजानीयादित्यर्थं , प्रगवानाह-अत्येगड्ग इत्यादि ॥ पुनरपि प्रशय ति-यो प्रदन्त । केवलिकी बोधिप्रथमोतौ वगच्छति सोयंत स्ता श्रद्धयाते श्रद्धाविषया कुर्यात्, तथा प्रत्ययेत प्रत्ययविषयां कुर्यात्, शोचयेत् चि

णिणसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! अत्येगड्ग नो उववज्जेज्जा । जेणं ज्ञते ! नेरइए
 हितो अणतर पच्चिदियतिरिक्कजोणिणसु उववज्जेज्जा सेण केवलपन्नत्त धम्म लज्जेज्जा सवणयाए ? गो
 यमा ! अत्येगड्ग लज्जेज्जा अत्येगतिण नो लज्जेज्जा । जेणं ज्ञते ! केवलपन्नत्तं धम्म लज्जेज्जा सवणया

एष निरन्तर यावच्चतुरिन्द्रियेषु पृच्छा, गीतम । नायमद्य सम्यं । नैरयिको प्रदन्त । नैरयिकेभ्योऽनन्तरमुद्गत्यं पञ्चन्द्रियतियंयोग्योनिक्के
 पूत्पद्येत ? गीतम । अशर्येकक उत्पद्येताशर्येकको नोत्पद्येत । यो प्रदन्त । नैरयिकभ्योऽनन्तर पञ्चेन्द्रियतियंयोग्योनिक्केपूत्पद्येत स केवलप्र
 पञ्च धर्मं लज्जेत श्रवणतया ? गीतम । अशर्येकको लज्जेताशर्येकको नो लज्जेत । यो प्रदन्त । केवलप्रपञ्चं धर्मं लज्जेत अणतया स केवलं

७ इम अरकाय पिण ४ यावत् वनशतौकाय एकैसमये अन्तक्रिया करे । पच्चिदिय तिरिक्कजोणिणया दस तिरिक्कजोणिणो दस अणुक्का दस मणुक्को
 श्रो बोधं । पचोद्वय तिवचनो आत्था १० अन्तक्रिया करे तियेवधो १० अन्तक्रिया करे मनुष्य १० अन्तक्रिया करे मनुष्यो आत्था २० अन्तक्रिया
 करे । वापमतरा दस वाणमतरौधो पच जोःगिया दम जो. विषोधी बोध मणुक्क वेमाणिषोधी बोध । मानअन्तरना आत्था १०
 अन्तक्रिया करे वानअन्तरौधो अ वा ५ अन्तक्रिया करे ज्योतिषोधी आया १० अन्तक्रियाकरे ज्योतिषोधी आया २० अन्तक्रिया करे मनुष्य वैमा
 निक्कयो आया तेइधो १०८ वेमानिजो देवीवो आया २० अन्तक्रिया करे धार २ । अणतर उच्चटिन्ता अणेरएमु उववज्जेज्जा । गार

राह-नेरइरणं ज्ञते । इत्यादि ॥ सुगमं, नवर ॥ कैवल्यपदज्ञ घम लजेज्जा सवणयाए इति ॥ कैवलिना सर्वज्ञेन प्रसुप्तोद्देशित कैवल्यप्रज्ञप्तो प
मं श्रुतयमेधारिव्रपमंश्च त लजेत श्रवणतया श्रूयते इति श्रवण प्रावेनट्प्रत्ययः, श्रवणस्य श्रवणशब्दस्य प्राय प्रवृत्तिनिमित्तं श्रुतिरेव श्रवणता न
वणमेवेत्यर्थे, प्रावेत्यतलावित्यश्रुतस्येति शब्दरूपस्य प्राय प्रवृत्तिनिमित्तमित्यपि व्याख्यानमस्ति, तथा श्रवणतया जगदानाह-अत्यंगइएश्च

जोइसिया दस, जोइसिणीउ वीस, वेमाणिया अठसतं, वेमाणिणीउ वीसं । नेरइरणं ज्ञते ! नेरइरणं ज्ञते ! नेरइएहिं
तो अणतरं उव्वहिंता नेरइएसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! गोइणठे समठे । नेरइरणं ज्ञते ! नेरइएहिंतो
अणतर उव्वहिंता असुरकुमारसु उववज्जेज्जा ? गोयमा ! नोइणठेसमठे । एव निरतर जाव चउरिदिएसु
पुच्छा, गोयमा ! नो इणठे समठे । नेरइरणं ज्ञते ! नेरइएहिंतो अणतर उव्वहिंता पचिदियतिरिस्कजो

पद् । पञ्चेन्द्रियतियंग्योनिका दज्ञ, तियंग्योनिको दज्ञ, मनुष्या दज्ञ, मानुष्यो विज्ञाति, वानव्यन्तरा दज्ञ, वानव्यन्तर्यं पञ्च, ज्योति
का दज्ञ, ज्योतिष्कदेव्यो विज्ञाति । वेमानिका अटोत्तरज्ञातम् । वेमानिक्यो विज्ञाति । नेरियको प्रदन्त । नेरियिकेज्यो ज्ञन्तरमुद्दत्तं नेर
यिकेपूत्वद्येत ? गीतम । नायमर्थं समर्थं । नेरियिको प्रदन्त । नेरियिकेज्योन्तरमुद्दत्तं सुखमारपूत्वद्येत ? गीतम । नायमर्थं समर्थं ।

दस । हेगीतम जवग्ग १ । २ । ३ । उरुत्त १० अगतक्रिया करे । अणतरागयाण भते असुरकुमारीओ देवोओ एगसमएणं केवइया अतक्रिय करेद ।
अनन्तरगत हेभगवन् असुरकुमारलो खो एकैसमये केतलो क्रियाकरे । गोयमा जहणेष एकोवा दोवा तिण्णिवा उ०पच जइहा असुरकुमारा सदेवीया
मणिया । हेगीतम जवग्ग १ । २ । ३ । उरुत्त ५ जिम असुरकुमार १० अगतक्रिया करे देवो ५ करे तिम जालगे खानितकुमार सधो जाणिया ।
अणतरागयाण भते पुट्ठीकाइया एगसमएणं केवइया अतक्रिय करेद । अनन्तरगत हेभगवन् पचिवीकाव एकैसमये केतला भाया अन्तक्रिया क
ः मोचजाय । गोयमा जहणेष एकोवा दोवा तिण्णिया उ० पत्तारि आउकाइया जाव वणस्सरकाइयावि । हेगीतम जवग्ग १ । २ । ३ । उरुत्त

कादिभ्रवन्त्योऽनन्तरमागता किपत एकसमये अन्तर्क्रिया कुर्वतीत्येव रूपं तृतीयं द्वारमभिधिपुरा-प्रउतरागमात् नते । इत्यादि ॥ नैरियिक
 भवादनन्तरमध्यवधानेन मनुष्यजवसागता अनन्तरागता नैरियिका इति प्राग्जवपर्यायेण व्यपदेशः सुरादिप्राग्जवपर्यायप्रतिपास्युदाहायः, ए
 वमत्तरत्रापि तद्वत्प्राग्जवपर्यायेण व्यपदेशे प्रयोक्तव्यं चिन्तनीयं शेषं कंठय, सम्प्रति तत उद्दिष्टा कस्या योनावुत्सद्यन्ते इति घृतुयं द्वारमभिधिपुरे

एकौवा दीवा तित्तिवा उक्तीसेणं पंच, एवं जहा असुरकुमारा सदेवीया तथा थणियकुमारावि । व्युणं
 तरागयाण नते ! पुढविकाडया एगसमएणं केवडया अंतकियं पकरति ? गोयमा ! जह्वेणं एगोवा
 दीवा तित्तिवा उक्तीसेणं चत्तारि, एवं अ्याउकाडयावि चत्तारि । वणस्सइकाइया ठ, पचिडियतिरिक्क
 जोणिया दस, तिरिक्कजोणिणीउं दस, मणूसा दस, वाणमंतरा दस, वाणमतररीउं पंच

या त्रयो वोत्कर्षेण दश । अनन्तरागता नदन्त । असुरकुमार्यं एकसमयेन कियन्त्योन्त क्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जघत्तेनैको वा द्वौवा
 तित्थी वोत्कर्षेण पंच । एव यथासुरकुमारा सदेवीका स्या सानितकुमारा अपि । अनन्तरागता नदन्त । पृथिवीकायिका एकसमयेन कि
 यन्त्योन्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जघत्तेनैको या द्वी वा त्रयो वोत्कर्षंतं चत्वार । एवमप्यायिका अपि चत्वार । वनस्पतिप्रायिका

करे । गोयमा जह्वेण एकौवा दीवा तित्थिवा उ० दस रथयण्यभ पुढवो केरइयावि एवं जाव वासुयपुढवो केरइयावि । हेगीतम जघत्त १ । २ । ३ ।
 वरकष्ट दगजीव अन्तक्रिया इम रजप्रभांवा नारको पिण इम जालेगे वासुकप्रभापृथिवीना नारको तांलगे जांयिने । अथतरागयाण भंते पक्ष्यभा
 पुढवो केरइया एगसमएण केरइया अंतकिय करेद । द्विवे अनन्तरागत हेमगवन् पद्धप्रभापृथिवी नारको एकैसमये केतलीक्रिया करे । गोयमा ज
 इ० एकौवा दीवा तित्थिवा उ० चत्तारि । हेगीतम जघत्त १ । २ । ३ । वरकष्ट ४ अन्तक्रिया करे । अथतरागयाण भंते चमुरलुमारा एगसमएणं कि
 वरया अंतकिय करेद । अनन्तरागत हेमगवन् मसुरकुमारनी खी एकैसमये केतली अन्तक्रिया करे । गोयमा जह्वेण एकौवा दीवा तित्थिमा उ०

तपदानन्तरागता अपि अन्तःक्रिया कुर्वन्ति परंपरागता अपि प्रतिक्रिया कुर्वन्ति उजयथाप्यागता अपि उजयथाप्यागता न तेषामन्तःक्रियाकरणे
 विरोधात्, तथा केवलघुपोपलब्धे, तेजोवायुद्वित्रिभूतुरिन्द्रिया परस्पररागताय न त्वनन्तरागता सन्त तेजोवायुनागानन्तर्येण मनुष्यत्वस्यैवाप्रा
 प्ते, द्वीन्द्रियादीनामु तपाजयस्थानाप्यादिति, चेपास्तु तियक्ष्ण्येन्द्रियादयो वैमानिकपर्यवसाना अनन्तरागता अपि परस्पररागता अपि नैरपि

चेन्न जाव बालुयप्यत्तापुढविणेरडया । अणतरागयाण नते ! पऋप्यन्नापुढविणेरडया एगसमएण केवतिया
 अत करन्ति ? गीयमा ! जहन्तेण एक्कोवा दोवा तित्तिवा उक्कोसेण चत्तारि । अणतरागयाण नते !
 असुररुमारा एगसमएणं केवडया अतकिरिय पकरन्ति जहन्तेण एक्कोवा दोवा तित्तिवा उक्कोसेण दस ।
 अणतरागयाणं नते ! असुररुमारीणं एगसमएण केवतियाणं अतकिरिय पकरन्ति ? गीयमा ! जहन्तेणं

येन कियन्तोत्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जचन्तेनैको वा ही वा तयो दोत्कपन्तो दश । रत्नप्रज्ञापृथिवीनैरियिका अर्ष्येव चेन्न यावद्बालुक
 प्रज्ञापृथिवीनैरियिका । अनन्तरागता नदन्त । पट्टप्रज्ञापृथिवीनैरियिका एकसमयेन कियन्तोत्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जचन्तेनैको वा
 ही वा तयो दोत्कपन्तश्चत्वार । अनन्तरागता नदन्त । असुरकुमारा एकसमयेन कियन्तोत्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जचन्तेनैको वा ही

रजो जाबिबी । पुढो भास वणच्छाकाइया अन्तरगयावि अतकिरिय करेद परंपरागयावि अत० । इवे पृथिवीवाय अयु वनसतो ए भाइला
 याव्या अक्रिया करे भासजाय के भवान्तर अन्तक्रिया करे अन्तरागत पिण अन्तक्रिया करे परंपरागत पिण अन्तक्रिया करे । तेजवाक वेइदि
 य तेर द्विय धीरिदिय पी अन्तरगया अतकिरिय करेद परंपरागया अत० । इवे तेजवाक वेइदिय तेर द्विय धीरिदिय अन्तरागत पिण अन्तक्रिया करे
 या नकरे परंपरागत अन्तक्रिया करे । सेशायन्तरगयावि परंपरागयावि । अणयाकता जीव अनन्तरागत पिण अन्तक्रिया करे परंपरागत पिण अ
 न्तक्रिया करे । अन्तरागयाणं नते येरइया एगसमएण केवइया अन्तकिरिय करेद । अनन्तरागत हेभगवन् नारकी एकसमये केतला अन्तक्रिया

। दोषा ।

। पूज ।

। अ ।

। भाषा ॥

कादिप्रवेत्स्योऽनन्तरमागता क्विपत एकसमये अन्तक्रिया कुर्वतीत्येवं रूप तृतीय द्वारमभिधिदसुराह-प्रथतरागयाण नते । इत्यादि ॥ नैरयिक
 प्रवादन्तरमध्यवधानेन मनुष्यप्रवगागता अन्तरागता नैरयिका इति प्राग्प्रवपर्यायेण व्यपदेशः सुरादिप्राग्प्रवपर्यायेण प्रतिपत्तिदुदाहायं, ए
 वमन्तरत्रापि तद्वत्प्राग्प्रवपर्यायेण व्यपदेशे प्रयोजनं चिन्तनीयं शेष कठय, सम्प्रति तत उद्धृता कस्या योगावृत्पद्यन्ते इति चतुर्थद्वारमभिधिदसु

एकौवा दीवा तिन्निवा उक्तीसेणं पंच, एवं जहा अ्सुरकुमारा सदेवीया तथा थणियकुमारावि । अणं
 तरागयाण नते ! पुढविकाडया एगसमएणं केवइया अ्तकिरियं पकरति ? गोयमा ! जहत्वेणं एगोवा
 दीवा तिन्निवा उक्तीसेणं चत्तारि, एवं अ्याउकाडयावि चत्तारि । वणस्सइकाडया ठ, पचिदियतिरिस्क
 जोणिया दस, तिरिस्कजीणिणीडि दस, मणसा दस, मणुस्सीडि बीसं, वाणमतरा दस, वाणमतरीडि पच

वा त्रयो वोत्कर्पणं दस । अनन्तरागता नदन्त । असुरकुमार्यं एकसमयेन क्विपत्सोन्त क्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जघन्येत्तेको वा द्वीवा
 तित्तो वोत्कर्पयं पच्च । एव यथासुरकुमारा सदेवीका स्या सानितकुमारा अपि । अनन्तरागता नदन्त । पृथिवीकायिका एकसमयेन कि
 यतीन्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जघन्येत्तेको वा द्वी वा त्रयो वोत्कर्पयं दत्तार । एवमच्छायिका अपि चत्तार । वनस्पतिकायिका

करं । गोयमा जहत्वेण एकौवा दीवा तिन्निवा ठ० दस रयण्यम पुढवी खेरदयावि एवं जाव वालुयपुढवी खेरदयावि । हेभीतम जघन्य १ । २ । ३ ।
 चरकट दगलीव अन्तक्रिया इम रत्नप्रभाना नारको पिण इम जालेने वालुकप्रभाप्रथिवीना नारको तालेने जाणिवी । अथतरागयाण भते पक्ष्यभा
 पुढवी खेरदया एगसमएण केवइया अ्तकिरिय करेद । द्वि अन्तरागत हेमगवन् पक्षप्रभाप्रथिवी नारको एकसमये केतलीअिया करे । गोयमा ज
 ह० एकौवा दीवा तिन्निवा ठ० चत्तारि । हेभीतम जघन्य १ । २ । ३ । चरकट ४ अन्तक्रिया करे । अथतरागयाण भते असुरकुमारा एगसमएणं कि
 वरया अ्तकिरिय करेद । अनन्तरागत हेमगवन् असुरकुमारो स्तो एकसमये केतली अन्तक्रिया करे । गोयमा जह० एकौवा दीवा तिन्निवा ठ०

तथा अन्तरागता अपि अन्तक्रिया कुर्वति परपरागता अपि प्रतिक्रिया कुर्वति उन्नयथाप्यागता अपि उन्नयथाप्यागता तेषामन्तक्रियाकरणा विरोधात्, तथा केवलचतुषोपलक्ष्ये, तेजोवायुद्वित्रिचतुरिन्द्रिया परस्परागताएव नत्वन्तरागता स्तत्र तेजोवायुनामानन्तर्येण मनुष्यत्वस्यैवाप्राप्तौ, टीन्द्रियादीनातु तथात्रयस्यान्नाप्यादिति, शेषानु तियक्ष्णोन्द्रियादयो वैमानिकपर्यवसाना अनन्तरागता अपि परस्परागता अपि नैरपि

चेन्न जाव वालुयप्यन्नापुढविणेरड्या । अणतरागयाण नते ! पकप्यन्नापुढविणेरड्या एगसमएण केवतिया अतं करति ? गोयमा ! जहन्नेण एक्कोवा टोवा तिव्निवा उक्कोसेण चत्तारि । अणतरागयाण नते ! अणतरागयाण एगसमएण केवड्या अतकिरिय पकरति जहन्नेण एक्कोवा टोवा तिव्निवा उक्कोसेण दस । अणतरागयाण नते ! असुरकुमारीअ एगसमएण केवतियाअ अतकिरिय पकरति ? गोयमा ! जहन्नेण

येन कियत्तोत्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जचन्नेको वा द्वी वा त्रयो वोत्कर्पन्ती दश । रत्नप्रज्ञापृथिवीनैरपिका अस्मैव चैत्र यावद्वालुका मन्नापृथिवीनैरपिका । अनन्तरागता नदन्त । पङ्कप्रज्ञापृथिवीनैरपिका एकसमयेन कियत्तोत्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जचन्नेको वा द्वी वा त्रयो वोत्कर्पन्तित्वार । अनन्तरापता नदन्त । असुरकुमारा एकसमयेन कियत्तोत्तक्रिया प्रकुर्वन्ति ? गीतम । जचन्नेको वा द्वी

रत्नगे जायिषी । पुढवो भाउ वणत्वाःकाश्या अणतरागयावि अतकिरिय करेद परपरगयावि अत० । दिवे पृथिवीकाय अणवन्तती ए भाइला पाया अन्क्रिया करे भाइजाय के भवान्तर अन्तक्रिया करे अनन्तरागत पिण अन्तक्रिया करे परपरागत पिण अन्तक्रिया करे । तेकवाक वेइदि । तेइटिय चौरिदिय षी अणतरगया अतकिरिय करेद परपरगया अत० । दिवे तेकवाक वेइडिय चौरिदिय ए भाइला अनन्तरागत ति । नकोरे परपरागत अन्तक्रिया करे । सेमाअणतरगयावि परपरगयावि । अणथाकता जीव अनन्तरागत पिण अन्तक्रिया करे परपरागत पिण अन्क्रिया करे । अणतरागयाण भते येरराया एगसमएण केवड्या अन्तकिरिय करेद । अनन्तरागत हेभागन् नारकी एकैसमये केतला अन्तक्रिया

स्मरगता इति निरूपयितुकाम आह-नेरइयाण भ्रते। इत्यादि ॥ प्रश्नसूत्रं सुगमं । अन्तरागता अपि अन्तःक्रिया कुर्वेति परस्मरागता अपि तत्र रत्नशंकरावालुकापकप्रज्ञाभ्यो ऽन्तरागता अपि धूमप्रज्ञापृथिव्यादिभ्यः पुन परस्मरागताएव तथास्वाप्नाभ्या देनमेव विदोषं प्रतिपिपादयिषु सूत्रसप्तकमाह-एवरयणप्यप्राप्तुवित्नेरइयावि इत्यादि ॥ सुगमं, असुरकुमारादय स्तनितकुमारपर्यवसाना पृथिव्यपुवनस्य

गयावि अंतःक्रियं पकरति परंपरागयावि अंतःक्रियं पकरति । ते उवाच वेदइदियेते इदियचउरिदिया नो अणतरागया अंतःक्रियं पकरति परंपरागया अंतःक्रियं पकरति सेसा अणंतरागतावि अंतःक्रियं पकरति परंपरागयावि अंतःक्रियं पकरति । अणंतरागयाणं भ्रते ! नेरइया एगसमएणं केवतिया अंतःक्रियं पकरति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्कीया दोवा तिन्निवा उक्कीचेणं दस । रयणप्यज्ञापुढविणेरइयावि एवं

सप्तमापृथिवीनिरयिका । असुरकुमारा यावरस्तनितकुमारा । पृथिव्याव्वनस्पतिकारिका अन्तरागता अप्यन्तक्रिया प्रकुर्वन्ति परस्मरागता अप्यन्तक्रिया प्रकुर्वन्ति । तेलोकायुहुंन्द्रियत्रीन्द्रियवतुरिन्द्रिया नो अन्तरागता अन्तःक्रिया कुर्वन्ति परस्मरागता अन्तःक्रिया प्रकुर्वन्ति । शेषा अन्तरागता अप्यन्तक्रिया प्रकुर्वन्ति परस्मरागता अप्यन्तक्रिया प्रदन्त । निरयिका एकसम

कल्पपुढवी चेरइया धूमप्यमपुढवी चेरइयाण पुच्छा । इम रत्नप्रभा पृथिवीना नारकीथी मांडा जालगे पद्धप्रभापृथिवीना नारकी तालगे सर्वं इमही ल कलिवी द्विवे धूमप्रभापृथिवीना नारकीनो प्रयत् । गोयमा थो अणतरगया अंतःक्रिया करेइ परंपरगया अंतः । हेगौतम अन्तरगत धूमप्रभा टिकथी मनुयमाहि आवी अंतक्रिया नकरे परंपरागत धूमभाटिकना मनुयमाहि आवी अंतक्रिया करे । एव जाव अहेसत्तमा पुढवी चेरइया ण पवं रयणप्यमपुढवी चेरइयावि जाव एकप्यमपुढवी चेरइया । इम यावत् सातमीपृथिवी लगे अन्तरागत करे परंपरागत अंतक्रिया करे इम रत्नप्रभापृथिवीना नारकी जालगे पद्धप्रभापृथिवी नारकीलगे कलिवो । एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा । इम असुरकुमार यावत् स्तनिरकुना

